

विषय-सूची

राजस्थान शासन के पदाधिकारियों की नामावली

पृष्ठ

खंड १-शासन

(१) राज्यपाल तथा राज्यपाल का सचिवालय	..	१
(२) मंत्री-परिषद्	..	२-३
(३) राजस्थान विधान सभा के सदस्य	..	५-११
(४) राजस्थान के राज्य परिषद् तथा लोक सभा के सदस्य	..	१२-१३
(५) राजस्थान विधान सभा सचिवालय	..	१४-१५
(६) राजस्थान उच्च न्यायालय	..	१६-१७
(७) राजस्थान लोक सेवा आयोग	..	१८
(८) सचिवालय	..	१८-१९

खंड २-भारतीय प्रशासन सेवा

(१) भारतीय प्रशासन सेवा का केडर	..	३०
(२) भारतीय प्रशासन सेवा के सदस्यों का वेतन	..	३१
(३) भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारी	..	३२-४५

खंड ३-राजस्थान प्रशासन सेवा

(१) राजस्थान प्रशासन सेवा के केडर	..	४७-४९
(२) राजस्थान प्रशासन सेवा के अधिकारी	..	५०-९५

खंड ४-राजस्थान तहसीलदार सेवा के अधिकारी

९६-१५७

खंड ५-माल तथा सामान्य प्रशासन

(१) राजस्व मंडल	..	१५८
(२) आयुक्त	..	१५८
(३) जिलाधीश एवं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट	..	१५९-१६१
(४) खण्डीय आयुक्तों के निजी सहायक	..	१६१

खंड ६-पुलिस विभाग

(१) भारतीय पुलिस सेवा का केडर	..	१६२
(२) भारतीय पुलिस सेवा का वेतन	..	१६३
(३) भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी	..	१६४-१७३
(४) राजस्थान आरक्षी सेवा का केडर	..	१७४-१७५
(५) राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारी	..	१७६-१९७
(६) पुलिस विभाग में दूसरे प्रान्तों से प्रतिनियुक्ति पर आये हुए अधिकारियों की सूची	..	१९८
(७) पुलिस विभाग के अधिकारी	..	१९९-२०१

खंड ७-न्याय विभाग

(१) राजस्थान उच्च न्यायालय	२०२-२०३
(२) विधि अधिकारी	२०४-२०५
(३) राजकीय अभियोक्ता एवं सरकारी अभिवक्ता	२०६-२११
(४) राजस्थान न्याय सेवा का केडर	२१३
(५) राजस्थान न्याय सेवा के अधिकारियों का वेतन क्रम	२१३
(६) राजस्थान न्याय सेवा के अधिकारी	२१४-२३५

खंड ८-राजस्थान एकाउन्ट्स सर्विस के अधिकारी

२२६-२४५

खंड ९-कृषि एवं खाद्य विभाग

(१) अधिकारियों का वेतन	२४६-२४७
(२) कृषि विभाग के अधिकारी	२४८-२८१

खंड १०-सहकारी विभाग

(१) अधिकारियों का वेतन	२८३
(२) सहकारी विभाग के अधिकारी	२८४-२८९

खंड ११-उद्योग एवं रसद विभाग

(१) अधिकारियों का वेतन	२९०-२९१
(२) उद्योग एवं रसद विभाग के अधिकारी	२९२-२९९

खंड १२-देवस्थान विभाग

३००-३०१

खंड १३-आवकारी व कर विभाग

३०२-३०९

खंड १४-वन विभाग

३१०-३१७

खंड १५-कारागृह विभाग

३१८-३१९

खंड १६-श्रम विभाग

३२०-३२३

खंड १७-स्थानीय निकाय विभाग

३२४-३२५

खंड १८-खनिज एवं भू-गर्भ विभाग

(१) अधिकारियों का वेतन श्रृंखला	३२७
(२) खनिज एवं भू-गर्भ विभाग के अधिकारी	३२८-३३१

खंड १९-पंचायत विभाग

३३२-३३३

खंड २०-यातायात विभाग

३३४-३३५

खंड २१-सैटिलमैन्ट विभाग

३३६-३४३

खंड २२-मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग

३४४-३४५

खंड २३-पंजीयन एवं मुद्रण विभाग

३४६-३४७

खंड २४-आयुर्वेदिक विभाग

३४८-३४९

खंड २५-विकास विभाग

३५०-३६१

खंड २६-जागीर विभाग

३६२-३६५

खंड २७-समाज कल्याण विभाग

३६६-३६९

खंड २८-राजस्थान वेटेरीनरी साइन्स एन्ड एनिमल हस्बेडरी कालेज, बीकानेर	३७०-३७३
खंड २९-राजस्थान कृषि महाविद्यालय, उदयपुर	३७४-३७७
खंड ३०-एम० के० एन० एग्रीकल्चरल इन्सटीट्यूट, जोधपुर	३७८-३७९
खंड ३१-शिक्षा विभाग	
(१) अधिकारियों का वेतन	३८०-३८१
(२) शिक्षा विभाग के अधिकारी	३८२-३८९
(३) डिप्टी तथा पोस्ट ग्रेज्युएट कालेजों के अधिकारी	३९०-४७९
(४) इन्टर कालेजों के अधिकारी	४८०-४९७
(५) प्रधानाध्यापक, उच्च विद्यालय	४९८-५२५
खंड ३२-लोक निर्माण विभाग	
(१) अधिकारियों का वेतन	५२६
(२) निर्माण विभाग (भवन व पथ) के अधिकारी	५२७-५४७
(३) सिविल विभाग के अधिकारी	५४८-५७१
(४) विद्युत् एवं यांत्रिक विभाग के अधिकारी	५७२-५८७
खंड ३३-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	
(१) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का वेतन	५८८-५९१
(२) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी	५९२-७०१
(३) सर्वाई मानसिंह मेडिकल कालेज के अधिकारी	७०२-७११
खंड ३४-जन सम्पर्क कार्यालय	७१२-७१७
खंड ३५-भू-अभिलेख विभाग	७१८-७१९
खंड ३६-विविध विभाग	
(१) पुरातत्व व संग्रहालय विभाग	७२०-७२३
(२) आंकड़ा विभाग	७२४-७२५
(३) इन्वेन्ट्री इन्स्ट्रुमेंट सेपरेशन विभाग	७२६-७२७
(४) अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड	७२६-७२७
(५) अष्टाचार निरोधक विभाग	७२६-७२७
(६) निर्वाचन विभाग	७२८-७२९
(७) स्थानीय निधि परीक्षा विभाग	७२८-७२९
(८) एमप्लायमेन्ट एक्सचेंज आर्गनाइजेशन	७३०-७३१
(९) राजस्थान सोलजर्स, सेलर्स एवं एयरमेन्ट्स बोर्ड	७३२-७३३
(१०) उच्च विश्रामग्रह (सरकिट हाउस)	७३४-७३५
(११) बीमा विभाग	७३७-७३७
(१२) पुनर्वासि विभाग	७३८-७३९
(१३) सेन्स गजेटियर्स विभाग	७३८-७३९

खंड ३७-कार्यालय महालेखापाल	..	७४०-७४२
खंड ३८-अल्प वचत योजना (वित्त मंत्रालय)	..	७४२
खंड ३९-कन्द्रीय आवकारी विभाग	...	७४३
खंड ४०-नेशनल सेम्पल सर्वे विभाग	..	७४३
खंड ४१-आयकर विभाग	..	७४४-७४५
खंड ४२-पोस्ट एवं टेलिग्राफ विभाग	..	७४६-७४७
खंड ४३-रेल्वे के अधिकारी		
(१) पश्चिमी रेल्वे के अधिकारी	..	७४८-७५०
(२) उत्तरी रेल्वे के अधिकारी	..	७५१-७५३
खंड ४४-सैटिलमेन्ट विभाग (क्लेमून) (भारत सरकार)	..	७५४-७५५
खंड ४५-सिविल एवियेशन डिपार्टमेन्ट	..	७५५
खंड ४६-मेट्रोलेजिकल विभाग	..	७५६
खंड ४७-कार्यालय सहायक कलेक्टर (अफीम)	..	७५६
खंड ४८-राजस्थान में स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया के एजेन्ट	..	७५७
खंड ४९-जिलों की स्वीकृत कार्य कारिणी संख्या	..	७५८-७५९
परिशिष्ट क-राजस्थान के अनुबन्धनकर्ता राज्य	..	७६०-७६५
परिशिष्ट ख-आनुपूर्वी (वारंट ऑफ प्रिसिडेन्स)	..	७६६-७७०
परिशिष्ट ग-राजस्थान में १९५७ की साल में होने वाली सार्वजनिक छुट्टियों की सूची	..	७७१-७७२
परिशिष्ट घ-जयपुर में स्थित मुख्य मंत्री एवं विभिन्न विभागों तथा कार्यालयों के तार के सूक्ष्म पते	..	७७३
चिन्हों तथा संकेताक्षरों का स्पष्टीकरण	..	७७४
शब्द सूची (इन्डेक्स)	..	i-LX

खंड १

शासन

राज्यपाल

सरदार गुरमुख निहालसिंह, एम० एससी०
(इकोनोमिक्स), बार-एट-लॉ

(नियुक्ति १ नवम्बर, १९५६)

राज्यपाल का सचिवालय

सचिव

श्री आर० डी० खन्ना, एम० ए०, आई० ए०, एस०,
(जन्म २ अप्रैल, १९१४), वेतन प्रतिमास ८५० रुपये
एवं २५० रुपये विशेष वेतन

सहायक सचिव

श्री केदार रूप राय (जन्म ९ अक्टूबर, १९०२), वेतन
प्रतिमास ५२५ रुपये एवं ७५ रुपये विशेष वेतन

अंग रक्षक

केप्टिन सुमेरसिंह, ए० डी० सी०, (जन्म १८ अप्रैल, १९१६)

केप्टिन जे० एन० सिंह, ए० डी० सी०, (जन्म ३० दिसम्बर, १९२९)

मन्त्रि-परिषद्

मंत्रिगण

मुख्य मंत्री—सामान्य प्रशासन, राजनैतिक, नियुक्ति विभाग, योजना एवं विकास (समन्वय), शिक्षा विभाग (बेसिक शिक्षा के अतिरिक्त), उद्योग, एवं खनिज विभाग।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया, एम० एल० ए०, (११-४-१९५७), (वेतन रु० १,००० तथा रु० ५०० मर्यादित भत्ता प्रतिमास)

मंत्री—वित्त विभाग, आवकारी व कर विभाग, बेसिक शिक्षा, खादी व ग्राम उद्योग विभाग, सामाजिक विभाग।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय, एम० एल० ए०, (११-४-५७), (वेतन रु० १,००० प्रति मास)

मंत्री—गृह विभाग (यातायात, मुद्रणालय व स्टेशनरी के अतिरिक्त), लीगल रिमेन्ट्स सर कार्यालय और विधि विभाग, न्याय विभाग, सिंचाई व बिजली विभाग।

श्री रामकिशोर व्यास, एम० एल० ए०, (११-४-५७), (वेतन रु० १,००० प्रति मास)

मंत्री—राजस्व (जागीर पुनर्ग्रहण के सहित) देवस्थान विभाग, सहायता एवं पुनर्वास, अकाल सहायता विभाग।

श्री दामोदर लाल व्यास, एम० एल० ए०, (११-४-५७), (वेतन रु० १,००० प्रति मास)

मंत्री—स्वायत्त शासन, स्टेशनरी और मुद्रणालय, विधान सभा तथा निर्वाचन, सामुदायिक परियोजना, खाद्य एवं पूर्ति विभाग, श्रम विभाग, चिकित्सा व जन-स्वास्थ्य विभाग।

श्री बट्टी प्रसाद गुप्ता, एम० एल० ए०, (११-४-५७), (वेतन रु० १,००० प्रति मास)

मंत्री—कृषि विभाग, सहकारिता, वन विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, यातायात विभाग।

श्री नाथू राममिर्धा, एम० एल० ए०, (११-४-५७), (वेतन रु० १,००० प्रति मास)

उप-मंत्री

नाम	विभाग
श्री सम्पतराम, एम० एल० ए०, (११-४-५७), (वेतन रु० ८०० प्रति मास)	राजस्व, आबकारी व कर विभाग, सामुदायिक परियोजना।
श्री पूनम चन्द विश्नोई, एम० एल० ए०, (१४-१-५७), (वेतन रु० ८०० प्रति मास)	शिक्षा, योजना।
श्री भीका भाई, एम० एल० ए०, (११-४-५७), (वेतन रु० ८०० प्रति मास)	सिंचाई तथा विद्युत, चिकित्सा, सामाजिक कल्याण।
श्री रिखत्र चन्द धारीवाल, एम० एल० ए०, (११-४-५७), (वेतन रु० ८०० प्रति मास)	वित्त, उद्योग एवं खनिज विभाग।
श्री दौलत राम, एम० एल० ए०, (२-५-५७), (वेतन रु० ८०० प्रति मास)	कृषि, सहकारिता, पंचायत।

नोट:—मंत्रिमण ने दिनांक ११-४-१९५७ को शपथ ग्रहण की।

राजस्थान विधान सभा

१. अध्यक्ष

श्री राम निवास मिर्धा एम० ए०, एलएल० बी०

(लाडनू, २५-८-१९५७)

२. उपाध्यक्ष

श्री निरंजन नाथ आचार्य बी० ए०, एलएल० बी०

(राजसमंद, उदयपुर, १-५-१९५७)

क्रम संख्या	नाम व पता	क्षेत्र
१	श्री शीस राम ओला, गांव अरदावता, छिरवाडा, जिला झुंझुनू	खेतडी
२	श्री महादेव प्रसाद, बागड नागर, राजस्थान	खेतडी
३	श्रीमती सुमित्रा, पटसुरी, डाकखाना बरगांव, जिला झुंझुनू	पिलान्ती
४	श्री लच्छूराम, गांव कोडेसर, डाकखाना गांगासर, जिला झुंझुनू	मंडावा
५	श्री नरोत्तमलाल जोशी, ९ हासपिटल रोड़, जयपुर	झुंझुनू
६	श्री शिवनार्थसिंह धामोरा, डाकखाना सिंहनोर, नवलगढ़, झुंझुनू	गुडा
७	श्री राम, बावड़ी दरवाजा, मकान नं० ३४९, हल्का नं० १, नवलगढ़	नवलगढ़
८	श्री अब्दुल गफार खां, खानजी हवेली, फतेहपुर, जिला सीकर	फतेहपुर
९	श्री किशनसिंह, बतरान, डाकखाना लक्ष्मणगढ़, सीकर	लक्ष्मणगढ़
१०	श्री जगदीशप्रसाद, पावर हाउस के पास, सीकर	सीकर
११	श्री रामदेवसिंह, सिहरावट, डाकखाना कुदान, जिला सीकर	सिहरावट
१२	श्री मदनसिंह दांता रामगढ़, डाकखाना दांता, जिला सीकर	दांता रामगढ़
१३	श्री भैरोंसिंह, पी० ओ० खाचरियावास, जिला सीकर	श्री माधोपुर
१४	श्री ज्ञानचन्द, नीम का थाना, तहसील नीम का थाना, जिला सीकर	नीम का थाना
१५	श्री नारायणलाल, नीम का थाना, फीपुर, जिला सीकर	नीम का थाना
१६	श्री रामकिशोर व्यास, मकान नं० ९०९, खंडार का रास्ता, जयपुर	हवामहल
१७	श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल, सौथियों का रास्ता, किशनपोल बाजार, जयपुर	जौहरी बाजार

क्रम संख्या	नाम व पता	क्षेत्र
१८	श्रीमती चन्द्रकला, डाकखाना वनस्थली, विद्यापीठ, वनस्थली	किशनपोल
१९	श्री सहदेव, १९ न्यू कालोनी, जयपुर	आमेर
२०	श्री हरिशंकर सिद्धान्त, चौकडी तोपखाना, मकान नं० ४२७८ नार्मल ट्रेनिंग स्कूल के सामने, जयपुर	आमेर
२१	श्री पी० के० चौधरी, कायस्थ मोहल्ला, अजमेर	फुलेरा
२२	श्री नरेन्द्रसिंह, जोबनेर हाऊस, भिन्डों का रास्ता, जयपुर	बूदू
२३	श्री लादू राम सुलानिया, यज्ञ शाला की बावड़ी, पुरानी बस्ती	बूदू
२४	श्री प्रभुलाल पुरोहित, पुरोहित पाडा, लालसोट, जिला जयपुर	लालसोट
२५	श्री नाथूलाल, गांव बाडकरोलान, डाकखाना सौगानेर, जिला जयपुर	लालसोट
२६	श्री रामधन पटेल, गांव खैरवाल, डाकखाना दौसा	दौसा
२७	श्री गज्जा मीना, पट्टी, डाकखाना सिकराय	दौसा
२८	श्री विश्व रनाथ जोशी, एडवोकेट, बांदीकुई	बांदीकुई
२९	श्री डुंगरसीदास, गांव डाण्ड, डाकखाना भानपुरकलां, जिला जयपुर	जमवारामगढ़
३०	श्री रामलाल बंसीवाल, गांव अलूदा, तहसील दौसा, जिला जयपुर	जमवारामगढ़
३१	श्री मुक्तिलाल मोदी, २ म्यूजियम रोड, जयपुर	वैराठ
३२	श्री रामकरनसिंह, गांव कल्याणपुरा खुरद; तहसील कोटपुतली	कोटपुतली
३३	श्री चन्द्रसिंह, गांव सनेली, तहसील मंडावर	बहरोड
३४	श्री बद्रीप्रसाद, ११ सिविल लाइन्स, जयपुर	बानसूर
३५	श्री घासीराम यादव, गांव एवं डाकखाना किशनगढ़ बास, जिला अलवर	तिजारा
३६	श्री सम्पतराम, १८ सिविल लाइन्स, जयपुर	तिजारा
३७	श्री छोटीसिंह, मकान नं० २५२, चाहपपू, अलवर	अलवर
३८	श्रीमती गंगादेवी, शांती निकेतन, रघू मार्ग, अलवर	राम गढ़
३९	श्री भोलानाथ, धोबीपाडा, अलवर	लक्ष्मणगढ़
४०	श्री गोकुलचन्द, मकान नं० १७४, हल्का नं० ८, अलवर	लक्ष्मणगढ़
४१	श्री रघुवीरसिंह, जावली भवन, अलवर	राजगढ़
४२	श्री हरीकृष्ण, गांव अलाई, डाकखाना राजगढ़, जिला अलवर	राजगढ़
४३	श्री नत्थूसिंह, हल्का नं० ४, डाकखाना पाहरी, जिला भरतपुर	कामां
४४	श्री जुगल किशोर, के० १४ प्रेमविद्या सदन, अशोक मार्ग, जयपुर	डोग

क्रम संख्या	नाम व पता	क्षेत्र
४५	श्री होतीलाल, आना दरवाजा, भरतपुर	भरतपुर
४६	श्री राजा श्रीमानसिंह, मोती झील कोठी, भरतपुर	वेअर
४७	श्री तेजपाल, कुम्बेर गेट, भरतपुर	वेअर
४८	श्री श्रीमानसिंह, भरतपुर शहर, हल्का नं ३, अतलबन्द गेट, भरतपुर	बयाना
४९	श्री गोर्धनसिंह, हल्का नं० १, सूरजपोल गेट के बाहर, जातव मोहल्ला, भरतपुर	बयाना
५०	श्री सुबेदारसिंह, हल्का नं० २, सांतेर रोड, धौलपुर	बारी
५१	डा० बहादुरसिंह, विष्णू निवास, हल्का नं० २, धौलपुर	धौलपुर
५२	श्री महेन्द्रसिंह, हल्का नं० ३, मकान नं० ३०९, धौलपुर	राजखेडा
५३	श्री टीकाराम पालीवाल, १९ न्यू कालोनी, जयपुर	महवा
५४	श्री गोपी सहाय, गांव शंकरवाडा, तहसील टोडाभीम, जिला सवाईमाधोपुर	महवा
५५	श्री बृजेन्द्रपाल, भंवर विलास पैलेस, करौली	करौली
५६	श्री उम्मेद, गांव कचरोली, डाकखाना खेडा, तहसील हिंडोन, जिला सवाई माधोपुर	करौली
५७	श्री आबिदअली, वकील, सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर
५८	श्री मांगीलाल, हरिजन बस्ती, मोहल्ला खटीकान्, सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर
५९	श्री रिद्धीचन्द, गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर	गंगापुर
६०	श्री पृथ्वीराज, सरपंच ग्राम पंचायत, बामन वास	गंगापुर
६१	श्री दामोदरलाल व्यास, ४९ सिविल लाईन्स, जयपुर	मालपुरा
६२	श्री नारायणसिंह, डिग्री हाउस, जयपुर	टोंक
६३	श्री लल्लूराम, जाटवपाडा, टोंक	टोंक
६४	श्री सरदारसिंह, मकान नं० ३५६, वार्ड नं० ए, कस्बा उनियारा, पी० उनियारा, जिला टोंक	उनियारा
६५	श्री भंवरलाल शर्मा, मो० ब्रह्मपुरी, पी० लाखेरी, वार्ड नं० ३, मकान नं० ३।४९, तहसील पाटन, जिला बूंदी	हिंडोली
६६	श्री मोदलाल मीना, मकान नं० १०८, तलेरा तहसील, जिला बूंदी	हिंडोली
६७	श्री सज्जनसिंह, आर्दश फार्म, पी० ओ० गुढा, नथवाटन, जिला बूंदी	बूंदी
६८	श्री रामेश्वरदयाल, हाउस नं० ४।२७६, वार्ड भाटापुरा, कोटा सिटी	कोटा
६९	श्री रिखबचन्द, एडवोकेट, हाउस नं० ५।१६२, धानमंडी वार्ड, कोटा	पीपलदा

क्रम संख्या	नाम व पता	क्षेत्र
७०	श्री रामनारायण, गांव नापाहेडा, तहसील बरोद, डा० सुलतानपुरा, जिला जयपुर	पीपलदा
७१	श्री दलीपसिंह, पी० ओ० मोड़क, तहसील चेचट, जिला कोटा	वारां
७२	श्रीमती आनन्दी देवी, ३।५७१, लाडपुरा, कोटा	वारां
७३	श्री दया कृष्ण, चंदघटा, वार्ड, कोटा	छाबरा
७४	श्री धन्नालाल हरिन, शाहबाद, वार्ड नं० ४, बांरा	छाबरा
७५	श्री सम्पतराज जैन, पी० ओ० बकानी, जिला झालावाड़	अकलेरा
७६	श्री भैरवलाल काला बादल, रामपुरा बाजार, कोटा	अकलेरा
७७	श्री जयन्द्रसिंह, गांव सारथल, मकान नं० २११, तहसील छीपावड़ोद, जिला कोटा	झालरापाटन
७८	श्री हरिश्चन्द्र, पृथ्वी विलास पॅलेस, झालावाड़	डाग
७९	श्री रामचन्द्र, मोचीपाड़ा, झालावाड़	डाग
८०	श्री सुगनचन्द जैन, पी० ओ० बेगून, जिला चित्तौड़	बेगून
८१	श्री लालसिंह शेखावत, मीरा मंदिर, चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़
८२	श्री श्रीनिवास शारदा, निम्बाहेडा	निम्बाहेडा
८३	श्री भवानी शंकर, नंदवान, कपासीन, जिला चित्तौड़गढ़	कपासीन
८४	श्री जयचन्द, पी० ओ० छोटी सादरी, वाया नीमच, पश्चिमी रेल्वे	कपासीन
८५	श्री अमृतलाल यादव, एडवोकेट, प्रताप गढ़ (राजरथान), वाया मंदसौर	प्रतापगढ़
८६	श्री अमरा मीना रावत, गांव सोमपुरा, पी० ओ० छोटी सादरी, वाया नीमच	प्रतापगढ़
८७	श्री मोघजी भाई, मकान नं० २६, गांव पनीयाला, पी० ओ० वांसवाडा	वांसवाडा
८८	श्री हरिदेव, दक्षिणपुरी, वांसवाडा	घहटोल
८९	श्री नाथूराम, गांव व पी० ओ० बारी, तहसील गढ़ी, जिला वांसवाडा	वागीडोरा
९०	श्री हीरा भाई, मकान नं० १७, काकनवारी, पी० ओ० कुशलगढ़, जिला वांसवाडा	कुशलगढ़
९१	श्री भीकाभाई, ५१ सरदार पटेल मार्ग, जयपुर	सागवारा
९२	श्री बालमुकुन्द, गांव सांकरसी, हाउस नं० ५२, पी० ओ० ढमोला, जिला डूंगरपुर (राजस्थान)	डूंगरपुर
९३	श्री भोगीलाल पंड्या, बंगला नं० १४, सिविल लाईन्स, जयपुर	आसपुर
९४	श्री गुलाबसिंह, पोस्ट आफिस भींडार	वल्लभनगर
९५	श्री हरिप्रसाद, पोस्ट आफिस भूपालसागर	वल्लभनगर
९६	श्री सोहनलाल भटनागर, हाउस नं० ४।४०३, पी० ओ० सलूम्वर, जिला उदयपुर	सलूम्वर

क्रम संख्या	नाम व पता	क्षेत्र
१७	श्री फूला भाई, पी० ओ० जावर, तहसील गिरवा, जिला उदयपुर	सलूम्वर
१८	श्री देवीलाल, पी० ओ० सारवा, जिला उदयपुर	सारवा
१९	श्री विद्यासागर, पी० ओ० भांडोल, जिला उदयपुर	पलासिया
१००	श्री लक्ष्मण हीरात, राजस्थान सेवा संघ, रिखवदेव, जिला उदयपुर	गोगुन्दा
१०१	श्री मोहन लाल सुखाडिया, सिविल लाईन्स, बंगला नं० ८, जयपुर	उदयपुर
१०२	श्री जनार्दन राय, शिवकृपा निवास, अमल का कांटा, उदयपुर	भावली
१०३	श्री निरंजन नाथ, एडवोकेट, उदयपुर	राजसमंब
१०४	श्री किशन लाल शर्मा, नई हवेली, नाथ द्वारा, जिला उदयपुर	नाथद्वारा
१०५	श्री मनोहर, पी० ओ० नाथद्वारा, जिला उदयपुर	कुंभलगढ़
१०६	श्री फतेहसिंह, हाउस नं० ३३६, वार्ड नं० ८ ब्यावर	भीम
१०७	श्री जैसिंह रानावत, गोपाल निवास, भोपालगंज भीलवाड़ा	आसिन्द
१०८	श्री तेज मल बापना, एडवोकेट, भूपाल गंज, भीलवाड़ा	बनेरा
१०९	श्री राम प्रसाद, एडवोकेट, भूपाल गंज, भीलवाड़ा	शाहपुरा
११०	श्री काना, पुत्र रामा रेगर, जहाजपुर	शाहपुरा
१११	श्री गणपती लाल वर्मा, भूपाल गंज, भीलवाड़ा	मांडलगढ़
११२	श्री मती कमलाबाई श्रीत्रिया, महिला मंडल, उदयपुर	भीलवाडा
११३	श्री शिवचरण दास, पी० ओ० राजाजी का करेडा, तहसील मांडल	मांडल
११४	श्री कालू, गांव रामपुरिया, पी० ओ० राजाजी का करेडा, तहसील मांडल	मांडल
११५	श्री अर्जुन दास, डिग्गी चौक, अजमेर	अजमेर पश्चिम
११६	श्री महेन्द्र सिंह पंवार, इम्पीरियल रोड, अजमेर	अजमेर पूर्वी
११७	श्रीमती प्रभा, अलवर गेट, अजमेर	पुष्कर
११८	श्री ज्वालाप्रसाद, हाऊस नं० ३०४, वार्ड नं० २३, भगवान गंज, अजमेर	नसीराबाद
११९	श्री पुर्षोत्तम लाल, कचेहरी रोड, अजमेर	किशनगढ़
१२०	श्री हरिभाऊ उपाध्याय, गांधी आश्रम, अजमेर	केकडी
१२१	श्री हजारी, गोपालजी मोहल्ला, सूरजपोल, रेगरों का बड़ा बास, ब्यावर	केकडी
१२२	श्री वज्रमोहनलाल शर्मा, डिग्गी मौहल्ला, ब्यावर	ब्यावर
१२३	श्री नारायणसिंह, गुरुनिवास, पी० ओ० मसूदा, राजस्थान	मसूदा
१२४	श्री शंकर लाल, एडवोकेट, मेला गेट, पाली	रायपुर
१२५	श्री तेजाराम, एडवोकेट, सोजत सिटी, जिला पाली	सोजत

क्रम संख्या	नाम व पता	क्षेत्र
१२६	श्री वेनोरास गहलोत, गांव बगडी, सज्जनपुर, पोस्ट बगडी	खरची
१२७	श्री मनहपराम परिहार, गांव गजनीपुरा, पोस्ट खेनवाडा	खरची
१२८	श्री मूलचंद, एडवोकेट, पाली	पाली
१२९	श्री मोती, पुत्र मूठा, सिरवि जोड़िंग हाऊस, रानी खुर्द, पो० रानी	वाली
१३०	श्री देवा गिरासिया, गांव व पी० ओ० भीखाना	वाली
१३१	श्री दलपंत सिंह, गांव रोहुआ, पोस्ट मंडार, जिला सिरौही	आवू
१३२	श्री मोहब्रत सिंह, हाउस न० ८१, पी० ओ० मोहब्रत नगर	सिरौही
१३३	श्री बीरका, गांव भावरी, तहसील पिडवारा	सिरौही
१३४	श्री लक्ष्मी चन्द, रेवेन्यू एजेंट, पी० ओ० सांचोर, वाया दीसा	सांचोर
१३५	श्री संगल सिंह, बडगांव, पी० ओ० बडगांव, तहसील जसवंतपुरा, जिला जालोर	रानीवाडा
१३६	श्री नरपतसिंह, गांव सराना, पी० ओ० अहौर, जिला जालोर	जालोर
१३७	श्री हंसिया पुत्र रामा, गांव खराल, पी० ओ० जालोर, जिला जालोर	जालोर
१३८	श्री माधोसिंह, बांसवाडा, पी० ओ० अहौर	अहौर
१३९	श्री वलीमोहम्मद, गांव पानधी का पार, पो० ओ० रामसर, जिला बाडमेर	चोहटन
१४०	श्री तनसिंह, सरदारपुरा, बाडमेर, वार्ड न० ४	बाडमेर
१४१	श्री अतूपासिंह, रामपुरा, पी० ओ० द्वारा	वालोज्रा
१४२	श्री रावत राम नाहल, वालोज्रा, वार्ड न० ७, जिला बाडमेर	वालोज्रा
१४३	श्री रामधन चौधरी, वाटावास, वार्ड न० १८, बाडमेर	गुरामलानी
१४४	श्री हुकम सिंह, मन्दिर पैलेस, जैसलमेर	जैसलमेर
१४५	श्री केसरी सिंह, पाटोडी ग्राम, जिला बाडमेर	फलोदी
१४६	श्री सूरज मल, राजवाग सूरसागर, जोधपुर	फलोदी
१४७	श्री परसराम, छडी, पी० ओ० छडी	ओसिया
१४८	श्री भैरुसिंह, हाउस न० २९६, खैजरला ग्राम, पो० ओ० खैजरला	बिलाडा
१४९	श्री आनन्द सिंह, २०/३ फोर्ट रोड, जोधपुर	जोधपुर शहर
१५०	श्री बरकतउल्ला खान, भैयाजी की हवेली, वार्ड न० १, जोधपुर	जोधपुर शहर
१५१	श्री पूनम चंद, ३१ पोलो ग्राउंड, जोधपुर	लूनी
१५२	श्री सुरलीधर, सुथारो की नाडी, बीकानेर	बीकानेर सिट
१५३	श्री भीम सेन, एडवोकेट, रानी वजार, बीकानेर	लूनकरनसर
१५४	श्री गिरधारीलाल, ग्राम वाधनू, पी० ओ० सुधसर, जिला बीकानेर	नोखा
१५५	श्री ह्याराम चमार, मटग्राम, पी० ओ० कोलायत, तहसील मगरा, जिला बाडमेर	नोखा

क्रम संख्या	नाम व पता	क्षेत्र
१५६	श्री चुन्नी लाल, ग्राम व पी० ओ० मुकलावा, जिला गंगानगर	रायसिंहनगर
१५७	श्रीमती सतवंतकोर, पुरानी आबादी, गंगानगर	करनपुर
१५८	श्री देवनाथ, चक्र २ एम. एल, पी०ओ०, जिला व तहसील गंगानगर	गंगानगर
१५९	श्री राजाराम, पुत्र चेताराम, ग्राम गोविंदपुरा, पी० ओ० नेटवाला, तहसील व जिला गंगानगर	सूरतगढ़
१६०	श्री शिवपत सिंह, पुत्र हरिराम, गांव व पी० ओ० मकसर, जिला गंगानगर	हनुमानगढ़
१६१	श्री रामकृष्ण, पी० ओ० व गांव रामगढ़, जि० श्री गंगानगर	नोहर
१६२	श्री धर्मपाल, हनुमानगढ़ टाउन, जिला गंगानगर	नोहर
१६३	श्री मोहर सिंह, जैतपुरा तहसील राजगढ़, पी० ओ० साहुलपुर	चूरु
१६४	श्री रावता, हाउस न० ८२, ग्राम सरसर, पी० ओ० सरदारशहर	चूरु
१६५	श्री चंदनमल वैद, सरदार शहर, जिला चूरु	सरदारशहर
१६६	श्री दौलतराम सरन, ९७, राजकीय प्रवास, जयपुर	डूंगरगढ़
१६७	श्री कृष्ण राम, पी० ओ० रतनगढ़, तहसील सरदारशहर	रतनगढ़
१६८	कुमारी शन्नो देवी शर्मा, पी० सुजानगढ़, जिला चूरु	सुजानगढ़
१६९	श्री नाथूराम मिर्धा, १२ सिविल लाइन्स, जयपुर	नागौर
१७०	श्री मानक चंद, स्टेशन रोड, कुचामन सिटी	जायल
१७१	श्री राम निवास मिर्धा, ग्राम कुचैरा, जिला नागौर, या १३ सिविल लाइन्स, जयपुर	लाडनू
१७२	श्री ओती लाल, छोटी खाडू, जिला नागौर	डीडवाना
१७३	श्री किशन लाल शाह, एडवोकेट, कुचामन रोड, जिला नागौर	नांवा
१७४	श्री जेठमल, सार्वल मरचेन्ट, मकराना, जि० भागौर, राजस्थान	नांवा
१७५	श्रीमती गौरी वूनिया, ४१३, सी रोड, सरदारपुरा, जोधपुर	डेगाना
१७६	श्री गोपाल लाल, एडवोकेट, मेरता सिटी	मेरता

नोट:-उपरोक्त सदस्यों ने दिनांक २२-४-१९५७ को शपथ ग्रहण की।

राजस्थान के राज्य परिषद तथा लोक सभा के सदस्यों की सूची

(अ) राज्य परिषद

क्रम संख्या

नाम व पता

- १ श्री आदित्येन्द्र, मोहल्ला खेडा पाटी, वार्ड न० ७, भरतपुर
- २ श्री विजय सिंह, ग्राम सिरौरियारी, तहसील सोजत, जिला पाली
- ३ श्री कालूराम, २० अशोक रोड, न्यू दिल्ली
- ४ श्री जसवन्त सिंह, दाउदसर हाउस, बीकानेर
- ५ श्रीमती शारदा भागव, हाउस न० १५४६, चौकडी मोदी खाना, वार्ड न० २, जयपुर सिटी
- ६ श्री लक्ष्मनसिंह वार्ड न० २, महारावल उदय विलास, पो० ओ० डूंगरपुर
- ७ श्री केशवानन्द, ग्रामोत्थान विद्यापीठ, पो० ओ० सांगरिया, जिला गंगानगर
- ८ श्री मोलाना अब्दुल शकूर, इन्दर कोट, अजमेर
- ९ श्री जयनारायण व्यास, बनी पार्क, स्टेशन रोड, जयपुर

(ब) लोक सभा

क्रम संख्या	नाम व पता	निर्वाचन क्षेत्र
१	श्री राधेश्याम रामकुमार मुरारका, २४ बी० मुरारका हाउस कानो चिल रोड, बम्बई २६	धुंधुनू
२	श्री रामेश्वर टांटिया, ४ सरत चटर्जी एवेन्यू, कलकत्ता	सीकर
३	श्री हरिश्चन्द्र, सामोद हाउस, फोर्ट रोड, जयपुर	जयपुर
४	श्री सोमानी गजाधर हजारीमल, कपूर महल, नेताजी सुभाष रोड, बम्बई १	दौसा
५	श्री शोभाराम, होसपिटल रोड, अलवर	अलवर
६	श्री राज बहादुर, बसन गेट, भरतपुर एवं ९ अकबर रोड, न्यू वेहली	भरतपुर
७	श्री हीरालाल शास्त्री, खेजडे का रास्ता, जयपुर	सवाई माधोपुर
८	श्री जगन्नाथ, पी० ओ० भुसावर, जिला भरतपुर	सवाई माधोपुर
९	श्री रेमी चंद कासलीवाल, २४४, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर	कोटा
१०	श्री ओंकार लाल, २४४, धान मंडी, कोतवाली रोड, कोटा	कोटा
११	श्री भोगजी, ग्राम भानोर, पी० ओ० बांसवाडा	बांसवाडा
१२	श्री माणिकलाल, भूपालपुरा, पी० ओ० उदयपुर, जिला उदयपुर	उदयपुर
१३	श्री बिन बन्धु, पी० ओ० रिखबदेव, जिला उदयपुर	उदयपुर
१४	श्री रमेशचन्द्र, नगर कांग्रेस कमिटी, भीलवाडा	भीलवाडा
१५	श्री मुकट विहारी लाल, हाथी भाटा, अजमेर	अजमेर
१६	श्री धामानी सूरज रत्न, बूलियन एंथोतिवेशन, एंथोसिपेशन विल्डिंग, शेखमेमोन स्ट्रीट, बम्बई २	जालोर
१७	श्री हरिश्चन्द्र, नयावास, जोधपुर	पाली
१८	श्री एच० एच० रघुनाथ सिंह, पैलेस जैसलमेर (राजस्थान)	वाड़मेर
१९	श्री जसवंत राज, लाडनू हाऊस, जोधपुर	जोधपुर
२०	श्री मथुरादास माथुर, सी स्कीम, जयपुर	नागौर
२१	श्री करनी सिंह, लालगढ़ पैलेस, बीकानेर	बीकानेर
२२	श्री पन्ना लाल, वार्ड नं० ८, बीकानेर सिटी	बीकानेर

राजस्थान विधान सभा

संख्या	नाम, जन्म दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३
१	श्री मन्शाराम पुरोहित, बी० ए०, एलएल० बी०, आर० जे० एस० (ज० ९ नवम्बर, १९०७), जोधपुर	१-१०-४१
२	श्री कन्हैयालाल शर्मा, एम० ए०, एल एल० बी०, आर० ए० एस०, (ज० १ सितम्बर, १९०४); जयपुर	१-६-३७
३	श्री भुरारीलाल श्रीवास्तव, (ज० जनवरी १९०४), भरतपुर, १-५-२४	

सचिवालय, जयपुर

विभाग में नियुक्ति का दिनांक ४	वर्तमान पद और दिनांक ५	वेतन ६	विशेष ७
१-४-५२	सचिव, १-४-५२	₹ ० १,००० वि० वे० २५० (५००-२५-८०० ई० वी० ५०- १२०० और २५० वि० वे०)	न्याय विभाग से प्रति नियुक्ति पर
५-१-५४	उप सचिव ५-१-५४	५७५ १५० वि० वे० (५००-२५-७०० और १५० वि० वे०)	
२३-४-५२	प्रशासनिक अधिकारी ६-१-५४	२५० (२००-१०-२८० ई० वी० १५-४००)	

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

क्रमांक	नाम, जन्म तिथि	वर्तमान पद तथा नियुक्ति की तिथि	वेतन	भत्ता
१	२	३	४	५
१	श्री कैलाशनाथ वांचू, बी० ए०, आई० सी० एस, २५-२-१९०३	मुख्य न्यायाधीश २-१-५१	४,०००	४००
२	श्री दुर्गाशंकर दवे, बी० ए०, एल एल० बी०, १८-१२-१९०६	न्यायाधीश १२-७-५२	३,५००	..
३	श्री इन्द्रनाथ मोदी, बी० ए०, एल एल० बी०, १-३-१९०५	न्यायाधीश २९-१-५३	३,५००	..
४	श्री मोहनलाल राजदान, एम० ए०, एल एल० बी०, आर० ज० एस०, ३-१२-१९०२	रजिस्ट्रार ३०-९-५१	९००	१५० वि० वे०
५	श्री मिलापचन्द मरडिया, बी० ए०, एल एल० बी०, आर० ज० एस०, २५-११-१९१३	डिप्टी रजिस्ट्रार १४-५-५५	४२५	१०० वि० वे०
६	श्री दयालसिंह बी० ए०, एल एल० बी०, ८-३-१९०६	असिस्टेंट रजिस्ट्रार १०-८-५२	४२५	..
७	श्री कुन्दनराज भंसाली, बी० ए०, १४-९-१९०८	सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस १-४-५०	४२५	..
८	श्री टीकमसिंह गुप्ता, चैत वद १, संवत् १९६५	असिस्टेंट रजिस्ट्रार २५-५-५३	३७५	..

जयपुर शाखा

क्रमांक	नाम, जन्म तिथि	वर्तमान पद तथा नियुक्ति की तिथि	वेतन	भत्ता
१	२	३	४	५
९	श्री कंवरलाल वापना, बी० ए०, एलएल० बी०, ४-१-१९००	न्यायाधीश २९-८-४९	३,५००	००
१०	श्री जवानसिंह रानावत, एम० ए०, एलएल० बी०, ४१२-१९०२	न्यायाधीश २९-८-४९	३,५००	००
११	श्री कुमार कृष्ण शर्मा, एम० ए०, एलएल० बी०, १३-३-१८९९	न्यायाधीश १५-६-५१	३,५००	००
१२	श्री दौलतमल भंडारी, एम० ए०, एलएल० बी०, १६-१२-१९०७	न्यायाधीश २६-७-५५	३,५००	००
१३	श्री कन्हैयालाल बोहरा, बी० ए०, एलएल० बी०, आर० जे० एस०, ९-११-१९०६	डिप्टी रजिस्ट्रार १५-६-५४	४५०	१०० वि० वे०

राजस्थान लोक सेवा आयोग, जयपुर

क्र.सं.	नाम, जन्म तिथि	नियुक्ति की तिथि	वेतन
१	२	३	४
		अध्यक्ष	६०
१.	प० देवीशंकर तिवारी, एम० ए०, एल एल० बी०, २८ सितम्बर, १९०३	२१ जनवरी, १९५२	२,५००
		सदस्य	
२.	श्री मदनमोहन वर्मा, एम० ए०, ४ दिसम्बर, १८९८	२८ जून, १९५२	२,०००
३.	श्री लक्ष्मीलाल जोशी, एम० ए०, एल एल० बी०, आई० ए० एस०, २१ नवम्बर, १९०१	१ मार्च, १९५७	२,०००
		सचिव	
४.	श्री श्यामसुन्दर शर्मा, एम० ए०, एल० टी०, आर० ए० एस०, २२ अगस्त, १९०१	पुनः नियुक्ति २५ जनवरी, १९५५	७०० (५००-२५ ६००-३०-९००) १५० रु० वि० वे०
		सहायक सचिव	
५.	श्री रामस्वरूप गोयल, बी० ए०, एल एल० बी०, ८ नवम्बर, १९०५	२४ दिसम्बर, १९५६	३७५ (२५०-२५ ५०० ई० बी० २५- ७५०) ७५ वि० वे०

सचिवालय

- | | |
|--|---|
| १. श्री के० एन० सुब्रह्मण्यन,
आई० सी० एस० | मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग (अतिरिक्त नियुक्ति 'बी'), एवं सामान्य प्रशासन विभाग |
| २. श्री बी० एस० मेहता, आई० ए० एस० | अतिरिक्त मुख्य सचिव, (नियुक्ति 'बी' विभाग) जनसम्पर्क, योजना एवं विकास तथा समाज कल्याण विभाग । |
| ३. श्री सरदार बलवंत सिंह, आई० ए० एस० | सचिव, कृषि, सिंचाई, सहकारिता, पुनर्वासि विभाग । |
| ४. श्री रामनिवास हावा, आई० ए० एस० | सचिव, राजस्व (देवरथान तथा वन विभाग सहित) । |
| ५. श्री जोरावर सिंह झाला, आई० ए० एस० | सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग । |

६. श्री गंगासहाय पुरोहित, आई० ए० एस० सचिव, वित्त एवं आवकारी व कर विभाग ।
 ७. श्री मोहन मुकजी, आई० ए० एस० विशिष्ट सचिव, नियुक्ति विभाग ।
 ८. श्री ए० के० राय, आई० ए० एस० सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य तथा श्रम एवं खनिज विभाग ।
 ९. श्री एस० पी० सिंह भंडारी, आई० ए० एस० सचिव, शिक्षा, चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य विभाग ।
 १०. श्री सम्पतमल भंडारी, आई० ए० एस० गृह सचिव ।
 ११. श्री प्रभुदयाल लोईवाल, आर० एच० जे० एस० सचिव, विधि एवं न्याय विभाग एवं विधि परामर्श ।
 १२. श्री कैलाशनाथ भागवत, आई० ए० एन्ड ए० एस० अतिरिक्त सचिव, वित्त विभाग ।

उप-सचिव

१. श्री रामसिंह, आई० ए० एस० उप-सचिव, वित्त विभाग (नियम) एवं आवकारी व कर विभाग ।
 २. श्री वी० एन० मल्हान, आई० ए० एस० उप-सचिव, योजना एवं विकास, जनसम्पर्क तथा समाज कल्याण विभाग ।
 ३. श्री जी० के० भानोत, आई० ए० एस० उप-सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य तथा खनिज व श्रम विभाग ।
 ४. श्री मोहेन्द्रसिंह, आई० ए० एस० उप-सचिव, शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ।
 ५. श्री भीमसिंह, आई० ए० एस० उप-सचिव, कृषि एवं सिंचन, सहकारिता तथा पुनर्वासि विभाग ।
 ६. श्री दुर्गाप्रसाद, आई० ए० एस० उप-सचिव, गृह विभाग (अतिरिक्त पासपोर्ट) ।
 ७. श्री निरंजनसिंह, आई० ए० एस० उप-सचिव, सामान्य प्रशासन एवं "बी" विभाग तथा गृह "सी" पासपोर्ट विभाग ।
 ८. श्री पी० के० बी० कुरूप, आर० ए० एस० उप-सचिव, नियुक्ति "सी" तथा "डी" एवं एकीकरण ।
 ९. श्री मदनगोपाल दलेला, आर० ए० एस० उप-सचिव, राजस्व (देवस्थान एवं वन विभाग) ।
 १०. श्री राजराजेश्वरनाथ जैन, आर० ए० एस० उप-सचिव, नियुक्ति विभाग "बी" एवं "ई" सामान्य प्रशासन विभाग "सी" अभिलेख संग्रह ।
 ११. श्री रामकुमार बार्मा, आर० ए० एस० उप-सचिव, वित्त विभाग (प्रशिक्षण पर) ।
 १२. श्री रामनारायण, आर० ए० एस० उप-सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग तथा पदकारगात् सचिव भंडार उप-समिति ।
 १३. श्री मुन्नीलाल चौबे, आर० एस० एस० उप-सचिव, शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ।
 १४. श्री वी० मुद्गल, आर० एस० एस० उप-सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग ।
 १५. श्री दाऊदयाल गोस्वामी, आर० एस० एस० स्थान्नापन्न उप-सचिव, वित्त विभाग ।

राजस्थान

क्रम सं०

नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान

विभाग

१

२

३

सहायक

- १ श्री एम० पी० शुक्ला, बी० कॉम०, आर० एस० एम० (२९-७-१९०७), जयपुर गृह विभाग, "ए"
- २ श्री आदित्यनाथ, बी० ए०, आर० एस० एस०, (१-१-१९१३), सवाई माधोपुर श्रम तथा खनिज विभाग
- ३ श्री रूपचन्द माथुर, एम० ए०, एलएल० बी०, आर० एस० एस०, (२६-६-१८), बीकानेर वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
- ४ श्री प्रकाशचन्द्र गुप्ता, बी० ए०, एलएल० बी०, आर० एस० एस०, (८-३-१९), खुर्जा, जिला बुलन्द शहर नियुक्ति विभाग, "ए"
- ५ श्री कपूरचन्द लुहाडिया, बी० ए०, आर० एस० एस० (९-११-१९०७), जयपुर सामान्य प्रशासन विभाग "सी" एवं रिकार्ड्स
- ६ श्री एस० के० व्यास, बी० ए०, एलएल० बी०, आर० एस० एस०, विशारद, (२५-१२-१९), बीकानेर योजना एवं विकास विभाग
- ७ श्री ब्रह्मदत्त, आर० एस० एस०, (२५-११-१५), भीलवाड़ा राजस्व विभाग
- ८ श्री राधाकृष्ण व्यास, बी० ए०, एलएल० बी०, आर० एस० एस०, (११-८-१९०९), जोधपुर शिक्षा विभाग
- ९ श्री त्रिलोकचन्द, आर० एस० एस०, (१०-२-११), कांगडा कृषि सिंचन एवं सहकारिता
- १० श्री कुंजबिहारीलाल भार्गव, बी० ए०, आर० एस० एस०, (१०-१०-११), कोटा स्वायत्त शासन विभाग
- ११ श्री सुखदेव प्रसाद जोशी, आर० एस० एस०, (२९-६-१९०४), जयपुर सामान्य प्रशासन विभाग
- १२ श्री बालूलाल पंगडीया, बी० ए०, एलएल० बी०, आर० एस० एस०, (असाढ़ कृष्ण १० सं० १९७८), भीलवाड़ा चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य विभाग

सचिवालय सेवा

शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक ४	राजस्थान सचिवालय सेवा में नियुक्ति का दिनांक ५	वेतन ६	विशेष ७
सचिव		६०	
२३-४-३१	१-९-५२	५०० ७५ वि० व०	
३०-८-३४	१-९-५२	४२५ ७५ वि० व०	
१-१२-४३	१-९-५२	५५० ७५ वि० व०	
१७-७-४८	१-९-५२	४२५ ७५ वि० व०	
२६-१-४९	१-५-५४	३५० ७५ वि० व०	
७-१२-४०	१-५-५४	४२५ ७५ वि० व०	
१९-११-३६	१-५-५४	४०० ७५ वि० व०	
२३-६-२९	१-५-५४	४५० ७५ वि० व०	
८-१०-३०	१-६-५६	४००	प्रशिक्षण पर
२०-१०-३२	१-६-५६	३५० ७५ वि० व०	
१-७-२५	१-६-५६	४२५ ७५ वि० व०	
१६-९-३८	१-६-५६	४५० ७५ वि० व०	

क्रम सं०	नाम, जन्म-दिन, तथा जन्म-स्थान	विभाग
१	२	३
१३	श्री एस० के० मेहता, एम० ए०, एलएल० बी०, आर० एस० एस०, (१५-१२-२२), उदयपुर	गृह विभाग 'सी' एवं सामान्य प्रशासन विभाग 'बी'
१४	श्री प्रेमसिंह, आर० एस० एस०, (२९-१-१९१३), बीकानेर	वित्त एवं विकास विभाग
१५	श्री बी० बी० श्रीवास्तव, आर० एस० एस०, (७-९-१९०७)	नियुक्ति विभाग, सर्विस हिस्ट्री सेक्शन
१६	श्री बी० एन० माथुर, आर० एस० एस०, (२४-७-१९१४)	वित्त विभाग,
१७	श्री द्वारकानाथ मेहरा, आर० एस० एस०, (११-७-१८९९)	वित्त विभाग (रूल्स)

राजस्थान सचिवालय सेवा के अधिकारियों के अतिरिक्त अन्य अधिकारी

१	श्री अम्बालाल कल्ला	गृह विभाग 'बी'
२	श्री मथुरालाल बाहेली, बी० ए०, एलएल० बी०, (८-१०-१९०८)	वित्त विभाग (विकास व्यय प्रथम)
३	श्री ब्रिजेन्द्रप्रसाद अदीब, बी० एससी०, आर० ए० एस०, (२५-४-१९१४)	वित्त विभाग (आवकारी व कर विभाग)
४	श्री सुशील कुमार शर्मा, आर० ए० एस०, (६-१-१९१७), भरतपुर	कृषि सिंचन तथा सहकारिता विभाग
५	श्री भौरीलाल वैद्य	सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग
६	श्री देवीसिंह, आर० ए० एस०, २०-७-११, भरतपुर	राजस्व विभाग
७	श्री हरिशचन्द्र मंगल, बी० ए०, एलएल० बी०, डी० एस० डबल्यू०, (१८-९-१९१९), जोधपुर	नियुक्ति विभाग 'ई'
८	श्री गणपतसिंह, बी० ए०, (२६-३-१९०९), अलवर	नियुक्ति विभाग 'सी' एवं 'डी'
९	श्री रामकरण गुप्ता, आर० ए० एस०, एम० ए०, बी० एससी०, एलएल० बी०	शिक्षा विभाग

शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	राजस्थान सचिवालय सेवा में नियुक्ति का दिनांक	वेतन	विशेष
४	५	६	७
		रु०	
४-९-४८	१-६-५६	४७५ ७५ वि० व०	
१७-४-३९	२०-१२-५६	४५० ७५ वि० व०	
१-५-३०	१-११-५६	५००	ज्येष्ठता निश्चित नहीं हुई।
१५-९-३९	१-११-५६	५००	" " तथा प्रशिक्षण पर
३-१-१८	१-११-५६	४८०	" "

जो सहायक शासन सचिव के पद पर कार्य कर रहे हैं

..	२-२-५७	२६५ ७५ वि० व०	स्थानापन्न
१-७-२५	४-८-५५	३२५ ७५ वि० व०	स्थानापन्न
१४-९-३६	२-६-५६	५०० ७५ वि० व०	
६-१-४१	२२-७-५५	४०० ७५ वि० व०	
..	..	३७५ ७५ वि० व०	स्थानापन्न
१२-१-३२	..	२७५ ७५ वि० व०	
१४-३-४१	..	४२५ ७५ वि० व०	
३०-१०-३३	..	३०० ७५ वि० व०	
२७-११-३७	..	३७५ ७५ वि० व०	

क्र. सं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान कोष्ठक में	विभाग
१	२	३
		विशेष
१	श्री डाक्टर एन० एन० गोडबाले, एम० ए०, बी० एससी०, पीएच० डी०, बलिन, (१८-१२-१८८८), पूना	उद्योग एवं वाणिज्य विभाग
२	श्री कान्तिचन्द्र सतसंधी, बी० एस सी० (इन्जिनियरिंग), ए०एम० आइ०इ०, (२-१-१९०६), जोधपुर	विशेषाधिकारी सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग
३	श्री कालूराम अग्रवाल, बी० ए०, एलएल० बी० (१६-११-१८९९), जयपुर	विधि विभाग
४	श्री पंजाबसिंह मेहता	विशेषाधिकारी, वित्त विभाग
५	श्री भभूत राज मेहता	सामान्य प्रशासन विभाग
६	श्री ए० ए० खरी, आर० ए० एस० (रिटायर्ड)	राजस्व विभाग
७	श्री एम० एन० तीलानी	शिक्षा विभाग

अन्य

- | | | |
|---|--------------------------------------|---|
| १ | श्री डी० एल० पुरी | प्रिन्सिपल, ट्रेनिंग स्कूल, वित्त विभाग, (२१-२-५७) |
| २ | श्री लहरसिंह मेहता, आर० एच० जे० एस०, | जोइन्ट लीगल रिमेम्ब्रेन्सर, (१२-७-५३) |
| ३ | श्री दुर्गाशंकर आचार्य, आर० जे० एस० | सहायक लीगल रिमेम्ब्रेन्सर, एवं सहायक सचिव, (८-८-५१) |
| ४ | श्री रामदत्त शर्मा, आर० ए० एस० | एन्क्वायरी ऑफिसर, नियुक्ति विभाग, (३-५-५६) |

शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक ४	वर्तमान पद पर नियुक्ति का दिनांक ५	वेतन ६	विशेष ७
		६०	
कार्याधिकारी			
..	३-१२-५४	१०००	सेवा संबिदा पर
११-८-४१	१५-१-५७	१५००	विद्युत एव यान्त्रिक विभाग से प्रतिनियुक्ति पर
..	५-२-५५	५०० मय पेन्शन १०० वि० वे०	पुनः नियुक्ति
.	१-२-५७		पुनः नियुक्ति अवैतनिक
..	१-१०-५५	३००	..
..	२९-४-५५	१३०० मय पेन्शन	पुनः नियुक्ति
..	१-७-५६	१५०० मय पेन्शन	पुनः नियुक्ति

पदाधिकारी

..	६५० पेन्शन सहित	
२९-४-३४	८५० ५० वि० वे०	
२७-११-३९	५५० ७५ वि० वे०	
	१०००	अस्थायी पद

क्र.सं. क्रम १	नाम, जन्म-दिन, तथा जन्म-स्थान	वर्तमान पद तथा पद पर नियुक्ति का दिनांक कोष्ठक में ३
५	श्री राधेश्याम अग्रवाल, आर० ए० एस०	बजट अधिकारी, वित्त विभाग, (७-४-५४)
६	श्री इन्द्रराज, आर० एस० एस०	रजिस्ट्रार, सचिवालय, (१-११-५२)
७	श्री ग्यारसी राम, राजस्थान अकाउन्ट्स सर्विस	लेखाधिकारी, सचिवालय नियुक्ति विभाग 'एफ', (११-२-५०)
८	श्री रिछपाल सिंह शर्मा, रा० अ० स०	लेखाधिकारी, राजस्व विभाग (१-३-५४)
९	श्री महताबचन्द मेहता, रा० अ० स०	लेखाधिकारी, वित्त विभाग, (१-३-५४)
१०	श्री मांगीलाल माथुर, रा० अ० स०	लेखाधिकारी, वित्त विभाग, (६-६-५५)
११	श्री पी० एस० सुराना, रा० अ० स०	लेखाधिकारी, वित्त विभाग, (२४-९-५५)
१२	श्री एल० एम० सबरवाल	लेखाधिकारी, वित्त विभाग, (१-२-५६)
१३	श्री एन० सी० धुरा	लेखाधिकारी, वित्त विभाग, (१-२-५६)
१४	श्री मेधराज मुकुल, एम० ए०, साहित्य रत्न, (१४-५-२३), चूरू	अधिकारी, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, (३०-४-५५)
१५	श्री मांगीलाल जैन, आर० जे० एस०	ड्राफ्टस्मैन, विधि विभाग, (२२-२-५७)
१६	श्री गंगाराम पुरोहित, आर० ए० एस०	अकाल सहायता अधिकारी, तथा सहायक सचिव
१७	श्री सी० बी० लाल	रिफार्मस् ओफिसर, वित्त विभाग, (१-१०-५५)
१८	श्री एच० एन० सक्सेना, रा० अ० स०	पेंशन लाइज्जन् ओफिसर, वित्त विभाग
१९	श्री सुन्दर लाल गौड़	स्पेशल आफिसर, स्माल सेविंग आर्गेनाइजेशन
२०	श्री विजय लाल मनारीया,	इन्स्पेक्टर आफ रिफार्ड, (२०-८-५६)

शासकीय सेवा में प्रविष्ट

होने का दिनांक ४	वेतन ५	विशेष ६
	रु०	
१-६-३७	४७५ १०० वि० वे०	
२८-८-२७	४५० ५० वि० वे०	राजस्थान सचिवालय सेवा में दिनांक २०-१२-५६ से स्थायी नियुक्ति की गई
१५-८-२८	४२५ ७५ वि० वे०	
१८-५-३१	४०० ७५ वि० वे०	
१-११-३२	५०० ७५ वि० वे०	
६-६-५५	३७५ ७५ वि० वे०	
२४-९-५५	५२५ ७५ वि० वे०	
१-२-५६	७४५ + १४९	महकमा हिसाब से प्रति नियुक्ति पर
१०-२-५६	४३४.३८	
६-७-४१	३०० १०० वि० वे०	
१-१०-४५	४२५ १०० वि० वे०	स्थानापन्न
१-१२-२६	५०० ७५ वि० वे०	
१-१०-५५	८७० पेन्शन सहित	सेवा संविदा पर
९-२-५६	४२५ ७५ वि० वे०	
२०-१२-५६	३७५	

मुख्य मंत्री, मंत्रियों एवं

क्र. सं.	नाम, जन्म-दिन, तथा जन्म-स्थान	मंत्री जिनके साथ लगाये गये हैं
१	२	३
१	श्री त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी, आई० ए० एस०	सचिव, मुख्य मंत्री
२	श्री मदनसिंह कोठ्यारी, बी० एससी०, एलएल० बी०, आर० एस० एस० (२६-३-०९), उदयपुर	निजी सचिव, मंत्री सहकारिता एवं आबकारी कर विभाग
३	श्री श्यामशंकर एम० दवे, आर० एस० एस०, (१०-१२-१४), झालावाड़	निजी सचिव, मंत्री उद्योग व खनिज विभाग, सामाजिक कल्याण विभाग, परिष्कृत तथा अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों सहित
४	श्री रक्षपाल शर्मा, आर० एस० एस०	निजी सचिव, उप-मंत्राणी शिक्षा चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य
५	श्री मुरारीलाल जैन	निजी सचिव, मंत्री सार्वजनिक निर्माण विभाग, एवं बिजली तथा यांत्रिक विभाग
६	श्री यू० एस० मेनन, आर० एस० एस०	निजी सचिव, मंत्री चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य
७	श्री अमरलाल, बी० ए०, एलएल० बी०, (५-२-२२)	निजी सचिव, मंत्री कृषि सिंचन व यातायात
८	श्री बिहारीलाल, (१-४-१९०५), जयपुर	निजी सचिव, उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग विधान सभा एवं स्वायत्त शासन विभाग
९	श्री गजानन्द	निजी सचिव, उप-मंत्री, वित्त विभाग एवं वन विभाग
१०	श्री दीनदयाल	निजी सचिव, मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग, स्टेशनरी, मूद्रणालय, विधान सभा व निर्वाचन एवं सामुदायिक परियोजना
११	श्री ओ० पी० बन्सल	निजी सचिव, मंत्री, श्रम विभाग
१२	श्री गोपालसहाय शर्मा, आर० जे० एस०	निजी सचिव, मंत्री, गृह विभाग, एवं लीगल रिमेम्ब्रेसर

उप-मंत्रियों के निजी कर्मचारीगण

शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक ४	वर्तमान पद पर नियुक्ति का दिनांक ५	वेतन ६	विशेष ७
		६०	
७-८-५०	२४-११-५४	८५० २५० वि० व०	
१-१०-३३	१०-७-५२	२८०	
१६-८-३६	१७-१०-४९	४२५ ७५ वि० व०	
८-८-४०	१-३-५५	३२५ ५० वि० व०	
३०-१०-३३	१९-१-५५	३०५ ७५ वि० व०	
३०-११-३६	१२-१-५५	४२५ ७५ वि० व०	
—	३-३-५५	३०० ५० वि० व०	
१-६-२६	२२-१२-५४	४०० ७५ वि० व०	
१८-५-३९	१५-७-५५	३०५ ७५ वि० व०	
..	४-१०-५६	३०५ ७५ वि० व०	
..	१-११-५६	२८०	
..	—	४५० ७५ वि० व०	

खण्ड २

भारतीय प्रशासन सेवा

भारत सरकार के गृह मंत्रालय की विज्ञप्ति संख्या एस० आर० ओ० २५११, दिनांक २७ अक्टूबर, १९५६ में राजस्थान के लिये भारतीय प्रशासन सेवा का केडर नियत।

(१) राज्य सरकार के लिये वरिष्ठ पद	..	६२
मुख्य सचिव	१	
अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त	१	
चेअरमैन, राजस्व मंडल	१	
सदस्य, राजस्व मंडल	३	
खण्डों के आयुक्त	६	
कमिश्नर, इन्डस्ट्रीज व स्टेट कोमर्शियल अन्डरटेकिंग्स	१	
सचिव	८	
उप-सचिव	७	
सैंटिलमेन्ट कमिश्नर	१	
डाईरेक्टर डेवलपमेन्ट	१	
सैंटिलमेन्ट अधिकारी	३	
रजिस्ट्रार, फोपरेटिव सोसाईटीज	१	
सचिव गवर्नर	१	
सचिव मुख्य मंत्री	१	
जिलाधीश	२६	
		<hr/>
		६२
(२) केन्द्रीय सरकार के लिये वरिष्ठ पद	..	२५
		<hr/>
	कुल	८७
(३) इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (रीक्रूटमेन्ट) रूल्स, १९५४ के नियम ८ के अन्तर्गत पदोन्नति एवं चुनाव द्वारा भरे जाने वाले पद	..	२१
(४) सीधी भरती द्वारा भरे जाने वाले पद	..	६६
(५) डेप्यूटेशन रिजर्व (४) का १५%	..	१०
(६) छुट्टी रिजर्व (४) का ११%	..	७
(७) कनिष्ठ पद (४) का २०.६०%	..	१३
(८) ट्रेनिंग रिजर्व (४) का १०.५९%	..	७
		<hr/>
सीधी भरती के लिये पद		१०३
		<hr/>
पदोन्नत पद		२१
		<hr/>
कुल अधिकृत स्टेन्थ		१२४
		<hr/>

भारतीय प्रशासन सेवा के सदस्यों के लिये काल-मान

सेवा का वर्ष	कनिष्ठ	वरिष्ठ
१ला	३५०	..
२रा	४००	..
३रा	४५०	..
४था	४५०	..
५वां	५००	..
६ठा	५४०	८००
७वां	५७०	८५०
८वां	६००	९००
निपुणता बन्ध		
९वां	६३०	९५०
१०वां	६६०	१०००
११वां	६९०	१०६०
१२वां	७२०	११२०
१३वां	७५०	११८०
१४वां	७८०	१२४०
१५वां	८१०	१३००
१६वां	८४०	१३५०
१७वां	८७०	१४००
१८वां	९१०	१४५०
१९वां	९५०	१५००
२०वां	..	१५५०
२१वां	..	१६००
२२वां	..	१६५०
२३वां	..	१७००
२४वां	..	१७५०
२५वां	..	१८००

मुख्य सचिव तथा चेयरमैन राजस्व मंडल को वेतन २५०० रुपया प्रतिमास सुपर टाइम स्केल में मिलेगा ।

आयुक्त तथा सदस्य राजस्व मंडल को वेतन २२५० रुपया प्रतिमास सुपर टाइम स्केल में मिलेगा ।

भारतीय प्रशासन

क्र. सं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	नियुक्ति वर्ष	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	भा. प्र. सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३	४	५
१	श्री किशन पुरी, ५-१२-१९०३, जोधपुर	१९३४ $\frac{१}{२}$	५-६-१९२५	१-९-१९५१
२	श्री कामता प्रसाद गुप्ता, बी० ए०, एल एल० बी०, २०-३-१९०४, बीकानेर	१९३७ $\frac{१}{२}$	२-१०-१९२७	८-४-१९५४
३	श्री एस० एल० अहुजा, एम० ए०, एल एल० बी०, १८-११-१९०४, पंजाब	१९३८ $\frac{१}{२}$	१९२९ पी० सी० एस	२७-४-१९५४
४	श्री श्यामलाल, एम० ए०, एल एल० बी०, १६-४-१९०६, भरतपुर	१९३९ $\frac{१}{२}$	१६-१-१९३०	१-९-१९५१
५	श्री एम० यू० मोहन, १०-३-१९०९, कोटासल (मलाबार)	१९३९ $\frac{१}{२}$	१५-१२-१९२८	८-४-१९५४
६	श्री भंवरलाल रावत, एम० एससी०, पीएच० डी० (कॉन्टब), ४-९-१९०६, जोधपुर	१९४०	५-१-१९५२	५-१-१९५२
७	श्री जे० एन० कुन्जरु, बी० ए०, एल एल० बी०, २७-२-१९०५, जोधपुर	१९४०	११-८-१९२४	८-४-१९५४
८	श्री कंवर बहादुर माथुर, एम० ए०. एलएल० बी०, ९-४-१९०६, जयपुर	१९४०	५-५-१९३०	८-४-१९५४
९	श्री भगवत सिंह मेहता, बी० ए०, एलएल० बी०, ३०-१०-१९०८, उदयपुर	१९४१	१-१-१९३३	१-९-१९५१
१०	श्री बौलर्तसिंह, बी० एजी०, ४-८-१९०६, किशनगढ़	१९४१	१४-५-१९३१	८-४-५४

सेवा के अधिकारी

भा० प्र० सेवा में स्थायी नियुक्ति का दिनांक, यदि स्तम्भ ५ से भिन्न हो	वर्तमान पद	वर्तमान पद पर नियुक्ति का दिनांक	वेतन	विशेष
६	७	८	९	१०
१६-४-५३			१५००	अवकाश पर
..	आयुक्त, अजमेर खण्ड, अजमेर	१-११-५६	२२५०	
२६-४-५६	सदस्य, राजस्व मंडल	२०-३-५६	२२५०	
१६-४-५३	चेयरमैन, राजस्व मंडल	२७-११-५५	२२५०	
..	कमिश्नर, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग	३१-१२-५५	२२५०	
५-१-५४	कमिश्नर, जोधपुर	२८-११-५६	२२५०	
..	आयुक्त, बीकानेर खण्ड, बीकानेर	१-५-५४	२२५०	
..	सदस्य, राजस्व मंडल	३-२-५५	२२५०	
१६-४-५३	योजना आयुक्त एवं, अतिरिक्त मुख्य सचिव	२९-१०-५६	२५००	
	रुक्त जागीर, जयपुर	२४-११-५६	२२५०	

क्र.सं.	नाम, जन्म दिन तथा जन्म स्थान	नियुक्ति वर्ष	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	भा० प्र० सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३	४	५
११	श्री गोवर्धनसिंह मेहता, बी० ए०, एलएल० बी०, १-२-१९०६, उदयपुर	१९४२	१-१०-१९३०	८-४-५४
१२	श्री के० पी० यू० मेनन, २३-१०-१९१०, मलाबार	१९४२½	१-८-१९३३	८-४-५४
१३	श्री सांवल दान उज्जवल, एम० ए०, ६-१-१९१०, जैसलमेर	१९४३	२६-६-१९३७	१-९-१९५१
१४	श्री बलवन्त सिंह, बी० ए०, ११-४-१९११, पंजाब	१९४३½	इमरजेन्सी रिक्रूटमेन्ट	५-१-१९५२
१५	श्री आर० एन० हावा, बी० ए०, एलएल० बी०, १९-७-१९१०, बूंदी	१९४३½	१६-७-१९३२	८-४-१९५४
१६	श्री एस० एल० कक्कड, एम० ए०, एलएल० बी०, २-२-१९१०, पंजाब	१९४४	६-५-१९३६ पं० सि० स०	११-५-१९५२
१७	श्री आर० डी० माथुर, एम० ए०, १७-५-१९११, देहली	१९४४	१४-८-१९३६	१९-५-१९५२
१८	श्री ब्रजचन्द, एम० ए०, १०-४-१९११, अलवर	१९४४	१६-३-१९३५	८-४-१९५४
१९	श्री गजेन्द्रसिंह, एम० ए०, एलएल० बी०, २६-८-१९१२, कोटा	१९४४½	५-१-१९५२	५-१-१९५२
२०	श्री आर० एन० मधोक, ५-१-१५	१९४५
२१	श्री जोरावर सिंह झाला, बी० ए०, एलएल० बी०, १५-११-१९१५, चित्तौडगढ़	१९४६	१-२-१९४१	१-९-१९५१
२२	श्री गंगासहाय पुरोहित, एम० ए०, एलएल० बी०, १५-१-१९०६, जयपुर	१९४६	१-६-१९३०	७-६-१९५४

भा० प्र० सेवा में स्थायी नियुक्ति का दिनांक यदि स्तम्भ ५ से भिन्न हो	वर्तमान पद	वर्तमान पद पर नियुक्ति का दिनांक	वेतन	विशेष
६	७	८	९	१०
..	सदस्य, राजस्व मंडल, जयपुर	२१-४-५६	४० २२५०	
..	आयुक्त, कोटा खण्ड	२८-११-५६	२२५०	
१६-४-५३	आयुक्त, उदयपुर खण्ड	२५-११-५६	२२५०	
५-१-५६	सचिव, सिंचाई विभाग	१३-६-५६	१३०० २५० वि० वे०	
..	सचिव, राजस्व विभाग	२७-४-५६	१०६० २५० वि० वे०	
११-५-५४	जिलाधीश, अजमेर	१-११-५६	१३५०	
१९-५-५४	जिलाधीश, जोधपुर	१२-१-५५	१३५०	
८-४-५५	जिलाधीश, बीकानेर	१२-११-५४	१०६०	
५-१-५४	केन्द्रीय शासन की सेवा में प्रतिनियुक्ति पर
..	"
१६-४-५३	सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग	१२-७-५५	१०६० २५० वि० वे०	
	सचिव, वित्त विभाग	२७-१२-५५	१२४० २५० वि० वे०	

क्र.सं.	नाम जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	नियुक्ति वर्ष	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	भा० प्र० सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३	४	५
२३	श्री जी० बी० के० हूजा, एम० ए०, ३१-१-१९१५, डेरागजी खां (पंजाब)	१९४६	२०-४-१९३८	५-९-१९५२
२४	श्री जी० एल० मेहता, बी० ए०, बार एट लॉ, १७-१२-१९१७, भीलवाडा	१९४६ ½	७-४-१९४२	१-९-१९५१
२५	श्री चन्द्रशेखर गुप्ता, एम० एससी०, २१-५-१९१८, अलवर	१९४६ ½	३१-८-१९३८	१-९-१९५१
२६	श्री एस० एल० खुराना, एम० ए०, ३-३-१९, देहली	१९४६ ½	इमरजेन्सी रिक्त	१९-१०-१९४९
२७	श्री मोहन मुकर्जी, बी० ए०, (ओनर्स), ६-११-१९१९, नादिया	१९४७	१५-१०-१९४९	१५-१०-१९४९
२८	श्री आर० डी० थापर, एम० ए०, १९-६-१९२०, पश्चिमी पंजाब	१९४७ ½ इमरजेन्सी रिक्त	१५-१०-१९४९	१५-१०-१९४९
२९	श्री ए० के० राय, एम० एससी०, २७-६-१९२०, कलकत्ता	१९४७ ½	१५-१०-१९४९	१५-१०-१९४९
३०	श्री राजकुमार, बी० ए०, १८-१२-१९१८, झेलम	१९४७ ½	१०-३-१९५०	८-४-१९५४
३१	श्री आर० के० चतुर्वेदी, बी० ए०, १०-११-१९१०, चूरू	१९४७ ½	३-८-१९३५	८-४-१९५४
३२	श्री हिम्मत्सिंह, बी० ए०, एल एल० बी०, ११-४-१९०६, खन्डेला	१९४७ ½	५-७-१९३४	८-४-१९५४
३३	श्री एस० पी० सिंह भंडारी, एम० ए०, १-६-१९१६, मेवाड	१९४७ ½	२०-५-१९४२	८-४-१९५४

भा० प्र० सेवा में स्थायी नियुक्ति का दिनांक यदि स्तम्भ ५ से भिन्न हो	वर्तमान पद	वर्तमान पद पर नियुक्ति का दिनांक	वेतन	विशेष
६	७	८	९	१०
			६०	
३६-४-५३				केन्द्रीय शासन की सेवा में प्रतिनियुक्ति पर
१६-४-५३	मुख्य निर्वाचन अधिकारी ओ० एस० डी, रेवेन्यू	३१-७-५६	१०६० २५० वि० वे०	एक्स केडर पद
१९-१०-५१				केन्द्रीय शासन की सेवा में प्रतिनियुक्ति पर
१५-१०-५१	अतिरिक्त सचिव, नियुक्ति विभाग	७-६-५६	१००० २५० वि० वे०	
१५-१०-५२	अतिरिक्त संचालक, शिक्षा विभाग, बीकानेर	२८-१-५६	१००० २५० वि० वे०	
१५-१०-५१	संचालक, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग	२६-४-५६	१००० २५० वि० वे०	
				केन्द्रीय शासन की सेवा में प्रतिनियुक्ति पर
	जिलाधीश, गंगानगर	७-७-५५	१०००	
				केन्द्रीय शासन की सेवा में प्रतिनियुक्ति पर
८-४-५५	सचिव, शिक्षा एवं मेडिकल विभाग	२४-११-५६	१००० २५० वि० वे०	

क्र.सं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान,	नियुक्ति वर्ष	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	भा० प्र० सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३	४	५
३४	श्री बी० सी० मुकजी, एम० ए०, २३-७-१९१०, जयपुर	१९४७ $\frac{1}{2}$	२०-११-१९३९	८-४-१९५४
३५	श्री गोवर्धनसिंह चौधरी, बी० ए०, एल एल० बी०, १५-२-१९१५, जोधपुर	१९४७ $\frac{1}{2}$	१९-८-१९३९	८-४-१९५४
३६	श्री बी० पी० सूद, एम० ए०, २४-१-१९१८, जयपुर	१९४७ $\frac{1}{2}$	१३-८-१९४२	८-४-१९५४
३७	श्री गोरधनसिंह, एम० ए०, एल०एल०बी०, १८-२- १९१२	१९४८	२९-३-१९४७	८-४-१९५४
३८	श्री सम्पतमल भण्डारी, बी० ए०, १०-९-१९०३, जोधपुर	१९४८	२-१२-१९२४	८-४-१९५४
३९	श्री रामसिंह, (प्रथम) बी० एससी०, ३-९-१९१३, अलवर	१९४८	२-९-१९३५	७-६-१९५४
४०	श्री आर० पी० भार्गव, एम० ए०, एल एल० बी०, ५-१-१९०५, जयपुर	१९४८	१६-९-१९२९	७-६-१९५४
४१	श्री सुरेन्द्र सिंह निरवान, एम० ए०, ५-६-१९१२, मेरठ	१९४८	१९-१०-१९३६	७-६-१९५४
४२	श्री जे० एन० पुरोहित, बी० ए०, एल एल० बी०, १०-१०- १९०४, जोधपुर	१९४८	५-१०-१९२५	७-६-१९५४
४३	श्री विष्णुदत्त शर्मा (प्रथम), एम० ए०, एल एल० बी०, ८-३-१९१३, कोटा	१९४८	२५-५-१९३६	७-६-१९५४
४४	श्री विष्णुदत्त शर्मा (द्वितीय), बी० ए०, एल एल० बी०, १६-१-१९१६, भीलवाड़ा	१९४८	१४-४-१९४२	७-६-१९५४
४५	श्री शिवशंकर, बी० ए०, एल एल० बी०, १०-९- १९१०, बांसवाड़ा	१९४८	१५-३-१९३७	७-६-१९५४

भा० प्र० सेवा में स्थापित नियुक्ति का दिनांक यदि स्तम्भ ५ से भिन्न हो	वर्तमान पद	वर्तमान पद पर नियुक्ति का दिनांक	वेतन	विशेष
६	७	८	९	१०
			६०	
८-४-५५	जिलाधीश, झुझुनू	५-१२-५६	१०००	
८-४-५५	जिलाधीश, अलवर	११-६-५६	१०००	
८-४-५५	रजिस्ट्रार, सी० एस०, जयपुर	५-१२-५६	१००० २०० वि० वे०	
८-४-५५	अतिरिक्त आयुक्त, जागोर	२२-५-५६	९०० १५० वि० वे०	
८-४-५५	सचिव, गृह विभाग	५-१२-५६	११२० २५० वि० वे०	
	उप-सचिव, वित्त विभाग	१६-८-४९	९०० १५० वि० वे०	
	डाईरेक्टर कन्सोलिडेशन, जयपुर	१-९-५६	११८० २०० वि० वे०	
	जिलाधीश, कोटा	२१-१-५६	९५०	
	जिलाधीश, बाड़मेर	१७-६-५६	११२०	
	जिलाधीश, भरतपुर	१०-६-५६	१०००	
	जिलाधीश, जयपुर	३१-१०-५६	१०००	
	जिलाधीश, उदयपुर	२१-१२-५५	९००	

क्रम सं०	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान,	नियुक्ति वर्ष	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	भा० प्र० सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३	४	५
४६	श्री जे० एम० लालवानी, बी० ए०, एल एल० बी०, ३-७-१९२४, हैदराबाद सिध (पाकिस्तान)	१९४९	२१-७-१९४७ आई० टी० ओ०	२-१-१९५०
४७	श्री बी० एन० मल्हान, एम० ए०, ८-७-१९२५, जलन्धर	१९४९	१-४-१९५०	१-४-१९५०
४८	श्री जी० के० भानोत, एम० ए०, १२-३-१९२७, लाहौर	१९४९	२-१-१९५०	२-१-१९५०
४९	श्री शेरसिंह, एम० ए०, एल एल० बी०, ११-४-२४, जयपुर	१९४९½	२५-१०-४५	१-९-१९५१
५०	श्री मोहिन्द्रसिंह, एम० ए०, एल एल० बी०, १९-७-२७, होरापुर	१९५०	७-८-१९५०	७-८-१९५०
५१	श्री टी० एन० चतुर्वेदी, एम० ए०, एल एल० बी०, विशारद, १८-१-१९२८, फरुखाबाद	१९५०	७-८-१९५०	७-८-१९५०
५२	श्री एन० सी० भटनागर, एम० ए०, एल एल० बी०, ३०-८-१९२२, उदयपुर	१९५०	१-२-१९४४	२३-२-१९५५
५३	श्री भीमसिंह, एम० ए०, एल एल० बी०, ८-१-२४, बोकानेर	१९५१	१-७-१९४६	२३-२-१९५५
५४	श्री बजरज बहादुर, एम० ए०, २८-२-१९३०	१९५२	२-४-१९५२	२-४-१९५२
५५	श्री मनमोहन कोहली, एम० ए०, ४-६-१९३०, सहारनपुर	१९५२	२-४-१९५२	२-४-१९५२
५६	श्री आर० के० शास्त्री, ५-१-२९	१९५३	१४-४-५३	१४-४-५३
५७	श्री मदनमोहन, ९-५-२७	१९५३	१४-४-५३	१४-४-५३

भा० प्र० सेवा में स्थायी नियुक्ति का दिनांक यदि स्तम्भ ५ से भिन्न हो	वर्तमान पद	वर्तमान पद पर नियुक्ति का दिनांक	वेतन	विशेष
६	७	८	९	१०
१-८-५०	६०	केन्द्रीय शासन की सेवा में प्रतिनियुक्ति पर
१-८-५०	उप-सचिव, योजना एवं विकास विभाग	२४-१-५५	९०० १५० वि० वे०	
१-८-५०	उप-सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	२-८-५५	९०० १५० वि० वे०	
१६-४-५३	सैंटिलमैन्ट ऑफिसर, झालावाड़	५-२-५५	९०० १५० वि० वे०	
३०-३-५१	उप-सचिव, शिक्षा विभाग	१५-६-५६	८५० १५० वि० वे०	
३०-३-५१	सचिव, मुख्य मन्त्री	२४-११-५४	८५० २५० वि० वे०	
२३-२-५६	जिलाधीश, डूंगरपुर	२३-५-५५	९०० १५० वि० वे०	
२३-२-५६	उप सचिव, कृषि विभाग	२४-१-५६	८०० १५० वि० वे०	
२-४-५३	सैंटिलमैन्ट आफिसर, सीकर, हौ० व० जयपुर	५-१२-५६	८०० १५० वि० वे०	स्थानापन्न
२-५-५३	जिलाधीश, झालावाड़	१८-९-५६	८०० १५० वि० वे०	,,
१२-४-५४	जिलाधीश, बूंदी	१४-५-५६	८००	,,
१२-४-५४	जिलाधीश, बांसवाड़ा	२८-४-५६	८००	,,

क्र. सं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	नियुक्ति वर्ष	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	सेवा में प्रविष्ट होने की दिनांक
१	२	३	४	५
५८	श्री आनन्द मोहनलाल, (२४-२-१९३१)	१९५४	१५-५-५४	१५-५-५४
५९	श्री डी० के० सक्सेना, (२५-१२-१९३०)	१९५४	१-५-५४	१-५-५४
६०	श्री ए० एल० कृगटा, एम० ए०, एलएल० बी०, (१५-३-१९३३)	१९५५	१५-५-५५	४-५-५५
६१	श्री वी० सी० पांडे, (१६-२-१९३२)	१९५५	२५-४-५५	२५-४-५५
६२	श्री आर० के० सक्सेना, (२४-१२-१९३२)	१९५५	२५-४-५५	२५-४-५५
६३	श्री निरेशचन्द्र, (१-८-३४)	निश्चित नहीं किया गया	२५-४-५५	२५-४-५५
६४	श्री विपिन बिहारीलाल माथुर, (२४-१-१९३४)	१९५५	२५-४-५५	२५-४-५५
६५	श्री तेजकुमार, (९-७-१९३३)	१९५५	२५-४-५५	२५-४-५५
६६	श्री बी० एस० रामाणी, (१७-२-१९३३)	१९५५	२५-४-५५	२५-४-५५
६७	श्री दुर्गाप्रसाद शर्मा, एम० ए०, एलएल० बी०, (५-९-१९०५), जयपुर	निश्चित नहीं किया गया	५-९-२९	१३-१२-५५
६८	श्री जे० एस० मेहता, एम० ए०, एलएल० बी०, (१०-७-२२), उदयपुर	१९५५	१-५-४९	१३-१२-५५
६९	श्री मूलसिंह, बी० ए०, एलएल० बी०, (२-१-१९०८), जगौर	१९५५	१-१०-३३	१३-१२-५५
७०	श्री पी० एन० सिधल, एम० ए०, एलएल० बी०, (१५-१०-१५), अलवर	१९५५	१-४-४०	१३-१२-५५
		१९५५	१५-४-५५	१५-४-५५

क्र० सं०	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	नियुक्ति वर्ष	शासकीय सेवा में भा० प्र० सेवा में प्रविष्ट होने का	
			दिनांक	दिनांक
१	२	३	४	५
७१	श्री गंजराजसिंह, एम० ए०, एलएल० बी०, (डी०ई०डी०) (२-७-१९१२), जयपुर	निश्चित नहीं किया गया	१५-९-३४	१३-१२-५५
७२	श्री जे०पी०आरोरा, बी० एससी०, एलएल० बी०, (२९-८-१९१०), भरतपुर	"	१३-३-३५	२६-९-५६
७३	श्री सूर्य स्वरूप, बी० ए०, (१-४-१९०७), अलवर	"	१४-६-३०	२६-९-५६
७४	श्री पी० एल० सुखवाल, बी० एससी० (इंजिनियरिंग), एलएल० बी०, (८-१-०४), उदयपुर	"	१-१०-३०	१-११-५६
७५	श्री निरंजनसिंह, बी० ए०, एलएल० बी०, (४-४-१३), भरतपुर	"	४-१०-४०	१-११-५६
७६	श्री एच० एस० मेहता, बी० ए०, (८-१०-१९०५), उदयपुर	"	१२-७-३३	१-११-५६
७७	श्री आर० डी० खन्ना, एम० ए०, (२-४-१९१४), कपूरथला	"	१७-६-४२	८-१-५७
७८	श्री ए० ए० एस० जाफरी, एम० ए०, एलएल० बी०, (२७-२-१९०४), आगरा	"	११-११-२९	२१-३-५७

भा० प्र० संघा में स्थायी नियुक्ति का दिनांक यदि स्तम्भ ५ से भिन्न हो	वर्तमान पद	वर्तमान पद पर नियुक्ति का दिनांक	वेतन	विशेष
६	७	८	९	१०
..	जिलाधीश, सिरौही	२३-५-५६	९००	६०
..	जिलाधीश, चित्तौडगढ़	२६-११-५६	९००	
..	जिलाधीश, टोंक	४-५-५६	८५०	
..	जिलाधीश, भीलवाड़ा	१०-१०-५५	८००	
..	उप सचिव, सामान्य शासन विभाग	..	८०० १५० वि० बे०	
..	जिलाधीश, सीकर	१३-९-५६	८००	
..	सचिव, राज्यपाल	..	८५० २५० वि० बे०	
..	जिलाधीश, सवाई माधोपुर	२६-७-५५	८५०	

खण्ड ३

राजस्थान प्रशासना सेवा

संमोदित संख्या (राजस्थान राज-पत्र, भाग १ जिल्द, संख्या, दिनांक, १९५६)

४४	वेतन-मान (विना विशेष वेतन के)	१०००-५०-१५०० के पद पर:-	
४५	आयुक्त, आवकारी एवं कर विभाग		१
४६	सचालक, यातायात विभाग		१
४७	जागीर आयुक्त		१
४८	अतिरिक्त आयुक्त		३
४९	श्रम आयुक्त		१
५०	कमिश्नर, देवस्थान		१
५१	डाईरेक्टर आफ कन्सोलीडेशन		१
			९

५२. समय-मान २५०-२५-५०० ई०वी० २५-७५० के पद:-

५३५ ५००-३०-७४० ई० वी० ३०-८००-५०-९०० की प्रवर श्रेणी अधिकारियों की जो संख्या में २५ से अधिक न होंगे, उपलब्ध हो सकेगी और यह संख्या ज्यों ज्यों २५ वर्तमान अधिकारियों में से केज्यूअल्टी होती जावेगी त्यों त्यों घटती जावेगी।

५४	उप-सचिव शासन	..	३
५५	डाईरेक्टर आ लोका ल बोडीज	..	१
५६	चीफ पंचायत आफिसर	..	१
५७	डाईरेक्टर आफ सोशियल वेल्फेयर	..	१
५८	डिप्टी डाईरेक्टर (एडमिनिस्ट्रेशन) खनिज एवं भूगर्भ	..	१
५९	अतिरिक्त सटिलमैन्ट कमिश्नर	..	२
६०	सटिलमैन्ट ओफिसर	..	५
६१	डाईरेक्टर आफ कोलोनाइजेशन	..	१
६२	कोलोनाइजेशन आफिसर	..	२
६३	जोइन्ट डाईरेक्टर ऑफ डवलपमेन्ट	..	१
६४	डाईरेक्टर ऑफ रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन	..	१
६५	अतिरिक्त जिलाधीश	..	९
६६	डिप्टी कमिश्नर, आवकारी एवं कर विभाग	..	५
६७	ओरगेनाइजर, ट्रिस्टे फर्सो लिटीज	..	१
६८	अतिरिक्त जागीर आयुक्त	..	२
६९	रजिस्ट्रार, राजस्व मन्डल	..	१
७०	असिस्टेन्ट डाईरेक्टर, ऑफ लैन्ड रिकार्ड	..	३
७१	डिप्टी कलेक्टर जागीर	..	६
७२	सब डिविजनल ऑफिसर	..	७९
७३	सिटी मजिस्ट्रेट	..	७

असिस्टेन्ट कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट	..	४५
म्युनिसिपल मजिस्ट्रेट	..	१
रेल्वे मजिस्ट्रेट	..	३
डिप्टी डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट	..	१
रीजनल ट्रान्सपोर्ट ऑफिसर	..	३
डिप्टी डायरेक्टर ऑफ डवलपमेन्ट	..	१
डिप्टी डायरेक्टर आफ कोलोनाइजेशन	..	३
असिस्टेन्ट कमिश्नर, आवकारी एवं कर विभाग	..	२४
सेल्स टैक्स ऑफिसर	..	४
एग्जीक्यूटिव इन्कम टैक्स ऑफिसर	..	३
बजट ऑफिसर	..	१
असिस्टेन्ट डायरेक्टर, लोकल बोडीज	..	१
डिप्टी रजिस्ट्रार, राजस्व मन्डल	..	१
असिस्टेन्ट सैटिलमैन्ट ऑफिसर	..	२८
असिस्टेन्ट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर	..	१
डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कन्सोलीडेशन	..	२
फेमिन रिलीफ ऑफिसर कम असिस्टेन्ट सेक्रेटरी, शासन	..	१
	कुल ..	२५५
	कुल १ एवं २ ..	२६४
कनिष्ठ आइ० ए० एस० अधिकारियों के लिये कम किये जान वाले पद	..	६
	शुद्ध योग ..	२५८
काम्युनिटी प्रोजेक्ट डवलपमेन्ट स्कीम के पदों पर नियुक्ति के लिये रिजर्व	..	२०
एक्स कैडर पद, राजस्थान प्रशासन सेवा में अस्थायी सम्मर्ग किये गये पद वाह्य सेवा आदि के लिये एवं प्रति नियुक्ति के लिये सुरक्षित पद (२५८ का १२० १/२ प्रतिशत)	..	३२
ट्रेनिंग रिजर्व (२५८ का ७० १/२ प्रतिशत)	..	१९
अवकाश एवं निलम्बन आदि के लिये सुरक्षित पद (२५८ का २० १/२ प्रतिशत)	..	७
	कुल कैडर स्ट्रॉन्ग	३३६

राजस्थान प्रशासन सेवा के समय-मान या प्रवर श्रेणी में अमुक पद, जिन पर अधिकारियों को विशेष वेतन ग्राह्य है।

उप-सचिव, शासन
 डाईरेक्टर, लोकल बोडीज्
 संचालक, सहायता एवं पुनर्स्थापन
 संचालक, समाज कल्याण विभाग
 मुख्य पंचायत अधिकारी
 अतिरिक्त वन्दोवस्त आयुक्त
 पंजीयक, राजस्व मंडल
 वन्दोवस्त अधिकारी
 उपनिवेशन अधिकारी
 डाईरेक्टर, ट्रेनिंग व विकास
 संचालक, उद्योग (अस्थायी)
 संचालक, अकाल सहायता-कम-उप-सचिव
 मुख्य निर्वाचन अधिकारी-कम-उप-सचिव

र० १५०

सहायक संचालक, भू-अभिलेखा (भाकरा एरिया)
 अतिरिक्त जागीर कमिश्नर
 अतिरिक्त जिलाधीश
 सहायक, संचालक, भू-अभिलेखा
 उपायुक्त आवकारी एवं कर विभाग
 उप-विकास आयुक्त (जूनियर)
 उप-संचालक (प्रशासन) खनिज एवं भूगर्भ विभाग
 सहायक संचालक, लोकल बोडीज्
 वजट अधिकारी
 उप-संचालक, यातायात विभाग
 उप-संचालक, उद्योग एवं सप्लाई
 डिप्टी रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसाईटीज्(अस्थाई)
 खंड विकास अधिकारी
 उप-संचालक, उपनिवेशन
 आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी, उपनिवेशन हनुमानगढ़
 सहायक सचिव, शासन

र० १००

र० ७५

राजस्थान प्रशासन

क्रम सं०	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक.	रा० प्र० सेवा में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१	श्री चन्द्रपाल सिंह, एम० ए०, ११-११-१९०३, जाटन जिला, आगरा	३०-९-३१	२२-१-५१
२	श्री जीवराजसिंह, २५-११-१९०५, चूरू	१-७-२६	२२-१-५१
३	श्री गुलजारीलाल माथुर, बी० ए०, एलएल० बी, १-७-१९०६	२९-८-२९	२२-१-५१
४	श्री पशु प्रतिनाथ कोल, २-१२-१९०२	३१-५-२८	२२-१-५१
५	श्री चन्द्रधर ईसर, एम० ए०, एलएल० बी०, २९-११-१९०५, बीकानेर	२२-४-४४	२२-१-५१
६	श्री बहुरन सिन्हा, बी० ए०, १-१०-१९०२, जयपुर	१-१०-२५	२२-१-५१
७	श्री अजीतसिंह, बी० ए०, एलएल० बी०, १-११-१९०८, कोटा	२२-१२-३४	२२-१-५१
८	श्री समरथराज, बी० ए०, १-१०-१९०६, जोधपुर	१०-१०-२८	२२-१-५१
९	श्री रामदत्त, एम० ए०, एलएल० बी०, १८-६-१९०२, बूंदी	४-११-२७	२२-१-५१
१०	श्री भगवतदत्त ठाकुर, बी० ए०, एलएल० बी०, ३०-११-१९०२, बूंदी	१४-२-२८	२२-१-५१
११	श्री मांगीलाल महेचा, एम० ए०, एलएल० बी०, ३१-७-१९०३, जोधपुर	१-१०-२५	२२-१-५१
१२	श्री आर० सी० सिन्हा, एम० एससी०, एलएल० बी०, १६-७-१९११, बनारस	मई, १९३६	२२-१-५१
१३	श्री वहीदुल्लाखां, बी० ए०, एलएल० बी०, १५-११-१९०३, जोधपुर	४-९-३०	२२-१-५१

सेवा के अधिकारी

वर्तमान पद तथा पद पर नियुक्ति का दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
..	६०	धीमन् महाराजा जयपुर की सेवा में प्रतिनियुक्ति पर।
कमिश्नर, ई वस्थान विभाग, उदयपुर, १३-४-५१	११००	
कमिश्नर, आवकारी व कर विभाग, उदयपुर, १-८-५५	१०५०	
सेंटिलमेन्ट कमिश्नर, २३-४-५६	१२०० २०० वि० वे०	खुदकाश
श्रम आयुक्त, जयपुर, २७-८-५५	१०५०	
संचालक, यातायात विभाग, जयपुर, २-६-५२	१०५०	
एडिशनल कमिश्नर, जयपुर, २१-४-५६	१४५०	
संचालक, कृषि विभाग, जयपुर, १-१२-५३.	११५०	
इनक्वायरी ऑफिसर, नियुक्ति विभाग	१०००	
अतिरिक्त आयुक्त, जोधपुर, १-७-५४	९००	
जिलाधीश, जालोर, ९-११-५५	७२५ १५० वि० वे०	
डाईरेक्टर, रिहेबिलिटेशन, जयपुर, ५-९-५५	६२५ १५० वि० वे०	
एडिशनल डाईरेक्टर ऑफ लैन्ड रिकार्ड्स, जोधपुर, १-४-५७	९०० १५० वि० वे०	

क्रम सं०	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	रा० प्र० सेवा में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१४	श्री मुरलीधर बाजपेयी, एम० ए०, एल० टी०, १-११-०३, झालावाड़	९-३-३९	
१५	श्री चम्पालाल कोचर, बी० ए०, एलएल० बी०, १-४-१९०८	१०-९-३१	२२-१-५१
१६	श्री अभयसिंह, १८-१०-०३, उदयपुर	२७-७-३०	२२-१-५१
१७	श्री तेजसिंह कोठ्यारी, बी० ए०, ६-१-१९१०, उदयपुर	१२-९-३२	१६-६-५२
१८	श्री नारायणदास मेहता, बी० ए०, एलएल० बी०, १-१-०८, किशनग	जून, १९३४	२२-१-५१
१९	श्री जसवन्तसिंह सिधवी, बी० ए०, एलएल० बी०, २८-१०-१८, उदयपुर	१५-११-४१	२२-१-५१
२०	श्री हरिशचन्द्र चतुर्वेदी, बी० ए०, एलएल० बी०, २०-१-०५, इटावा	१२-५-४२	२२-१-५१
२१	श्री हरिसिंह जाट, बी० ए०, एलएल० बी०, ३०-१०-१९०८, उदयपुर	६-९-३३	२२-१-५१
२२	श्री केसरीसिंह मेहता, बी० ए०, एलएल० बी०, ६-११-१९०२, उदयपुर	२३-११-३०	२२-१-५१
२३	श्री मदनगोपाल दलेला, बी० ए०, एलएल० बी०, ७-५-१९०५, इटावा	१५-५-३८	२२-१-५१
२४	श्री मनोहरसिंह, ७-११-०५, भीलवाड़ा	२७-५-२८	२२-१-५१
२५	श्री सिद्धनाथ शुक्ला, एम० ए०, एलएल० बी०, १०-१०-१९११	जुलाई, १९३४	१६-६-५२
२६	श्री चन्द्रशेखर, १८-३-०४, भरतपुर,	२३-९-२३	२२-१-५१

वर्तमान पद तथा पद पर निश्चित का दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
उप-संचालक (प्रशासन) खनिज व भूगर्भ विभाग, उदयपुर, २०-६-५५	६० ५७५ १०० वि० वे०	
फ्लोरोनाइजेशन ऑफिसर, राजस्थान केनाल, बीकानेर	९०० १५० वि० वे०	
डिप्टी कमिश्नर, आवकारी व कर विभाग, उदयपुर, ६-३-५४	८५० १०० वि० वे०	
डिप्टी कमिश्नर, आवकारी व कर विभाग जोधपुर, १५-११-५६	८०० १०० वि० वे०	
एडिशनल कलेक्टर, जयपुर (प्रथम), २९-९-५६	५७५ १०० वि० वे०	
असिस्टेन्ट कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, उदयपुर, १०-२-५७	७०० १५० वि० वे०	
एडिशनल कलेक्टर, कोटा, नवम्बर, १९५६	६५० १०० वि० वे०	
मुख्य पंचायत अधिकारी	६०० १५० वि० वे०	
ऑफिसर लैन्ड रेकार्ड्स, मुख्यालय, जयपुर, २८-४-५५	६२५ २४० वि० वे०	
उप-सचिव, राजस्व विभाग	७४० १५० वि० वे०	
अतिरिक्त जिलाधीश, अलवर, ३-१०-५५	५३० १०० वि० वे०	
कलेक्टर पाली, ४-१२-५६	७०० १५० वि० वे०	
एडमिनिस्ट्रेटर, म्युनिसिपल बोर्ड, जोधपुर	५२५ १५० वि० वे०	

क्र. सं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	रा० प्र० सेवा में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
२७	श्री डूंगरसिंह मेहता, बी० ए०, एलएल० बी०, २५-३-१९०७, भीलवाड़ा	२७-८-३२	२२-१-५१
२८	श्री इन्द्रसिंह मेहता, बी० ए०, वारएटला०, २१-९-१९१२, उदयपुर	७-४-३९	२२-१-५१
२९	श्री हिम्मतसिंह गालून्डिया, एम० ए०, एलएल० बी०, १८-११-१९०७, उदयपुर	१३-४-३८	२२-१-५१
३०	श्री रोशनमल, माथुर, बी० ए०, एलएल० बी०, २२-११-१९०८, जोधपुर	१-९-३३	२२-१-५१
३१	श्री आशुकरण गोस्वामी, एम० ए०, २८-११-१९०३, बीकानेर	५-८-२९	२२-१-५१
३२	श्री परमानन्द, बी० ए०, एलएल० बी०, २३-९-१९१३, कोटा	२२-९-३४	१६-६-५२
३३	श्री भंवरलाल भटनागर, एम० ए०, ३-६-१९०७, उदयपुर	१२-१-३२	२२-१-५१
३४	श्री श्यामसुन्दर शर्मा, एम० ए०, एल० टी०, २२-८-१९०१, जयपुर	२५-७-२४	२२-१-५१
३५	श्री भंवरलाल मेहता, ९-६-१९०८, बीकानेर	२६-३-३१	२२-१-५१
३६	श्री श्यामकरण, बी० ए० (कन्टव), ४-२-१९१६, टोंक	२४-१०-४१	२२-१-५१
३७	श्री राजराजेश्वरनाथ जैन, २८-६-१९१५, मेरठ	१०-९-४७	१-९-५२
३८	श्री प्रतापसिंह, एम० ए०, एलएल०, बी०, ३-३-१९१४, भीलवाड़ा	१५-४-३७	२२-१-५१
३९	श्री रणजीतसिंह, १०-११-०२, जयपुर		२२-१-५१

वर्तमान पद तथा पद पर नियुक्ति का दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
अतिरिक्त जिलाधीश, जोधपुर, ३-७-५४	६० ५५० १०० वि० वे०	
अतिरिक्त जिलाधीश, गंगानगर	५०० १५० वि० वे०	
डाईरेक्टर, अकाल सहायता एवं उप- सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर ११-२-५७	५२५ १५० वि० वे०	
रजिस्ट्रार, राजस्व मंडल, १६-५-५५	६२५ १५० वि० वे०	स्थानापन्न
जोनल ऑफिसर, इलेक्शन, उदयपुर, १४-१२-५६	५५० १५० वि० वे०	
एडिशनल जागीर कमिश्नर, जयपुर, ३०-५-५६	४२५ १०० वि० वे०	
..	५७५ १५० वि० वे०	अवकाश पर
सेक्रेटरी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमिशन	७०० १५० वि० वे०	
असिस्टेन्ट कमिश्नर, आवकारी व कर विभाग, जयपुर, ११-९-५६	४५० १०० वि० वे०	
जोनल ऑफिसर, इलेक्शन, अजमेर, २२-१२-५६	६२५ १५० वि० वे०	
उप-सचिव, नियुक्ति विभाग	६५० १५० वि० वे०	
एडिशनल कलेक्टर, भरतपुर, १-१०-५६	४०० १०० वि० वे०	
डिप्टी कमिश्नर, आवकारी व कर विभाग, कोटा, ५-३-५५	७०० १०० वि० वे०	

क्रम सं०	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	रा०प्र०सेवा में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
४०	श्री ओंकारसिंह, एम० ए०, एलएल० बी०, १५-११-१९२१, पाली	१-९-४६	२२-१-५१
४१	श्री मथुरानाथ पंचोली, बी० ए०, बार-एट-ला०, २-१०-१९१८, उदयपुर	१-७-४८	२२-१-५१
४२	श्री हजारीलाल मेहता, बी० एससी०, एल एल० बी०, १४-१-१९११, उदयपुर	१-८-३५	२२-१-५१
४३	श्री सोभाग्यसिंह झाला, बी० एससी०, २०-६-१९०४, झालावाड़	१-६-३१	२२-१-५१
४४	श्री सुरेन्द्र नाथ मिश्रा, एम० ए०, एलएल० बी०, ८-६-१९१४, जयपुर	अक्टूबर, १९४०	२२-१-५१
४५	श्री मगनलाल नानावटी, बी० कॉम०, २३-४-१९०६, बांसवाड़ा	३-८-२७	२२-१-५१
४६	श्री धरणीधर मोहले, बी० ए०, २८-८-०६, उदयपुर	२३-७-३२	२२-१-५१
४७	श्री गंगाराम पुरोहित, बी० ए०, १९-१-१९०५, जोधपुर	१-१२-२६	२२-१-५१
४८	श्री धर्मेंद्र नाथ हांडा, एम० ए०, बी० एस सी०, ११-१२-१४, रायसिंह नगर	१९-८-४०	१६-६-५२
४९	श्री केशवपुरी, बी० ए०, एलएल० बी०, ५-२-१९११, जोधपुर	१-११-३२	२२-१-५१
५०	श्री अब्दुल जलील काजी, बी० ए०, एलएल० बी०, १३-१२-०६, जोधपुर	१-१०-३३	२२-१-५१
५१	श्री रामसिंह (द्वितीय), बी० ए०, २-१-१९०६, जोधपुर	१-१०-३३	२२-१-५१
५२	श्री बनेसिंह, घाभाई, बी० ए०, लएल० बी०, १-३-१९०५, झुन्झुनू	२८-७-३२	२२-१-५१

वर्तमान पद तथा पद पर नियुक्ति का दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
	र०	
अतिरिक्त जिलाधोश, सवाई माधोपुर	३७५ १०० वि० वे०	
अतिरिक्त जिलाधोश, भीलवाड़ा, १०-११-५६	५७५ १०० वि० वे०	
अतिरिक्त जिलाधोश, नागौर, १९-११-५६	५२५ १०० वि० वे०	
सैल टेक्स ऑफिसर, उदयपुर	४२५	
डाईरेक्टर, लोकल बोडीज्, १७-८-५६	७५० १५० वि० वे०	
एडीशनल जागीर कमिश्नर, जयपुर	५५० १०० वि० वे०	
सैंटिलमेन्ट ऑफिसर, चित्तौड़, १०-१०-४९	५०० १५० वि० वे०	
अकाल सहायता अधिकारी एवं सहायक सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर	५०० ७५ वि० वे०	
सहायक कलेक्टर, जयपुर	५७५ १५० वि० वे०	शिक्षण कालीन
बन्दोवस्त अधिकारी, पालो	५२५ १०० वि० वे०	
सब डिविजनल ऑफिसर, भीमल, २८-२-५५	५२५	
असिस्टेन्ट डाईरेक्टर, लैन्ड रिकार्ड्स, भौकरा, हनुमानगढ़	५००	
डाईरेक्टर ऑफ कोलोनाइजेशन, हनुमानगढ़, १५-१२-५६	८०० १५० वि० वे०	

क्र.सं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	रा० प्र० सेवा में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
५३	श्री शरफअली, एम० ए०, ९-८-१९०९, उदयपुर	१५-५-३४	२२-१-५१
५४	श्री जीवनसिंह चौधरी, बी० ए०, एलएल० बी०, १४-३-१९०७, भीलवाड़ा	९-९-३४	२२-१-५१
५५	श्री पी० के० बी० कुरूप, बी० ए०, एलएल० बी०, ३-१२-१९२०, ट्रावनकोर, कोचीन	१-१२-४३	२२-१-५१
५६	श्री अमरनाथ पुरोहित, १-९-१०, जोधपुर	२७-११-३४	२२-१-५१
५७	श्री तेजकरणलाल जोशी, बी० ए०, ६-३-१९०९, इन्दौर	६-८-४२	२२-१-५१
५८	श्री रामकुमार शर्मा, (द्वितीय), एम० ए०, बी० एससी० (एग्री०), एलएल० बी०, ३१-३-१९१४, जयपुर	१४-५-४३	२२-१-५१
५९	श्री कन्हैयालाल बडाया, बी० कॉम०, एलएल० बी०, १३-४-१९३१, जयपुर	१३-५-४४	२२-१-५१
६०	श्री मानदातासिंह, एम० ए०, एलएल० बी०, वार-एट-ला, ३०-३-१९२२, जयपुर	५-९-४४	२२-१-५१
६१	श्री गजराज ओझा, एम० ए०, एलएल० बी०, विद्याभूषण, ३०-१०-१९०८, नागपुर	९-७-३३	२२-१-५१
६२	श्री अशोक कुमार रे, बी० ए०, एलएल० बी०, वार-एट-ला, ३-१२-१९१३, खेतड़ी	१-१०-४५	१-९-५२
६३	श्री अलाउद्दीन खिलजी, बी० ए०, एलएल० बी०, १०-२-१९१४, बूंदी	१४-५-३९	२२-१-५१
६४	श्री जोरावर मल
६५	श्री गंगाप्रसाद बीसा, २-८-१९०५, बीकानेर	१७-८-२५	२२-१-५१
६६	श्री हनुमान सहाय रावत, बी० कॉम०, २३-७-१९१७, जयपुर	१-७-३८	१६-६-५२

वर्तमान पद तथा पद पर नियुक्ति का दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
अतिरिक्त जिलाधीश एवं असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पाली	४७५ १०० वि० वे०	
अतिरिक्त जिलाधीश एवं असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सीकर, ३०-११-५६	४७५ १०० वि० वे०	
उप-सचिव, इन्टीग्रेशन विभाग, जयपुर, ९-५-५६	५२५ १५० वि० वे०	
रेलवे मजिस्ट्रेट, जोधपुर	५००	
असिस्टेंट कमिश्नर, आवकारी व कर विभाग, भीलवाड़ा	४७५	
उप-सचिव, वित्त विभाग, जयपुर	३७५ ७५ वि० वे०	
शिक्षण संचालक, विकास विभाग, जयपुर, १-४-५७	५२५ १५० वि० वे०	प्रशिक्षण कालीन
असिस्टेंट डाइरेक्टर, लेन्ड रेकार्ड्स, जयपुर, ६-१२-५६	४७५ १०० वि० वे०	
सब-डिविजनल ओफिसर, चूरु, १८-१-५७	५५०	
कलेक्टर, बांसवाड़ा	६५० १०० वि० वे०	
अतिरिक्त जिलाधीश, उदयपुर, ५-१-५७	४७५ १०० वि० वे०	
सब-डिविजनल ओफिसर, कपासीन	४५०	
अतिरिक्त जिलाधीश, गंगानगर, ५-१-५७	५५० १०० वि० वे०	
सब-डिविजनल ओफिसर, सांभर, ९-७-५५	५०० ७५ वि० वे०	

क्र. सं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	रा० प्र० सेवा में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
६७	श्री दामोदरलाल खंडेलवाल, बी० ए०, एलएल० बी०, १-३-१९०९, उदयपुर	१९-३-३९	२२-१-५१
६८	श्री ए० पी० कौशिक, बी० ए०, ३-१-०७, ब्यावर	४-९-४६	१-९-५२
६९	श्री मानसिंह, १०-१२-१४, उदयपुर	१-४-३६	२२-१-५१
७०	श्री करतारसिंह, बी० एससी०, एलएल० बी०, २०-२-१९१३, भरतपुर	२-१०-३६	२२-१-५१
७१	श्री रणधीरसिंह, चौधरी, एम० एससी०, एलएल० बी०, ३-२-१९१३, भरतपुर	३-५-४५	२२-१-५१
७२	श्री नन्दलाल माथुर, प्रथम, एम० एससी०, एलएल० बी०, १४-१-१९०९, उदयपुर	४-५-३६	२२-१-५१
७३	श्री रामसिंह चौहान, बी० ए०, एलएल० बी०, ११-९-१९१८, बांसवाड़ा	१९-६-४५	२२-१-५१
७४	श्री तेजनारायण काक, एम० ए०, १-११-१९१४, जोधपुर	२८-८-३९	१-९-५२
७५	श्री पहंपसिंह, ३-८-०६, जयपुर	१-३-२७	२२-१-५१
७६	श्री रतन नारायण शिवपुरी, बी० एससी०, २-२-१९०८, अलवर	१२-३-२५	२२-१-५१
७७	श्री विजयसिंह, बी० ए०, २३-३-१९२३	१-१-४६	१-९-५२
७८	श्री विजेन्द्रसिंह, एम० ए०, एलएल० बी०, १-७-१९२१, भरतपुर	१७-९-४४	१-९-५२
७९	श्री मायाराम, बी० ए०, एलएल० बी०, १४-७-१९२४, टेकड़ी गढ़वाल	१०-७-४८	१-९-५२
८०	श्री यासीनअलीखां, ४-३-१९०९, टोंक	११-७-३२	२२-१-५१

वर्तमान पद तथा पद पर नियुक्ति का दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
सब-डिविजनल ओफिसर, नीम्बाहेड़ा, २१-५-५५	४५०	
कलेक्टर, नागौर	५००	
असिस्टेन्ट सैटिलमेन्ट ऑफिसर, पाली, हैडक्वार्टर, जोधपुर	३९०	
डिप्टी डायरेक्टर, ट्रान्सपोर्ट, राजस्थान, जयपुर, १२-७-५६	४०० १०० वि० वे०	
डिप्टी डवलपमेन्ट कमिश्नर, (जूनियर), जयपुर, २८-१-५७	४२५ १०० वि० वे०	
सब डिविजनल ओफिसर, एवं विकास अधिकारी, मांडलगढ, १९-१२-५५	४५० ७५ वि० वे०	
संचालक, समाज कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर	५०० १५० वि० वे०	
डिप्टी कलेक्टर जागीर, नागौर	५०० ७५ वि० वे०	
सैटिलमेन्ट ओफिसर, अलवर, २०-८-५६	५०० १५० वि० वे०	
सचिव, अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड, जयपुर, १०-९-५६	४२५	
सब-डिवीजनल ओफिसर, आवू	३००	
सब-डिवीजनल ओफिसर, जैतारण	४५०	
सब-डिवीजनल ओफिसर, कोटा	४२५	
डिप्टी कलेक्टर जागीर, कोटा, २५-१-५५	४७५ ७५ वि० वे०	

क्र. सं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	रा० प्र० सेवा में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
८१	श्री बालेन्दु शर्मा, एम० ए०, एलएल० बी०, २४-८-१९१५, भोलवाड़ा	२-३-१९४२	१६-६-५२
८२	श्री रंगदत्त शर्मा, बी० ए०, एलएल०, बी०, १६-२-१९१२, बूंदी	अक्टूबर, १९३५	१६-६-५२
८३	श्री हरे मोहन माथुर, बी० ए०, एलएल० बी०, २१-५-१९१६	१०-१२-४६	१६-६-५२
८४	श्री रूपलाल गांधी, बी० ए०, एलएल० बी०, २४-१०-१९०८, डूंगरपुर	१-६-१९३४	२२-१-५१
८५	श्री गणेशसिंह, १७-१-१९०४, गंगानगर	१६-३-१९२७	१६-६-५२
८६	श्री बसन्तलाल माथुर, बी० ए०, एलएल० बी०, १८-१-१९०७, भोलवाड़ा	१६-२-१९३३	२२-१-५१
८७	श्री परमात्मासहाय सक्सेना, बी० ए०, एलएल० बी०, २५-८-१९०८, बूंदी	१-१०-१९३६	२२-१-५१
८८	श्री हरिशचन्द्र, एम० ए०, एलएल० बी०, १५-७-१९०४, लुधियाना	६-९-१९४८	२२-१-५१
८९	श्री फतेहसिंह (प्रथम), बी० ए०, ८-७-१९११, जयपुर	१८-११-१९३३	२२-१-५१
९०	श्री तुलसीराम अग्रवाल, बी० कॉम०, एलएल० बी०, १०-१२-१९२२, झुन्झुनू	२८-२-१९४६	२२-१-५१
९१	श्री शंकरलाल, एम० ए० (नवम्बर, १९०७)		१६-६-५२
९२	श्री शम्भुदयाल गुप्ता, एम० ए०, एलएल० बी०, ५-१०-१९१६, अलवर	१४-११-१९४०	२२-१-५१
९३	श्री फौजराज जोशी, एम० ए०, एलएल० बी०, ५-४-१९११, जोधपुर	१-९-१९३७	२२-१-५१

वर्तमान पद तथा पद पर नियुक्ति का दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
सब-डिविजनल ओफिसर, एवं विकास अधिकारी, परतापगढ़, २९-१-५५	४० ४७५ ७५ वि०वे०	
रेल्वे मजिस्ट्रेट, कोटा, २०-९-५६	४५०	
सब-डिविजनल ओफिसर, करौली, १५-५-५६	४५० ७५ वि०वे०	
डिप्टी कलेक्टर, जागीर, उदयपुर, २३-११-५५	४५० ७५ वि०वे०	
रेल्वे मजिस्ट्रेट, जयपुर	४७५	
सब-डिविजनल ओफिसर, पोकरण, ५-५-१९५५	४७५	
स्पेशल मजिस्ट्रेट, जयपुर, ३१-१-५६	४५०	
कमिश्नर, सिटी कोरपोरेशन, उदयपुर	४२५	
असिस्टेंट डायरेक्टर, लैन्ड रिकार्ड्स भाकरा (एरिया), हनुमानगढ़, १४-९-५६	४७५ ७५ वि०वे०	
डिप्टी कलेक्टर जागीर, सीकर, ३-३-५५	४७५ ७५ वि०वे०	
एग्जीकलचर इन्कम टैक्स ओफिसर, जयपुर	३५०	
सब-डिविजनल ओफिसर, शाहपुरा, हैडक्वार्टर्स, कोट पुतली	४२५	
एग्जीकलचरल इन्कम टैक्स ओफिसर, जोधपुर एवं बीकानेर डिविजन, तथा सैलस टैक्स ओफिसर, जोधपुर, २-२-५५	५०० ७५ वि०वे०	

क्र. सं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	रा० प्र० सेवा में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
९४	श्री गुलाबसिंह, बी० ए०, एलएल० बी०, ४-११-१९१०, जोधपुर	१५-९-१९३७	२२-१-५१
९५	श्री शुभकरण काविया, एम० ए०, एलएल० बी०, ८-७-१९१६, पाली	१-९-१९३७	२२-१-५१
९६	श्री मुनेश्वरनाथ कोल, बी० ए०, एलएल० बी०, १५-७-१९१५, जोधपुर	१७-८-१९३९	२२-१-५१
९७	श्री नन्दलाल माथुर, द्वितीय, बी० एससी०, एलएल० बी०, २२-९-१९०८, जोधपुर	१७-८-१९३९	२२-१-५१
९८	श्री मदनसिंह राठौड़, बी० ए०, एलएल० बी०, ३-६-१९११, जोधपुर	१७-८-१९३९	२२-१-५१
९९	श्री अचलसिंह, बी० ए०, एलएल० बी०, १७-११-१९१३, नामौर	१७-७-१९३५	१६-६-५१
१००	श्री रामरतन अग्रवाल, एम० ए०, एलएल० बी०, ५-२-१९१०, जोधपुर	६-४-१९३८	२२-१-५१
१०१	श्री बद्रोदास, बी० ए०, एलएल० बी०, १०-१२-१९१०, जोधपुर	१-७-१९४२	२२-१-५१
१०२	श्री प्रेमदास अग्रवाल, एम० ए०, बी० एससी०, २-१-१९०७, जयपुर	२-११-१९३५	१६-६-५२
१०३	श्री गेहरालाल के० माथुर, बी० ए०, एलएल० बी०, १३-२-१९०७, जोधपुर	जुलाई, १९४२	२२-१-५१
१०४	श्री माधोसिंह, बी० ए०, एलएल० बी०, १८-१-१९१९, जोधपुर,	१२-८-१९४२	२२-१-५१
१०५	श्री मिलापचन्द जैन, बी० कॉम०, एलएल० बी०, विशारद, २५-८-१९१४, सवाई माधोपुर	२९-१०-१९३७	१६-६-५२
१०६	श्री बालासहाय शर्मा, एम० ए०, बी० कॉम० एलएल० बी०, १-२-१९२१	२३-८-१९४४	२२-१-५१

वर्तमान पद तथा पद पर नियुक्ति का दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी विभाग, जयपुर	६० ५०० १०० वि०वे०	
••	४२५	अवकाश पर
सब-डिविजनल आफिसर, उत्तरी बीकानेर, २६-११-५५	५००	
डिप्टी कलेक्टर जागीर, जालोर, ६-२-५५	५०० ७५ वि०वे०	
••	४७५	अवकाश पर
सब-डिविजनल ऑफिसर, जोधपुर, ४-७-५६	५०० १०० वि०वे०	
सैटिलमेंट ऑफिसर, जोधपुर, २४-७-५६	५०० १५० वि०वे०	
डिप्टी कलेक्टर जागीर, जोधपुर, ३-३-५६	५०० ७५ वि०वे०	
डिप्टी कलेक्टर जागीर, सवाई माधोपुर, १२-३-५६	४२५ ७५ वि०वे०	
सब डिविजनल ऑफिसर, बालोतरा, २७-८-५६	४७५	
सब-डिविजनल ऑफिसर, जैसलमेर, ५-१२-५५	४२५	
असिस्टेन्ट सैटिलमेंट आफिसर, ए० आर० ओ०, अलवर, मुख्यालय, करौली	३७५ ७५ वि०वे०	
सब-डिविजनल ऑफिसर एवं विकास अधिकारी, नीम का थाना, २-२-१९५६	४०० ७५ वि०वे०	

क्रम सं०	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होन का दिनांक	रा० प्र० सेवा में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१०७	श्री उम्मेदसिंह, एम० ए०, एलएल० बी०, २४-१२-१९२३, जयपुर	२२-६-१९४८	२२-१-५१
१०८	श्री नगीनलाल बी० सदासुखी, एम० ए०, एलएल० बी०, ५-१०-१९२१, डूंगरपुर	१८-५-१९४८	२२-१-५१
१०९	श्री बनेसिंह (फि तीय) म० ए०, एलएल० बी०, १-४-१९१६, पाली	२८-४-१९४३	२२-१-५१
११०	श्री गंगालहरी, बी० ए०, ४-८-१९०९, अलवर	१६-१२-१९३३	२२-१-५१
१११	श्री च० जी० भूटानी, बी० ए०, एलएल० बी०, २१-१०-१९४२, कराी	६-८-१९४९	१-९-५२
११२	श्री इकबालनाथ कौल, बी० ए०, २९-७-१९१०, जोधपुर	१२-१०-१९३२	२२-१-५१
११३	श्री चिरंजीलाल काला, बी० ए०, एलएल० बी०, ५-३-१९०५, जयपुर	१५-१०-१९३५	१६-६-५२
११४	श्री गोपालचन्द्र सैन, बी० ए०, एलएल० बी०, १-६-१९०२, देहरादून	१-१-१९३७	२२-१-५१
११५	श्री बनेसिंह, (तृतीय), ६-३-१४, जोधपुर	१-६-१९३९	२२-१-५१
११६	श्री रामचन्द्र ओझा, एम० ए०, एलएल० बी०, ९-११-१९०७, चित्तौड़गढ़	१९-११-१९३४	२२-१-५१
११७	श्री श्यामनारायण भार्गव, बी० एससी०, एलएल० बी०, १-२-१९०९, जयपुर	अप्रैल, १९३९	१६-६-५२
११८	श्री भंवरलाल दशोरा, बी० ए०, एलएल० बी०, १-३-१९१८, उदयपुर	१-१०-१९४०	२२-१-५१
११९	श्री जसवन्त सिन्हा साहीवाला, एम० ए०, एलएल० बी०, १-११-१९१३, उदयपुर	२-८-१९३९	२२-१-५१
१२०	श्री रघुराजसिंह, बी० एससी०, बी० टी०, एलएल० बी०, २८-७-१९१३, एटा	७-३-१९३८	१-९-५२

वर्तमान पद तथा पद पर नियुक्ति का दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
सब डिविजनल ऑफिसर एवं विकास अधिकारी, बाली, १०-१०-१९५३	४२५ ७५ वि० वे०	
सब डिविजनल ऑफिसर, सराडा, - २७-५-१९५५	४२५	
डिप्टी कलेक्टर, जागीर, चित्तौड़	४०० ७५ वि० वे०	
असिस्टेन्ट कमिश्नर, खुद काश्त, नागौर, २५-११-५५	४२५ ७५ वि० वे०	
सामुदायिक योजना अधिकारी, उद्योग, सांगानेर, १७-९-५५	४२५ ७५ वि० वे०	
अतिरिक्त सेंटिलमैन्ट ऑफिसर, जयपुर, १२-१२-५६	५५० १५० वि० वे०	
सब डिविजनल ऑफिसर, सवाई माधोपुर, २२-१०-५५	५५०	
उप-सचिव बोर्ड, ऑफ रेवेन्यू जयपुर, ३१-८-५४	५५०	
असिस्टेन्ट कमिश्नर, आवकारी व कर विभाग, पाली २१-९-५६	४००	
असिस्टेन्ट कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, जोधपुर, २०-६-५६	४००	
एक्साईज मजिस्ट्रेट, जयपुर, २८-१-५६	५००	
सब डिविजनल ऑफिसर एवं विकास, अधिकारी, राजसमन्द, २-६-५५	४२५ ७५ वि० वे०	
सब डिविजनल ऑफिसर, बूंदी	४२५ ७५ वि० वे०	
सब डिविजनल ऑफिसर, राजगढ़	४००	

क्र. सं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	रा० प्र० सेवा में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१२१	श्री बेरीसालसिंह बी० ए०, एलएल० बी०, १९-७-१४, जोधपुर	११-१२-१९३६	२२-१-५१
१२२	श्री जोधसिंह मेहता, बी० ए०, एलएल० बी०, १९-३-१९०७, उदयपुर	२६-११-१९३२	१६-६-५२
१२३	श्री राधावल्लभ चौधरी, एम० एससी०, २४-१०-१९११, जयपुर	१५-२-१९४३	२२-१-५१
१२४	श्री सुखलाल मन्जो, बी० ए०, एलएल० बी०, २८-९-१९१२, उदयपुर	३-९-१९३८	२२-१-५१
१२५	श्री भगवान सहाय जोशी, बी० ए०, एलएल० बी०, डिप्लोमा एल० एस० जी०, २-२-१९१७, जयपुर	१-३-१९४४	२२-१-५१
१२६	श्री कैलाशचन्द्र जैन, एम० ए०, एलएल० बी०, ५-१०-१९१३, जयपुर	१५-१२-१९४२	२२-१-५१
१२७	श्री जगपालसिंह, बी० ए०, एलएल० बी०, ८-५-१९११, हरदोई, (यू० पी०)	१६-९-१९४७	२२-१-५१
१२८	श्री ताराचन्द्र जैन, एम० एससी०, एलएल० बी०, १०-५-१९२१, जयपुर	३-११-१९४५	२२-१-५१
१२९	श्री शिवराम जैन, बी० ए०, एलएल० बी०, ८-३-१९२१, झुन्झुनू	३-११-१९४५	२२-१-५१
१३०	श्री सदनमोहन माथुर, बी० एससी०, एलएल० बी०, विशारद, १५-१२-२६, उदयपुर	१-१०-१९३६	२२-१-५१
१३१	श्री मोहनसिंह भंडारी, बी० ए०, २३-११-१९१०, उदयपुर	१-१०-१९४०	२२-१-५१
१३२	श्री जयसिंह, ४-३-१९०४, जयपुर	१२-१-१९४८	२२-१-५१
१३३	श्री ब्रजेंद्रप्रसाद अदीव, बी० एससी०, २५-४-१९१४, जोधपुर	१४-९-१९३६	२२-१-५१

वर्तमान पद तथा पद पर नियुक्ति का दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
असिस्टेंट कमिश्नर, आवकारी व कर विभाग, गंगानगर, २९-९-५६	४७५	
डिप्टी कलेक्टर, नागौर वाड़मेर ७-७-५६	४२५ ७५	वि० वे०
सब डिविजनल ऑफिसर, रतनगढ़ ५-१-५७	४७५	
डिप्टी कलेक्टर, जागीर, भीलवाड़ा, ३-६-५६	४२५ ७५	वि० वे०
असिस्टेंट डाईरेक्टर ऑफ लोकल वोडीज, जयपुर	४७५ १००	वि० वे०
सब डिविजनल ऑफिसर, धोलपुर, २०-७-५६	४७५	
सब डिविजनल ऑफिसर, कुशलगढ़, २०-८-५५	५००	
डिप्टी कलेक्टर जागीर, जयपुर, २-२-५७	४७५ ७५	वि० वे०
सब डिविजनल ऑफिसर, किशनगढ़, १७-७-५६	४७५	
सब डिविजनल ऑफिसर, खेतड़ी, १२-१-५५	४२५	
सब डिविजनल ऑफिसर एवं विकास अधिकारी, डूंगरपुर, २८-१२-५५	४२५ ७५	वि० वे०
सब डिविजनल ऑफिसर, मंडता, ८-२-५७	३७५	
सहायक सचिव आवकारी व कर विभाग, २८-५-५६	५०० ७५	वि० वे०

क्र.सं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	रा० प्र० सेवा में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१३४	श्री विनायकदत्त शर्मा, बी०ए०, एलएल० बी०, १५-१०-१९१४	१७-९-१९४२	१६-६-५२
१३५	श्री हजारीचन्द शर्मा, बी० ए०, एलएल०बी०, १२-१०-१९१२, अलवर	८-३-१९३९	१६-६-५२
१३६	श्री प्यारेलाल तलवार, २३-५-१९०७, अलवर	३-४-१९२६	२२-१-५१
१३७	श्री गोपालनारायण भावन, एम० ए०, एलएल० एम०, २२-१०-२०, जयपुर	३-११-१९४५	२२-१-५१
१३८	श्री कृष्णदास, बी० ए०, एलएल० बी०, २२-३-१९१०, जयपुर	२६-१-१९३६	२२-१-५१
१३९	श्री अकबर मोहम्मद, बी० ए०, २१-३-१९०९, उदयपुर	१५-१०-१९३७	२२-१-५१
१४०	श्री जगदीशचन्द्र त्रिवेदी, बी० ए०, बी० एससी०, एलएल० बी०, २५-७-१९१६, उदयपुर	१७-६-१९३८	२२-१-५१
१४१	श्री गोपाललाल कापडदार, बी० ए०, ८-२-१९०९, उदयपुर	१-६-१९३४	२२-१-५१
१४२	श्री सोहनलाल सुराणा, बी० एससी०, एलएल० बी०, १०-११-१९०९	१४-८-१९३३	
१४३	श्री जमनालाल लड्डा, बी० ए०, ८-९-१९१८, भीलवाड़ा	१-१०-१९४२	२२-१-५१
१४४	श्री भंवरलाल कचरा, बी० एससी०, २७-४-१९१९, उदयपुर	जुलाई, १९४१	१६-६-५२
१४५	श्री नगेन्द्रनारायण वर्मा, बी० एससी०, एलएल० बी०, २०-६-१९२०, उदयपुर	१-१०-१९४२	२२-१-५१
१४६	श्री मोहम्मद गनी, बी० ए०, १३-४-१९१९, उदयपुर	१-१०-१९४२	२२-१-५१

वर्तमान पद तथा पद पर नियुक्ति का दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
सब डिविजनल ओफिसर, गंगापूर, ९-२-५७	६० ४२५	
सब डिविजनल ओफिसर, बयाना, २४-९-५६	४००	
असिस्टेन्ट कमिश्नर, आवकारी एवं कर विभाग, अजमेर, १-११-५६	४००	
डिप्टी कलेक्टर जागीर, चूरु, ३-९-५६, मुख्यालय चूरु	४७५ ७५ वि० वे०	
सब डिविजनल ओफिसर, चित्तौड़गढ़, ३०-१-१९५६	४२५	
असिस्टेन्ट कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट प्रतापगढ़, २३-२-५६	४००	
सब डिविजनल ओफिसर, पाली, १६-७-५६	४२५	
असिस्टेन्ट कमिश्नर, खुदकाइत, सीकर, ३-१२-५५	४२५ ७५ वि० वे०	
सब डिविजनल ओफिसर, भीम, १७-४-५६	४००	
सब डिविजनल ओफिसर, झालावाड़, १६-४-५६	४२५ ७५ वि० वे०	
एग्जीक्यूटिव इन्कम टैक्स ऑफिसर एवं सेल्स टैक्स ओफिसर, उदयपुर, १२-५-५६	३५०	
रीजनल ट्रान्सपोर्ट ऑफिसर, जोधपुर २४-९-५४	४२५	
असिस्टेन्ट कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, सीकर, १३-७-५६	४२५	

क्रम सं०	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	रा० प्र० सेवा में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१४७	श्री भूपालसिंह बक्षी, एम० ए०, बी० ए० (ओनर्स), एल एल० बी०, १-१२-१९१८, उदयपुर	१४-४-१९४२	२२-१-५१
१४८	श्री गुलाब सिन्हा मेहता, बी० ए०, १-१२-१९१६, उदयपुर	१५-१२-१९४३	२२-१-५१
१४९	श्री अमृतलाल ओझा, एम० ए०, बी० ए०, (ज्योग्राफी), बी० एस सी०, १२-११-१९११, भीलवाड़ा	३-९-१९४१	२२-१-५१
१५०	श्री जयशंकर, बी० ए०, एल एल० बी०, विशारद, २२-४-१९१४, उदयपुर	८-१०-१९४१	२२-१-५१
१५१	श्री चतुरविहारीलाल के० गुप्ता, बी० ए०, एल एल० बी०, १-११-१९२१ चित्तौड़गढ़	१-८-१९३७	२२-१-५१
१५२	श्री हरीलाल ठाकुर, बी० ए०, ६-१२-१९१६, बूंदी	३-८-१९३७	१६-६-५२
१५३	श्री हरीसिंह यादव, बी० ए०, एल एल० बी०, ५-३-१९०५, उदयपुर	६-८-१९४८	१६-६-५२
१५४	श्री श्यामलाल, बी० ए०, ३०-७-१९०३, जोधपुर	१३-११-१९२५	२२-१-५१
१५५	श्री मोहम्मद इस्माइल, ४-१-१९०६, डूंगरपुर	२५-७-१९२८	२२-१-५१
१५६	श्री बोहतलाल कावड़िया, बी० एस सी०, एल एल० बी०, २५-२-१९१२, उदयपुर	११-७-१९४२	२२-१-५१
१५७	श्री चतरसिंहपंचोली, बी० ए०, १९-११-१९२३, उदयपुर	१५-१२-१९४३	२२-१-५१
१५८	श्री मोहनसिंह माहिरिया, बी० ए०, एल एल० बी०, ३-९-१९१६, उदयपुर	१-११-१९४५	२२-१-५१

वर्तमान पद तथा पद पर नियुक्ति का दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
सहायक कमिश्नर, आवकारी व कर विभाग, टोंक, नवम्बर, १९५६	४००	
सब डिविजनल ऑफिसर, जालोर, १६-७-५६	४२५	
सहायक कमिश्नर, खुदकाशत, झुन्झुनु, २७-९-५६	४०० ७५ वि० वे०	
डिप्टी कलेक्टर, जागीर, झुन्झुनु, २८-८-५६	४२५ ७५ वि० वे०	
सब डिविजनल ओफिसर, शाहपुरा, भोलवाड़ा, ६-७-५४	४२५	
सब डिविजनल ओफिसर, गंगानगर, ७-७-५६	४००	
सब डिविजनल ओफिसर, फलासिया, १८-४-५६	४२५	
लैन्ड एक्वोजीशन ओफिसर, जोधपुर, १-२-५५	४५०	
असिस्टेंट कमिश्नर, आवकारी एवं कर विभाग, उदयपुर, ८-६-५६	४५०	
सब डिविजनल ओफिसर, परबतसर, ३-५-५६	४२५	
रीजनल ट्रान्सपोर्ट ओफिसर, उदयपुर, जून, १९५६	४२५	
सब डिविजनल ओफिसर, बांसवाड़ा, १६-१-५६	४००	

क्र. सं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	रा० प्र० सेवा में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१५९	श्री बलदेव कृष्ण बिन्जू, बी० एससी०, २८-४-१९१८, कोटा	१-२-१९४१	२२-१-५१
१६०	श्री कन्हैयालाल पुरोहित, बी० ए०, एलएल० बी०, मार्च १९१७, भोलवाड़ा	२८-७-१९३८	२२-१-५१
१६१	श्री जगदीशराम शर्मा, बी० ए०, १०-६-१९१९, बोकानेर	२-९-१९४१	१-९-५२
१६२	श्री यशोदेव शर्मा, एम० ए०, एल एल० बी०, १-१२-१९२३, आगरा	१-८-१९४६	२२-१-५१
१६३	श्री मनीलाल जे० पारीक, २०-७-१९०६, अलवर	१-८-१९३४	२२-१-५१
१६४	श्री एस० पी० मैनी, बी० ए०, एलएल० बी०, २-११-१९१०, झबुआ, (मध्य भारत)	८-५-१९४१	२२-१-५१
१६५	श्री जगरूपसहाय माथुर, बी० एससी०, एलएल० बी०, १२-२-१९१७, कोटा	१५-२-१९४६	२२-१-५१
१६६	श्री बंसीलाल, बी० ए०, एल एल बी०, १७-९-१९११, जोधपुर	१०-२-१९३६	२२-१-५१
१६७	श्री सुगनचन्द, बी० ए०, एलएल बी०, १५-३-१९०७, मुजफ्फर नगर	१५-७-१९३५	२२-१-५१
१६८	श्री जगदीशनारायण, मिश्रा, बी० ए०, एलएल० बी०, २१-१२-१९०८, जयपुर	३०-१०-१९४४	२२-१-५१
१६९	श्री करनसिंह, बी० ए०, एलएल० बी०, ११-१२-१९०८, होशियारपुर	१६-६-१९३७	२२-१-५१
१७०	श्री इन्दरसिंह शेखावत, एम० ए०, एलएल० बी०, २१-४-१९१९, झुन्झुनू	१-७-१९४७	२२-१-५१
१७१	श्री नरेन्द्रसिंह, ७-१०-१९१०, अलवर	३१-४-१९३४	२२-१-५१

वर्तमान पद तथा पद पर नियुक्ति का दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
प्लानक डेवलपमेंट ऑफिसर, शाहाबाद, कोटा, २६-२-५४	४० ४२५ ७५ वि० वे०	
डिप्टी डायरेक्टर, कन्सोलीडेशन, राजस्थान, जयपुर, ११-२-५६	४२५ १५० वि० वे०	
सिटी मजिस्ट्रेट, कोटा	४७५	
सहायक आयुक्त एवं सहायक सचिव, विकास विभाग, जयपुर, १-४-५७	४२५ ७५ वि० वे०	
असिस्टेंट कमिश्नर, आवकारी एवं कर विभाग, सिरोही, २९-९-५२	४००	
सब डिविजनल ऑफिसर, फतेहपुर, २५-७-५५	४२५	
सब डिविजनल ऑफिसर, नैनवा, २८-११-१९५५	३७५	
असिस्टेंट कमिश्नर, आवकारी एवं कर विभाग, नागौर	५००	
सब डिविजनल ऑफिसर, भीलवाड़ा ९-२-१९५५	४७५	
सब डिविजनल ऑफिसर, हुरड़ा, १४-२-५६	४५०	
सिटी मजिस्ट्रेट, अजमेर, १-११-५६	४७५	
असिस्टेंट कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, धौलपुर, २७-४-५६	४५०	
सब डिविजनल ऑफिसर, छवड़ा, २४-१२-५५	४२५	

क्र. सं०	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	रा० प्र० सेवा में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१७२	श्री लक्ष्मीनारायण माथुर, एम० ए०, एलएल० बी०, ३-३-१९१८, उदयपुर	१-१०-१९४२	२२-१-५१
१७३	श्री मदनसिंह सक्तावत, बी० ए०, एलएल० बी०, १६-६-१९१५, चित्तौड़गढ़	१५-१२-१९४३	२२-१-५१
१७४	श्री रणजीतसिंह, कोठ्यारी, बी० ए०, एलएल० बी०, १५-५-१९१६, बांसवाड़ा	१०-८-१९४६	२२-१-५१
१७५	श्री बालमुकुन्द गुप्ता, १-२-१९०७, जयपुर	५-५-१९२९	२२-१-५१
१७६	श्री ब्रजमोहन पुरोहित, बी० ए०, एलएल० बी०, साहित्य विशारद, २३-२-१९१६, जयपुर	१५-५-१९४३	१६-६-५२
१७७	श्री मातादीन शर्मा, एम० ए०, एलएल० बी० २०-४-१९२३, सीकर	१५-१०-१९४८	२२-१-५१
१७८	श्री ताराचन्द अग्रवाल, बी० ए०, एलएल० बी०, १०-३-१९१३, गंगानगर	१०-१-१९३७	२२-१-५१
१७९	श्री राधेश्यामदास अग्रवाल, एम० ए०, ८-१०-१९१०, जयपुर	१-६-१९३७	•••
१८०	श्री विशम्भरसिंह, बी० ए०, एलएल० बी०, १५-९-१९१५, भरतपुर	१०-३-१९४७	२२-१-५१
१८१	श्री रामचन्द्र हरित, बी० ए०, एलएल० बी०, १-८-१९१२, अलवर	१२-३-१९३५	२२-१-५१
१८२	श्री धर्मप्रकाश, बी० ए०, एलएल० बी०, १०-१-१९०३, कोटा	२१-१०-१९४५	२२-१-५१
१८३	श्री गणेशशंकर द्विवेदी, बी० ए०, एलएल० बी०, ९-७-१९२३, उदयपुर	१८-५-१९४७	२२-१-५१
१८४	श्री बृजबल्लभ मेहता, एम० ए०, एलएल० बी०, १५-१-१९३१, किशनगढ़	१९-७-१९४६	२२-१-५१

वर्तमान पद तथा पद पर नियुक्ति का दिनांक ५	वेतन : ६	विशेष ७
सब डिविजनल ऑफिसर, डीग, २४-१-५७	४००	
सब डिविजनल ऑफिसर, फलीदी, ४-३-५५	४००	
असिस्टेंट कमिश्नर, आबकारी एवं कर विभाग, चित्तौड़गढ़, ७-६-५४	४००	
सैंटिलमैन्ट ऑफिसर, जयपुर, ५-७-५६	४५०	१५० वि०वे०
असिस्टेंट डाइरेक्टर, सोशियल वेलफेयर, २७-३-५७	४००	
सैंटिलमैन्ट ऑफिसर, उदयपुर, २९-३-५७	४००	१५० वि०वे०
सब डिविजनल ऑफिसर एवं विकास अधिकारी, करनपुर, ५-२-५५	४००	७५ वि०वे०
बजट ऑफिसर, ७-४-५४	४७५	१०० वि०वे०
सब डिविजनल ऑफिसर, राजगढ़, अलवर	४००	
सब डिविजनल ऑफिसर, चेचट	४२५	
असिस्टेंट कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, जालोर १७-८-५६	४००	
सब डिविजनल ऑफिसर, अजमेर, १२-११-५६	४००	
असिस्टेंट सैंटिलमैन्ट, ऑफिसर, वल्लभनगर, १२-११-५६	४००	७५ वि०वे०

क्र० सं०	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	रा० प्र० सेवा में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१८५	श्री के० जी० राज, एम० ए०, एलएल० बी०, प्रभाकर, १५-४-१९१८, उदयपुर	१-९-१९४८	२२-१-५१
१८६	श्री रमेशचन्द्र गुप्ता, बी०ए०एलएल० बी०, ८-७-१९२१, अलीगढ़	२-११-१९४५	२२-१-५१
१८७	श्री हुक्मराज भंडारी, बी० ए०, २०-२-१९०८, जोधपुर	२२-१२-१९३०	२२-१-५१
१८८	श्री मोहनसिंह, एम० ए०, एलएल० बी०, २१-१०-१९१७, बीकानेर	१-७-१९४६	२२-१-५१
१८९	श्री गणपतराय, बी०एससी०, एलएल० बी०, २५-८-१९२५, जयपुर	१५-७-१९४८	२२-१-५१
१९०	श्री प्रह्लादराय शर्मा, एम० ए०, एलएल० बी०, १४-२-१९२७, झुझुनू	१७-१-१९४९	२२-१-५१
१९१	श्री सज्जननाथ सोदी, एलएल० बी०, १४-३-१९२६, जोधपुर	२९-१-१९४९	२२-१-५१
१९२	श्री के० महादेवमल सिंघवी, बी०कॉम०, ८-८-१९२७, जोधपुर	१९-४-१९४६	२२-१-५१
१९३	श्री जेठानन्द बी० चन्दनानी बी० ए०, एलएल० बी०, ८-६-१९१४	५-३-१९४९	२२-१-५१
१९४	श्री जगदीशनारायण माथुर, बी० कॉम०, एलएल० बी०, २-७-१९२४, जयपुर	१८-८-१९४९	२२-१-५१
१९५	श्री नरेन्द्रमोहन सक्सेना, एम० ए०, एलएल०, बी०, साहित्य रत्न, ५-२-१९२०, जयपुर	१५-९-१९४५	२२-१-५१
१९६	श्री प्रतापनारायण, सिंघल, एम० ए०, एलएल० बी०, ३०-५-१९१९, अलवर	१९-८-१९५०	१-९-५२
१९७	श्री डी० सी० गोमावत, बी० ए०, (आनर्स), एलएल० बी०, ११-९-१९०२, सिरौही	१३-५-१९२७	२२-१-५१
१९८	श्री दलपतसिंह, बी० ए०, १-१२-१९१०, बीकानेर	३-१२-१९३८	२२-१-५१

वर्तमान पद तथा पद पर नियुक्ति का दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
	४०	
सब डिविजनल ऑफिसर, राजगढ़ (चूरु) २७-१२-५५	३७५	
असिस्टेंट कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, अजमेर	३७५	स्थानान्तर की अवस्था में
डिप्टी डायरेक्टर आफ कन्सोलिडेशन, ३०-३-५७	४७५ १५० वि० वे०	
असिस्टेंट कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, (प्रशिक्षण), बीकानेर, १५-९-५४	४२५	
सब डिविजनल ऑफिसर एवं विकास अधिकारी, मालपुर, १७-१२-५५	४०० ७५ वि० वे०	
सब डिविजनल ऑफिसर, सीकर, १-२-५५	४००	
सिटी मजिस्ट्रेट, भरतपुर	४२५	
सब डिविजनल ऑफिसर, झुन्झुनू, २३-१-५६	४५०	
सहायक कलेक्टर व मजिस्ट्रेट, जोधपुर, १५-९-५३	४२५	
असिस्टेंट सेंटिलमैन ऑफिसर, उदयपुर २७-१-५५	४०० ७५ वि० वे०	
सब डिविजनल ऑफिसर, दौसा, १७-११-५६	४२५	
सब डिविजनल ऑफिसर, अजमेर	४००	
असिस्टेंट कमिश्नर, जागीर, जयपुर	४५०	
असिस्टेंट कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, परवतसर, मुख्यालय नांवां, ९-२-५२	४००	

क्र. सं०	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	रा० प्र० सेवा में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१९९	श्री भुनेश्वरनाथ हुक्कू, २-१-१९०५, जोधपुर	२७-४-१९२६	२२-१-५१
२००	श्री जयन्तीप्रसाद, बी० ए० एलएल० बी०, १३-५-१९१३, हिन्डीन	१५-७-१९३६	२२-१-५१
२०१	श्री विद्यासागर सूद, २७-७-१६, जलन्धर	..	२०-१२-५५
२०२	श्री भंवानीशंकर, शर्मा बी० ए०, एलएल० बी० १५-९-०८, जयपुर	३०-९-१९३६	२२-१-५१
२०३	श्री लालसिंह चौधरी, एम० ए०, एलएल० बी०, १४-१०-२०, बाड़मेर	१२-५-१९४३	१६-६-५२
२०४	श्री दौलतसिंह कोठ यारी, बी० ए०, एलएल० बी०, ३०-९-१९, जोधपुर	२९-१०-१९४२	२२-१-५१
२०५	श्री फतेसिंह, (तृतीय), बी० ए०, एलएल० बी०, १-३-१९१६, जोधपुर	१-७-१९३८	७-७-५४
२०६	श्री जगतप्रकाश, बी० ए०, एलएल० बी०, ९-११-१९१४, जोधपुर	२१-१२-१९४०	२२-१-५१
२०७	श्री मंगलाल सुरेखा, बी० ए०, एलएल० बी०, ४-११-२१, चूरु	११-४-१९४६	२२-१-५१
२०८	श्री गजानन्द, बी० ए०, १-८-२०, गंगानगर	१७-२-१९४४	२२-१-५१
२०९	श्री सुशीलकुमार शर्मा, बी० ए०, एलएल० बी०, ६-१-१७, भरतपुर	६-१-१९४१	२२-१-५१
२१०	श्री मोतीलाल कक्कड़, एम० ए०, एलएल० बी०, १०-२-२१, जोधपुर	१-८-१९४३	२२-१-५१
२११	श्री किरनबाबू, बी० एससी०, एलएल० बी०, १०-६-१९२१, जयपुर	१५-५-१९४३	२२-१-५१
२१२	श्री जुगलबिहारी श्रीवास्तव, एम० ए०, २६-८-१९२२, जयपुर	१५-५-१९४३	२२-१-५१

वर्तमान पद तथा पद पर नियुक्ति का दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
सैटिलमेंट आफिसर, कोटा, २१-७-५६	४००	
डिप्टी डायरेक्टर, कोलोनाइजेशन, हनुमानगढ़, ५-३-५५	४२५ ७५ वि० वे०	
मैनेजर, मंगानगर शुगर फेक्ट्री, मंगानगर, १-७-५६	४२५ ७५ वि० वे०	
असिस्टेन्ट कमिश्नर, खुदकाशत, जयपुर २२-१०-५६	४२५ ७५ वि० वे०	
विकास अधिकारी, सुमेरपुर, २९-५-५५	४५० ७५ वि० वे०	
सब डिविजनल ऑफिसर एवं विकास अधिकारी, बारां, २८-४-५५	३७५ ७५ वि० वे०	
असिस्टेन्ट कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, भरतपुर	३००	
सब डिविजनल ऑफिसर, नागौर, १४-४-५६	३७५	
असिस्टेन्ट कमिश्नर, आवकारी एवं कर विभाग, बीकानेर	३७५ ७५ वि० वे०	
असिस्टेन्ट सैटिलमेंट ऑफिसर, जोधपुर	३७५ ७५ वि० वे०	
सहायक सचिव, सिचाई व सहकारिता विभाग, ७-११-५६	४०० ७५ वि० वे०	
सब डिविजनल ऑफिसर एवं विकास अधिकारी, गिरवा, उदयपुर, १-६-५५	४०० ७५ वि० वे०	
सब डिविजनल ऑफिसर एवं विकास अधिकारी, डोडवाना, १५-१२-५५	४५० ७५ वि० वे०	
असिस्टेन्ट सैटिलमेंट ऑफिसर, कोटा, फरवरी, १९५७	४०० ७५ वि० वे०	

क्रम सं०	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	रा० प्र० सेवा में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
२१३	श्री गोपीनाथ गुप्ता, बी० एससी०, १७-५-१९१५, भरतपुर	१६-१०-१९३६	२२-१-५१
२१४	श्री कृष्णलाल धाभाई, बी० ए०, एलएल०बी०, २५-११-१६, अलवर	१६-११-१९४०	२२-१-५१
२१५	श्री श्रीकान्त कुमार शुक्ला, बी० ए०, एलएल०बी०, २३-२-१७, कानपुर	११-१-१९४४	२२-१-५१
२१६	श्री शिवदत्त शर्मा, एम० ए०, एलएल० बी० साहित्य रत्न, ३०-१-१८, भरतपुर	२०-७-१९४३	२२-१-५१
२१७	श्री के० एन० रतोगी, बी० कॉम० एलएल०बी०, १५-१२-१५, अलवर	२३-९-१९४०	२२-१-५१
२१८	श्री रामकरण गुप्ता, एम० ए०, बी० एससी०, बी० ए०, (ज्योग्राफी) एलएल०बी०, २१-१२-११, अलवर	२७-११-१९३७	२२-१-५१
२१९	श्री हुन्दनलाल चतुर्वेदी, बी० ए०, १८-१-१९१४, भरतपुर	१-२-१९३७	२२-१-५१
२२०	श्री रेवतमल सिधवी, एम० ए०, एलएल० बी०, २-१०-२४, नागौर	३-७-१९४६	२२-१-५१
२२१	श्री गोविन्दनारायण शर्मा, बी० एससी०, एलएल० बी०, २-४-१९१७, जयपुर	१२-८-१९४४	२२-१-५१
२२२	श्री शुभकरण, बी० ए०, एलएल० बी०, १६-८-१९२०, पाली	२८-५-१९४४	२२-१-५१
२२३	श्री नागसिंह, बी० ए०, एलएल० बी०, १-४-१९१८, नागौर	६-९-१९४४	२२-१-५१
२२४	श्री गोपीनाथ एस० राय, बी० ए०, २४-१-१९११, जोधपुर	२७-१०-१९३२	२२-१-५१
२२५	श्री सरदारसिंह, बी० ए०, १९-६-१९१४, बाड़मेर	१-११-१९३४	२२-१-५१

वर्तमान पद तथा पद पर नियुक्ति का दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
सब डिविजनल ऑफिसर, बहरोड़, २०-१०-१९५५	४२५	
सब डिविजनल ऑफिसर एवं विकास अधिकारी, किशनगढ़, बास, १-६-५६	४२५ ७५ वि० वे०	
सिटी मजिस्ट्रेट, जोधपुर, १-११-५६	३७५	
असिस्टेन्ट कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, झालावाड़	३७५ ७५ वि० वे०	
सिटी मजिस्ट्रेट, जयपुर, ३१-५-५५	३७५	
सहायक सचिव, शिक्षा विभाग, जयपुर, २-६-५६	३७५ ७५ वि० वे०	
ब्लॉक डवलपमेंट ऑफिसर, आमेड (राजसमन्द), १९-११-५३	३७५ ७५ वि० वे०	
सब डिविजनल ऑफिसर, बाड़मेर, १४-५-५६	४२५	
सब डिविजनल ऑफिसर, सोजत, १-३-५६	४००	
वन सैटिलमेंट ऑफिसर, कोटा,	४०० १०० वि० वे०	
वन सैटिलमेंट ऑफिसर, जयपुर, २०-८-५६	४०० १०० वि० वे०	
कृषि आयकर अधिकारी, जोधपुर, ३०-८-५६	३७५	
असिस्टेन्ट सैटिलमेंट ऑफिसर, पाली मुख्यालय, जोधपुर	३७५ ७५ वि० वे०	

क्रम सं०	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	रा० प्र० सेवा में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
२२६	श्री रेवतीरमण शर्मा, बी० एससी०, एलएल बी०, ५-२-०७, जयपुर	६-९-१९२९	२२-१-५१
२२७	श्री प्रेमसिंह, बी०एससी०, एलएल बी०, १-१-१९१२, पाली	१४-९-१९३६	२२-३-५१
२२८	श्री खेत्रकुमार सैन, १-५-०५, जयपुर	२६-१०-१९३२	२२-१-५१
२२९	श्री शिवपालसिंह, बी० ए०, १६-११-१९०९, जयपुर	१-१२-१९३२	२२-१-५१
२३०	श्री हरिनारायण माथुर, बी० ए०, १५-६-१९०९, जयपुर	३१-१०-१९३५	२२-१-५१
२३१	श्री कन्हैयालाल गोयल, बी० एससी०, एलएल० बी०, १७-९-१९, कोटा	१-१०-१९४२	२२-१-५१
२३२	श्री नन्दलालसिंह, एम० ए०, एलएल बी०, विशारद, २३-४-१९१३, झुन्झुनू	१-९-१९४२	२२-१-५१
२३३	श्री रामनिवास माथुर, बी० ए०, एलएल० बी०, १८-८-१८, सवाई मधोपुर	१७-३-१९४५	२२-१-५१
२३४	श्री वीरेन्द्रवीर वज, एम० ए०, एलएल० बी०, ८-१२-१९, जयपुर	१८-१-१९४४	२२-१-५१
२३५	श्री कल्याणचन्द्र खूंटेटा, बी० ए०, एलएल० बी०, २-९-१४, जयपुर	२४-४-१९४३	२२-१-५१
२३६	श्री मदनलाल बावेजा, बी० ए०, एल एल० बी०, १४-७-२४, भरतपुर	१०-७-१९४८	१-९-५२
२३७	श्री गोविन्दशरण बी० ए०, एल एल० बी०, २४-१-०९, अलवर	१६-३-१९३५	२२-१-५१
२३८	श्री विशम्भरदयाल शर्मा, बी० ए०, एल एल० बी०, १५-९-१९१९, अलवर	२४-१०-१९४२	२२-१-५१

वर्तमान पद तथा पद पर नियुक्ति का दिनांक ५	वेतन ६	विशेष ७
	४०	
असिस्टेन्ट कमिश्नर, देवस्थान, जयपुर, १६-१०-५६	४००	
असिस्टेन्ट कमिश्नर, आवकारी एवं कर विभाग, उदयपुर, १६-१०-५६	४७५	
असिस्टेन्ट कमिश्नर, आवकारी एवं कर विभाग, जयपुर	४००	
असिस्टेन्ट कमिश्नर, आवकारी एवं कर विभाग, अलवर, ६-१-५३	४००	
सिटी मजिस्ट्रेट, बीकानेर, २२-९-५६	४००	
सब डिविजनल ऑफिसर, अकलेश, २९-१२-५६	४२५	
असिस्टेन्ट चीफ इलेक्शोरल ऑफिसर, जयपुर, ५-११-५६	३७५ ७५ वि० वे०	
असिस्टेन्ट सेंटिलमैन्ट ऑफिसर, झालावाड़, १३-७-५५	४५०	
असिस्टेन्ट सेंटिलमैन्ट ऑफिसर, जयपुर, २२-११-५६	३७५ ७५ वि० वे०	
असिस्टेन्ट कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, उदयपुर, ३१-१-५५	४२५	
असिस्टेन्ट सेंटिलमैन्ट ऑफिसर, सीकर हैड क्वार्टर्स, जयपुर,	३५० ७५ वि० वे०	
असिस्टेन्ट कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, झालावाड़, २७-४-५६	३७५	
असिस्टेन्ट कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, बंगू, ३-१२-५५	४००	

क्र. सं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	रा. प्र. सेवा में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
२३९	श्री रामबाबू कोठ्यारी, एम० ए०, एल एल० बी०, १५-४-१५, भरतपुर	२०-२-१९४५	२२-१-५१
२४०	श्री काशीराम गोयल, एम० ए०, एल एल० बी०, ७-६-१९१९, गंगानगर	२१-६-१९४८	२२-१-५१
२४१	श्री रामचन्द्र शर्मा, एम० ए०, २-१०-१९०४, बीकानेर	९-१०-१९४८	२२-१-५१
२४२	श्री कौशलकुमार नहला, एम० ए०, एल एल० बी०, ३-११-२०, बीकानेर	२५-११-१९४३	२२-१-५१
२४३	श्री गोपालदास केवलिया, एम० ए०, एल एल० बी०, ४-९-०७, जोधपुर	११-१-१९४८	२२-१-५१
२४४	श्री शिवरमनीसिंह, बी० ए०, एल एल० बी०, १-१-१९०८, जयपुर	१-४-१९४८	२२-१-५१
२४५	श्री जे० डी० कोचर, एम० एस सी०, एल एल० बी०, १५-६-१७, बीकानेर	२-३-१९४९	२२-१-५१
२४६	श्री मोतीसिंह सांखला, बी० ए०, बी०, एल० १५-१-१९१४, गंगानगर	२-३-१९४९	२२-१-५१
२४७	श्री खेतपालसिंह, एम० ए०, एल एल० बी०, साहित्य रत्न, १-९-१९११, जयपुर	१८-६-१९४३	२२-१-५१
२४८	श्री एम० बी० मीरचंडानी, बी० ए०, बी०, एस सी०, १०-२-१९०९	१६-११-१९४९	२२-१-५१
२४९	श्री उत्तमचन्द टी० ठाकुर, एम० ए०, एल एल० बी०, पी० एच डी०, १-३-१९१०, उदयपुर	१८-११-१९४९	१-९-५२
२५०	श्री सचामन्द बी० बाडवानी, एम० ए०, एल एल० बी०, १६-१२-१९१६, जंकोवाबाद (सिध)	१४-१२-१९४९	१-९-५२
२५१	श्री जोरावरसिंह, एन० सांडू, बी० ए०, १-१-१९२१, पाली	१३-८-१९४४	१-१-५१

वर्तमान पद तथा पद पर नियुक्ति का दिनांक ५	वेतन ६	विशेष ७
असिस्टेन्ट सेंटिलमैन्ट ऑफिसर, चित्तौड़गढ़, हैंड क्वार्टर्स, उदयपुर, १८-१०-५४	४०० ७५ वि० वे०	
सब डिविजनल आफिसर, हनुमानगढ़, १५-१०-५६	४००	
असिस्टेन्ट कमिश्नर, आवकारी एवं कर विभाग, बीकानेर, १३-६-५६	४२५	
सब डिविजनल ऑफिसर, नोहर, ६-१०-५६	४२५	
असिस्टेन्ट कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, जयपुर, ४-२-५५	३००	
सब डिविजनल ऑफिसर, भरतपुर, ४-१२-५६	३७५	
मैनेजर, इन्डस्ट्रियल एस्टेट, जयपुर, २०-९-५६	३७५	
सिटी मजिस्ट्रेट, उदयपुर, २२-९-५६	४२५	
असिस्टेन्ट कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, वाली, १९-११-५५	३५०	
सहायक कलेक्टर व मजिस्ट्रेट, जोधपुर, २९-९-५६	३७५	
सब डिविजनल ऑफिसर, सिरोही, २०-९-५६	३००	
असिस्टेन्ट कलेक्टर, एवं मजिस्ट्रेट, प्रशिक्षण, उदयपुर,	३५०	
असिस्टेन्ट सेंटिलमैन्ट ऑफिसर, पाली, मुख्यालय, जोधपुर	४०० ७५ वि० वे०	

सं क्रम	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	रा० प्र० सेवा में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
२५२	श्री जसराज जोशी, बी० एससी०, १-१-१९२१, जोधपुर	१-१०-१९४४	२२-१-५१
२५३	श्री फतेहसिंह, (द्वितीय), बी० ए०, १२-४-१९२१, पाली	१६-५-१९४२	२२-१-५१
२५४	श्री कन्हैयालाल शर्मा, एम० ए०, एल एल० बी०, १-९-०४, जयपुर	१७-१२-१९४९	२२-१-५१
२५५	श्री प्रभूशरण, बी० ए०, एल एल० बी०, १-१-१९१२, जयपुर	२०-५-१९४१	२२-१-५१
२५६	श्री गीरीशप्रसाद, बी० ए०, एल एल० बी०, ४-७-१९०९, भरतपुर	३-१-१९४९	२२-१-५१
२५७	श्री अमरचन्द्र सी० बापना, बी० ए०, एल एल० बी०, १८-८-०८, सिरौही	६-१२-१९४०	२२-१-५१
२५८	श्री शंभूसिंह देवरा, बी० ए०, एल एल० बी०, १४-१२-१९१०, सिरौही	६-१२-१९४०	२२-१-५१
२५९	श्री अमरचन्द्र यू० बापना, एम० ए०, एल एल० बी०, ५-५-१८, सिरौही	८-४-१९४५	२२-१-५१
२६०	श्री रामेश्वरदयाल गुप्ता, एम० ए० एल एल० बी०, ८-१-२०, आबू रोड	१४-७-१९४८	२२-१-५१
२६१	श्री श्रीनिवास पुरोहित, बी० कॉम०, बी० एल०, २४-६-११, सीकर	१४-८-१९३७	२२-१-५१
२६२	श्री गणेशदत्त आचार्य, एम० ए०, एल एल० बी०, १४-७-१९०६, जैसलमेर	१८-८-१९४२	२२-१-५१
२६३	श्री गोकुलप्रसाद शर्मा, बी० ए०, एल एल० बी०, १०-११-१९१४, झुंझुनू	२३-८-१९४१	१६-६-५२
२६४	श्री हिम्मतसिंह सरूपारिया, एम० ए०, एल एल० बी०, १०-४-०८, उदयपुर	७-२-१९४९	२२-१-५१
२६५	श्री लक्ष्मीचन्द गुप्ता, एम० कॉम०, १५-५-१९३१, कोटा	२७-८-१९५५	२७-८-५५

वर्तमान पद तथा पद पर निधुक्ति का दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
डिप्टी कलेक्टर (जागीर) टोंक, ८-२-५६	४०० ७५ वि० वे०	
असिस्टेन्ट सैटिलमैन्ट ऑफिसर, सिरोही, ११-८-५६	४७५	
उप-सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर, ६-१-५४	५५० १५० वि० वे०	
सब डिविजनल ऑफिसर, अलवर, १९-१-५७	४२५	
सब डिविजनल ऑफिसर, टोंक, २३-११-५६	४७५	
सिटी मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा, २८-१-५७	३७५	
असिस्टेन्ट कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, जयपुर, १२-८-५५	३७५	
सब डिविजनल आफिसर, ब्रेगू, १९-१-५७	३७५	
सब डिविजनल ऑफिसर, उदयपुर, मुख्यालय, नवलगढ़, ३१-१-५७	३७५	
असिस्टेन्ट कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, किशनगढ़, १०-२-५६	४००	
असिस्टेन्ट कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, कोटा, २३-१२-५५	४२५	
सहायक जिलाधीश एवं मजिस्ट्रेट, बहरोड़, २४-१-५५	३५०	
असिस्टेन्ट कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, जयपुर, २६-९-५६	३७५	
ए० एस० ओ० कम ए० आर० ओ०, जोधपुर	२७५	

क्र. सं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	रा० प्र० सेवा में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
२६६	श्री हरिनारायण माथुर, एम० ए०, १-१०-१९३१, नागौर	२७-८-५५	२७-८-५५
२६७	श्री राजेन्द्रपाल सिंह, १-८-१९२८	२६-८-५५	२६-८-५५
२६८	श्री जनैारायण गौड़, एम० ए०, एलएल० बी०, १-१२-१९३०, नागौर	२७-८-५५	२७-८-५५
२६९	श्री प्रेमसुख महेश्वरी, एम० कॉम० विशारद, १५-११-३१, अजमेर	२७-८-५५	२७-८-५५
२७०	श्री शीतलप्रसाद पुरोहित, एम० ए०, एलएल० बी०, १-१-१९३०, जयपुर	२७-८-५५	२७-८-५५
२७१	श्री रामेश्वरसिंह, एम० ए०, १७-८-२८, झुन्झुनू	२७-८-५५	२७-८-५५
२७२	श्री श्यामसुन्दर जोशी, एम० ए०, १-२-३२, उदयपुर	२७-८-५५	२७-८-५५
२७३	श्री मातादीन शर्मा, एम० ए०, १-४-३०, अलवर	९-९-५५	९-९-५५
२७४	श्री गोपेश्वर भट्ट, एम० ए०, ४-७-१९३०, उदयपुर	२७-८-५५	२७-८-५५
२७५	श्री आनन्द सिंह, एम० ए०, एलएल० बी०, २०-११-१९२६, सादुलपुर, चूरु	२८-८-५५	२८-८-५५
२७६	श्री रामचन्द्र मीना
२७७	श्री सुरेन्द्रप्रसाद गर्ग, एम० ए०, एलएल० बी०, २५-१२-१९१७, जयपुर	सितम्बर, १९४२	२०-१२-५५
२७८	श्री भूरामल व्यास, बी० ए०, एलएल० बी०, १२-६-१९१९	१-१०-४५	२०-१२-५५
२७९	श्री गंगाधर मोदी, २९-१-१९०३, बीकानेर	२८-९-२३	२०-१२-५५

वर्तमान पद तथा पद पर नियुक्ति का दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
	४०	
ए० एस० ओ० कम ए० आर० ओ०, जयपुर	२७५	
असिस्टेन्ट सैटिलमैन्ट आफिसर एवं असिस्टेन्ट रिकार्ड आफिसर, अलवर	२७५	
असिस्टेन्ट कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, बीकानेर	२७५	
असिस्टेन्ट कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर	२७५	
असिस्टेन्ट कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, जोधपुर	२७५	
ए० एस० ओ० कम ए० आर० ओ०, उदयपुर	२७५	
असिस्टेन्ट कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, किशनगढ़	२७५	
असिस्टेन्ट कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, (यू० टी०), जयपुर	२७५	
असिस्टेन्ट कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, जयपुर	२७५	
असिस्टेन्ट कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, (य० टी०), पाली	२७५	
असिस्टेन्ट कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, जोधपुर	२७५	
सहायक जिलाधीश एवं मजिस्ट्रेट, उदयपुर	२७५	
सहायक कलेक्टर, बांसीफुई	२५०	
सहायक जिलाधीश एवं मजिस्ट्रेट, रायसिंहनगर	४२५	

सं क्रम	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	रा० प्र० सेवा में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
२८०	श्री देवीसिंह, (२०-७-११), भरतपुर	१२-१-१९३२	२०-१२-५५
२८१	श्री दयाशंकर शर्मा
२८२	श्री सुरेन्द्रचन्द्र पवारिया
२८३	श्री कन्हैयालाल फोचर
२८४	श्री सज्जन सिंह राणावत
२८५	श्री रत्न कुमार गुप्ता
२८६	श्री हरप्रसाद अग्रवाल
२८७	श्री जसराज चौपड़ा
२८८	श्री सतनारायण खन्डेलवाल
२८९	श्री नरसिंहप्रसाद भट्ट
२९०	श्री प्रवीणचन्द जैन
२९१	श्री मुन्नालाल गोयल
२९२	श्री जैनारायण सिंह
२९३	श्री गणेशदत्त छंगानी
२९४	श्री लक्ष्मणसिंह धाभाई
२९५	श्री जवाहरसिंह रा
२९६	श्री डी० डी० उपाध्याय बी० ए०, (एजी०), १-८-१९०३	१६-९-२९	..
२९७	श्री ए० पी० दीवान, बी० ए०, (ओर्नेस), एलएल० बी०, १६-९-२०	२-६-४४	..

वर्तमान पद तथा पद पर नियुक्ति का दिनांक ५	वेतन ६	विशेष ७
..	४० २७५ ७५ वि० वे०	अवकाश पर
प्रशिक्षणाधीन	२५०	
"	२५०	
"	२५०	
"	२५०	
"	२५०	
"	२५०	
"	२५०	
"	२५०	
"	२५०	
"	२५०	
"	२५०	
"	३५०	
"	४२५	
"	२५०	
"	२५० ७५ वि० वे०	
अतिरिक्त आयुक्त, अजमेर व उदयपुर, मुख्यालय, अजमेर, २८-३-५७	१०५०	
डिप्टी डवलपमेंट कमिश्नर, सोनियर, जयपुर, १-११-५६	८५०	

क्र.सं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	रा० प्र० सेवा में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
२८०	श्री देवीसिंह, (२०-७-११), भरतपुर	१२-१-१९३२	२०-१२-५५
२८१	श्री दयाशंकर शर्मा
२८२	श्री सुरेन्द्रचन्द्र पगारिया
२८३	श्री कन्हैयालाल फोचर
२८४	श्री सज्जन सिंह राणावत
२८५	श्री रत्न कुमार गुप्ता
२८६	श्री हरप्रसाद अग्रवाल
२८७	श्री जसराज चौपड़ा
२८८	श्री सतनारायण खन्डेलवाल
२८९	श्री नरसिंहप्रसाद भट्ट
२९०	श्री प्रवीणचन्द जैन
२९१	श्री मुन्नालाल गोयल
२९२	श्री जैनारायण सिंह
२९३	श्री गणेशदत्त छंगानी
२९४	श्री लक्ष्मणसिंह धाभाई
२९५	श्री जवाहरसिंह रा
२९६	श्री डी० डी० उपाध्याय वी० ए०, (एजी०), १-८-१९०३	१६-९-२९	..
२९७	श्री ए० पी० दीवान, वी० ए०, (ओर्नेस), एलएल० वी०, १६-९-२०	२-६-४४	..

वर्तमान पद तथा पद पर नियुक्ति का दिनांक ५	वेतन ६	विशेष ७
..	४० २७५ ७५ वि० वे०	भवकाश पर
प्रशिक्षणाधीन	२५०	
"	२५०	
"	२५०	
"	२५०	
"	२५०	
"	२५०	
"	२५०	
"	२५०	
"	२५०	
"	२५०	
"	३५०	
"	४२५	
"	२५०	
"	२५० ७५ वि०	
अतिरिक्त आयुक्त, अजमेर व उदयपुर, मुख्यालय, अजमेर, २८-३-५७	१०५०	
डिप्टी डवलपमेन्ट कमिश्नर, सीनियर, जयपुर, १-११-५६	८५०	

क्र. सं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	रा. प्र. सेवा में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
२९८	श्री पी० एन० सेठ, बी० ए०, एलएल० बी०, ५-५-१७	३०-८-४६	..
२९९	श्री ए० एम० डेविड
३००	श्री जी० के० भगत, बी० ए०, एलएल० बी०, १-१२-१०	८-१२-३८	..
३०१	श्री अब्दुल रऊफ, बी० ए०, एलएल० बी०, १७-८-०६	१६-७-३२	..
३०२	श्री पी० डी० खन्ना, बी० ए०, एलएल० बी०, ११-८-०६	१८-३-३४	..
३०३	श्री एच० जी० मेहरा, बी० ए०, एलएल० बी०, २८-१०-२०	८-१०-४१	..
३०४	श्री वी० एन० शर्मा बी० ए० एलएल० बी०, ९-४-२८	१-१०-४५	..

वर्तमान पद तथा पद पर नियुक्ति का दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
अतिरिक्त जिलाधीश, जयपुर, १-११-५६	४० ८५०	
..	..	भारतीय प्रशासन सेवा में नियुक्ति ।
अतिरिक्त जागीर आयुक्त, अजमेर, १-११-५६	८४०	
अतिरिक्त जिलाधीश, अजमेर, १-११-५६	८५०	
डिप्टी कमिश्नर आवकारी व कर विभाग, बीकानेर	६१०	
सेल्सटैक्स ऑफिसर, अजमेर, १-११-५६	४९०	
डिप्टी कलेक्टर, जागीर, अजमेर, १-११-५६	३७५	

खंड

राजस्थान तहसीलदार

तहसीलदार श्रेणी 'ए'

क्र. सं०	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	राजस्थान तह० सेवा में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१	श्री रावत तेजसिंह, १-११-१९१६, श्रीगंगानगर	२-२-४७	१०-१०-५२
२	श्री कल्याणनारायण, विशारद, २-१२-१९०२, जयपुर	५-५-२८	१०-१०-५२
३	श्री गौरीशंकर आचार्य	..	१०-१०-५२
४	श्री लूनसिंह		१०-१०-५२
५	श्री मदनप्रताप खूंटेटा, एम०ए०, एलएल० बी०, २७-७-१०, जयपुर	१४-१२-४०	१०-१०-५२
६	श्री दौलतसिंह, १२-११-१९१३, अलवर	१-१०-३५	१०-१०-५२
७	श्री चिमनसिंह, २८-५-१९१७, सीकर	८-६-३५	१०-१०-५२
८	श्री हनुमानसहाय पुरोहित, बी० ए०, २-१२-१९०२	१-९-२५	१०-१०-५२
९	श्री नवरतन वर्मा, ५-४-१९१५, जयपुर	१३-११-४४	१०-१०-५२
१०	श्री दानसिंह, १४-१२-१९२३, जैसलमेर	१-३-४९	१०-१०-५२

४

सेवा के अधिकारी

(नाम ज्येष्ठतानुसार नहीं हैं)

वर्तमान पद तथा पद पर नियुक्ति का दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
मजिस्ट्रेट (ट्रेनिंग), चूरू	६०	
विशिष्ट मजिस्ट्रेट, मनी सरक्यूलेटिंग एजेंसी, जयपुर		स्थानापन्न
डिप्टी डायरेक्टर, कोलोनाईजेशन, नोहर		स्थानापन्न
अतिरिक्त जिलाधीश एवं मजिस्ट्रेट, हिन्डीन		स्थानापन्न
असिस्टेन्ट कमिश्नर, आवकारी एवं कर विभाग, चूरू, २१-९-५५		स्थानापन्न
असिस्टेन्ट सेंटिलमेन्ट आफिसर, ५-७-५४		स्थानापन्न
असिस्टेन्ट कमिश्नर, देवस्थान विभाग, जयपुर, ३०-१-५६		स्थानापन्न
असिस्टेन्ट कमिश्नर, आवकारी व कर विभाग, झुन्झुनू, २०-१०-१९५३		स्थानापन्न
असिस्टेन्ट कमिश्नर, आवकारी व कर विभाग, जोधपुर		स्थानापन्न

यूनिर्सिपल बोर्ड, बोकानेर की सेवा में प्रतिनियुक्ति पर।

'बी' श्रेणी के तहसीलदारों एवं

अजमेर खंड

क्र. सं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	ज्ञासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	राजस्थान तह० सेवा में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१	श्री जयसिंह, बी० ए०, एलएल० बी०, १-४-१४, आगरा	४-९-४२	१०-१०-५२
२	श्री रामशेरसिंह, १-७-१९०२, भरतपुर	५-४-२६	१०-१०-५२
३	श्री देवीराम गुप्ता, बी० ए०, साहित्यरत्न, ३१-७-१९०३, भरतपुर	६-६-३२	१०-१०-५२
४	श्री गंगासिंह, बी० ए०, १५-७-१५, भरतपुर	५-११-४२	१०-१०-५२
५	श्री विशनकुमार भटनागर, २८-९-०२, सवाईमाधोपुर	१३-५-१९	१०-१०-५२
६	श्री रामचन्द्रसिंह, ३०-९-१३, कुम्हेर, भरतपुर	२५-७-३४	१०-१०-५२
७	श्री सैय्यदअब्दुल गफ्फार, बी० ए०, एलएल० बी०, १९-७-१२, सवाई माधोपुर	५-१०-४३	१०-१०-५२
८	श्री अगमसिंह, बी० ए०, १-२-१९०६, झुंझुनू	१४-८-३१	१०-१०-५२
९	श्री मोहनसिंह, १६-२-१६, महरोली (सीकर)	९-१०-३९	१०-१०-५२
१०	श्री शिवगोपाल कमठान, बी० ए०, एलएल० बी०, ९-२-१८, भरतपुर	१८-१०-४७	१०-१०-५२
११	श्री आनन्दीलाल पारीक, बी० ए०, २-५-०९, नीम का थाना, सीकर	नवम्बर, १९३६	१०-१०-५२
१२	श्री देवीचरण गोयल, २७-१-०८, जयपुर	३-१-२६	१०-१०-५२
१३	श्री गुलावराम सक्सेना, २४-३-०४, दबीहाभिन्ड (मध्यप्रदेश)	१०-१०-२८	१०-१०-५२
१४	श्री चन्द्रभानसिंह, १२-३-१२, जयपुर	१-९-३१	१०-१०-५२

स्थानापन्न तहसीलदारों की सूची

(नाम ज्येष्ठतानुसार)

कार्य-स्थान, तहसील का नाम	जिला	मेजिस्ट्रेरियल पावर	वेतन	विशेष
५	६	७	८	९
किशनगढ़	अजमेर	द्वितीय श्रेणी	६०	
राजाखेड़ा	भरतपुर	द्वितीय श्रेणी		अतिरिक्त तहसीलदार
रूपवास	भरतपुर	द्वितीय श्रेणी		
नगर	भरतपुर	द्वितीय श्रेणी		
टोडारायसिंह	टोंक	द्वितीय श्रेणी		
नदबई	भरतपुर	द्वितीय श्रेणी		
सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर	द्वितीय श्रेणी		अतिरिक्त तहसीलदार
सिकराय	जयपुर	तृतीय श्रेणी		
बांदीकुई	जयपुर	द्वितीय श्रेणी		तहसीलदार एवं खंड- विकास अधिकारी
बयाना	भरतपुर	द्वितीय श्रेणी		
दांता रामगढ़	सीकर	द्वितीय श्रेणी		
डीग	भरतपुर	द्वितीय श्रेणी		
करोली	सवाई माधोपुर	द्वितीय श्रेणी		
दौसा	जयपुर	द्वितीय श्रेणी		

क्र. सं०	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	राजस्थान तह० सेवा में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१५	श्री अहमदहुसैन कुरेशी, १-४-१९०७, जयपुर	२०-६-३४	१०-१०-५२
१६	श्री रूपनारायण, एम० ए०, एलएल० बी०, १७-९-१९१८, भरतपुर	२-११-४२	१०-१०-५२
१७	श्री लीलाधर पाठक, बी०ए०, एलएल० बी०, ९-७-१३, अलीगढ़ (यू०पी०)	७-४-३८	१०-१०-५२
१८	श्री मेजर रूपसिंह, ११-९-२०, जयपुर	१-१-४६	१०-१०-५२
१९	श्री अहतशामुद्दीनखां, ८-८-१६, टोंक	१-१०-३४	१०-१०-५२
२०	श्री चिरंजीलाल, बी० ए०, १४-४-०४, जयपुर	१७-१-३५	१०-१०-५२
२१	श्री बालकृष्ण शर्मा, एम० ए०, एलएल० बी०, १२-१०-२१, सीकर	१-७-४८	१०-१०-५२
२२	श्री रत्नचन्द पारख, बी० ए०, एलएल० बी०, १५-८-११, जयपुर	५-४-४९	१०-१०-५२
२३	श्री तेजनारायण टिक्कू, ६-७-१९१४, जयपुर	२१-१२-३५	६-११-५२
२४	श्री मदनगोपाल, बी० ए०, ४-८-१९०९, मुलतान (पंजाब)	२५-१०-४८	१०-१०-५२
२५	श्री गोपाललाल शर्मा, बी० ए०, हिन्दी (आनर्स), १८-९-१९०७, भरतपुर	१-५-३२	१०-१०-५२
२६	श्री कालीचरणकिशोर, बी० ए०, ९-२-१९०५, अलवर	२०-११-२९	१०-१०-५२
२७	श्री देवीप्रसाद चतुर्वेदी, १०-९-११, मथुरा (यू०पी०)	१५-१२-३९	१०-१०-५२
२८	श्री राजेश्वरदयाल, बी० ए०, एलएल० बी०, १-१०-१८, अलवर	१-१२-४२	१०-१०-५२

Mse 492
6088

अधिकारि-सूची

१०१

कार्य-स्थान तहसील का नाम	जिला	मेजिस्टेरियल पावर	वेतन	विशेष
५	६	७	८	९
निवाई	टाँक	तृतीय श्रेणी	२०	
राजाखेड़ा	भरतपुर	द्वितीय श्रेणी		तहसीलदार एवं विकास खंड-अधिकारी
धौलपुर	भरतपुर	द्वितीय श्रेणी		
बस्सी	जयपुर	द्वितीय श्रेणी		अतिरिक्त तहसीलदार
लक्ष्मणगढ़	सीकर	तृतीय श्रेणी		अतिरिक्त तहसीलदार
लालसोट	जयपुर	द्वितीय श्रेणी		
महुवा	सवाई माधोपुर	द्वितीय श्रेणी		तहसीलदार एवं विकास खंड-अधिकारी
रूपनगढ़	अजमेर	तृतीय श्रेणी		
खंडार	सवाई माधोपुर	तृतीय श्रेणी		
वंर	भरतपुर	द्वितीय श्रेणी		
हिन्डीत	सवाई माधोपुर	द्वितीय श्रेणी		
तिजारा	अलवर	द्वितीय श्रेणी		तहसीलदार एवं विकास खंड-अधिकारी
लक्ष्मणगढ़	अलवर	द्वितीय श्रेणी		
सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर	द्वितीय श्रेणी		तहसीलदार एवं विकास खंड-अधिकारी

क्र. सं०	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	राजस्थान तह० सेवा में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
२९	श्री चांदमल जैन, बी० ए०, १५-४-२४, टोंक	१-६-४७	१-१-५६
३०	श्री सवाईसिंह भंडारी, बी० ए०, १-१-१०, किशनगढ़ (अजमेर)	१३-३-३७	१-१-५६
३१	श्री रामजीलाल करासाया, बी० ए०, १३-१-१३, हुम्हेर, भरतपुर	१६-६-३७	१-१-५६
३२	श्री जगपतिसिंह, बी० ए०, १८-७-१२, नगर, भरतपुर	१२-१-४९	१-१-५६
३३	श्री सोमनाथ संत, १०-६-०२, पाकिस्तान	४-३-२६	१-१-५६
३४	श्री सत्यवृत्त शर्मा, बी० ए०, एलएल० बी०, २-४-१४, बल्लभगढ़, तहसील बौर, भरतपुर	१-५-३९	१-१-५६
३५	श्री सवाईसिंह मेहता, बी० ए०, १८-६-१०	१-७-४४	१-१-५६
३६	श्री राधाकृष्ण शर्मा, बी० ए०, ४-२-१९१४, जयपुर	६-११-३५	१-१-५६
३७	श्री जोरावरमल पाटनी, बी० ए०, एलएल० बी०, २-३-१९, जयपुर	५-२-४६	१-१-५६
३८	श्री लक्ष्मीशरण, १४-१-०८, अमशिहा, मुरादाबाद (यू० पी०)	२७-१०-५२	१-१-५६
३९	श्री बृजकिशोर, बी० ए०, एलएल० बी०, ३०-५-१९, अलवर	२५-७-४९	१-१-५६
४०	श्री अचपलसिंह शर्मा, १३-१२-१९०२, मेरठ (यू० पी०)	२७-५-२२	१-१-५६
४१	श्री सूरजनारायण भार्गव, बी० ए०, १३-१-१३, जयपुर	२५-५-३४	१-१-५६
४२	श्री अमीनूर्रहमान नियाजी, बी० एससी०, १-२-१९२२, जयपुर	१-१०-४५	१-१-५६

कार्य-स्थान, तहसील का नाम	जिला	मेजिस्टेरियल पावर	वेतन	विशेष
५	६	७	८	९
बौली	सवाई माधोपुर	द्वितीय श्रेणी	६०	
हूह	जयपुर	तृतीय श्रेणी		
चिड़ावा	सुन्दरुनू	द्वितीय श्रेणी		तहसीलदार एवं विकास खंड-अधिकारी
कामां	भरतपुर	द्वितीय श्रेणी		
संगापुर	सवाई माधोपुर	द्वितीय श्रेणी		
अलवर	अलवर	द्वितीय श्रेणी		
अलीगढ़	ढोंक	द्वितीय श्रेणी		
जयपुर	जयपुर	तृतीय श्रेणी		तहसीलदार एवं विकास खंड-अधिकारी
झंराठ	जयपुर	तृतीय श्रेणी		
फतेहपुर	तोकर	द्वितीय श्रेणी		
ढोंक	ढोंक	द्वितीय श्रेणी		तहसीलदार एवं विकास खंड-अधिकारी
कोटयुतली	जयपुर	तृतीय श्रेणी		
टोडाभौम	सवाई माधोपुर	तृतीय श्रेणी		
नामनबास	सवाई माधोपुर	द्वितीय श्रेणी		

क्रम सं०	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में नियुक्ति का दिनांक	राजस्थान तह० सेवा में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
४३	श्री जयकुमार जैन, बी० ए०, एलएल० बी०, २१-७-१९२१, जयपुर	१६-७-४२	१-१-५६
४४	श्री गुरुचरणसिंह, १-९-१९१३, जयपुर	७-९-५१	१-१-५६
४५	श्री पृथ्वीसिंह, बी० ए०, १४-४-१०, गुडगांव	४-२-५२	१-१-५६
४६	श्री महावीरप्रसाद सक्सेना, बी० ए०, एलएल० बी०, १-१०-१९, धौलपुर	४-१-५४	४-१-५४
४७	श्री ए० शर्मन, बी० एससी०, बी० एजी०, ५-१-१९०७	२७-७-३५	१-११-५६

कार्य स्थान, तहसील का नाम	जिला	मेजिस्टेरियल पावर	वेतन	विशेष
५	६	७	८	९
बस्ती	जयपुर	द्वितीय श्रेणी	६०	तहसीलदार एवं विकास खंड-अधिकारी
जयपुर	जयपुर	तृतीय श्रेणी		अतिरिक्त तहसीलदा
बसेड़ी	भरतपुर	तृतीय श्रेणी		तहसीलदार एवं विका खंड-अधिकारी
बाड़ी	भरतपुर	द्वितीय श्रेणी		इनका नाम राजस्व मंडल के आदेश संख्य १८४८, दिनांक ८-३ ५७ के द्वारा प्राप्त की सूची में नहीं है (जागीर कर्मचारी)
अजमेर	अजमेर	द्वितीय श्रेणी		

स्थानापन्न तहसीलदारों की सूची

अजमेर

क्रम सं०	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	राजस्थान तह० सेवा में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१	श्री अयाजुद्दीन, ८-१०-०८, टोंक	८-८-२९	४-१-५५
२	श्री मोहम्मद जमन खां, १५-१२-१६, टोंक	जुलाई, १९४१	११-११-५४
३	श्री भौरीलाल गुप्ता, १-९-०२, बानसूर, अलवर	१५-५-२०	२८-११-५४
४	श्री रमेशचन्द्र जोशी, २४-५-०३, अलवर	६-९-२२	२१-१२-५४
५	श्री रामानन्द, बी० ए०, २८-१२-०७, बानसूर, अलवर	१४-३-३५	१७-१२-५५
६	श्री भंवरलाल, २३-१०-१३, तीकर	४-१०-५५	४-१०-५५
७	श्री सूरज प्रकाश शर्मा, ४-२-२२, जिला रावल पिन्डी, पाकिस्तान	९-२-४२	२९-११-५५
८	श्री नोरतनमल, १७-११-०६, अजमेर	१९-१०-३०	१८-११-५४
९	श्री मोतीलाल भारद्वाज, बी० ए०, एलएल० बी०, २७-२-२३, करोली, सवाई माधोपुर	३-७-४७	६-१२-५५
१०	श्री छीतरमल, ११-९-१७, अलवर	१-४-३९	१५-१२-५५
११	श्री सुन्दरलाल महर्षि, बी० ए०, २५-७-१६, कोटपुतली, जयपुर	५-१२-४०	३-१२-५५
१२	श्री रूपनारायण, बी० ए०, एलएल० बी०, २५-९-२०, भरतपुर	२८-१०-४४	२१-१२-५५
१३	श्री श्रीनारायण, बी० ए०, ५-१२-२४, राजगढ़, अलवर	१-१०-४७	२४-१२-५५
१४	श्री भीम सिंह, बी० ए०, एलएल० बी०, विशारद, ६-३-२५, अलवर	१९-४-४६	३०-१२-५५

(ज्येष्ठतानुसार)

खंड

का स्थान, तहसील का नाम	जिला	मेजिस्टेरियल पावर	वेतन	विशेष
५	६	७	८	९
अराई	अजमेर	तृतीय श्रेणी	२०	
सरवाड़	अजमेर	तृतीय श्रेणी		
आमेर	जयपुर	तृतीय श्रेणी		
उदयपुरवाटी	झुझुनू	तृतीय श्रेणी		
लछमनगढ़	अलवर	तृतीय श्रेणी		अतिरिक्त तहसीलदार
बसेड़ी	भरतपुर	तृतीय श्रेणी		अतिरिक्त तहसीलदार, (जागीर कर्मचारी)
भरतपुर	भरतपुर	तृतीय श्रेणी		
कोकड़ी	अजमेर	द्वितीय श्रेणी		
बहरोड	अलवर	द्वितीय श्रेणी		
थानागाजी	अलवर	तृतीय श्रेणी		
सालपुरा	टोंक	तृतीय श्रेणी		
चिड़ावा	झुझुनू	द्वितीय श्रेणी		अतिरिक्त तहसीलदार
ब्रानहूर	अलवर	तृतीय श्रेणी		
दूनी	टोंक	तृतीय श्रेणी		

क्र. सं०	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	राजस्थान तह०सेवा में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१५	श्री कन्हैयालाल सेनी, बी० कॉम०, एलएल० बी०, २३-४-२४, अलवर	२३-४-४८	११-१-५६
१६	श्री भोतराम, बी० ए०, एलएल० बी०, २-१-२३, अलवर	१८-४-४८	१७-१-५६
१७	श्री कालूराम चौधरी, बी० ए०, २८-११-२३, भरतपुर	२७-४-४८	७-१-५६
१८	श्री दशरथसिंह, बी० ए०, ३-१-२२, भरतपुर	२८-४-४८	२७-२-५६
१९	श्री फूलचंद, बी० ए०, २३-२-२४, बहरोड, अलवर	९-५-४८	२६-१-५६
२०	श्री पुरेन्द्र सिंह, बी० ए०, ८-८-२६, अलवर	३-६-४८	८-११-५६
२१	श्री अलबेल सिंह, ९-१०-१३, भरतपुर	१२-९-३८	२१-२-५६
२२	श्री कुन्दन लाल गुप्ता, १३-७-१३, बीकानेर	१६-११-३२	२३-१०-५५
२३	श्री रामेश्वरसिंह भार्गव, १५-१०-०६	३१-७-२६	१-३-५६
२४	श्री श्रीकिशन, ८-१२-०४, अजमेर	२८-१२-१८	१६-११-५४
२५	श्री रामप्रसाद कश्यप, १५ श्रावण सं१९७१, बीकानेर	२९-१२-२८	१२-३-५६
२६	श्री अवरार हुसेन खां, बी० ए०, २८-१२-१३, जयपुर	१-१२-३९	२७-१०-५६
२७	श्री चन्द्रसिंह बराड़, ८-६-१८, करनपुर, बीकानेर	८-१-४०	१२-३-५६
२८	श्री विश्वेन्द्रपाल सिंह, बी० ए०, १६-७-२३	मई, १९४५	२०-१०-५६
२९	श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा, ९-९-०७, जयपुर	१-११-२६	१५-१०-५६
३०	श्री ओंकार प्रसाद, बी० ए०, एलएल० बी०, (प्रथम वर्ष), ११-२-२७, अलवर	१-९-४७	६-१०-५६

कार्य-स्थान, तहसील का नाम ५	जिला ६	मेजिस्ट्रेरियल पावर ७	वेतन ८	विशेष ९
तिजारा	अलवर	द्वितीय श्रेणी	२०	अतिरिक्त तहसीलदार
उदयपुरवाटी	झुन्झुनू	तृतीय श्रेणी		तहसीलदार एवं विकास खंड-अधिकारी
राजगढ़	अलवर	द्वितीय श्रेणी		
सपोटरा	सवाई माधोपुर	तृतीय श्रेणी		
फागी	जयपुर	तृतीय श्रेणी		
मंडावर	अलवर	तृतीय श्रेणी		
श्रीमाधोपुर	सीकर	तृतीय श्रेणी		
सांगानेर	जयपुर	तृतीय श्रेणी		
चाकसू	जयपुर	••		
व्यावर	अजमेर	द्वितीय श्रेणी		
सीकर	सीकर	तृतीय श्रेणी		
लक्ष्मणगढ़	सीकर	••		तहसीलदार एवं विकास खंड-अधिकारी
जमवारागढ़	जयपुर	तृतीय श्रेणी		
महुवा	सवाई माधोपुर	तृतीय श्रेणी		अतिरिक्त तहसीलदार
नीम का थाना	सीकर	••		
खेतडी	झुन्झुनू	द्वितीय श्रेणी		

सं. क्रम	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	राजस्थान तह० सेवा में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
३१	श्री विनोदीलाल शर्मा, बी० ए०, एलएल० बी०, ८-६-२१, अलवर	१६-१०-४७	४-१०-५६
३२	श्री विश्वम्भर नाथ पाठक, २२-८-०४	१७-७-२९	२२-१-५७
३३	श्री चन्द्र गुप्त, अग्रवाल, १-१२-०८	..	१३-२-५७
३४	श्री चाणक्य प्रसाद, २६-७-१४, बीकानेर	२३-११-३२	१४-३-५७
३५	श्री गुरुब्रह्म राय, ७-११-०५, बीकानेर	६-६-२७	१२-३-५७
३६	श्री विक्रम सिंह, २३-१०-२३	१-४-४०	६-२-५७
३७	श्री गंगाप्रसाद अग्रवाल बी० ए०, एलएल० बी०, २९-१२-०९, जगनेर (आगरा)	१६-९-५४	१६-९-५४
३८	श्री श्रीनारायण, एम०ए०, एलएल० बी०, २-१०-२३, अजमेर	१९-८-४७	१३-९-५५
३९	श्री भीमपाल सिंह, राठीड़, बी० ए०, १-१-२२, अजमेर	४-१०-४४	२-५-५५

कार्य-स्थान, तहसील का नाम ५	जिला ६	मेजिस्ट्रेटियल पावर ७	वेतन ८	विशेष ९
बसवा	जयपुर	तृतीय श्रेणी	₹०	अतिरिक्त तहसीलदार
ढोंक	ढोंक	..		अतिरिक्त तहसीलदार
नादोती	सवाई साधोपुर	..		
फुलेरा	जयपुर	..		
झुन्झुनू	झुन्झुनू	..		
किशनगढ़	अलवर	तृतीय श्रेणी		
..		आयुक्त, अजमेर खड अजमेर के कार्यवाहक निजी सहायक
अजमेर	अजमेर	द्वितीय श्रेणी		अतिरिक्त तहसीलदार
कोकड़ी	अजमेर	द्वितीय श्रेणी		अतिरिक्त तहसीलदार

जोधपुर खण्ड

क्रम सं०	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	राजस्थान तहसीलदार सेवा में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१	श्री पन्नालाल मेहसानो, बी० ए०, उदयपुर,	१८-७-३६	१०-१०-५२
२	श्री गोविन्दसिंह, बी० ए०, एलएल० बी०, जोधपुर	सितम्बर, १९३४	१०-१०-५२
३	श्री श्री कृष्ण टोंक, एम० ए०, एलएल० बी०, जोधपुर,	८-४-४६	१०-१०-५२
४	श्री रावतसिंह चांदमा, जोधपुर	१५-९-३४	१०-१०-५२
५	श्री राधाकृष्ण त्रिपाठी, बी० ए०, एलएल० बी०, जोधपुर,	१-१-४४	१०-१०-५२
६	श्री सत्यदेव आर्य, एम० ए०, एलएल० बी०, पांचोटीया, पाली	१-४-४०	१०-१०-५२
७	श्री दुर्गाचन्द्र, बी० ए०, एलएल० बी०, जोधपुर,	३-१२-३५	१०-१०-५२
८	श्री पारसमल, बी० ए०, एलएल० बी०, जोधपुर,	४-११-३८	१०-१०-५२
९	श्री बालकृष्ण बोहरा, बी० ए०, एलएल० बी०, जोधपुर,	२३-७-४४	१०-१०-५२
१०	श्री मुकटबिहारी लाल, एम० ए०, एलएल० बी०, जोधपुर,	११-५-४३	१०-१०-५२
११	श्री श्यामबिहारी चंद, बी० ए०, एलएल० बी०, जोधपुर,	११-५-४३	१०-१०-५२

(नाम ज्येष्ठतानुसार)

कार्य-स्थान तहसील का नाम	जिला	मेजिस्टेरियल पावर	वेतन	विशेष
५	६	७	८	९
पचपदरा	वाड़मेर	द्वितीय श्रेणी	६०	
जैतारण	पाली	द्वितीय श्रेणी		
सांचोर	जालोर	द्वितीय श्रेणी		
नाचना	जैसलमेर	द्वितीय श्रेणी		
बिलाड़ा	जोधपुर	द्वितीय श्रेणी		तहसीलदार एवं विकास खंड-अधिकारी
सोजत	पाली	द्वितीय श्रेणी		
लाडनू	नागौर	द्वितीय श्रेणी		तहसीलदार एवं विकास खंड-अधिकारी
नावा	नागौर	द्वितीय श्रेणी		
देसूरी	पाली	द्वितीय श्रेणी		तहसीलदार एवं विकास खंड-अधिकारी
रायपुर	पाली	द्वितीय श्रेणी		
ओसियां	जोधपुर	द्वितीय श्रेणी		तहसीलदार एवं विकास खंड-अधिकारी

क्र. सं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	राजस्थान तहसीलदार सेवा में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१२	श्री गोपालसिंह, बी० एससी०, एलएल० बी०, नारवा, जोधपुर	६-९-४७	१०-१०-५२
१३	श्री हरदत्त सारस्वत, एम० ए०, एलएल० बी०, जोधपुर	१०-१०-४७	१०-१०-५२
१४	श्री मदनलाल व्यास, बी० ए०, एलएल० बी०, जोधपुर	९-६-३१	७-९-५३
१५	श्री दामोदरलाल माथुर, बी० ए०, एलएल० बी०, जयपुर	२५-५-५७	१०-१०-५२
१६	श्री भवानी सिंह, बी० ए०, गलथनी, पाली	१-११-४१	१०-१०-५२
१७	श्री गोविन्द नारायण माथुर, बी० ए०, एलएल० बी०, जोधपुर	१४-५-४०	१-१-५६
१८	श्री तिलकराम, बेसमालकाना, हिसार	१-५-२६	१-१-५६
१९	श्री सिमरथमल हरण, बी० ए०, सिरोही,	१४-८-४०	१-१-५६
२०	श्री कामता प्रसाद, बी० ए०, चौथ का वरवाड़ा, सवाई साधोपुर	२९-७-२९	१-१-५६
२१	श्री बल्लभसिंह, बी० ए०, जोधपुर	३-१२-३४	१-१-५६
२२	श्री गौरीवल्लभ, बी० ए०, एलएल० बी०, जोधपुर	२-९-३९	१-१-५६
२३	श्री सूरजमल, बी० ए०, एलएल० बी०, बीकानेर
२४	श्री रघुनाथसिंह, बी० ए०, एलएल० बी०
२५	श्री रामेश्वर दयाल, बी० ए०, एलएल० बी०, मुरादाबाद	३-४-३५	१-१-५६

कार्य-स्थान, तहसील का नाम	जिला	मेजिस्टेरियल पावर	वेतन	विशेष
५	६	७	८	९
आबू रोड	सिरोही	द्वितीय श्रेणी	रु०	तहसीलदार एवं विकास खंड-अधिकारी
निजी सहायक, आयुक्त, जोधपुर	जोधपुर	द्वितीय श्रेणी		
पाली	पाली	द्वितीय श्रेणी		
फलोदी	जोधपुर	द्वितीय श्रेणी		
खारची	पाली	द्वितीय श्रेणी		तहसीलदार एवं विकास खंड-अधिकारी
शेरगढ़]	जोधपुर]	द्वितीय श्रेणी		
जायल]	नागौर	द्वितीय श्रेणी		
सिरोही	सिरोही	द्वितीय श्रेणी		
परवतसर]	नागौर	द्वितीय श्रेणी		
शिव	बाड़मेर	द्वितीय श्रेणी		तहसीलदार एवं विकास खंड-अधिकारी
डीडवाना	नागौर	द्वितीय श्रेणी		
फतेहगढ़]	जैसलमेर	द्वितीय श्रेणी		
पीकरण	जैसलमेर	द्वितीय श्रेणी		
सिवाना	बाड़मेर	द्वितीय श्रेणी		

क्र. सं०	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	राजस्थान तहसीलदार सेवा में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
२६	श्री किशनमल जौहरी, बी० ए०, एलएल० बी०, जोधपुर,	१६-४-५५	१६-४-५५
२७	श्री अक्षय कुमार, बी०एससी०, एलएल० बी०, मथुरा,	१५-३-५५	१५-३-५५
२८	श्री किशनगोपाल, बी०ए०, एलएल० बी०, रामसर, अजमेर	२७-५-५५	२७-५-५५
२९	श्री ए० एच० थोमस, बी० ए०, जोधपुर,	१०-१-५३	१०-१-५३

कार्य-स्थान. तहसील का नाम ५	जि.डा ६	मेजिस्टेरियल पावर ७	वेतन ८ २०	विशेष ९
बिलाड़ा	जोधपुर	द्वितीय श्रेणी		अपेक्षाकरण कमी तक तय नहीं हुआ है।
नागौर	नागौर	द्वितीय श्रेणी		"
देसूरी	पाली	द्वितीय श्रेणी		"
बाड़मेर	बाड़मेर	द्वितीय श्रेणी		बन्याई

स्थानापन्न तहसीलदारों की सूची

क्रम सं०	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	राजस्थान तहसीलदार सेवा में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१	श्री चतुर्भुज मिस्त्री, १-११-१०, सिरौही	१-५-२९	११-२-५५
२	श्री मोर्डासिंह राणावत, ३१-८-०७, सादड़ी	१-१०-३७	१५-१-५४
३	श्री मूलराज धारीवाल, बी० ए०, एलएल०बी०, २७-११-१९१६, भोपालगढ़	९-५-३६	७-१-५६
४	श्री श्रीनाथ, बी० ए०, ५-७-१९१२, जोधपुर	५-२-३५	७-२-५६
५	श्री श्यामलाल माथुर, एम०ए०, एलएल० बी०, ७-७-२३, जोधपुर	१३-५-४६	१०-१-५५
६	श्री उमाचरण, एम०ए०, एलएल० बी०, २५-९-१९२१, जोधपुर	२-८-४७	२१-११-५५
७	श्री श्रीवल्लभ शर्मा, बी० ए०, एलएल० बी०, १५-१०-१९०९, जोधपुर	२८-३-४९	२-१-५६
८	श्री जगदीशचन्द्र मंगल, बी० कॉम०, एलएल० बी०, १५-१-१९२२, जोधपुर	२६-३-४९	२८-१-५६
९	श्री लायकअहमद, २३-६-०४, बीकानेर	२०-६-३५	१०-२-५६
१०	श्री तुमरमल मेहता, बी० ए०, एलएल० बी०	३१-७-४७	२६-९-५६
११	श्री फतेहचन्द, १-७-१९०६, बिदासर (चूह)	७-२-२४	१२-३-५६
१२	श्री घनश्यामसिंह	..	१०-१०-५६
१३	श्री इकबालसिंह	..	१५-१०-५६
१४	श्री मोहम्मदखां, जोधपुर	१-१२-३२	२५-१०-५६

(नाम ज्येष्ठतानुसार नहीं हैं)

कार्य-स्थान, तहसील का नाम	जिला	मेजिस्टेरियल पावर	वेतन	विशेष
५	६	७	८	९
जसवंतपुरा	जालौर	द्वितीय श्रेणी	६०	
फतेहगढ़	जंसलमेर	द्वितीय श्रेणी		
मेड़ता	नागौर	द्वितीय श्रेणी		
सम	जंसलमेर	द्वितीय श्रेणी		
शिवगंज	सिरोही	द्वितीय श्रेणी		
जोधपुर	जोधपुर	द्वितीय श्रेणी		
जालौर	जालौर	द्वितीय श्रेणी		
चौहटन	बाड़मेर	तृतीय श्रेणी		
डेगाना	नागौर	तृतीय श्रेणी		
खारची	पाली			
जंसलमेर	जंसलमेर	द्वितीय श्रेणी		
पिन्डवाड़ा	सिरोही	तृतीय श्रेणी		
ओसियां	जोधपुर	तृतीय श्रेणी		
रेवदर	सिरोही	तृतीय श्रेणी		

क्र. सं०	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	राजस्थान तहसीलदार सेवा में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१५	श्री विठ्ठलदास, बी० ए०, एलएल० बी०, जोधपुर	१३-१०-४७	१५-२-५७
१६	श्री प्रफुल्लचन्द्र, बी० ए०, एलएल० बी०, जोधपुर	१३-१-४९	अक्टूबर, १९५६
१७	श्री सहसकरन, बी० ए०, पांचोटीया, पाली	१४-१-४९	८-१२-५६
१८	श्री सुखराज, बी० ए०, एलएल० बी०, जोधपुर
१९	श्री चंडीदान, बी० ए०, एलएल० बी०, जोधपुर	३०-७-४७	५-३-५७

कार्य-स्थान, तहसील का नाम ५	जिला ६	मेज़िस्टेरियल पावर ७	बेतन ८	विशेष ९
बाली	पाली	तृतीय श्रेणी	६०	
लाडनू	नागौर	तृतीय श्रेणी		
शिव	बाड़मेर	तृतीय श्रेणी		
आहीर	जालोर	तृतीय श्रेणी		
रामगढ़	जैसलमेर	द्वितीय श्रेणी		

कोटा खण्ड

क्रम सं०	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	राजस्थान तहसीलदार सेवा में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१	श्री बबडु नरजाकवां, २-१-०३, झालावाड़	१०-४-२६	१-४-५०
२	श्री तख्तसिंह, २५-१२-१२, कोटा	१२-१०-३७	१-४-५०
३	श्री गिरधारीलाल गुप्ता, २४-११-१४, कोटा	३१-१०-४२	१-४-५०
४	श्री जलालुद्दीनखां, बी० ए०, एलएल० बी०, १७-१-२०, कोटा	२७-८-४७	१-४-५०
५	श्री जयनारायण शर्मा, बी० ए०, बीकानेर	१६-५-४४	१-४-५०
६	श्री जोधसिंह हाड़ा, १६-१२-०२, झालावाड़	२१-१०-३५	१-४-५०
७	श्री मोहम्मदआबीद, १०-१०-१०, टोंक	२२-८-३२	१-४-५०
८	श्री कल्याणसिंह, बी० ए०, ८-८-२०, कोटा	१६-९-४४	१-४-५०
९	श्री कल्याणसिंह, एम० ए०, एलएल० बी० एवं साहित्य रत्न, ४-९-९९, अजमेर	९-१-४५	१-४-५०
१०	श्री जोगेन्द्रनाथ, १-२-०४, कोटा	१-९-२२	१-४-५०
११	श्री लक्ष्मीचन्द्र, एलएल० बी०, १९-१२-१९, कोटा	अप्रैल, १९४५	१-४-५०
१२	श्री महमूद, बी० ए०, एलएल० बी० (प्रिवीयस), १२-३-२१, इकलेरा	२३-१२-४४	१-४-५०
१३	श्री रामनारायण संवसेना, बी० ए०, एलएल० बी०, १५-८-२१, कोटा	१५-१-४७	१-४-५०
१४	श्री हीरालाल मालू, १९-१०-०८, कोटा	१२-१०-२५	१-१-५६
१५	श्री आनन्दीलाल, ३-१२-०३, कोटा	१-१०-२३	१-१-५६
१६	श्री गोवर्धनसिंह झाला, ७-३-१०, झालावाड़	१०-१०-२९	१-१-५६

(नाम ज्येष्ठतानुसार)

कार्य-स्थान, तहसील का नाम	जिला	मेजिस्टेरियल पावर	वेतन	विशेष
५	६	७	८	९
वकानी	झालावाड़	द्वितीय श्रेणी	₹० २३५	
खानपुर	झालावाड़	तृतीय श्रेणी	२४५	तहसीलदार एवं विकास खंड- अधिकारी,
छीपावड़ौद	कोटा	द्वितीय श्रेणी	२४५	
दीगोद	कोटा	द्वितीय श्रेणी	२४५	
पचपहाड़	झालावाड़	तृतीय श्रेणी	२७५	
मांगरोल	कोटा	तृतीय श्रेणी	२४५	
ननवा	बूंदी	द्वितीय श्रेणी	२४५	
चेचट	कोटा	द्वितीय श्रेणी	२४५	
हिरडोली	बूंदी	द्वितीय श्रेणी	२४५	तहसीलदार एवं विकास खंड- अधिकारी
	कोटा	तृतीय श्रेणी	२४५	१-४-५७ को मुअत्तिल थे
गालेड़ा	बूंदी	द्वितीय श्रेणी	२४५	
ननोहरथाना	झालावाड़	द्वितीय श्रेणी	२४५	
लाडपुरा	कोटा	द्वितीय श्रेणी	२४५	तहसीलदार एवं विकास खंड- आधिकारी
वारां	कोटा	द्वितीय श्रेणी	२५५	
अन्ता	कोटा	द्वितीय श्रेणी	२५५	
किशनगंज	कोटा	तृतीय श्रेणी	२३५	

क्र.सं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	राजस्थान-तहसीलदार सेवा में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१७	श्री जगदीशनारायण टिक्कू, १७-८-१६, जयपुर	१२-८-३५	१-१-५६
१८	श्री बलवीरसिंह, फतेहपुर १-३-१९०६, सीकरी	३-५-२८	८-३-५७
१९	श्री कृष्णगोपाल, बी० ए०, एलएल० बी० (प्रीवियस), २६-१-१९, कोटा	१४-१२-४४	१-१-५६
२०	श्री रतनलाल, बी० ए०, १४-७-२४, कोटा	२३-९-४५	१-१-५६
२१	श्री रामनारायण शर्मा, बी० ए०, २-६-२६, कोटा	२-११-४५	१-१-५६
२२	श्री सरदार सिंह, बी० ए०, १७-७-२२, कोटा	२३-११-४६	१-१-५६
२३	श्री बृजनाथ सक्सेना, बी० ए०, एलएल० बी० (प्रीवियस), १०-४-२५, कोटा	६-१२-४६	१-१-५६
२४	श्री चौथमल जैन, बी० ए०, एलएल० बी०, २५-९-२०, कोटा	४-९-४५	१-१-५६
२५	श्री नथमल शर्मा, बी० ए०, एलएल० बी०, जयपुर	१-६-४३	१-१-५६
२६	श्री नरेन्द्र सहाय सक्सेना, बी० ए०, एलएल० बी०, १०-७-२०, बूंदी	१८-१०-३८	१-१-५६
२७	श्री घनश्यामदास भारद्वाज, बी० ए०, एलएल० बी०, १६-७-२३, कोटा	४-६-४७	१-१-५६
२८	श्री बालचन्द्र त्यागी, बी० ए०, एलएल० बी०, १६-६-०६, कोटा	२३-४-४९	१-१-५६
२९	श्री मनोहरलाल, २०-५-०७, टोंक	४-२-३१	१-१-५६
३०	श्री गिरधारीलाल गौड़, १५-५-०९, कोटा	१-७-३२	१-१-५६

कार्य-स्थान, तहसील का नाम ५	जिला ६	मेजिस्टेरियल पावर ७	वेतन ८	विशेष ९
सांगोद	कोटा	तृतीय श्रेणी	६० २१५	
झालरापाटन	झालावाड़	द्वितीय श्रेणी	२०५	अतिरिक्त तहसीलदार
छबड़ा	कोटा	द्वितीय श्रेणी	२०५	
अटारू	कोटा	द्वितीय श्रेणी	२४५	
डग	झालावाड़	द्वितीय श्रेणी	२१५	
पीपल्दा	कोटा	तृतीय श्रेणी	२००	
बड़ोद	कोटा	द्वितीय श्रेणी	२०५	
कनवास	कोटा	द्वितीय श्रेणी	२०५	
निजी सहायक, आयुक्त, कोटा	कोटा	द्वितीय श्रेणी	१९५	
झालरापाटन	झालावाड़	द्वितीय श्रेणी	२०५	तहसीलदार एवं विकासखंड- अधिकारी
बूंदी	बूंदी	द्वितीय श्रेणी	२०५	तहसीलदार एवं विकासखंड- अधिकारी
मिडावा	झालावाड़	तृतीय श्रेणी	२०५	
केशीराय पाटन	बूंदी	द्वितीय श्रेणी	२४५	
लाडपुरा	कोटा	द्वितीय श्रेणी	२१५	अतिरिक्त तहसीलदार

स्थानापन्न तहसीलदारों की

क्र.सं. १	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान २	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक ३	राजस्थान तहसीलदार सेवा में नियुक्ति का दिनांक ४
१	श्री महेन्द्रसिंह, झालावाड़,	१-१२-४३	स्थानापन्न, १३-८-५५
२	श्री सवाईसिंह, झालावाड़	१४-३-२७	स्थानापन्न, २५-२-५६
३	श्री कान्तसिंह, जिला जयपुर	६-१-३६	स्थानापन्न, ६-१०-५६
४	श्री बिहारीलाल, बी० ए०, जिला जयपुर	१५-१२-३२	स्थानापन्न, १-१०-५६
५	श्री रामनिवास भात्रा, बी० ए०, एलएल० बी०, सीकर	५-११-४८	स्थानापन्न, २४-१२-५६
६	श्री दिग्विजयसिंह, बांसवाड़ा	७-७-४५	स्थानापन्न, १६-२-५७
७	श्री शान्ती स्वरूप, एम० ए०, (प्रीवियस), कोटा	२९-६-४८	स्थानापन्न, १२-२-५७

सूची (नाम ज्येष्ठतानुसार)

कार्य-स्थान, तहसील का नाम	जिला	मेजिस्टेरियल पावर	वेतन	विशेष
५	६	७	८	९
अकलरो	झालावाड़	तृतीय श्रेणी	६० १९५	
शाहवाड	कोटा	तृतीय श्रेणी	१८५	
बूंदी	बूंदी	तृतीय श्रेणी	१७५	अतिरिक्त तहसीलदार
खानपुर	झालावाड़	तृतीय श्रेणी	१७५	अतिरिक्त तहसीलदार
इटावा	कोटा	तृतीय श्रेणी	१७५	
रामगंजमंडी	कोटा	तृतीय श्रेणी	२५०	
गंगधर	झालावाड़	तृतीय श्रेणी	१७५	

क्रम सं०	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	राजस्थान तहसीलदार सेवा में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१	श्री सवाई सिंह मेहता, ११-८-१३, उदयपुर	१९३७	अप्रैल, १९५०
२	श्री मोहम्मद हुसैन, १५-११-०३, डूंगरपुर	५-१-२१	१-११-४७
३	श्री सी० आर० व्यास, बी० ए०, एलएल० बी०, १३-११-०८, रतलाम	१४-४-३६	१०-१०-५२
४	श्री कुशलसिंह लसाणी, डिप्लोमा मैओ कालेज, अजमेर, १४-१०-११	२६-११-३७	अप्रैल, १९५०
५	श्री सत गुरुचरण माथुर, बी० एससी०, ९-३-१६, उदयपुर	२९-१०-३७	८-११-५२
६	श्री पृथ्वीसिंह राठोड़, १६-७-२२, खोड़, जिला पाली	४-५-३६	१२-४-५०
७	श्री विश्वेश्वरलाल पाण्डिया, बी० एससी०, २-९-२५, उदयपुर	१६-११-४६	१०-१०-५२
८	श्री जगन्नाथ शर्मा, बी० ए०, एलएल० बी०, ८-१०-२३, जयपुर	१-१२-४७	६-९-४८
९	श्री भगवानीलाल नागर, नवम्बर, १९०२, बांसवाड़ा	६-६-२०	१-४-५०
१०	श्री कन्हैयालाल पाडलिया, बी० ए०, २७-१२-२२, प्रतापगढ़	१-१०-४४	१०-१०-५२
११	श्री रूपराम व्यास, बी० कॉम, एलएल० बी०, जोधपुर	१-६-४३	१०-१०-५२
१२	श्री कैलाशनारायण निगम, बी० ए०, एलएल० बी०, २७-१२-२२, जयपुर	१५-७-४६	
१३	श्री फतेहलाल पाडलिया, बी० ए०, एलएल० बी०, ५-९-२०, प्रतापगढ़	७-१०-४७	१०-१०-५२
१४	श्री सेवालाल शाह, बी० ए०, १-९-१२, बांसवाड़ा	२०-११-३७	१-४-५०
१५	श्री जगन्नाथलाल पंचोली, ७-५-०५, उदयपुर	२५-४-३५	१-२-५०

खण्ड

कार्य स्थान, तहसील का नाम ५	जिला ६	मेजिस्ट्रेरियल पावर ७	वेतन ८	विशेष ९
			६०	
देवगढ़	उदयपुर	द्वितीय श्रेणी		
आसपुर	डूंगरपुर	तृतीय श्रेणी		
भदोसर	चित्तौड़गढ़	तृतीय श्रेणी		
भूपालसागर	उदयपुर	तृतीय श्रेणी		
भीम	उदयपुर	तृतीय श्रेणी		
कुम्भलगढ़	उदयपुर	द्वितीय श्रेणी		
कपासन	चित्तौड़गढ़	द्वितीय श्रेणी		
गढी	वांसवाड़ा	द्वितीय श्रेणी		
डूंगरपुर	डूंगरपुर	तृतीय श्रेणी		
अचनोरा	चित्तौड़गढ़	द्वितीय श्रेणी		
राजसमन्द	उदयपुर	द्वितीय श्रेणी		
छोटी सादड़ी	चित्तौड़गढ़	द्वितीय श्रेणी		
सलुम्बर	उदयपुर	द्वितीय श्रेणी		
डूंगरपुर	डूंगरपुर	तृतीय श्रेणी		
रासमो	चित्तौड़गढ़	तृतीय श्रेणी		

क्र.सं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	राजस्थान तहसीलदार सेवा में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१६	श्री गीरवरधनसिंह, बी० ए०, अलवर	९-६-३९	३-१-५५
१७	श्री लालसिंह सोलंखी, बी० ए०, १५-७-२२, उदयपुर	१-११-४७	६-१०-४८
१८	श्री च. ब्रह्मानसिंह, बी० ए०, एलएल० बी०, १६-७-१९१६, शाहपुरा	२०-१-४८	२८-८-५१
१९	श्री सीताराम देशमुख, १-१२-१९०७, छोटी सादड़ी (चित्तौड़गढ़)	१-६-२७	१५-५-५४
२०	श्री हीरालाल गांधी, बी० एससी०, बी० टी०, २५-६-०६, डूंगरपुर	३-७-२९	१७-४-५४
२१	श्री प्रकाशनाथ कपूर, ५-१०-१९०५, हवासावाद	१-७-२८	३-१-४८
२२	श्री गोर्धनलाल चौबीसा, १३-८-०६, उदयपुर	९-३-२३	६-९-४८
२३	श्री हरदेवसिंह, बी० ए०, १-७-१२, बनारस	९-७-२८	२९-१-४५
२४	श्री किस्नूरचन्द, ६-३-१९०६, शाहपुरा (भीलवाड़ा)	९-७-२८	२९-१-४५
२५	श्री भंवरलाल मानडावत, १-१-१९०३, देलवाड़ा (उदयपुर)	२-२-४०	२-४-४९
२६	श्री किशनसिंह झाला, ५-५-१९०९, गोगुन्दा (उदयपुर)	१८-७-२५	२२-४-४९
२७	श्री गोपालसिंह मेहता, ९-७-१९०१, उदयपुर	३१-८-२८	..
२८	श्री उदयलाल धाभाई, बी० एससी०, २-८-१९२२, उदयपुर	२२-११-४८	२२-११-४८
२९	श्री परबतसिंह, बांसवाड़ा	१-२-४९	१-२-४९
३०	श्री रगुबीरसिंह राठौड़, २१-१२-१३, रूपाहेली	१-३-३४	९-९-४८

कार्य-स्थान तहसील का नाम ५	जिला ६	मैजिस्टेरियल पावर ७	वेतन ८	विशेष ९
			र०	
कनोरा	चित्तौड़गढ़	तृतीय श्रेणी		
डूंगला	चित्तौड़गढ़	तृतीय श्रेणी		
शाहपुरा	भीलवाड़ा	द्वितीय श्रेणी		
मांडल	भीलवाड़ा	द्वितीय श्रेणी		
खैरवाड़ा	उदयपुर	द्वितीय श्रेणी		
भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	द्वितीय श्रेणी		
धामेट	उदयपुर	तृतीय श्रेणी		
बेंगू	चित्तौड़गढ़	द्वितीय श्रेणी		
निम्बाहेडा	चित्तौड़गढ़	द्वितीय श्रेणी		
वल्लभनगर	उदयपुर	द्वितीय श्रेणी		
गोगुन्दा	उदयपुर	तृतीय श्रेणी		
कपासन	चित्तौड़गढ़	तृतीय श्रेणी		
सराडा	उदयपुर	तृतीय श्रेणी		
वागीदोड़ा	बांसवाड़ा	तृतीय श्रेणी		
आसीन्द	भीलवाड़ा	तृतीय श्रेणी		

क्र. सं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	राजस्थान तहसीलदार सेवा में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
३१	श्री श्यामसुन्दरलाल श्रीवास्तव, बी० ए०, कोटा, ८-१२-१९२२	१२-६-४६	३०-८-४८
३२	श्री दीपचन्द्र जैन, बी० एससी०, बारां, ३-१-१९२२	२९-९-४५	१०-४-५०
३३	श्री नारायणलाल वर्मा, २८-३-१९०३ कांकरोली	१-२-४९	१-२-४९
३४	श्री विजयसिंह माथुर, बी० ए०, २७-११-१९२८, उदयपुर	२३-११-४०	११-४-४९
३५	श्री गुरुबक्ष संवसेना, बी० ए०, २१-५-१९१८, जयपुर	३०-११-४२	३१-५-४८
३६	श्री अक्षयलाल भट्ट, बी० कॉम, २४-११-१९१५, गढी	१-११-३६	१-२-४९
३७	श्री मनोहरसिंह मेहता, बी० ए०, एलएल० बी०, ८-७-१६, उदयपुर	३-४-४१	१-४-५०
३८	श्री सोहनलाल खमेशरा, बी० ए०, एलएल० बी०, २९-८-२०, उदयपुर	२२-९-४१	८-६-५५
३९	श्री बक्षी सिंह, एम० ए०, एलएल० बी० १५-८-२५, श्रीगंगानगर	१९-२-५१	..
४०	श्री केदारनाथ, बी० ए०, अलवर	१८-५-५५	१८-५-५५

कार्य-स्थान तहसील का नाम	जिला	मेजिस्ट्रेरियल पावर	वेतन	विशेष
५	६	७	८	९
प्रतापगढ़	चित्तौड़गढ़	तृतीय श्रेणी	रु०	
चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	तृतीय श्रेणी		
घाटोल	बांसवाड़ा	तृतीय श्रेणी		
बनेड़ा	भीलवाड़ा	तृतीय श्रेणी		
नाथद्वारा	उदयपुर	द्वितीय श्रेणी		
सागवाड़ा	डूंगरपुर	द्वितीय श्रेणी		
उदयपुर	उदयपुर	द्वितीय श्रेणी		आयुक्त, उदयपुर खंड के निजी सचिव
सहाड़ा	भीलवाड़ा	तृतीय श्रेणी		
गिरवा	उदयपुर	द्वितीय श्रेणी		
जहाजपुर	भीलवाड़ा	तृतीय श्रेणी		

क्र.सं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में नियुक्ति का दिनांक	राजस्थान तहसीलदार सेवा में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१	श्री लालचन्द मोदी, सिरौही	२६-११-१९२९	२०-१०-१९५४
२	श्री विजयसिंह चौहान, सेंटिलमेंट एन्ड रेवन्यू ट्रेन्ड, बनकीड़ा	१-११-१९३९	२३-११-१९५५
३	श्री मोहम्मद सैयद, जयपुर	१६-१-१९३२	१५-४-१९५५
४	श्री बृजबिहारी सिंह, बांसवाडा	१५-१२-१९३८	..
५	श्री मनमोहनलाल शर्मा, जयपुर	१-१-१९२४	५-५-१९४८
६	श्री दीपसिंह, भरतपुर	१९४५	२७-१२-४५
७	श्री अब्दुल रहमान, बीकानेर	१२-७-१९२९	९-३-१९५६
८	श्री मोहनराम, सेंटिलमेंट ट्रेन्ड, चूरु	१-११-१९२२	५-३-१९५६
९	श्री उत्तमसिंह, चूरु	१७-१०-१९३८	१६-३-१९५६
१०	श्री रूपसिंह, शोखावाटी
११	श्री हकूमतसिंह, गंगानगर	११-११-१९४४	१७-३-१९५६
१२	श्री प्रेमनारायण पन्डिया, बी० ए०, एलएल० बी०, बीकानेर	१०-६-१९४४	१४-३-१९५६
१३	श्री जांगीरसिंह, गंगानगर	२१-९-१९३९	१४-६-१९५६
१४	श्री किशनसिंह	..	२१-५-१९५६
१५	श्री सूरजकरण, बीकानेर	२३-१०-१९३५	१-१०-१९५६
१६	श्री देवकीनन्दन, एम० ए०, एलएल० बी०, जयपुर	१५-७-१९४८	६-१०-१९५६
१७	श्री गणेशलाल नागर, एम० ए०, बांसवाडा	३१-१२-१९३६	१२-९-१९५६

तहसीलदारों की सूची

कार्य-स्थान तहसील का नाम ५	जिला ६	मेजिस्टेरियल पावर ७	वेतन ८	विशेष ९
कोटढी	भीलवाड़ा	तृतीय श्रेणी	६०	
रेलमगरा	उदयपुर	"		
रायपुर	भीलवाड़ा	"		
कोटड़ा	उदयपुर	"		
सागवाड़ा	डूंगरपुर	"		
डूंगरपुर	डूंगरपुर	"		
वांसवाडा	वांसवाड़ा	"		
कोटडा	उदयपुर	"		
गंगरालू	चित्तौड़गढ़	"		
मान्डलगढ़	भीलवाड़ा	"		
माहोली	उदयपुर	"		
भंसरोड़गढ़	चित्तौड़गढ़	"		
गढ़ी	वांसवाड़ा	"		
हूरड़ा	भीलवाड़ा	"		
नाथद्वारा	उदयपुर	"		
कुम्भलगढ़	उदयपुर	"		
फलासिया	उदयपुर	"		

क्र. सं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	राजस्थान तहसीलदार सेवा में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१८	श्री कल्याण सिंह	..	२५-९-१९५६
१९	श्री गोपालसिंह	२९-६-४८	२५-९-१९५६
२०	श्री मुबारिकशाह खां, टोंक	१-१-२७	७-३-१९५७

कार्य-स्थान तहसील का नाम	जिला	मेजिस्टेरियल पावर	वेतन	विशेष
५	६	७	८	९
बागीदोड़ा	बांसवाड़ा	तृतीय श्रेणी	२०	
कुशलगढ़	बांसवाड़ा	"		
लसाडिया	उदयपुर	"		

बीकानेर

क्र.सं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	राजस्थान तहसीलदार सेवा में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१	श्री कन्हैयालाल कोचर, बी० ए०, एलएल० बी०, साहित्य शिरोमणी, २८-२-१०, बीकानेर	१४-८-१९३०	१-१-१९५६
२	श्री कानसिंह, २७-१-१५, बीकानेर	१६-१२-१९३९	१३-११-१९५२
३	श्री मंगलचन्द कोचर, २५-५-११, बीकानेर	१६-२-१९२९	२-१२-१९५२
४	श्री अजीतसिंह, बी० ए०, १८-७-१९, बीकानेर	२८-१०-१९४६	४-१०-१९५४
५	श्री अर्जुनसिंह, ८-३-१९, बीकानेर	६-४-१९३९	..
६	श्री छगनमल, २२-८-०२, बीकानेर	२२-२-१९१८	१०-१२-१९५२
७	श्री गोरधनदास, ३१-५-०६, सूरतगढ़	४-७-१९२८	१०-१०-१९५२
८	श्री कानसिंह, ११-४-०५, बीकानेर	१४-१०-१९२७	..
९	श्री सुरजकरण, फाल्गुन सुदि १५ सं० १९६४, बीकानेर	४-९-१९२५	..
१०	श्री जसवन्तसिंह, १६-६-१६, बीकानेर	११-७-१९४६	..
११	श्री जुगलसिंह, २८-१-१९, बीकानेर	९-१०-१९३९	..
१२	श्री मूलचन्द शर्मा
१३	श्री वंजनाथ शर्मा, बी० ए०, एलएल० बी०, १०-१-११, नोहर	२०-९-१९३८	१-३-१९४५
१४	श्री हीरालाल, बी० ए०, प्रभाकर, साहित्यालंकार, ८-७-२१, गंगानगर	२७-१२-१९४३	१-१-१९५६

खण्ड

कार्य-स्थान तहसील का नाम	जिला	मेजिस्टेरियल पावर	वेतन	विशेष
५	६	७	८	९
निजी सहायक, आयुक्त बीकानेर	बीकानेर	..	६०	
बीकानेर	बीकानेर	तृतीय श्रेणी		
मालमंडी, बीकानेर	बीकानेर	..		
लूनकरणसर	बीकानेर	तृतीय श्रेणी		
मगरा	बीकानेर	..		
गंगानगर	गंगानगर	द्वितीय श्रेणी		
करनपुर	गंगानगर	..		
पदमपुर	गंगानगर	..		
हनुमानगढ़		
रायसिंहनगर		
सूरतगढ़	गंगानगर	..		
नीहर		
चूरु		
रतनगढ़		

बीकानेर डिविजन के सथानापन्न

क्र.सं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	राजस्थान तहसीलदार सेवा में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१५	श्री कल्याणसिंह, चीपस कालेज डिप्लोमा, पूंगल, ३१-८-२३, बीकानेर	३०-३-१९४६	१०-१०-१९५२
१६	श्री प्रकाशनारायण, १०-१२-१८, बीकानेर	४-७-१९४९	३१-१-१९४८
१७	श्री गुरुचरणसिंह, बी०ए०, एलएल० बी०	१७-३-१९४८	..
१८	श्री विअन्तसिंह	.	..
१९	श्री रामनारायण, १८-२-०५, बीकानेर	१०-१०-१९२०	३१-१२-१९५४
२०	श्री भैरुसिंह
२१	श्री मयुराप्रसाद
२२	श्री मंगलसिंह

तहसीलदारों की सूची

कार्य-स्थान तहसील का नाम	जिला	मेजिस्ट्रेरियल पावर	वेतन	विशेष
५	६	७	८	९
सरदारशहर	..	तृतीय श्रेणी	६०	तहसीलदार एवं विकास खंड अधिकारी
डूंगरगढ़	..	द्वितीय श्रेणी		
नोखा	बीकानेर	तृतीय श्रेणी		
सुजानगढ़	..	तृतीय श्रेणी		
तारानगर	चूरु	..		
सरदारशहर		अतिरिक्त तहसीलदार
अनूपगढ़	गंगानगर	..		
भादरा	गंगानगर	..		

स्थायी तहसीलदार जो सैटिलमेन्ट विभाग में

क्र. सं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१	श्री महोराम, २-३-१९११, गंगानगर	१०-३-२८	२९-१-५३
२	श्री सुखचन्द मेहता, ८-३-०८, जयपुर	१५-२-२५	१५-२-२५
३	श्री जगन्नाथसिंह, ३-१-०८, नागौर	१५-९-२५	१५-९-२५
४	श्री लालबिहारि सिंह, १०-१०-०८ आजमगढ़ (उत्तर-प्रदेश)	१९-३-२९	१९-३-२९
५	श्री गिरधरसिंह, १-१०-०७, गंगानगर	१५-८-२९	२२-७-४१
६	श्री भंवरलाल खंडेलवाल, १८-१२-१९०३, उदयपुर	५-७-२४	५-७-२४
७	श्री जेठमल व्यास, ११-११-०७, जोधपुर	२५-५-२७	१-१०-४९
८	श्री हसीउद्दीन खां, २५-३-०५, उदयपुर	१-१-२३	१-१-२३
९	श्री जगनारायण सिंह, ५-११-१६, नागौर	१८-५-४३	११-७-४४
१०	श्री कानमल मलगा, ४-८-१३, ब्यावर	१०-९-३९	१-१०-४६
११	श्री चिमनसिंह, २८-५-१९१७, सीकर	८-६-३५	५-७-५४
१२	श्री सागरमल, २-११-१९०३, जोधपुर	२६-१२-२६	४-५-५५
१३	श्री रघुवरदयाल, ३-६-१९०८, जयपुर	२६-५-३७	२३-८-५५
१४	श्री घीसीलाल, ३१-१०-१९०४, जयपुर	१-१-२४	५-११-५६
१५	श्री देवेन्द्रमोहन कासलीवाल, ६-९-१९३१, जयपुर	१८-१२-३५	८-१०-५६

ए० एस० ओ० कम ए० आर० ओ० के पद पर कार्य कर रहे हैं

कार्य-स्थान व दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
पाली, १८-५-५४	३१२.५०	५० वि० वे०
अलवर, १९-६-५०	२६५	५० वि० वे०
सीकर, जुलाई, १९५०
जयपुर, १-६-४६	२६५	५० वि० वे०
पाली, १९-६-५०
उदयपुर, ५-१०-४८	२५५	५० वि० वे०
जोधपुर, १९-६-५०	२०५	५० वि० वे०
उदयपुर, ५-१०-४८	२५५	५० वि० वे०
झालावाड, १९-६-५०	२४५	५० वि० वे०
वाड़मेर, २६-६-५०	२४५	५० वि० वे०
सिरोही, ५-७-५४	३००	७५ वि० वे०
जोधपुर, ४-५-५५
जयपुर, २३-८-५५	२४५	५० वि० वे०
जयपुर, ५-११-५६
जयपुर, ८-१०-५६	२४५	५० वि० वे०

क्र. सं०	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१६	श्री मदनमोहनलाल त्रिवेदी, ४-७-०५, सवाई माधोपुर	१६-८-२४	३१-१०-५६
१७	श्री आफताबअली, ४-९-०३, जयपुर	३-११-२३	१६-१०-५६
१८	श्री निजामुद्दीन, १०-१-०५, उदयपुर	२१-१-२३	२१-१-२३
१९	श्री अनराज, जोधपुर
२०	श्री नारायणदास, १६-५-०५, जोधपुर	२७-७-२९	२४-११-५६
२१	श्री भुरालाल पंचोली, १८-९-०५, भौलवाड़ा	७-७-२३	२८-११-५६
२२	श्री शंकररूपराय, २५-११-१३, जोधपुर	३-१२-३४	२-२-५७

कार्य-स्थान व दिनांक

वतन

विशेष

कार्य-स्थान व दिनांक	वतन	विशेष
जयपुर, ३१-१०-५६	६	७
सीकर, १६-१०-५६	६	७
उदयपुर, ५-१०-४८	६	७
जोधपुर]	६	७
पाली, २४-११-५६	६	७
कोटा, ३८-११-५६	६	७
पुर, २-२-५७	६	७
१०-१-६०	६	७
११-१-६०	६	७
१३-१-६०	६	७
१४-१-६०	६	७
१५-१-६०	६	७
१६-१-६०	६	७
१७-१-६०	६	७
१८-१-६०	६	७
१९-१-६०	६	७
२०-१-६०	६	७
२१-१-६०	६	७
२२-१-६०	६	७
२३-१-६०	६	७
२४-१-६०	६	७
२५-१-६०	६	७
२६-१-६०	६	७
२७-१-६०	६	७
२८-१-६०	६	७
२९-१-६०	६	७
३०-१-६०	६	७
३१-१-६०	६	७
३२-१-६०	६	७
३३-१-६०	६	७
३४-१-६०	६	७
३५-१-६०	६	७
३६-१-६०	६	७
३७-१-६०	६	७
३८-१-६०	६	७
३९-१-६०	६	७
४०-१-६०	६	७
४१-१-६०	६	७
४२-१-६०	६	७
४३-१-६०	६	७
४४-१-६०	६	७
४५-१-६०	६	७
४६-१-६०	६	७
४७-१-६०	६	७
४८-१-६०	६	७
४९-१-६०	६	७
५०-१-६०	६	७
५१-१-६०	६	७
५२-१-६०	६	७
५३-१-६०	६	७
५४-१-६०	६	७
५५-१-६०	६	७
५६-१-६०	६	७
५७-१-६०	६	७
५८-१-६०	६	७
५९-१-६०	६	७
६०-१-६०	६	७
६१-१-६०	६	७
६२-१-६०	६	७
६३-१-६०	६	७
६४-१-६०	६	७
६५-१-६०	६	७
६६-१-६०	६	७
६७-१-६०	६	७
६८-१-६०	६	७
६९-१-६०	६	७
७०-१-६०	६	७
७१-१-६०	६	७
७२-१-६०	६	७
७३-१-६०	६	७
७४-१-६०	६	७
७५-१-६०	६	७
७६-१-६०	६	७
७७-१-६०	६	७
७८-१-६०	६	७
७९-१-६०	६	७
८०-१-६०	६	७
८१-१-६०	६	७
८२-१-६०	६	७
८३-१-६०	६	७
८४-१-६०	६	७
८५-१-६०	६	७
८६-१-६०	६	७
८७-१-६०	६	७
८८-१-६०	६	७
८९-१-६०	६	७
९०-१-६०	६	७
९१-१-६०	६	७
९२-१-६०	६	७
९३-१-६०	६	७
९४-१-६०	६	७
९५-१-६०	६	७
९६-१-६०	६	७
९७-१-६०	६	७
९८-१-६०	६	७
९९-१-६०	६	७
१००-१-६०	६	७

अस्थायी तहसीलदार जो सैटिलमेन्ट विभाग में ए० एस० आी०

क्रम सं०	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१	श्री सत्यपाल, ९-३-१०, मुजफ्फरनगर	६-९-२९	६-९-२९
२	श्री भवानीसिंह यादव, ८-१०-१९१०, कौशली (रोहतक)	१-१२-४४	१-१२-४४
३	श्री पुरुषोत्तम जोशी, भादवा वदी ३, सं० १९७७, जोधपुर	१-९-४१	२९-१-४६
४	श्री किशन शर्मा, १-७-१९२८, सीकर	१८-७-४९	१८-७-४९
५	श्री अमरसिंह, २१-१-१९२४, खूडी, सीकर	१६-११-४६	१६-११-४६
६	श्री सोहनलाल, ५-१०-१९०७, जिला अलीगढ़ (यू० पी०)	२३-९-२९	२३-९-२९
७	श्री जेठमल व्यास, ७-७-१४, सालपुरा	३१-१०-३६	४-८-५६
८	श्री मंगलसिंह भारद्वाज, १७-११-१०, सहलपुर बेंरी, बुलन्द शहर, (उत्तर प्रदेश)	१८-१-३३	१८-१-३३
९	श्री अम्बालाल, ग्राम गीजगढ़	१-१२-२३	२२-९-४९
१०	श्री लेखराज, ९-३-१९२२, जालौर	२७-१-४२	२७-१-४२
११	श्री रघुनन्दन प्रसाद, ८-८-१९२०, कुलवाड़ा, (कुम्भलगढ़)	१-१०-४९	१-१०-४९
१२	श्री कन्हैयालाल उपाध्याय, १९-१-०७, उदयपुर	२१-१-२३	२१-१-२३
१३	श्री सन्तोकचन्द, १६-४-१९१२, वाली (पाली)	१६-५-४२	१-५-४७

कम ए० आर० औ० के पद पर कार्य कर रहे हैं

कार्य-स्थान व दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
	६०	
जोधपुर, १७-७-५६	१११	
जोधपुर, १३-४-५५	२१५ ५० वि० वे०	
जोधपुर, १२-३-५६	१७५ ५० वि० वे०	
कोटा, १२-३-५६	१८५ ५० वि० वे०	
जयपुर, १३-४-५५	१९५ ५० वि० वे०	
जयपुर, १८-७-५६	१५५ ४० वि० वे०	
जयपुर, ४-८-५६	१७५ ५० वि० वे०	
सीकर, १३-४-५५	२५५ ५० वि० वे०	
सीकर, १३-४-५५	१९५ ५० वि० वे०	
अलवर, १३-४-५५	१९५ ५० वि० वे०	
अलवर, १३-४-५५	१८५ ५० वि० वे०	
झालावाड़, १३-४-५५	२१५ ५० वि० वे०	
वाड़मेर, १२-३-५६	१८५ ५० वि० वे०	

क्र. सं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय-सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१४	श्री हिम्मतसिंह, ११-४-२५, जोधपुर	२३-१२-४४	२३-१२-४४
१५	श्री दयालचन्द, ६-३-२२, जोधपुर	१५-१२-४४	२७-१०-५६
१६	श्री मुरलीलाल, २१-७-१९०२	९-२-३२	१५-११-५६
१७	श्री अयोध्याप्रसाद, २०-३-२४	२६-८-४८	१-१२-५६
१८	श्री पुखराज भंडारी, १२-२-२७	२८-६-४५	२२-१०-५६
१९	श्री मनफूलसिंह, १-८-१९, बोकानेर	१-१०-३८	१९-७-४२
२०	श्री श्यामलाल, १९-२-२७, जोधपुर	१-५-४४	२६-१-४६
२१	श्री विनोद प्रसाद, १७-६-२६, खुर्जा (बुलन्दशहर)	३-११-४५	१६-११-५६
२२	श्री मंगलसिंह, १४-७-१४, मालारो (जिला पाली)	२२-३-४७	२२-३-४७
२३	श्री गुलाम महबूब खाँ, १-४-०७, ग्राम सूजरासर, जिला नागौर	१-५-४४	१-५-४४
२४	श्री होतीलाल, २५-१-१९४५, ग्राम इनायतपुरा (बुलन्दशहर)	२३-९-२९	२३-९-२९
२५	श्री राजाराम भार्गव, २६-४-३३	१९४७	२४-११-५६
२६	श्री मदनराज महेत्ता	..	२६-११-५६
२७	श्री रमेशचन्द्र	१९४६	१५-१०-५६

कार्य-स्थान व दिनांक	वेतन	विशेष
गोधपुर, १-४-५७	१७५ ५० वि० वे०	१
गोधपुर, १-४-५७	१७५ ५० वि० वे०	१
गोधपुर, १-४-५७	१७५ ५० वि० वे०	१
गोधपुर, १-४-५७	१७५ ५० वि० वे०	१
कोटा, १-४-५७	१७५ ५० वि० वे०	१
कोटा, १-४-५७	१७५ ५० वि० वे०	१
कोटा, १-४-५७	१७५ ५० वि० वे०	१
कोटा, १-४-५७	१७५ ५० वि० वे०	१
मालावाड़, १-४-५७	१७५ ५० वि० वे०	१
मालावाड़, १-४-५७	१७५ ५० वि० वे०	१
अलवर, १-४-५७	१७५ ५० वि० वे०	१
अलवर, १-४-५७	१७५ ५० वि० वे०	१
सिरोही, १-४-५७	१७५ ४० वि० वे०	१
सीकर, १-४-५७	१७५ ५० वि० वे०	१

वी श्रेणी के तहसीलदार जो कि स्थानापन्न सहायक

क्र. सं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	राजस्थान तहसीलदार सेवा में नियुक्ति का दिनांक
	२	३	४
१	श्री गजराजसिंह कोठयारी, बी० ए०, २७-१-१४, वांसवाडा	१८-६-४६	१०-१०-५२
२	श्री गौरीनांकर झा, बी० ए०, एलएल० बी०, २०-१-१२	१-११-४४	१०-१०-५२
३	श्री सूर्यकरण
४	श्री चांदरदन मिश्रा, बी० ए०, एलएल० बी०, २०-१०-१०, बीकानेर	१-९-३६	१०-१०-५२
५	श्री देवीलाल बोलिया, बी० ए०, १६-८-१९०८	६-१२-३८	१०-१०-५२
६	श्री चतरसिंह, एम० ए०, ३-५-०४	१-१०-३१	१०-१०-५२
७	श्री साविर हुसैन सिद्दीकी, १-१-१२, झालावाड़	१-६-३१	१०-१०-५२
८	श्री रामप्रताप शर्मा, बी० ए०, एलएल० बी०, १३-१०-१४, बूंदी	२५-७-४२	..
९	श्री फनी भूषण ठाकुर
१०	श्री विक्रमसिंह, ९-१०-१३, झालावाड़	१६-१०-४०	..
११	श्री रणजीतसिंह, बी० ए०, एलएल० बी०, ४-५-१३, जालोर	२-८-३७	१०-१०-५२
१२	श्री अब्दुल लतीफ, बी० ए०, एलएल० बी०, २७-३-१९, उदयपुर	६-५-४२	१०-१०-५२
१३	श्री प्रयोजनसिंह, २४-१०-०७, गंगानगर	५-८-२६	१०-१०-५२
१४	श्री रामेश्वरप्रसाद गुप्ता, बी० ए०, एलएल० बी०, १०-२-१७, जयपुर	..	२४-१०-५२

जिलाधीश एवं मजिस्ट्रेट के पद पर कार्य कर रहे हैं

कार्य-स्थान व दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
वाराणा	६०	
डूंगरपुर, १७-९-५५		
उदयपुर		
गंगानगर		
करोली, ७-९-५५		
जहाजपुर, १९-११-५५		
नीम का थाना, ९-३-५६		
नागौर, २८-८-५४	३००	
कोटा		
मांडलगढ़, २-२-५६		
भीलवाड़ा, १९-१२-५५		
राजसमन्द, १२-२-५५		
भरतपुर, ९-२-५६		
सीकर, १-२-५६		

क्र. सं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	प्रविष्ट होने का दिनांक	सेवा में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१५	श्री रामेश्वरलाल, बी० ए०, एलएल० बी०, ०३-१२-१९०९, चूरू	१५-११-३५	१०-१०-५२
१६	श्री धर्मवीर दूबे, बी० ए०, एलएल० बी०, १०-१०-१९१६, जोधपुर	८-८-३४	१०-१०-५२
१७	श्री महावीर सहाय बैराठी, जयपुर	१-५-३३	१०-१०-५२
१८	श्री दूलीचन्द जैन, बी० कौम०	२४-६-४४	१०-१०-५२
१९	श्री मोतीलाल गुप्ता, बी० ए०, एलएल० बी० १-३-१७, भरतपुर	११-११-४०	१०-१०-५२
२०	श्री दीनानाथ शर्मा, बी० ए०, एलएल० बी०, ५-७-२२	२१-५-४५	१०-१०-५२
२१	श्री रूपसिंह सोलंखी, बी० एससी०, १-११-१८, झालावाड़	१५-१४३	१०-१०-५२
२२	श्री गोरधनलाल पंड्या, १३-४-०६, उदयपुर	९-३-२३	१०-१०-५२
२३	श्री तेजनारायण शर्मा, एम० ए०, एलएल० बी०, विशारद, ३-११-२०, जयपुर	१-११-४२	१०-१०-५२
२४	श्री जगदीश प्रसाद, बी० ए०, एलएल० बी०, १-३-१५, कोटपुतली, जयपुर	१-८-४३	२७-१०-५२
२५	श्री हरीनारायणसिंह राजपुरोहित	..	१०-१०-५२
२६	श्री भीरीलाल पाटनी, बी० ए०, एलएल० बी०, १-९-०७, जयपुर	२८-११-३६	१०-१०-५२
२७	श्री अब्दुल हाफिज बेग, बी० ए०, एलएल० बी०, १३-७-१३, जयपुर	१-१२-४३	१०-१०-५२
२८	श्री केसरीसिंह देपुरा, बी० ए०, एलएल० बी०, ४-३-०९, उदयपुर	२३-२-३३	१०-१०-५२
२९	श्री बालकृष्णराव, बी० ए०, एलएल० बी०, २-९-०७, कोटा	४-११-३५	१०-१०-५२

कार्य-स्थान व दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
करनपुर	२७५	
सांचोर, १४-२-५६	३५०	
किशनगढ़ वास, २०-२-५६	२७५	
ढोंक, ८-३-५६	३००	
सांभर	२५०	
तिजारा (अलवर)	२५०	
बूंदी	२५०	
झुन्झुनू	२५०	
चारां	..	
मालपुरा	२५०	
अलवर	..	
राजगढ़, १९-११-५५	३२५	
डीडवाना, ३०-९-५४	३२५	
कोटरा	३५०	
बूंदी	३२५	

क्र०	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	राजस्थान तहसीलदार सेवा में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
३०	श्री देवकीनन्दन, बी० एससी०, १४-९-११, कोटा	११-२-३८	१०-१०-५२
३१	श्री प्रयागराय माथुर
३२	श्री गुरुदत्त प्रसाद, बी० ए०, ६-११-१६	१६-११-४०	..
३३	श्री शम्भूसिंह, एम० ए०, १-७-०७, जेतारण	२-५-३५	१०-१०-५२
३४	श्री सैयद अब्दुला, बी० ए०, ३१-८-११, मालपुरा	१-१२-३४	..
३५	श्री आनन्दीलाल माथुर, ३-१२-०३	१-१०-२३	१-१-५६
३६	श्री एस० एल० शारदा
३७	श्री एम० एल० दीया

कार्य-स्थान व दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
चित्तौड़गढ़	६०	
चिड़ावा	..	
चित्तौड़गढ़	..	
डीग	..	
सांभर	..	
भीलवाडा	२५०	
फेकडी	..	
भजमेर	..	

'बी' श्रेणी के तहसीलदार जो लैन्ड एक्वीजीशन एवं कोलोनाइजेशन

क्र.सं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	राजस्थान तहसीलदार सेवा में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१	श्री एम० एन० बनर्जी, १२-४-०८, जयपुर	१-७-३३	१०-१०-५२
२	श्री हुकमचन्द शर्मा, १-३-११, बूंदी	१-१०-३३	१०-१०-५२
३	श्री बृजनाथ पंचोली
४	श्री कौशलसिंह
५	श्री भीखमसिंह

प्रोफीसर एवं असिस्टेन्ट कमिश्नर, देवस्थान, के पद पर कार्य कर रहे हैं

कार्य-स्थान व दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
सेन्ड एक्वीजिशन ऑफिसर, राना प्रताप सागर डैम, कोटा	६०	
मैनाल एरिया, कोटा		
असिस्टेन्ट कमिश्नर, देवस्थान, उदयपुर		
असिस्टेन्ट कमिश्नर, देवस्थान, जोधपुर		
डिप्टी डायरेक्टर, कोलोनाईजेशन, सूरतगढ़		

खण्ड ५

माल तथा सामान्य प्रशासन

सं क्रम	नाम-जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	वर्तमान पद तथा उस पर नियुक्ति का दिनांक
	राजस्व मंडल	
१	श्री श्यामलाल, आई० ए० एस०	चैयरमेन, राजस्व मंडल, राजस्थान, २७-११-५५
२	श्री कंवरबहादुर, आई० ए० एस०	मेम्बर, राजस्व मंडल, जयपुर, ५-२-५५
३	श्री शान्तिलाल आहुजा, आई० ए० एस०	मेम्बर, राजस्व मंडल, जयपुर, २०-३-५६
४	श्री गोवर्धन सिंह मेहता, आई० ए० एस०	मेम्बर, राजस्व मंडल, जयपुर, २१-४-५६
५	श्री रोशनमल, आर० ए० एस०	रजिस्ट्रार, राजस्व मंडल, जयपुर, १६-५-५६
६	श्री गोपाल चन्द्र सैन, आर० ए० एस०	डिप्टी रजिस्ट्रार, राजस्व मंडल, ३१-८-५४

आयुक्त

१	श्री कामता प्रसाद, आई० ए० एस०	आयुक्त, अजमेर खंड, अजमेर, १-११-५६
२	श्री बी० एल० रावत, आई० ए० एस०	आयुक्त, जोधपुर खंड, जोधपुर, २८-११-५६
३	श्री जे० एन० कुंजरु, आई० ए० एस०	आयुक्त, बीकानेर खंड, बीकानेर, १-५-५४
४	श्री के० पी० यूसुफ़ मेनन, आई० ए० एस०	आयुक्त, कोटा खंड, कोटा, ११-१२-५६
५	श्री सांवलदान उज्ज्वल, आई० ए० एस०	आयुक्त, उदयपुर खंड, उदयपुर, २५-११-५६

अतिरिक्त आयुक्त

१	श्री भगवतदत्त ठाकुर, आर० ए० एस०	अतिरिक्त आयुक्त, जोधपुर खंड, जोधपुर, २-७-५४
---	---------------------------------	--

क्र.सं०	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	वर्तमान पद तथा उस पर नियुक्ति का दिनांक
२	श्री अजीत सिंह, आर० ए० एस०	अतिरिक्त आयुक्त, जयपुर खंड, जयपुर २१-४-५६
३	श्री डी० डी० उपाध्याय	अतिरिक्त आयुक्त, उदयपुर व अजमेर, मुख्यालय, अजमेर

जिलाधीश एवं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट

अजमेर खण्ड

१	श्री विष्णुदत्त शर्मा, आई० ए० एस०	भरतपुर	१०-६-५६
२	श्री एस० एल० कक्कर, आई० ए० एस०	अजमेर	१-११-५६
३	श्री सूर्यस्वरूप, आई० ए० एस०	टोंक	४-६-५६
४	श्री बी० सी० मुकजी, आई० ए० एस०	झुझुनू	५-१२-५६
५	श्री हरनार्थसिंह मेहता, आई० ए० एस०	सीकर	१३-९-५६
६	श्री ए० ए० एस० जाफरी, आई० ए० एस०	सवाई माधोपुर	२६-७-५५
७	श्री गोवर्धनसिंह चोधरी, आई० ए० एस०	अलवर	११-६-५६
८	श्री विष्णुदत्त शर्मा, आई० ए० एस०	जयपुर	३१-१०-५६

जोधपुर खण्ड

१	श्री आर० डी० माथुर, आई० ए० एस०	जोधपुर	१२-१-५५
२	श्री मांगोलाल महेछा, आर० ए० एस०	जालोर	..
३	श्री सिद्धनाथ शुक्ला, आई० ए० एस०	पाली	४-१२-५६
४	श्री ए० पी० कौशिक, आई० ए० एस०	नागोर	..
५	श्री मूलसिंह, आई० ए० एस०	जैसलमेर	३०-८-५५

क्रम सं०	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	वर्तमान पद तथा उम्र पर नियुक्ति का दिनांक
----------	------------------------------	---

६	श्री जगन्नाथ पुरोहित, आई० ए० एस०	वाडमेर १७-६-५६
७	श्री गजराजसिंह, आई० ए० एस०	सिरोही २३-५-५६

बीकानेर खण्ड

१	श्री खेमचन्द, आई० ए० एस०	बीकानेर १२-१-५४
२	श्री जगन्नाथ सिंह मेहता, आई० ए० एस०	चूरु १८-६-५५
३	श्री राधाकृष्ण चतुर्वेदी, आई० ए० एस०	गंगानगर ७-७-५५

उदयपुर खंड

१	श्री शिवशंकर, आई० ए० एस०	उदयपुर २१-१२-५५
२	श्री एन० सी० भटनागर, आई० ए० एस०	डूंगरपुर २३-५-५५
३	श्री मदनमोहन किशनवली, आई० ए० एस०	बांसवाडा २८-४-५६
४	श्री जे० पी० अरोडा, आई० ए० एस०	चित्तौडगढ़ २६-११-५६
५	श्री पी० एल० सुखवाल, आई० ए० एस०	भीलवाडा १०-१०-५५

कोटा खंड

१	श्री सुरेन्द्र सिंह निरवान, आई० ए० एस०	कोटा २१-१-५६
२	श्री राजकुमार शास्त्री, आई० ए० एस०	बूंदी १४-५-५६
३	श्री मनमोहन कोहली, आई० ए० एस०	झालावाड १८-९-५६

अतिरिक्त जिलाधीश एवं अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट

१	श्री नारायण दास मेहता, आर० ए० एस०	जयपुर २९-९-५६
२	श्री पी० एन० मेठ, आर० ए० एस०	जयपुर १-११-५६

क्र.सं०	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	वर्तमान पद तथा उस पर नियुक्ति का दिनांक
३	श्री डूंगरसिंह मेहता, आर० ए० एस०	जोधपुर ३-७-५४
४	श्री इन्द्रसिंह मेहता, अग्र० ए० एस०	गंगानगर ..
५	श्री मनोहर सिंह, आर० ए० एस०	अलवर ३-१०-५५
६	श्री हरिश्चन्द्र चतुर्वेदी, आर० ए० एस०	कोटा ७-११-५६
७	श्री अलाउद्दीन खिलजी, आर० ए० एस०	उदयपुर ५-१-५७
८	श्री ओंकार सिंह, आर० ए० एस०	सवाई माधोपुर ७-११-५६
९	श्री प्रतापसिंह, आर० ए० एस०	भरतपुर १-१०-५६
१०	श्री हजारीलाल मेहता	नागौर १९-११-५६
११	श्री जीवनसिंह चौधरी	सीकर ३०-११-५६
१२	श्री शंरफ अली	पाली ..

खंडीय आयुक्तों के निजी सहायक

१	श्री गंगाप्रसाद अग्रवाल, बी० ए०, एलएल० बी०, २९-१२-१९, आगरा	अजमेर
२	श्री कन्हैयालाल कोचर, बी० ए०, एलएल० बा०, साहित्य शिरोमणि, २८-८-१०, ब० कानेर	बोकानेर
३	श्री हरदत्त सारस्वत, एम० ए०, एलएल० बी०	जोधपुर
४	श्री मनोहरसिंह मेहता, बी० ए०, एलएल० बी०, ८-७-१६, उदयपुर	उदयपुर

खण्ड ६

पुलिस विभाग

भारतीय पुलिस सेवा

(१) राज्य सरकार के लिये वरिष्ठ पद:-

इन्सपेक्टर जनरल आफ पुलिस ..	१
डिप्टी इन्सपेक्टर जनरल आफ पुलिस ..	६
असिस्टेन्ट इन्सपेक्टर जनरल आफ पुलिस (हंड क्वार्टर्स)	१
सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस ..	२६
सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस, सी० आई० डी० ..	१
सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस, आई० बी० ..	१
सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस (रेलवेज) "	१
सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ..	१
पर्सनल असिस्टेन्ट इन्सपेक्टर जनरल आफ पुलिस ..	१
प्रिन्सीपल, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल ..	१
कमान्डेन्ट, आर० ए० सी० ..	१
	कुल .. ४१

(२) केन्द्रीय सरकार के लिये वरिष्ठ पद ..

१६
कुल योग .. ५७

(३) इन्डियन पुलिस सर्विस (रिक्रूटमेंट) रूलस, १९५४, के नियम ९ के अन्तर्गत पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद ..

१४
४३
६
५
९
५

सीधी भरती के लिये पद ६८

पदोन्नत पद १४

कुल अधिकृत स्ट्रेन्थ ८२

भारतीय पुलिस सेवा के सदस्यों के लिये काल-मान

सेवा का वर्ष	कनिष्ठ	वरिष्ठ
१ला	३५०	..
२रा	३५०	..
३रा	३८०	..
४था	३८०	..
५वां	४१०	..
६ठा	४४०	६००
७वां	४७०	६४०
८वां	५००	६८०
९वां	५३०	७२०
१०वां	५६०	७६०
११वां	५९०	८००

निपुणता बन्ध

१२वां	६२०	८४०
१३वां	६५०	८८०
१४वां	६८०	९२०
१५वां	७१०	९६०
१६वां	७४०	१०००
१७वां	७७०	१०००
१८वां	८१०	१०५०
१९वां	८५०	१०५०
२०वां	..	११००
२१वां	..	११००
२२वां	..	११५०

भारतीय पुलिस सेवा की प्रवर श्रेणी में अधिकारियों को वेतन १२५० रुपये मासिक स्थायी मिलेगा।

भारतीय पुलिस

क्र. सं.	नाम	नियुक्ति वर्ष	जन्म-स्थान तथा जन्म-दिन	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	भारतीय पुलिस सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३	४	५	६
१	श्री नरेशचन्द्र घोष, एम० एससी०, एलएल० बी०	१९३९	१-१०-०६	..	१०-६-५२
२	श्री गोवर्धन	१९४०	२७-३-०८, बीकानेर	१६-७-३०	१-९-५१
३	श्री करतार सिंह	१९४१ $\frac{१}{२}$	२८-२-०६, देहली	२९-५-२५	८-५-५२
४	श्री आर० एच० रे, बी० ए०	१९४१ $\frac{१}{२}$	७-१२-०५, जयपुर	२८-४-३१	१०-३-५४
५	श्री सन्तराम शर्मा, बी० ए०, बी० टी०	१९४२	१७-१२-१०, कांगडा	२८-११-४२	१०-६-५२
६	श्री जसवन्त सिंह	१९४३ $\frac{१}{२}$	११-७-११, बीकानेर	५-३-३३	१०-३-५४
७	श्री हनुमान शर्मा, बी० ए०, एलएल० बी०	१९४३ $\frac{१}{२}$	५-१-११	२३-३-३६	१-९-५१
८	श्री देवेन्द्रसिंह साही, एफ० एससी०, एलएल० बी०	१९४३ $\frac{१}{२}$	२-१-१३, गुजरातवाला	दिसम्बर, १९३६	१०-६-५२
९	श्री शान्तिप्रसाद भार्गव, एम० ए०, पीएच० डी०	१९४४	४-१०-१३, अलवर	२६-८-४८	१९-५-५२
१०	श्री नरेन्द्रचन्द्र दत्ता, एम० ए०	१९४४	१५-१-५१, झेलम	१६-११-४३	१०-६-५२

सेवा के अधिकारी

भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी नियुक्ति का दिनांक	वर्तमान पद तथा उस पर नियुक्ति का दिनांक	वास्तवीय वेतन	विशेष वेतन व्यक्तिगत वेतन	विशेष वेतन
७	८	९	१०	११
		₹०	₹०	
				मणिपुर राज्य की सेवा में प्रतिनियुक्ति पर ।
२४-३-५३	डिप्टी इन्स्पेक्टर जनरल आफ पुलिस, हेडक्वार्टर जयपुर, ३-९-५५			
६-५-५४ (उ० वे० अ०)	डिप्टी इन्स्पेक्टर जनरल आफ पुलिस, सी० आई० डी०, १७-३-५७			
१०-३-५५	डिप्टी इन्स्पेक्टर जनरल आफ पुलिस, बोकानेर रेन्ज, २-७-५५			
१०-६-५४ (उ० वे० अ०)				भारत सरकार की सेवा में प्रतिनियुक्ति पर ।
१०-३-५५ (उ० वे० अ०)	डिप्टी इन्स्पेक्टर जनरल आफ पुलिस			
२४-३-५३	डिप्टी इन्स्पेक्टर जनरल आफ पुलिस, अजमेर रेन्ज, २८-७-५५			
१०-६-५५ (उ० वे० अ०)	सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, उदयपुर, २०-४-५६			
१०-६-५४ (उ० वे० अ०)	सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, सवाई माधोपुर, १-५-५६			
१०-६-५४ (उ० वे० अ०)	सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, गंगानगर, १७-११-५५			

क्रम सं०	नाम	नियुक्ति वर्ष	जन्म-स्थान तथा जन्म-दिन	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	भारतीय पुलिस सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३	४	५	६
११	श्री नरेन्द्रनाथ दीवान, बी० एससी०	१९४४,	१-३-१७, धौलपुर	१६-६-५२	१०-६-५२
१२	श्री कलाशनाथ सौरल, एम० ए०	१९४४½,	२४-३-१४, कोटा	२३-१-३९	१०-६-५२
१३	श्री डी० जगन्नाथन, बी० एससी०	१९४४	५-९-१६,	१५-२-४०	१४-९-५२
१४	श्री सुल्तानसिंह, बी०ए०, एलएल० बी०,	१९४५	१-४-१६, जोधपुर	४-३-४०	१-९-५१
१५	श्री गुरुचरणदास चड्ढा, बी० ए०	१९४५	१८-११-१५, देहली	१२-६-४४	१०-६-५२
१६	श्री हिम्मतसिंह, बी०ए०	१९४७	२२-४-१५, डूंगरपुर	१-१-४२	१०-३-५४
१७	श्री गणेशसिंह बी०एससी०, १९४७½ विशारद	१९४७½	५-७-२१, कोटा	२-१-४५	१-९-५१
१८	श्री द्वारकानाथ पुरोहित	१९४७½	११-११-१०, जयपुर	१५-४-४३	१०-३-५४
१९	श्री महावीर प्रसाद त्रिपाठी, बी०ए०, एलएल० बी०	१९४७½	२२-९-२५, सीकर	२३-८-३९	१०-३-५४
२०	श्री ललितमोहन, बी० ए०	१९४८½	६-६-२०, भागरा	९-५-४९	१०-६-५२
२१	श्री अमरसिंह कोचर, बी० ए०	१९४९½	२७-८-२४, सीकर	१५-६-४८	१-९-५१
२२	श्री मदनमोहन लाल शर्मा, एम० ए०, एलएल० बी०	१९४९½	१३-१-०३, मथुरा	९-९-३०	७-६-५४

भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी नियुक्ति का दिनांक	वर्तमान पद तथा उस पर नियुक्ति का दिनांक	वास्तवीय वेतन	विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन	विशेष
७	८	९	१०	११
		रु०	रु०	
१०-६-५४ (उ० वे० श्र०)				भारत सरकार की सेवा में प्रतिनियुक्ति पर।
१०-६-५४ (उ० वे० श्र०)	सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, चूरू, ३-४-५६			
१४-९-५४ (उ० वे० श्र०)	सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस			अन्डर सस्पेंशन २-२-५७ से।
२४-३-५३	डिप्टी इन्सपेक्टर जनरल आफ पुलिस, उदयपुर-कोटा रेंज, २४-६-५५			
१०-६-५४ (उ० वे० श्र०)	सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, टोंक, २१-४-५६			
१०-३-५५ (उ० वे० श्र०)	सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, बून्दी, ९-१०-५४			
२४-३-५३	डिप्टी इन्सपेक्टर जनरल आफ पुलिस, जोधपुर रेंज, २९-७-५५			
१०-३-५५ (उ० वे० श्र०)	सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, रेल्बेज, २३-७-५६			
१०-३-५५ (उ० वे० श्र०)	सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, जयपुर, ३०-१-५३			
१०-६-५४ (उ० वे० श्र०)	सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, कोटा, १२-१०-५५			
२४-३-५३	कमान्डेन्ट, आर० ए० सी०, तृतीय बटालियन, १५-१०-५५			
२४-३-५३	सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, वायरलेस, ३०-११-५५			

सं. क्र.	नाम	नियुक्ति वर्ष	जन्म-स्थान तथा जन्म- दिन	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	भारतीय पुलिस सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३	४	५	६
२३	श्री सीभायमल सुराना, बी० ए०	१९४९½	१-११-०४, झालावाड	३-१२-२९	७-६-५४
२४	श्री उदयसिंह गहलोत	१९४९½	३-४-१२, वांस्वाडा	१६-१०-३७	७-६-५४
२५	श्री पन्नोसिंह, बी० ए०	१९४९½	१५-८-१४, नागौर	१-१-३९	७-६-५४
२६	श्री लक्ष्मीशंकर दशोरा	१९४९½	१५-५-०७, उदयपुर	२-७-२७	७-६-५४
२७	श्री बलतावर लाल	१९४९½	२२-७-११, अलवर	२१-१२-३३	७-६-५४
२८	श्री हमीरसिंह, बी० ए०	१९४९½	११-१०-२१, कोटा	२-१-४५	७-६-५४
२९	श्री मनोहरसिंह हिरन	१९४९½	२७-१०-०८, उदयपुर	१०-९-३०	७-६-५४
३०	श्री गुमानसिंह	१९४९½	५-७-१४, जैसलमेर	११-११-३४	७-६-५४
३१	श्री ताराचन्द	१९४९½	६-६-१३	२-९-३५	१-१-५७
३२	श्री बहादुरसिंह, एफ० ए० सी०	१९४९½	८-७-१०	२१-७-३०	१-१-५७
३३	श्री भवानीमल, एम० ए०, एलएल० बी०	१९५०	२८-६-२६, जोधपुर	१६-१०-४८	१-११-५०
३४	श्री धर्मपाल गुप्ता, एम० ए०,	१९५१	२२-६-२६	९-७-५१	९-७-५१
३५	श्री ज्ञानचन्द्र सिधवी, बी० कॉम०, एलएल० बी०	१९५१	१०-११-२७ नागौर	९-७-५१	९-७-५१

भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी नियुक्ति का दिनांक	वर्तमान पद तथा उस पर नियुक्ति का दिनांक	वास्तविक वेतन	विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन	विशेष
७	८	९	१०	११
		₹०	₹०	
२४-३-५३	सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, जैसलमेर, २०-४-५६			
२४-३-५३	सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, बीकानेर, २३-१२-५३			
२४-३-५३	सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, एन्टीकरफान, ८-१२-५६			
२४-३-५३	सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, चित्तौड़, १८-२-५५			
२४-३-५३	सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस			अवकाश पर १-१२-५६ से
२४-३-५३	सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, सिरोही, १५-११-५६			
२४-३-५३	सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, भीलवाड़ा, १७-४-५६			
२४-३-५३	असिस्टेंट इन्स्पेक्टर जनरल आफ पुलिस, जोधपुर रेंज, ६-५-५६			
..	सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, जोधपुर, १९-५-५६			
..	सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, भरतपुर, २१-५-५६			
२-७-५१	सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, अलवर, २२-५-५६			
८-४-५२	सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, डूंगरपुर, २१-२-५५			
८-४-५२	सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, सीकर, १७-५-५६			

क्र.सं.	नाम	नियुक्ति वर्ष	जन्म-स्थान तथा जन्म दिन	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	भारतीय पुलिस सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३	४	५	६
३६	श्री गोविन्दसिंह	१९५१	२१-६-२९	१-१-४४	२९-८-५६
३७	श्री ललित नारायण, बी०ए०, एलएल०बी०	१९५१	१७-९-१८	१-२-४५	२८-८-५६
३८	श्री अमरसिंह, डिप्लोमा मैओ कालेज, अजमेर	१९५१	३-१२-१७	२६-६-४२	१-१-५७
३९	श्री सुभाषचन्द्र टंडन, एम० ए०	१९५२	६-११-२९ जालंधर	९-९-५२	९-९-५२
४०	श्री महेशकिशोर सक्सेना एम० एससी०	१९५२	१७-४-२९, कोटा	९-९-५२	९-९-५२
४१	श्री जयकृष्ण खेमचन्द बालानी, एम० ए०, एलएल० बी०	१९५३	६-६-२८, नवाबशाह	५-१०-५३	५-१०-५३
४२	श्री हरिनारायण काक, एम० ए०, एलएल०बी०	१९५३	२०-२-२९, जयपुर	५-१०-५३	५-१०-५३
४३	श्री रघुनार्थसिंह, बी० ए०	१९५३	१८-८-२७, बीकानेर	१५-१-४८	..
४४	श्री दतीशकुमार दत्ता, एम० ए०	१९५४	३-५-३०	८-११-५४	२३-२-५५
४५	श्री वर्णचन्द्र मिश्रा, एम० ए०	१९५४	२५-१-३०	..	८-११-५४
४६	श्री जयप्रकाश, एम० एससी०, एलएल० बी०	१९५४	५-६-३०	..	१४-१०-५४
४७	श्री ज्ञान प्रकाश पिलानिया, एम० ए०, एलएल० बी०	१९५५	१८-२-३२	..	७-१०-५५

भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी नियुक्ति का दिनांक	वर्तमान पद तथा उस पर नियुक्ति का दिनांक	वास्तवीय वेतन	विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन	विशेष
७	८	९	१०	११
		रु०	रु०	
..	अतिरिक्त पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट उदयपुर, २१-६-५५			
..	पी० ए० टू आई० जी० पी०, १-१०-५५			
..	सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, बांसवाड़ा, ५-११-५५			
३०-११-५३	..			दिल्ली राज्य की सेवा में प्रतिनियुक्ति पर
३०-११-५३	सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, झालावाड़, १०-१२-५६			
१८-१२-५४	असिस्टेन्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, जोधपुर, ५-१-५६			
१९-१२-५४	ए० डी० सी० टू गवर्नर, १६-११-५६			
..	अतिरिक्त सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, जयपुर, २४-७-५६			
४-८-५६	असिस्टेन्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, राजगढ़ (अलवर), १३-११-५६			
..	असिस्टेन्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, बीकानेर			
..	असिस्टेन्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, उदयपुर, १३-११-५६			
..	असिस्टेन्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, पी० टी० एस०, किशनगढ़			

क्र. सं.	नाम	नियुक्ति वर्ष	जन्म स्थान तथा जन्म-दिन	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	भारतीय पुलिस सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३	४	५	६
४८	श्री डब्लू० जी० जयराम मुद्दालियर, एम० ए०	१९५५	१७-१०-३०	७-१०-५५	
४९	श्री बी० के० कौल	१९५६	..	२१-१०-५६	
५०	श्री एच० पी० भटनागर	१९५६	..	२१-१०-५६	
५१	श्री डी० आर० पुरी	१९५६	..	१५-११-५६	

अधिकारि सूची

१७३

भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी नियुक्ति का दिनांक	वर्तमान पद तथा उस पर नियुक्ति का दिनांक	वास्तवीय वेतन	विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन	विशेष
७	८	९	१०	११
	असिस्टेन्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, पी० टी० एस०, किशनगढ़	६०	६०	प्रशिक्षण हेतु
	सी० पी० टी० सी०, आबू			प्रशिक्षण हेतु
	सी० पी० टी० सी०, आबू			प्रशिक्षण हेतु
	सी० पी० टी० सी०, आबू			प्रशिक्षण हेतु

राजस्थान आरक्षी सेवा

संवर्गबल (राजस्थान राज-पत्र भाग १, खण्ड ५, संख्या १४४, दिनांक २७ जनवरी, सन् १९५४ के अनुसार)

क सीनियर आर० पी० एस० पद (श्रेणी ५००-३०-६५० ई० बी० ३०-८००)

१ आई० जी० पी० के निजी सहायक	१
२ सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग	१
३ वाईस प्रिन्सिपल, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, किशनगढ़	१
४ जोन ऑफिसर	१
५ कमान्डेन्ट, राजस्थान आर्मड कान्सटेब्यूलरी	५

योग क ९

ख जूनियर आर० पी० एस० पद (श्रेणी २५०-२५-५०० ई० बी० २५-७००)

१ डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, गुप्तचर विभाग	४
२ डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, विशेष शाखा, सी०आई०डी०	४
३ डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग	५
४ डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, लाइन्स और ट्रेनिंग रेंज तथा कोटा में	५
५ डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, ट्रेनिंग स्कूल, किशनगढ़	३
६ डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, वायरलैस तथा मोटर ट्रान्सपोर्ट	१
७ असिस्टेन्ट कमान्डेन्ट, आर० ए० सी०	१८
८ कमान्डेन्ट, मेवाड़ भील कोर	१
९ डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, रेल्वेज	३
१० डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट जिला पुलिस	५६
११ डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, डकंती निवारक	३

योग ख १०३

योग क और ख:- ११२

ग न्यून स्थान जो आई० पी० एस० अधिकारियों के
प्रशिक्षण समाप्त करने पर पूर्ण होंगे

३

वास्तविक योग:- १०९

घ प्रतिनिधित्व तथा अस्थाई पदों के लिये आरक्षित
१५% 'ड' का

१६

ङ अवकाश आरक्षित ७ $\frac{1}{2}$ % 'ड' का

८

च प्रशिक्षण के लिये आरक्षित ७ $\frac{1}{2}$ % 'ड' का
कुल योग आरक्षित का

३२

संवर्ग बल १४१

राजस्थान पुलिस सेवा के

क्रम सं०	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	राजस्थान पुलिस सेवा में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१	श्री जे० पी० सिंघा, बी० ए०, एलएल० बी०, २२-९-२१	२-१-४१	१-११-५६
२	श्री आर० सी० भाटीया, बी० ए०, एलएल०बी०, ४-३-०७, बनू	१-३-३९	२२-१-५१
३	श्री ओम प्रकाश, बी० एससी०, एलएल० बी०, २१-८-०५, लाहौर	६-१०-३०	२२-१-५१
४	श्री रूपचन्द मेहता, बी० ए०, एलएल० बी०, ३-११-०२, जोधपुर	२-२-२५	२२-१-५१
५	श्री जी० डी० भंडारी, बी० एससी०, एलएल० बी०, २४-८-१७, जोधपुर	१४-६-३७	२२-१-५१
६	श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, बी० एससी० एलएल० बी०, १७-७-०२, मंडासूर	१-४-३३	२२-१-५१
७	श्री सुन्दर लाल त्रिवेदी, बी० ए०, ८-१०-१९०६, बरेली	२५-६-३२	२२-१-५१
८	श्री शिशिराम शर्मा, २०-१-१९११, रोहतक	२४-८-२८	२२-१-५१
९	श्री मदन लाल कश्यप, १५-३-१५, गंगानगर	१०-७-३३	२२-१-५१
१०	श्री कुन्दन लाल, १-२-११, गंगानगर	५-१२-३२	२२-१-५१
११	श्री लक्ष्मण सिंह, ६-१२-२४	१७-८-४८	२२-१-५१
१२	श्री हरिदास जोशी, बी० ए०, एलएल०बी०, १-७-०६, जोधपुर	६-८-२९	२२-१-५१
१३	श्री पी० एल० बनर्जी, २-१२-०५, जयपुर	१-४-२८	२२-१-५१

अधिकारियों की सूची

वर्तमान पद व विनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
	र०	
सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, अजमेर, १-११-५६		
प्रिन्सिपल, पी० टी० एस०, किशनगढ़, १९-१२-५२		
कमान्डेन्ट आर० ए० सी० पंचम बटालियन, १५-३-५६		
वाइस प्रिन्सिपल, पी० टी० एस०, १२-१२-५४		
कमान्डेन्ट, चतुर्थ बटालियन, आर० ए० सी०, ६-३-५६		
कमान्डेन्ट, प्रथम बटालियन आर० ए० सी०, २२-६-५४		
कमान्डेन्ट, आर० ए० सी०, द्वितीय बटालियन, ५-१०-५५		
सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, पाली, २६-९-५५		
सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, जालोर, २१-४-५६		
अतिरिक्त सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, जोधपुर १०-४-५६		
डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस		
जोन ऑफिसर, जोधपुर, १२-९-५३		
ए०आई० जी०, फोर्स, १-७-५४		

क्र. सं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	राजस्थान पुलिस सेवा में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१४	श्री मोतीसिंह, आर० पी० एस०, बी० ए०, एलएल० बी० ३-११-०९, कोटा	२-११-३५	२२-१-५१
१५	श्री जय शंकर राजोरा, आर० पी० एस०, बी० ए०, एलएल० बी०, ३-१२-१६, उदयपुर	४-१-४५	२२-१-५१
१६	श्री नानकचन्द, आर० पी० एस०, बी० एससी०, एलएल० बी०, २५-१०-११, रोहतक	१-१०-३७	१०-४-५१
१७	श्री हेनराज, १५-९-१३, गंगानगर	७-६-४७	२२-१-५१
१८	श्री यू० जी० पुरोहित, १३-३-०५	४-४-४६	२२-१-५१
१९	श्री लादूसिंह, १५-५-१६	२०-८-३४	२२-१-५१
२०	श्री धूमसिंह, २१-१२-२३, गुडगांव	१८-४-४२	२२-१-५१
२१	श्री तेजसिंह, २-४-२२, जयपुर	१-४-४१	२२-१-५१
२२	श्री इन्द्रनाथ गुप्ता, एम० एससी०, २-६-२०	१६-४-४५	२२-१-५१
२३	श्री के० आर० सी० भंडारी, एम० ए०, एलएल० बी०, २४-८-१५, जोधपुर	६-२-४३	२२-१-५१
२४	श्री पी० सी० साजनानी, बी० एससी०, एलएल० बी०, १६-११-११	७-१२-४८	२२-१-५१
२५	श्री लक्ष्मणसिंह (द्वितीय), डिप्लोमा मेओ कालेज, अजमेर, २८-७-१५, भरतपुर	१८-१२-३९	२२-१-५१
२६	श्री इन्द्र सिंह, २१-५-१५, उनियारा	२८-८-४७	२२-१-५१
२७	श्री एस० पी० पान्डे, विशारद, ३-२-०५	१-६-४५	२२-१-५१
२८	श्री ए० पी० तिवाड़ी, बी० एससी०, जयपुर, १०-११-२४	९-७-४५	२२-१-५१
२९	श्री यू० एन० मिश्रा, बी० एससी०, १६-८-२४	२२-५-४८	२२-१-५१

वर्तमान पद व दिनांक	देतन	विशेष
५	६	७
डिप्टी सुपरि० पुलिस, उन्ठाला, १९-६-५६	३०	
सुपरि० पुलिस, मुन्ढुनू, ३०-१२-५६		
डिप्टी सुपरि० पुलिस, रेल्वे, जोधपुर, ९-११-५४		
डिप्टी सुपरि० पुलिस, मालपुरा, २९-५-५६		
डिप्टी सुपरि०, रेल्वे, १३-१-५६		
डिप्टी सुपरि० पुलिस, बयाना, १३-१२-५४		
डिप्टी सुपरि० पुलिस, हंडववार्टर, अलवर, १८-२-५६		
डिप्टी सुपरि० पुलिस, रेल्वे, कोटा, ८-४-५५		
डिप्टी सुपरि० पुलिस, सी० आई० डी०, २८-११-५६		
डिप्टी सुपरि० पुलिस, बीकानेर, २६-३-५६		
सुपरि० पुलिस, नागौर, १२-९-५६		
डिप्टी सुपरि० पुलिस, चूरू, १५-११-५६		
डिप्टी सुपरि० पुलिस, खेतड़ी, १२-११-५६		
अतिरिक्त सुपरि० पुलिस, कोटा, २७-१२-५६		
डिप्टी सुपरि० पुलिस, हनुमानगढ़, ४-६-५६		
डिप्टी सुपरि० पुलिस, अजमेर, ८-१२-५६		

क्र.सं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	राजस्थान पुलिस सेवा में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
३०	श्री शिवनाथ सिंह, १०-१०-१६, सीकर	९-१०-३९	२२-१-५१
३१	श्री भगरीरथ रायब्रिशनोई, बी०ए०, एलएल० बी०, १-४-२५, गंगानगर	१४-१-४८	२२-१-५१
३२	श्री दुर्ल सिंह, बी० ए०, एलएल० बी०, १२-७-२३, बीकानेर	९-४-४८	२२-१-५१
३३	श्री कल्याण सिंह, बी० ए०, २२-७-२५, जयपुर	८-१-४९	२२-१-५१
३४	श्री बजरंग लाल, एम० ए०, १८-१०-२८, बीकानेर	३-८-४९	२०-१०-५३
३५	श्री के० एन० गुप्ता, एम० कॉम, १२-३-२७	३-८-४९	२०-१०-५३
३६	श्री जोरावर सिंह, १८-१०-१४, किशनगढ़	७-७-३३	२०-१०-५३
३७	श्री मान सिंह, बी० ए०, ४-४-२३, चूरु	१५-१-४८	२०-१०-५३
३८	श्री एस० एन० भार्गव, बी० ए०, १४-४-१४, जोधपुर	२०-६-३७	१०-४-५१
३९	श्री पुखराज माथुर, बी० ए०, एलएल० बी०, जोधपुर, ८-४-१९	१३-९-४३	१०-४-५१
४०	श्री बृज लाल, बी० ए०, एलएल० बी०, जोधपुर, १२-६-११	१६-९-३४	१०-४-५१
४१	श्री नन्द सिंह चन्दावत, बी० ए०, एलएल० बी०, ४-११-१९, झालावाड़	१५-३-४८	१०-४-५१
४२	श्री हीराचन्द परमार, बी० ए०, १४-१०-१४, सिरौही	११-१-४१	१०-४-५१
४३	श्री एन० के० गोयल, बी० कॉम०, एलएल० बी०, ३-५-१४, टोंक	३१-१-३९	१०-४-५१
४४	श्री रामसिंह बार्थे, १-९-०३, अलवर	१-९-३३	१०-४-५१

वर्तमान पद व दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
डिप्टी सुपरि० पुलिस, दौसा, २३-६-५६	र०	
सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, बाड़मेर, ३-९-५६		
डिप्टी सुपरि० पुलिस, ए० डी० एफ०, वागडी, जोधपुर रेन्ज, २४-५-५४		
डिप्टी सुपरि० पुलिस, सी० आई० डी०, २८-४-५५		दिल्ली सरकार की सेवा में प्रति- नियुक्ति पर
सुपरि० पुलिस, विशेष शाखा, सी० आई० डी०, १२-३-५७		
डिप्टी सुपरि० पुलिस, हंड० सिरौही, २१-११-५६		
डिप्टी सुपरि० पुलिस, करौली, ३०-५-५७		
डिप्टी सुपरि० पुलिस, सी० आई० डी०, १८-६-५६		
डिप्टी सुपरि० पुलिस, सी० आई० डी०, जोधपुर, २३-१-५१		
डिप्टी सुपरि० पुलिस, बाड़मेर, १०-७-५६		
डिप्टी सुपरि० पुलिस, एन्टीकरप्शन ब्रान्च, बीकानेर, २८-४-५६		
डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस		२२-२-५६ से अवकाश पर
डिप्टी सुपरि० पुलिस, आर० टी० सी०, बीकानेर ४-७-५५		
डिप्टी सुपरि० पुलिस, शाहपुरा (भीलवाड़ा), १८-४-५६		

क्र. सं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	राजस्थान पुलिस सेवा में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
४५	श्री सौम नाथ टिक्कू, १५-१०-११, कोटा	१-१०-३१	१०-४-५१
४६	श्री ओंकार सिंह, १५-९-१३, किशनगढ़,	१-१०-४८	१०-४-५१
४७	श्री आर० डी० मुकर्जी, १५-१२-०८ जयपुर	१-४-३४	२०-८-५४
४८	श्री राजपाल सिंह, ९-१-०९, अलीगढ़	१-४-२८	२०-८-५४
४९	श्री रामसिंह कौशिक, ३-४-०४, महेन्द्रगढ़	२-१-२४	२०-८-५४
५०	श्री रवि शंकर झा, १५-६-१५, झालावाड़	२५-११-३५	२०-८-५४
५१	श्री शिव चरण दास, ७-४-०६, जोधपुर	१-७-२८	२०-८-५४
५२	श्री खंगार सिंह, ५-१-२२, जयपुर	१-११-४१	१०-४-५१
५३	श्री शिवराज नारायण, १३-४-०५	१-१-२९	२०-८-५४
५४	श्री शिवदत्त पुरी, १-७-०८, मुरादाबाद,	१-६-३१	१-११-५६
५५	श्री जै० एस० नरुला, बी० ए० एलएल० बी०, १-१२-०५	२२-९-३२	१-११-५६
५६	श्री के० डी० गौरी, विशारद, २४-१२-०८	११-२-३०	१-११-५६
५७	श्री त्रिलोचन सिंह, ८-१२-०६	१६-६-२८	१-११-५६
			आर० पी० एस०
५८	श्री रामजीवन, बी० ए०, एलएल० बी०, ६-१-१७, जोधपुर	८-७-३९	२९-५-५६

वर्तमान पद व दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
डिप्टी सुपरि० पुलिस, आर० टी० सी०, जोधपुर, १७-११-५६	रु०	
डिप्टी सुपरि० पुलिस, फुलेरा, ५-३-५५		
डिप्टी सुपरि० पुलिस, एन्टीकरप्शन ब्रान्च, जोधपुर, २८-४-५६		
असिस्टेन्ट कमान्डेन्ट, आर० ए० सी०, चतुर्थ वटालियन, २८-८-५६		
डिप्टी सुपरि० पुलिस, झालावाड़, ११-२-५६		
डिप्टी सुपरि० पुलिस, सी० आई० डी० (गवन शाखा), ४-५-५५		
डिप्टी सुपरि० पुलिस, वाडमेर, १०-२-५६		
असिस्टेन्ट कमान्डेन्ट, आर० ए० सी०, पंचम वटालियन, १-१२-५४		
डिप्टी सुपरि० पुलिस, पी० टी० एस०, किशनगढ़, ३-९-५३		
डिप्टी सुपरि० पुलिस, सी० आई० डी०, अजमेर, १-११-५६		
डिप्टी सुपरि० पुलिस, हँड० अजमेर, १-११-५६		
डिप्टी सुपरि० पुलिस, आर० टी० सी०, उदयपुर. ८-१२-५६		
डिप्टी सुपरि० पुलिस, नागौर, १०-१२-५६		
(परीक्षाधीन)		
डिप्टी सुपरि० पुलिस, सी० आई० डी०, १३-६-५३		

क्र. सं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	ज्ञासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	राजस्थान पुलिस सेवा में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
५९	श्री उजागरसिंह, बी० ए०, एलएल० बी०, ८-३-१०, रायसिंह नगर	१-३-३५	२९-५-५६
६०	श्री पैशाखा सिंह, १-६-१६, गंगानगर	२-१-३६	२९-५-५६
६१	श्री ईश्वरदत्त पंथ, १-४-१४, गढ़वाल	१०-८-३५	२९-५-५६
६२	श्री रघुनाथ सिंह, १-१०-१६, जोधपुर	३-१-३६	२९-५-५६
६३	श्री वीरेन्द्रसिंह, २-२-१९११	१६-३-३२	२९-५-५६
६४	श्री मान सिंह, १-७-१९१६	१९-१०-३५	२०-५-५६
६५	श्री बालू सिंह, २१-८-१४, अलवर	२-७-३८	२९-५-५६
६६	श्री काशी प्रसाद, २५-१२-१९, जयपुर	१-१-४२	२९-५-५६
६७	श्री कनकमल मेहता, ९-६-१४, उदयपुर	८-१-३६	२९-५-५६
६८	श्री रतन सिंह, १६-१०-१२, अलवर	२९-७-४५	२९-५-५६
६९	श्री उम्मेद सिंह, ११-१२-०९	१-१२-२५	२९-५-५६
७०	श्री जनक सिंह, डिप्लोमा, मेओ कालेज, अजमेर, १६-२-२१	१-१-५३	२९-५-५६
७१	श्री सखार सिंह, १५-७-१५	१२-८-५१	२९-५-५६
७२	श्री तख्त सिंह, २१-७-१५	४-८-५१	२९-५-५६
७३	श्री माधोसिंह, १७-९-१५, बाड़मेर	१८-८-५१	२९-५-५६
७४	श्री रघुवीर सिंह, २०-७-१४	१०-९-५१	२९-५-५६
७५	श्री ई० एन० वी० के० नैयर, द्रावनकोर, २२-२-२२	६-८-५१	२९-५-५६

वर्तमान पद व दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
	रु०	
डिप्टी सुपरि० पुलिस, आमरे, १०-८-५६		
डिप्टी सुपरि० पुलिस, कोटा, १३-१०-५५		
डिप्टी सुपरि० पुलिस, वायरलेस, १०-४-५६		
डिप्टी सुपरि० पुलिस, सीकर, २७-५-५६		
डिप्टी सुपरि० पुलिस, फलासिया, २६-११-५६		
डिप्टी सुपरि० पुलिस, ए०डी०एफ०, उदयपुर		
डिप्टी सुपरि० पुलिस, शाहपुरा (जयपुर), २१-५-५५		
डिप्टी सुपरि० पुलिस, जयपुर सिटी, २१-५-५५		
डिप्टी सुपरि० पुलिस, हंड० जयपुर, २८-६-५६		
असिस्टेन्ट क० आर० ए० सी० तृतीय, बटालियन, ३०-५-५५		
डिप्टी सुपरि० पुलिस, गंगानगर, ५-११-५६		
डिप्टी सुपरि०, पुलिस, बीकानेर, २२-१०-५५		
असिस्टेन्ट क०, आर० ए० सी० पंचम बटालियन, १३-८-५६		
असिस्टेन्ट क०, आर० ए० सी० प्रथम बटालियन, २५-१-५४		
असिस्टेन्ट क०, आर० ए० सी० पंचम बटालियन, १३-९-५४		
कमान्डेन्ट, मेवाड़ भील कोर, २६-६-५४		
असिस्टेन्ट क०, आर० ए० सी० प्रथम बटालियन, वाड़मेर, २१-२-५५		

क्र. सं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	राजस्थान पुलिस सेवा में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
७६	श्री सवाई सिंह (प्रथम), १-७-२२, नागौर	१-२-५१	२९-५-५६
७७	श्री किशन सिंह, बी० ए०, २१-४-१६	१०-२-५३	२९-५-५६
७८	श्री मन मोहन कौशिक, बी० ए०, एलएल० बी०, १०-३-२५, जयपुर	१४-९-५५	१४-९-५५
७९	श्री विजयसिंह जाट, बी० ए०, एलएल० बी०, ६-७-३४, जयपुर	१५-९-५५	१५-९-५५
८०	श्री श्रावण मल, बी० कॉम, ११-८-२९, सीकर	१७-९-५५	१७-९-५५
८१	श्री नरायण सिंह, बी० ए०, २७-३-२९, जयपुर	१७-९-५५	१७-९-५५
८२	श्री गोपी लाल आचार्य, बी० ए०, एलएल० बी०, २५-४-०७, जयपुर	२१-९-५५	२१-९-५५
८३	श्री गोविन्द प्रताप नाग, एम० ए०, एलएल० बी०, २-२-३४	१४-९-५५	१४-९-५५
८४	श्री पुरुषोत्तम जं० मुन्शी, एम० ए०, ८-११-१८, उदयपुर	२२-९-५५	२२-९-५५
८५	श्री कृष्ण गोपाल, बी० ए०, एलएल० बी०, ५-१-२८, किशनगढ़	१७-९-५५	१७-९-५५
८६	श्री चंद्र सिंह, बी० ए०, १४-७-३०, जोधपुर	२१-९-५५	२१-९-५५
८७	श्री मदन मोहन सहर्षि, बी० ए०, एलएल० बी०	२४-९-५५	२४-९-५५
८८	श्री रघुवंश कुनार गर्ग, एम० ए०, एलएल० बी०, २९-११-२७, जयपुर	१४-९-५५	१४-९-५५
८९	श्री विष्णुदत्त शर्मा, एम० ए०, एलएल० बी०, २०-२-२५, जोधपुर	१७-५-५५	१७-५-५५

वर्तमान पद व दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
	रु०	
असिस्टेन्ट क०, आर० ए० सी०, प्रथम वटालियन, २५-१-५४		
असिस्टेन्ट क० आर० ए० सी०, तृतीय वटालियन, १४-७-५३		
डिप्टी सुपरि० पुलिस, सीकर, २६-१२-५६		व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु
डिप्टी सुपरि० पुलिस, टोंक, ४-१-५६		"
डिप्टी सुपरि० पुलिस, भरतपुर, ४-१-५७		"
डिप्टी सुपरि० पुलिस, झुन्झुनू, ४-१-५७		"
डिप्टी सुपरि० पुलिस, बाड़मेर, ५-१-५७		"
डिप्टी सुपरि० पुलिस, बीकानेर, ४-१-५७		"
डिप्टी सुपरि० पुलिस, भीलवाड़ा, ३-१-५७		"
डिप्टी सुपरि० पुलिस, सवाई माधोपुर, ४-१-५७		"
डिप्टी सुपरि० पुलिस, पाली, ४-१-५७		"
डिप्टी सुपरि० पुलिस, कोटा, ५-१-५७		"
डिप्टी सुपरि० पुलिस, अजमेर, ८-४-५७		"
डिप्टी सुपरि० पुलिस, जयपुर, २-१-५७		"

क्र.	नाम-जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासक से सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	राजस्थान पुलिस सेवा में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
९०	श्री रामसिंह, एम० ए०, एलएल० बी०, २५-२-३२, बीकानेर	३-१२-५५	३-१२-५५
९१	श्री जोधसिंह, एम० ए०, एलएल० बी०, ३-८-२७, इन्द्रपुरा (उदयपुर)	११-१२-५५	११-१२-५५
९२	श्री रामकुमार, एम० ए०, २१-१२-२९	१२-१२-५५	१२-१२-५५
९३	श्री ओम् प्रकाश, एम० ए०, एलएल० बी०	१६-१२-५५	१६-१२-५५
९४	श्री चांदमल पलरिच्छा, बी० कॉम, एलएल० बी०, २०-३-३०	१०-१-५६	१०-१-५६
९५	श्री रामेश्वर खूंटेटा, बी० ए०, बी० टी०, १८-११-२०, जयपुर	१६-७-४१	२२-१२-५५
९६	श्री मुरारीलाल वैश्य गर्ग, बी० ए०, एलएल० बी०	१०-१-५६	१०-१-५६
९७	श्री रामकिशन सिरोलिया	४-२-५६	४-२-५६
९८	श्री मदन लाल पारीक, बी० ए०, एलएल० बी०, १५-७-३६, जोधपुर	३-१२-५५	३-१२-५५
९९	श्री शिवकुमार शर्मा, एम० ए०, एलएल० बी०, साहित्य-रत्न, ११-१०-३३	२-१-५७	२-१-५७
१००	श्री बनवारी लाल, बी० ए०, १-४-३४	२-१-५७	२-१-५७
१०१	श्री कृष्ण कुमार सिंह, एम० ए०, ७-८-३२	७-७-५४	२-१-५७
१०२	श्री भूरामल एन० जैन, एम० ए०, १५-६-३२	३-१-५७	३-१-५७
१०३	श्री पृथ्वीगिरी गोस्वामी, एम० ए०, एलएल० बी०, ७-२-२९	९-१-५७	९-१-५७
१०४	श्री सुरेश शर्मा, एम० ए०, एलएल० बी०, ३१-१-३४	२-१-५७	२-१-५७

सं क्रम १	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान २	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक ३	राजस्थान पुलिस सेवा में नियुक्ति का दिनांक ४
१०५	श्री विरेन्द्र सिन्हा, बी०ए०, २४-९-३५	२-१-५७	२-१-५७
१०६	श्री सुखदेव कुमार, एम०ए०, ३-४-३१	२-१-५७	२-१-५७
१०७	श्री गिरीराज सिंह, एम०ए०, १०-९-३१	२-१-५७	२-१-५७
१०८	श्री कृष्णलाल गोदरा, एम०ए०, एलएल० बी०, साहित्य-रत्न, ५-८-३३	२-१-५७	२-१-५७
१०९	श्री स्वदेशपाल कश्यप, एम०ए०, एलएल० बी०, २२-५-३३	२-१-५७	२-१-५७
११०	श्री रामस्वरूप गुप्ता, बी० ए०, एलएल० बी०, १-६-३१	२-१-५७	२-१-५७
१११	श्री विश्वम्भर दयाल गुप्ता, बी० ए०, ए०सी०, एलएल० बी०, ८-११-३०	६-१-५४	
११२	श्री हरनेक सिंह, बी०ए०, एलएल० बी०, ७-८-३१	२-१-५७	२-१-५७
११३	श्री वसन्त कुमार पारीक, बी०कॉम, एलएल० बी०, २८-६-२९	२-१-५७	२-१-५७
११४	श्री यादवेन्द्र प्रसाद शर्मा, एम०ए०, एलएल० बी०, १४-७-२९	९-३-५७	९-३-५७

वर्तमान पद व दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, किशनगढ़	रु०	प्रशिक्षण हेतु
" "		"
" "		"
" "		"
" "		"
" "		"
" "		"
" "		"
" "		"
" "		"

उन पुलिस अधिकारियों की सूची जो राजस्थान पुलिस सेवा

क्र. सं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	राजस्थान पुलिस सेवा में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१	श्री अर्जुनसिंह, १८-१-१४, भरतपुर	२९-६-३४	
२	श्री अवतारसिंह, बी० ए०, १०-१२-१२, गंगानगर	२०-७-३६	
३	श्री बरकतराम, ३०-३-१९, बोकानेर	१५-८-४०	
४	श्री भैरवसिंह, १५-८-१९०९, चित्तौड़	१५-७-३१	
५	श्री भूरसिंह, १-४-१९१७, जोधपुर	३-१-३७	
६	श्री सी० एल० दिक्षित, ७-५-०७, आगरा	१-४-३३	
७	श्री दुर्गपालसिंह, २८-६-२१, कोटा	१-१०-४१	
८	श्री हरिद्विष्णु, बी० ए०, १४-२-१४, जोधपुर	८-७-३७	
९	श्री किशनकरण, १३-७-१९०८, जोधपुर	१९-२-२८	
१०	श्री कंवरलाल, १४-८-१९०८, कोटा	१३-८-३०	
११	श्री मुकटविहारी, १-८-१०, जयपुर	१-८-३१	
१२	श्री मोतीलाल, ४-५-१८, किशनगढ़	१-२-४२	
१३	श्री आशुदुल्लाखां, २५-११-०६, टोंक	२५-११-३४	
१४	श्री मगनसिंह, १७-५-२१	२-९-५४	
१५	श्री नारायणसिंह, १८-८-२२, जैसलमेर	१-११-४२	
१६	श्री नवलकिशोर दुबळे, ९-४-१०, जयपुर	९-४-३१	
१७	श्री रामदेव, २५-४-१२, नागौर	६-७-२९	
१८	श्री रामसिंह सरदार, १-८-१४, गंगानगर	१५-७-३३	

के पदों पर स्थानापन्न कार्य कर रहे हैं ।

वर्तमान पद व दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
डिप्टी सुपरि० पुलिस, मेडता, २९-१०-५५	६०	
डिप्टी सुपरि०, केकडी, १८-१२-५६		
डिप्टी सुपरि०, बून्वी, १९-११-५६		
डिप्टी सुपरि०, राजसमन्व, १४-४-५५		
डिप्टी सुपरि०, जंसलमेर, २७-८-५६		
..		
डिप्टी असिस्टेन्ट क०, आर० ए० सी०, तृतीय बटालियन, १४-१०-५५		अवकाश पर हैं
डिप्टी सुपरि० एन्टीकरप्शन, जयपुर, १६-४-५५		
डिप्टी सुपरि०, किशनगढ़, २७-५-५५		
डिप्टी सुपरि०, नीम का थाना, १८-६-५५		
डिप्टी सुपरि०, आर० टी० सी०, जयपुर, ३-१०-५५		
डिप्टी० सुपरि०, बीकानेर, १९-३-५७		
डिप्टी सुपरि०, सवाई माधोपुर, २२-१-५६		
असिस्टेन्ट क०, आर० ए० सी०, चतुर्थ बटालियन, ११-८-५५		
डिप्टी सुपरि० पुलिस, आवू, २६-११-५६		
डिप्टी सुपरि० पुलिस, भरतपुर, २०-११-५५		
डिप्टी सुपरि० पुलिस, फलोदी, १-४-५६		
डिप्टी सुपरि० पुलिस, सराडा, २०-८-५५		

क्र.सं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	राजस्थान पुलिस सेवा में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१९	श्री रामेश्वरलाल बोहरा, ९-१-२३, जयपुर	२७-८-४२	
२०	श्री रणजीतलाल दोषी, २५-१-०३, उदयपुर	२९-६-२८	
२१	श्री रासबिहारीलाल, १७-९-०४, जयपुर	१-१-२७	
२२	श्री रतनसिंह (प्रथम), ४-४-२०, वांसवाड़ा	१०-१-४४	
२३	श्री सवाईसिंह बोखावत, २१-१-०६, झुंझुनू	१-१२-४५	
२४	श्री शिवसिंह, १५-७-१२, चूरू	३०-६-३४	
२५	श्री सुलेखचन्द, ५-३-०६, कोटा	१६-४-२७	
२६	श्री सत्यप्रकाश त्यागी, २०-३-२०, कोटा	१-११-४१	
२७	श्री श्यामसुन्दरलाल, ९-२-०४, जोधपुर	९-२-२७	
२८	श्री सुलतानसिंह, ११-११-०५, जोधपुर	२६-८-२४	
२९	श्री श्यामसिंह, २५-८-१०, मेरठ	२५-८-३४	
३०	श्री रामसिंह भाटी, २४-९-०४	२४-९-२७	
३१	श्री मिट्टनलाल, १०-१-१९०८	१-१-३०	
३२	श्री मगनलाल, ४-८-१९०४	२२-८-३९	
३३	श्री इल्लाहसिंह, १-२-१९१६	३०-७-३५	
३४	श्री दीनदयाल, २०-१२-१५	२३-१२-४०	
३५	श्री कुबेरदान, बी०ए०, २-२-२०	१-७-३९	
३६	श्री धनसिंह, ३-७-१५	२०-११-३७	
३७	श्री लक्ष्मीलाल, २५-१०-१३	२५-१-३३	

वर्तमान पद दिनांक के साथ	बेतन	विशेष
५	६	७
डिप्टी सुपरि० पुलिस, पाली, १५-६-५६	६०	
डिप्टी सुपरि० पुलिस चित्तौड़, २७-११-५६		
डिप्टी सुपरि० पुलिस, एन्टी क०, ब्रा० जयपुर, २५-३-५५		
असिस्टेन्ट क०, आर० ए० सी०, तृतीय बटालियन, २३-९-५५		भारत सरकार की सेवा में प्रति- नियुक्ति पर
एडज्यूटेन्ट, आर० ए० सी०, चतुर्थ बटालियन, २६-५-५५		
डिप्टी सुपरि० पुलिस, निम्वाहेडा, १३-११-५६		
डिप्टी सुपरि० पुलिस, बांसवाड़ा, १०-६-५५		
डिप्टी सुपरि० पुलिस, भीलवाड़ा, २१-६-५६		
डिप्टी सुपरि० पुलिस, टोंक, ८-८-५५		
डिप्टी सुपरि० पुलिस, धौलपुर, ११-५-५५		
एडज्यूटेन्ट, आर० ए० सी०, द्वितीय बटालियन, २७-७-५६		
डिप्टी सुपरि०, पुलिस, व्यावर, १-११-५६		
डिप्टी सुपरि० पुलिस, एन्टी क०, उदयपुर, ६-९-५६		
डिप्टी सुपरि० पुलिस, डूंगरपुर, २६-९-५६		
डिप्टी सुपरि० पुलिस जो धपुर, १२-६-५६		
डिप्टी सुपरि० पुलिस सी० आई० डी०, २२-५-५६		
डिप्टी सुपरि० पुलिस ए० डी० एक० बीकानेर, २६-७-५६		
डिप्टी सुपरि० पुलिस, क्षारां, ७-६-५६		

क्र. सं०	नाम, जन्म दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	राजस्थान पुलिस सेवा में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
३८	श्री सुल्तानसिंह, ३-२-१९२०	३०-५-४२	
३९	श्री केशोराम, ४-७-१९१३	४-७-३१	
४०	श्री वृजभूषण, २४-१२-१९०५	२-११-३४	
४१	श्री लखामिह, १५-१-२१	१-१-४२	
४२	श्री सीहनलाल तलवार, १४-४-१९१३	१७-३-४५	
४३	श्री ताराचन्द, ३-५-१९१९०८	१-९-३४	
४४	श्री गणपतिसिंह, १-८-१९०५	१६-२-२५	
४५	श्री मोहम्मद उमर, १६-१-१९१९	२७-१२-४२	
४६	श्री जसवन्तसिंह, १-६-१९१८	१७-३-५३	

वर्तमान पद व दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
डिप्टी सुपरि०, पी० टी० एस०, ८-६-५६	६०	
एडज्यूटेंट, आर० ए० सी०, द्वितीय बटालियन, ४-८-५६		
डिप्टी सुपरि० पुलिस, प्रतापगढ़, २२-६-५६		
डिप्टी सुपरि०, जालोर, १३-६-५६		
डिप्टी सुपरि०, कोटा, ९-६-५६		
डिप्टी सुपरि०, आर० टी० सी०, कोटा, ९-६-५६		
डिप्टी सुपरि०, मुन्डुनू, २६-६-५६		
डिप्टी सुपरि०, भीलवाडा, १६-६-५६		
डिप्टी सुपरि०, आर्मड कान्स्टेबुलरी, अजमेर, ३१-१०-५६		

उन पुलिस अधिकारियों की सूची जो कि राजस्थान में
प्रतिनियुक्ति पर आये हैं ।

नाम १	वर्तमान पद २	विशेष ३
१ श्री वी० जी० कानेटकर, आई० पी०	आई० जी० पुलिस, राजस्थान	बम्बई प्रान्त से डेप्युटेशन पर

पुलिस विभाग

क्र.सं.	नाम	पद तथा प्रधानास्पद	विशेष
१	२	३	४

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| १ श्री वी० जी० कानेटकर, आई० पी० | आई० जी० पी०, राजस्थान, जयपुर |
| २ श्री आर० डी० गर्ग | लेखाधिकारी, पुलिस विभाग, जयपुर |

डी० आई० जी० पुलिस

- | | |
|----------------------------------|---|
| १ श्री गोवर्धन, आई० पी० एस० | डि० आई० जी० पुलिस, हैड० जयपुर |
| २ श्री जसवन्तसिंह, आई० पी० एस० | „ „ गुप्तचर विभाग, जयपुर |
| ३ श्री हनुमान शर्मा, आई० पी० एस० | „ „ अजमेर डिविजन |
| ४ श्री गणेशसिंह, आई० पी० एस० | „ „ जोधपुर डिविजन |
| ५ श्री आर० एच० रे०, आई० पी० एस० | „ „ बीकानेर डिविजन
तथा आर० ए० सी० |
| ६ श्री सुल्तानसिंह, आई० पी० एस० | „ „ उदयपुर-कोटा
डिविजन, उदयपुर |
| ७ श्री करतारसिंह, आई० पी० एस० | „ „ सी० आई० डी० (श्री जसवन्तसिंह
की अवकाश
अनुपस्थिति) |

सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस-पुलिस हैडक्वार्टर्स

- | | |
|--|---|
| १ श्री ललितनारायण, आई० पी० एस० | आई० जी० केनिजी सहायक |
| २ श्री द्वारकानाथ पुरोहित, आई० पी० एस० | सुपरिन्टेन्डेन्ट, रेलवेज |
| ३ श्री पी० एल० बनर्जी, आर० पी० एस० | ए० आई० जी०, फोर्स |
| ४ श्री के० एन० गुप्ता, आर० पी० एस० | सुपरि०, विशेष शाखा |
| ५ श्री हरिदास जोशी, आर० पी० एस० | जोन ऑफिसर, जोधपुर |
| ६ श्री मदनमोहन शर्मा, आई० पी० एस० | सुपरि० पुलिस, वायरलेस, जयपुर |
| ७ श्री पन्नेसिंह, आई० पी० एस० | सुपरि० पुलिस, भ्रष्टाचर निरोधक
विभाग |

क्रम सं.	नाम २	पद तथा प्रधानास्पद ३	विशेष ४
----------	----------	-------------------------	------------

अजमेर डिविजन

१	श्री महावीरप्रसाद त्रिपाठी, आई०पी०एस०	सुपरि० पुलिस, जयपुर	
२	श्री रघुनाथसिंह, आई०पी०एस०	अतिरिक्त सुपरि० पुलिस, जयपुर	
३	श्री बहादुरसिंह, आई०पी०एस०	सुपरि० पुलिस, भरतपुर	
४	श्री भवानीमल, आई०पी०एस०	सुपरि० पुलिस, अलवर	
५	श्री जी०सी० सिंघवी, आई०पी०एस०	सुपरि० पुलिस, सीकर	
६	श्री जै०एस० राजोरा, आर०पी०एस०	सुपरि० पुलिस, झुन्झुनू	
७	श्री एस०पी० भार्गव, आई०पी०एस०	सुपरि० पुलिस, सवाई माधोपुर	
८	श्री जी०सी०डो० चडढा, आई०पी०एस०	सुपरि० पुलिस, टोंक	
९	श्री जे०पी० सिंगा, आर०पी०एस०	सुपरि० पुलिस, अजमेर	

जोधपुर डिविजन

१	श्री ताराचन्द, आई० पी० एस०	सुपरि० पुलिस, जोधपुर	
२	श्री कुन्दनलाल, आई० पी० एस०	अति० सुपरि० पुलिस, जोधपुर	
३	श्री बी०आर०विश्वनोई, आई०पी०एस०	सुपरि० पुलिस, वाडमेर	
४	श्री एस०एम०सुराना, आई०पी०एस०	सुपरि० पुलिस, जैसलमेर	
५	श्री मदन लाल कश्यप, आर०पी०एस०	सुपरि० पुलिस, जालौर	
६	श्री पी०सी० साजनानी, आर०पी०एस०	सुपरि० पुलिस, नागौर	
७	श्री श्रीशराम शर्मा, आर०पी०एस०	सुपरि० पुलिस, पाली	
८	श्री हमीरसिंह, आई० पी० एस०	सुपरि० पुलिस, सिरोही	

बीकानेर डिविजन

१	श्री उदयसिंह, आई० पी० एस०	सुपरि० पुलिस, बीकानेर	
२	श्री एन०सी०दत्ता, आई० पी० एस०	सुपरि० पुलिस, गंगानगर	
३	श्री के० एन० सौरल, आई० पी० एस०	सुपरि० पुलिस, चूरू	

क्रम सं.	नाम	पद तथा प्रधानास्पद	विशेष
----------	-----	--------------------	-------

उदयपुर-कोटा डिविजन

१	श्री डी०एस० साहि, आई०पी०एस०	सुपरि० पुलिस, उदयपुर	
२	श्री गोविन्द सिंह, आई०पी०एस०	अति० सुपरि० पुलिस, उदयपुर	
३	श्री लक्ष्मीशंकर दशोरा, आई०पी०एस०	सुपरि० पुलिस, चित्तौड़	
४	श्री डी० पी० गुप्ता, आई०पी०एस०	सुपरि० पुलिस, डूंगरपुर	
५	श्री एम० एस० हिरन, आई०पी०एस०	सुपरि० पुलिस, भीलवाडी	
६	श्री अमरसिंह, आई०पी०एस०	सुपरि० पुलिस, बांसवाडा	
७	श्री ललितमोहन, आई०पी०एस०	सुपरि० पुलिस, कोटा	
८	श्री एस० पी० पान्डे, आई०पी०एस०	अति० सुपरि० पुलिस, कोटा	
९	श्री हिम्मत सिंह, आई०पी०एस०	सुपरि० पुलिस, बूंदी	
१०	श्री एम० के० सक्सेना, आई०पी०एस०	सुपरि० पुलिस, झालावाड	

पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, क्रिशनगढ़

१	श्री आर०सी० भाटीया, आई०पी०एस०	प्रिन्सिपल	स्थानापन्न
२	श्री रूपचन्द मेहता, आई०पी०एस०	वाईस प्रिन्सिपल	"

राजस्थान ग्रामिण क्रानिस्टेब्यूलरी

१	श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, आर०पी०एस०	क०, प्र० बटालियन, आर० ए० सी०, बांडमेर	
२	श्री सुन्दरलाल त्रिवेदी, आर०पी०एस०	क०, द्वितीय बटालियन, आर० ए० सी०, जैसलमेर	
३	श्री अमरसिंह कोचर, आई०पी०एस०	क० तृतीय बटालियन, जयपुर	
४	श्री जी०डी० भंडारी, आई०पी०एस०	क०, चतुर्थ बटालियन, रायसिंहनगर	स्थानापन्न
५	श्री ओम प्रकाश, आई०पी०एस०	क० पंचम, बटालियन, गंगानगर	" अवकाश पर
६	श्री जसवंत सिंह, आई०पी०एस०	डिप्टी० इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस	"
७	श्री बहावर लाल, आई०पी०एस०	सुपरि० पुलिस	"
१	श्री डी० जगन्नाथन, आई०पी०एस०	सुपरि० पुलिस	अंडर सस्पेंशन

खण्ड ७

न्याय विभाग

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

क्रम सं०	नाम, तथा जन्म-दिन	वर्तमान पद तथा उस पर नियुक्ति का दिनांक	वेतन	भत्ता
१	२	३	४	५
१	श्री कैलाशनाथ वान्चू, बी०ए०, आई०सी०एस०, २५-२-१९०३	मुख्य न्यायाधीश २-१-१९५१	₹० ४,०००	₹० ४००
२	श्री दुर्गाशंकर दवे, बी०ए०, एलएल० बी०, १८-१२-१९०६	न्यायाधीश १२-७-५२	३,५००	
३	श्री इन्द्रनाथ मोदी, बी० ए०, एलएल० बी०, १-३-१९०५	न्यायाधीश २९-१-५३	३,५००	
४	श्री मोहनलाल राजदान, एम०ए०, एलएल० बी०, आर०जे०एस०, ३-१२-१९०२	रजिस्ट्रार ३०-९-५१	९०० १५० वि०वे०	
५	श्री मिलापचन्द्र मरडिया, बी०ए०, एलएल० बी०, आर०जे०एस०, २५-११-१९१३	डिप्टी रजिस्ट्रार १४-५-५५	४२५ १०० वि० वे०	
६	श्री दयालसिंह, बी०ए०, एलएल०बी०, ८-३-१९०६	असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार १०-८-५२	४२५	
७	श्री कुन्दनराज भंसाली, बी०ए०, १४-९-१९०८	मुख्य न्यायाधीश के सचिव, १-४-५०	४२५	
८	श्री टीकमसिंह गुप्ता, चैत वदि १, सम्बत् १९६५	असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, २५-५-५३	३७५	

अधिकारि-सूची

जयपुर शाखा

क्र. सं.	नाम, तथा जन्म-दिन	वर्तमान पद तथा उस पर नियुक्ति का दिनांक	वेतन	भत्ता
१	श्री कंवरलाल बापना, बी०ए०, एलएल०बी०, ४-१-१९००	न्यायाधीश २९-८-१९४६	४ रु० ३,५००	५ रु०
	श्री जवार्नासिंह रानावत, एम०ए०, एलएल०बी०, ४-१२-१९०२	न्यायाधीश २९-८-४९	३,५००	
११	श्री कुमार कृष्ण शर्मा, एम०ए०, एलएल०बी०, १३-८-१८९९	न्यायाधीश १५-६-५१	३,५००	
१२	श्री दोलतमल भडारी, एम०ए०, एलएल०बी०, १६-१२-१९०७	न्यायाधीश, २६-७-५५	३,५००	
१३	श्री कन्हैयालाल बोहरा बी०ए०, एलएल० बी०, आर० जे० एस०, ९-११-१९०६	डिप्टी रजिस्ट्रार १५-६-५४	४७५	१०० वि० वे०

क्रम संख्या	नाम	वर्तमान पद
१	२	३
१	श्री गुलाबचन्द कासलीवाल	एडवोकेट जनरल
२	श्री लक्ष्मीनारायण छंगानी, बी० ए०, एलएल० बी०	गवर्नमेन्ट एडवोकेट
३	श्री कान्तसिंह, बी०ए०, एलएल० बी०	डिप्टी गवर्नमेन्ट एडवोकेट
४	श्री रामअवतार गुप्ता, बी० ए०, एलएल० बी०	डिप्टी गवर्नमेन्ट एडवोकेट
५	श्री चन्द्रभान भार्गव, बी०ए०, एलएल० बी०	डिप्टी गवर्नमेन्ट एडवोकेट
६	श्री बी० सी० चटर्जी, बी०ए०, एलएल० बी०	सहायक गवर्नमेन्ट एडवोकेट

अधिकारि-सूची

अधिकारी

जिला जिसके लिये नियुक्त किये गये हैं ४.	वेतन	विशेष
..	५ ४० १४००	६
भोधपुर	९००	
भोधपुर	७००	
जयपुर	७००	
जयपुर	६००	
जयपुर		

राजकीय अभियोक्ता एवं

क्रम संख्या	नाम	वर्तमान पद
१	२	३
१	श्री एम० एम० शर्मा, बी० ए०, एलएल० बी०	सरकारी अभियोक्ता
२	श्री हरगोपाल माथुर, बी० ए०, एलएल० बी०	"
३	श्री रमेशचन्द्र जैन, बी० ए०, एलएल० बी०	" (अतिरिक्त)
४	श्री गणेशनारायण, बी० ए०, एलएल० बी०	"
५	श्री सुन्दरलाल भार्गव, एम० ए०, एलएल० बी०	"
६	श्री दुर्गाप्रसाद शर्मा, एम० ए०, एलएल० बी०	"
७	श्री मदनमोहन भगत, एम० ए०, एलएल० बी०	"
८	श्री चूहरसिंह दुदानी, एम० ए०, एलएल० बी०	"
९	श्री रज्जनलाल, एम० ए०, एलएल० बी०	"
१०	श्री जीवनमल बुधराजा, एम० ए०, एलएल० बी०	"
११	श्री ज्वालाप्रसाद, बी० ए०, एलएल० बी०	" (अतिरिक्त)
१२	श्री भभूतमल सिन्धी, बी० ए०, एलएल० बी०	"
१३	श्री विश्वरदयाल, बी० ए०, एलएल० बी०	"
१४	श्री ललिताप्रसाद, बी० ए०, एलएल० बी०	"
१५	श्री वैजनाथ अग्रवाल, बी० ए०, एलएल० बी०	" (अतिरिक्त)
१६	श्री कल्याणप्रसाद, बी० ए०, एलएल० बी०	"
१७	श्री राधाकृष्ण गुप्ता, बी० ए०, एलएल० बी०	" (अतिरिक्त)
१८	श्री रघुवरदयाल गुप्ता, बी० ए०, एलएल० बी०	"

सरकारी अभिव्रता

जिला जिसके लिये नियुक्ति
किये गये हैं
४

वेतन

विशेष

५
रु०

६

	४५०	
जयपुर	४००	
जयपुर	३००	
जयपुर	२५०	
झुंझुनू	२५०	
सीकर	२५०	
सवाई माधोपुर (गंगापुर)	३५०	
अलवर	२५०	
टोंक	२५०	
भरतपुर	२५०	
भरतपुर (धोलपुर)	२५०	
जयपुर (किशनगढ़)	२५०	
सिरोही	२५०	
चूरू	२५०	
बीकानेर	२५०	
गंगानगर	३५०	
कोटा	२५०	
कोटा	२५०	
बूंदी		

क्रम संख्या	नाम २	वर्तमान पद ३
१९	श्री ठाकुर तनवरदास, बी० ए०, एलएल० बी०	सरकारी अभियोक्ता
२०	श्री इन्द्रलाल गोविल, बी० ए०, एलएल० बी०	"
२१	श्री बसंतोलाल सुरापुरिया, बी० ए०, एलएल० बी०	" (अतिरिक्त)
२२	श्री दलपतसिंह चौधरी, बी० ए०, एलएल० बी०	"
२३	श्री देवीशंकर नागर, बी० ए०, एलएल० बी०	"
२४	श्री हुकमनाथ मोदी, बी० ए०, एलएल० बी०	" (अतिरिक्त)
२५	श्री गंगाशंकर, बी० ए०, एलएल० बी०	" (सहायक)
२६	श्री लक्ष्मीनारायण चौधरी, बी० ए०, एलएल० बी०	"
२७	श्री भीखमचन्द जोशी, बी० ए०, एलएल० बी०	"
२८	श्री मिलापचन्द छाबड़ा, बी० ए०, एलएल० बी०	"

जिला जिसके लिये नियुक्त किये गये हैं ४	वेतन ५	विशेष ६
	४०	
क्षालावाड़	२५०	
उदयपुर	३५०	
उदयपुर	२५०	
भीलवाड़ा	३५०	
बांसवाड़ा	२५०	
जालोर	२५०	
डूंगरपुर	२५०	
नागौर	२५०	
जोधपुर (जैसलमेर)	२५०	
अजमेर	..	

राजकीय अभियोक्ता एवं

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	राजकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१	श्री लक्ष्मीनारायण सूथा, बी० ए०, एलएल० बी०, ५-९-१३, जोधपुर	२८-५-३५	२६-१०-४८
२	श्री संपतराज, बी० ए०, एलएल० बी०
३	श्री लक्ष्मीनारायण माथुर, बी० ए०, एलएल० बी०, १२-५-१८, शाहपुरा	४-२-४८	२२-१-४९
४	श्री अमरचन्द सिंगल, बी० ए०, एलएल० बी०, २४-२-१८, जोधपुर	२४-२-४९	२४-२-४९
५	श्री श्यामदास बौहरा, बी० ए०, एलएल० बी०, २९-५-१४, जोधपुर	६-१०-४०	१-२-४९
६	श्री कान्तीलाल पाडलिया, बी० ए०, एलएल० बी०, २९-६-२१, प्रतापगढ़	६-१०-४७	

सरकारी अभिवक्ता

वतमान पद	जिला जिसके लिये नियुक्त किये गये हैं	वेतन	विशेष
५	६	७	८
राजकीय अभियोक्ता	जोधपुर	६० ४५०	पूर्ण-कालिक
राजकीय अभियोक्ता	वाड़मेर (बालोतरा) नागौर (मेड़ता)	३५० ३५०	अंश-कालिक पूर्ण-कालिक
अतिरिक्त राजकीय अभियोक्ता	जोधपुर	२५०	”
राजकीय अभियोक्ता	पाली	३५०	”
राजकीय अभियोक्ता	प्रतापगढ़	२५०	”

राजस्थान न्याय सेवा

स्वीकृत पद संख्या:-१५४

१. व्येष्ठ पद--

(१) जिला एवं सत्र न्यायाधीश	..	१६
(२) रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय	..	१
(३) विधि परामर्शी एवं न्याय सचिव, राजस्थान	..	१
(४) संयुक्त विधि परामर्शी, उप-विधि परामर्शी एवं उप-सचिव के अस्थगित पद के बदले में निर्मित पद	..	१
(५) व्यवहार तथा अपर सत्र न्यायाधीश, अवकाश तथा प्रशिक्षण आरक्षित पदों सहित	..	२०
योग १	..	३९

२. कनिष्ठ पद

(१) व्यवहार न्यायाधीश (लघुवाद न्यायाधीशों सहित)	..	३३
(२) मुंसिफ (२३ मुंसिफ मजिस्ट्रेटों सहित)	..	६५
(३) उप रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय	..	१
(४) उप-सचिव एवं उप-विधि परामर्शी अस्थगित पद	१	
(५) सहायक विधि परामर्शी	..	१
योग २	..	१००

३. अवकाश, प्रशिक्षण तथा प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित अधिकारी	..	१५
वृहत योग	..	१५४

राजस्थान न्याय सेवा के अधिकारियों के वेतन क्रम

१. जिला एवं सत्र न्यायाधीश	८००-५०-१०००-६०-१३००-५०-१८००
२. व्यवहार तथा अपर सत्र न्यायाधीश	५००-३०-७४० ई० बी० ३०-८००-५०-९००
३. व्यवहार न्यायाधीश तथा मुंसिफ	२५०-२५-५०० ई० बी० २५-७५०

टिप्पणियां:--१. विधि सचिव, संयुक्त विधि परामर्शी और रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय के पद, जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोटि (केडर) में हैं। विधि परामर्शी एवं विधि सचिव, वेतन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश के वेतन-क्रम में पायेंगे और उन्हें २५० रु० विशेष वेतन मिलेगा।

रजिस्ट्रार और संयुक्त विधि परामर्शी न्याय के सेवा केडर में अपने ग्रेड का वेतन पायेंगे और अपने ग्रेड के वेतन के अलावा २०० रु० विशेष वेतन पाने के अधिकारी होंगे।

२. सहायक विधि परामर्शी और उप-रजिस्ट्रार के पदों की पूर्ति राजस्थान न्याय सेवा के अधिकारियों में से की जायगी। ऐसे अधिकारी राजस्थान न्याय सेवा में अपने ग्रेड का वेतन पायेंगे और अपने ग्रेड के वेतन के अलावा निम्न प्रकार विशेष वेतन पाने के अधिकारी होंगे:--

१. उप-रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय	..	१००
२. सहायक विधि परामर्शी	..	७५

राजस्थान न्याय सेवा के

क्र. संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	राजकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	राजस्थान न्याय सेवा में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१	श्री खेमचन्द गुप्ता, बी० कौम०, बी० ए०, एलएल० बी०, १-५-१९०३, कोटा	२४-६-१९४८	२६-१-१९५१
२	श्री अमरसिंह, (हायर डिप्लोमा) आषाढ शुक्ला ४, १९६०, जसोल	नवम्बर, १९२९	२३-४-१९५१
३	श्री आनन्दनारायण कौल, बी० एससी०, एलएल० बी०, ६-२-१९०३, अलवर	३-९-१९२७	२३-४-१९५१
४	श्री मोहनलाल राजवान, एम० ए०, एलएल० बी०, ३-१२-०२, जोधपुर	अक्टूबर, १९२५	२३-४-१९५१
५	श्री पी० डी० लोईवाल, बी० ए०, एलएल० बी०, ३०-१०-०४, जयपुर	८-१०-१९२७	२३-४-१९५१
६	श्री जगन्नाथप्रसाद, बी० ए०, एलएल० बी०, २२-११-१९०४, कोटपुतली	जुलाई, १९३६	२३-४-१९५१
७	श्री नन्दलाल माथुर, एम० ए०, एलएल० बी०, २५-६-०४, जयपुर	२४-९-१९२८	२३-४-१९५१
८	श्री हीरालाल करनपुरिया, बी० एससी०, एलएल० बी०, १०-११-०३, उदयपुर	४-७-१९२८	२३-४-१९५१
९	श्री जफरमोहम्मद खां, एम० ए०, एलएल० बी०, २२-१२-०२, कोटा	२७-४-१९३३	२३-४-१९५१
१०	श्री किशनलाल धावाई, एम० ए०, एलएल० बी०, १२-११-०५, जयपुर	१-११-१९३३	२३-४-१९५१
११	श्री लहरसिंह मेहता, बी० ए०, एलएल० बी०, ११-८-१९११, उदयपुर	२४-९-१९३४	२३-४-१९५१
१२	श्री बीवानचन्द शर्मा, बी० ए०, एलएल० बी०, सितम्बर, १९११, जगराम, (बीकानेर)	मार्च, १९४८	२३-४-१९५१

अधिकारियों की सूची

वर्तमान पद व दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
डिस्ट्रिक्ट व सेशनस जज	६००	अवकाश पर
डिस्ट्रिक्ट व सेशनस जज, जोधपुर, ३१-५-५२	१,६००	
..	९५०	जज, इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, राजस्थान, जयपुर, २३-३-५६
रजिस्ट्रार, राजस्थान हाई कोर्ट, जोधपुर, ३०-९-५१	९०० २,००० वि० वे०	
विधि परामर्शी एवं सचिव, न्याय विभाग, राजस्थान जयपुर, ७-४-४९	८५० २५० वि० वे०	
..	८५०	भ्रष्टाचार निरोधक अधिकारी, राजस्थान, जयपुर, २०-४-५५
डिस्ट्रिक्ट व सेशनस जज, भीलवाड़ा, ७-१२-५३	८५०	
डिस्ट्रिक्ट व सेशनस जज, जयपुर सिटी ७-४-५६	८५०	
डिस्ट्रिक्ट व सेशनस जज, बीकानेर, १५-१-५६	९००	
डिस्ट्रिक्ट व सेशनस जज, अलवर, १४-१२-५३	८५०	
संयुक्त विधि परामर्शी, राजस्थान जयपुर, ११-७-५३	८०० २०० वि० वे०	
डिस्ट्रिक्ट व सेशनस जज, उदयपुर, १८-११-५३	९५०	

क्र.संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	राजकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	राजस्थान न्याय सेवा में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१३	श्री मंशाराम पुरोहित, बी० ए०, एलएल० बी०, ९-११-१९०७, जोधपुर	१-१०-१९४१	१२-९-१९५२
१४	श्री रोशनलाल मेहता, बी० ए०, एलएल० बी०, ९-२-१९१२, उदयपुर	२०-९-१९३६	२३-४-१९५१
१५	श्री राजकृष्ण माथुर, बी० ए०, एलएल० बी०, १५-३-१९०५, भीलवाड़ा	२४-१०-३१ १४-६-१९४८	२३-४-१९५१
१६	श्री बृजमोहनलाल, बी० ए०, एलएल० बी०, ५-१-१९०४, बीकानेर	१-६-१९३५	२३-४-१९५१
१७	श्री मुकुटबिहारीलाल, बी० ए०, एलएल० बी०, १३-७-०४, बहरोर (अलवर)	४-३-१९३०	२३-४-१९५१
१८	श्री सुमेरनाथ गुट्टू, बी० ए०, एलएल० बी०, बार०एट०लॉ०, १६-७-०६, जोधपुर	१५-९-१९४२	९-७-१९५३
१९	श्री सी० जैकब, बी० ए०, एलएल० बी०, २९-७-१९०७, अजमेर	१५-३-१९४०	-
२०	श्री चन्द्रसिंह मेड़तिया, बी० ए०, एलएल० बी०, १९-१-१९०९, नागौर	१९३२	२३-४-१९५१
२१	श्री धर्मेन्द्र परिहार, एम० ए०, एलएल० बी०, १२-३-१९१२, जोधपुर	१-१०-१९३३	२३-४-१९५१
२२	श्री मुकुटमोहनलाल अटल, बी० कॉम०, एलएल० बी०, ५-८-१९०४, जयपुर	११-५-१९३६	२३-४-१९५१
२३	श्री सोहनलाल अग्रवाल, बी० ए०, एलएल० बी०, ५-६-१९११, जोधपुर	१९३६	२३-४-१९५१
२४	श्री सुखदेव मिर्धा, बी० ए०, एलएल० बी०, ५-२-१९१२, नागौर	११-८-१९३४	२३-४-१९५१
२५	श्री गोपालमल मेहता, बी० ए०, एलएल० बी०, ९-६-१४, जोधपुर	१-९-१९३७	२३-४-१९५१

वर्तमान पद व दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
	६०	
	८५०	सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव
	२५० बि० वे०	एसेम्बली, राजस्थान, जयपुर
डिस्ट्रिक्ट व सेशन्स जज, झुझुनु,	८५०	स्थानापन्न
१-७-५४		
डिस्ट्रिक्ट व सेशन्स जज, पाली,	८५०	स्थानापन्न
३-४-५६		
डिस्ट्रिक्ट व सेशन्स जज, गंगानगर,	८५०	स्थानापन्न
४-२-५५		
डिस्ट्रिक्ट व सेशन्स जज, प्रतापगढ़,	८५०	स्थानापन्न
३-७-५४		
डिस्ट्रिक्ट व सेशन्स जज, जयपुर	८५०	स्थानापन्न
डिस्ट्रिक्ट, १४-११-५३		
डिस्ट्रिक्ट व सेशन्स जज, अजमेर,	१२००	
१-११-५६		
सिविल व एडिशनल सेशन्स जज,	५६०	
चूरु, ११-७-५५		
डिस्ट्रिक्ट व सेशन्स जज, मेड़ता,	८५०	स्थानापन्न
१५-१-५६		
डिस्ट्रिक्ट व सेशन्स जज, भरतपुर,	८५०	स्थानापन्न
४-११-५५		
डिस्ट्रिक्ट व सेशन्स जज, वालोतरा,	८००	स्थानापन्न
३१-३-५६		
डिस्ट्रिक्ट व सेशन्स जज, कोटा,	८५०	स्थानापन्न
९-१-५६		
सिविल व एडिशनल सेशन्स जज;	५३०	
उदयपुर, ७-७-१९५५		

क्र.सं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	राजकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	राजस्थान न्याय सेवा में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
२६	श्री बी० बी० एडवानो, बी० ए०, एलएल बी०, २७-१२-०५, जोधपुर	२६-११-१९४९	१२-९-१९५२
२७	श्री गोपालनारायण, बी० ए०, एलएल बी०, २३-९-१३, अलवर	२०-३-१९५७	२०-३-१९५७
२८	श्री बन्नीनारायण व्यास, बी० ए०, एलएल०बी०, २-२-०४, जोधपुर	२८-८-१९३०	२३-४-१९५१
२९	श्री राजवी रूप सिंह, बी० ए०, एलएल० बी०, १७-१०-१९०८, चूरू	२७-९-१९३२	२३-४-१९५१
३०	श्री राज बिहारी लाल, एम० ए०, एलएल० बी०, ८-१-०६, जयपुर	१६-११-१९३४	२३-४-१९५१
३१	श्री कृष्णानन्द शर्मा, बी० ए०, एलएल० बी०, २८-११-१९०७, बरेली	<u>१७-१२-१९३४</u> १७-१-१९४९	२३-४-१९५१
३२	श्री फूलचन्द गुप्ता, बी० एससी०, एलएल० बी०, १२-९-०८, जयपुर	<u>१९-४-१९४७</u> १७-१-१९४९	२३-४-१९५१
३३	श्री हरिकृष्णदयाल, एम० ए०, एलएल० बी०, १४-४-१९०३, जयपुर	६-११-१९३३	२३-४-१९५१
३४	श्री इकामुल हक, बी० ए०, एलएल० बी०, १९-१०-१९०९, जयपुर	११-२-१९३५	२३-४-१९५१
३५	श्री सम्पतराय माथुर, बी० एससी०, एलएल०बी०, २४-३-११, जोधपुर	४-१०-१९४१	२०-५-१९५४
३६	श्री राजाबाबू कोठ्यारी, एम० एससी०, एलएल० बी०, २१-१-०४, धौलपुर	४-८-१९३६	२३-४-१९५१
३७	श्री हन्दरदत्त पालीवाल, बी० ए०, एलएल० बी०, ६-१२-०६, जयपुर	१९३७	२३-४-१९५१
३८	श्री मोहम्मद रफीक, बी० ए०, एलएल० बी०, ११-६-१९११, टोंक	२०-७-१९३७	२३-४-१९५१
३९	श्री रतनलाल मेहता, बी० ए०, एलएल० बी०, १२-४-१९१३, प्रतापगढ़	२८-३-१९४८	२३-४-१९५१

वर्तमान पद व विनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
सिविल व एडिशनल सेशनस जज, सीकर, ५-१-१९५३	६० ५३०	••
सिविल व एडिशनल सेशनस जज, गंगानगर	५००	••
सिविल व एडिशनल सेशनस जज, किशनगढ़, २५-७-५४	५३०	स्थानापन्न
सिविल व एडिशनल सेशनस जज, जयपुर डिस्ट्रिक्ट, २७-३-५७	७००	स्थानापन्न (अस्थायी)
सिविल व एडिशनल सेशनस जज, टोंक, ९-७-५५	६५०	स्थानापन्न
सिविल व एडिशनल सेशनस जज, जयपुर सिटी, २३-१०-५३	६५०	स्थानापन्न
सिविल व एडिशनल सेशनस जज, झालावाड़, ६-८-५६	६५०	स्थानापन्न
सिविल व एडिशनल सेशनस जज, मेड़ता, ११-७-५५	६२०	स्थानापन्न
सिविल व एडिशनल सेशनस जज, गंगापूर, १-८-५६	६२०	स्थानापन्न
सिविल व एडिशनल सेशनस जज, बांसवाड़ा, २०-५-१९५४	५३०	स्थानापन्न
सिविल व एडिशनल सेशनस जज, वारां, ५-८-५६	५३०	स्थानापन्न
सिविल व एडिशनल सेशनस जज, बूंदी, ४-६-५४	६५०	स्थानापन्न
सिविल व एडिशनल सेशनस जज, धौलपुर, १२-११-५५	५५०	स्थानापन्न
सिविल व एडिशनल सेशनस जज, सिरोही, २३-१-५६	५३०	स्थानापन्न

क्र.संख्या १	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान २	राजकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक ३	राजस्थान न्याय सेवा में नियुक्ति का दिनांक ४
४०	श्री सरदारसिंह, बी० एससी०, एलएल० बी०, २०-८-१४, किशनगढ़	२२-९-१९३७	२३-४-१९५१
४१	श्री जमनालाल माथुर, बी०ए०, एलएल० बी०, ५-१२-१९०७, उदयपुर	११-८-१९३१	२३-४-१९५१
४२	श्री राजवी अमरसिंह, बी० ए०, एलएल० बी०, ३०-८-१९११, बीकानेर	९-९-१९३७	२३-४-१९५१
४३	श्री मोहम्मद हुसैन फरूकी, एम०ए०, एलएल० बी०, ७-५-०७, जोधपुर	२७-९-१९३७	२३-४-१९५१
४४	श्री रूपसिंह, बी०ए०, एलएल० बी०, ११-४-१९१२, बाड़मेर	१७-१-१९३७	२३-४-१९५१
४५	श्री अनोपसिंह, बी०ए०, एलएल० बी०, १५-८-१९१३, जोधपुर	७-१०-१९३७	२३-४-१९५१
४६	श्री गंगाशरण, बी०ए०, पी०इ०एल०, एलएल० बी०, ९-३-१९०७, अलवर	५-९-१९३८	२३-४-१९५१
४७	श्री रजाअलीखाना, एम० ए०, एलएल० बी०, ४-५-१९१०, जयपुर	२-६-१९३८	२३-४-१९५१
४८	श्री जेठमल आचार्य, एम० ए०, एलएल० बी०, ३-११-०४, बीकानेर	२७-१-१९३०	२३-४-१९५१
४९	श्री भागचन्द सोनी, बी०ए०, एलएल० बी०, २७-७-०४, बाजवाड़ा (पंजाब)	१९-२-१९३७	१२-९-१९५२
५०	श्री जगदीशचन्द्र, बी० ए०, एलएल० बी०, १६-१-१९१०, जयपुर	२-९-१९३८	२३-४-१९५१
५१	श्री श्यामबिहारीलाल, बी० ए०, एलएल० बी०, ३०-१-०९, जयपुर	१९-९-१९३८	२३-४-१९५१
५२	श्री त्रिलोकीनाथ शर्मा, एम० ए०, एलएल० बी०, ३-१२-०३, कोटा	२१-७-१९२८	२३-४-१९५१

वर्तमान पद व दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
सिविल व एडिशनल सेशनस जज, जोधपुर, १६-१-१९५६	६० ५३०	स्थानापन्न
सिविल जज, झुंझुनू, २०-६-५६	४००	
सिविल व एडिशनल सेशनस जज, जालोर, ७-४-५६	७००	स्थानापन्न
सिविल जज, नागौर, ६-४-५६	५२५	
जज, स्माल काजज कोर्ट, जोधपुर, २७-५-५४	५००	
सिविल जज, जयपुर, १९-६-५६	८५०	
जज, स्माल काजज कोर्ट, जयपुर, ३-११-५५	४२५	
सिविल जज, कोटा, १०-८-५५	५००	
सिविल जज, उदयपुर, २०-६-५६	९००	
सिविल जज, अलवर, १७-६-५५	५२५	
सिविल जज, प्रतापगढ़, ५-७-५६	५५०	
सिविल जज, शाहपुरा, ५-६-५४	५२५	
	६२५	

कॉम्पीटेन्ट ऑफिसर,
एवेक्यू प्रापर्टी, राजस्थान
अलवर, १२-५-५५

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	राजकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	राजस्थान न्याय सेवा में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
५३	श्री दुर्गाशंकर, बी०ए०, एलएल० बी०, १९-२-१९१४, बीकानेर	२७-११-१९३९	२३-४-१९५१
५४	श्री अमरसिंह भार्गव, बी०ए०, एलएल० बी०, २७-१-१९१२, बीकानेर	१-७-१९३८	२३-४-१९५१
५५	श्री लक्ष्मीनारायण पुरोहित, बी० ए०, एलएल० बी०, १-११-१९१०, बीकानेर	मई, १९४०	२३-४-१९५१
५६	श्री शिखरचन्द कोचर, बी०ए०, एलएल० बी०, १-८-१९१५, बीकानेर	२८-६-१९४०	२३-४-१९५१
५७	श्री मिलापचन्द मरडिया, बी०ए०, एलएल० बी०, १८-७-१५, सिरौही	३-१०-१९४०	२३-४-१९५१
५८	श्री रविन्द्रनाथ उपाध्याय, बी० ए०, एलएल० बी०, ३-१०-१६, जयपुर	२९-१०-१९४०	२३-४-१९५१
५९	श्री कन्हैयालाल बोहरा, बी०ए०, एलएल० बी०, ९-११-०६, कोटा	५-१०-१९३१	२३-४-१९५१
६०	श्री राधा कृष्ण शर्मा, बी०ए०, एलएल० बी०, ६-७-०६, भरतपुर	४-८-१९४१	२३-४-१९५१
६१	श्री जहोद हुसैन रिजवी, बी० ए०, एलएल० बी०, ८-११-०५, बिलरामपुर (उत्तरप्रदेश)	२२-४-१९४२	२३-४-१९५१
६२	श्री बिशनस्वरूप, बी० ए०, एलएल० बी०, २८-११-०५, कोटा	१-१०-१९३७	२३-४-१९५१
६३	श्री देवकीनन्दन, बी० ए०, एलएल० बी०, ११-११-०५, हिसार	१-११-१९४०	२३-४-१९५१
६४	श्री गुरुप्रकाश, एम० ए०, एलएल० बी०, १-५-११, बीकानेर	९-१२-१९४१	२३-४-१९५१
६५	श्री रतनलाल शाह, बी० ए०, एलएल० बी०, १९-९-१४, बांसवाड़ा	१-४-१९४५	२३-४-१९५१

वर्तमान पद व दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
एसिस्टेन्ट लीगल रीमेमन्सेसर, ८-८-५१	६० ५२५ १०० वि० वे०	
जज, स्माल काजेज कोर्ट, उदयपुर, २-६-५४	५२५	
सिविल जज, गंगानगर, २७-५-५४	४४५	
सिविल जज, बालोतरा, ७-५-५५	५२५	
डिप्टी रजिस्ट्रार, राजस्थान हाई कोर्ट, जोधपुर, १४-५-५५	४२५ १०० वि० वे०	
सिविल जज, सांभर, १६-५-५५	५००	
डिप्टी रजिस्ट्रार, राजस्थान हाई कोर्ट, बेंच जयपुर, १५-६-५४	४७५ १०० वि० वे०	
सिविल जज, जोधपुर, २६-५-५५	४२५	
सिविल जज, भीलवाड़ा, ५-६-५४	४७५	
सिविल जज, बीकानेर, २१-१-५६	४५०	
सिविल जज, रतनगढ़, ३-६-५५	४२५	
सिविल जज, सूरतगढ़, ३०-५-५५	४२५	
सिविल जज, पाली, १-२-५७	४२५	

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	राजकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	राजस्थान न्याय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३	४
६६	श्री एम० एम० व्यास, बी० ए०, एलएल०बी०, ९-४-१५, रतलाम (मध्य भारत)	३-३-१९३८	११-४-१९५३
६७	श्री बी० बी० हाल्दे, बी० ए०, एलएल० बी०, २९-७-१२, मदनगंज (जयपुर)	१-८-१९४१	२३-४-१९५१
६८	श्री जानकीनन्दन, बी० ए०, एलएल० बी०, १४-११-१९१२, अलवर	१६-१२-१९४०	१२-९-१९५२
६९	श्री प्रेमनाथ माथुर, बी० ए०, एलएल० बी०, १६-१-१९१६, अलवर	१३-३-१९३९	२३-४-१९५१
७०	श्री श्यामसिंह, बी० ए०, एलएल० बी०, ८-११-१९१३	१-११-१९४२	११-४-१९५३
७१	श्री प्यारेमोहन, बी०एससी०, एलएल० बी०, १८-८-१९०९, भरतपुर	९-९-१९३८	१२-९-१९५२
७२	श्री सुरजमल मित्तल, बी०ए०, एलएल० बी०, १४-६-१९०९, अलवर	२३-११-१९३३	२३-४-१९५१
७३	श्री राधेप्रसाद, बी० ए०, एलएल० बी०, १०-७-१९०९, भरतपुर	१-१-१९३३	२३-४-१९५१
७४	श्री दुर्गाप्रसाद, एम० ए०, एलएल० बी०, १०-११-१९०७, जयपुर	५-५-१९४१	२३-४-१९५१
७५	श्री गिरीशचन्द्र, एम० ए०, एलएल० बी०, १३-७-१९१३, कोटा	१२-५-१९४२	२३-४-१९५१
७६	श्री कन्हैयालाल सुराना, बी० एससी०, एलएल० बी०, ३-३-०८, गिरवा (उदयपुर)	७-९-१९३७	२३-४-१९५१
७७	श्री भानुप्रकाश, बी०ए०, एलएल० बी०, ९-६-१९१५, चूरु	४-८-१९४३	२३-४-१९५१
७८	श्री मुरलीधर, बी०ए०, एलएल० बी०, २५-११-१९१६, गंगानगर	२७-२-१९४३	२३-४-१९५१

वर्तमान पद व दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
सिविल एन्ड एसिस्टेन्ट सैशन्स जज, डूंगरपुर, ७-७-५४	४००	
सिविल जज, चित्तौड़गढ़, १-८-५५	४००	
सिविल जज, भरतपुर, १६-८-५५	४००	
सिविल जज, जयपुर डिस्ट्रिक्ट, ७-११-१९५५	४२५	
मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, डीग (भरतपुर), ४-६-५६	४००	
सिविल जज, सोजत, १८-५-५६	४००	
सिविल जज, नीम का थाना, २७-१-१९५६	४२५	
सिविल व एसिस्टेन्ट सैशन्स जज, जैसलमेर, २३-१-५७	४००	
मुन्सिफ, नावां, १२-६-५६	५००	
मुन्सिफ, भवानी मंडी, २१-६-५६	३५०	
मुन्सिफ, वीकानेर, १३-८-५५	४२५	
मुन्सिफ, किशनगढ़ (अलवर), १८-६-५६	४२५	
मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़, २६-४-५५	४००	

क्र.सं. तथा पं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	राजकीय सेवा में प्रविष्ट होन का दिनांक	राजस्थान न्याय सेवा में नियुक्ति का दिनांक
	२	३	४
७९	श्री उपदेशनारायण, बी० ए०, एलएल० बी०, २६-४-१९२०, जोधपुर	२-१०-१९४४	२३-४-१९५१
८०	श्री नाथुलाल, बी० ए०, एलएल० बी०, २-४-१९११, जोधपुर	३-१०-१९४४	२३-४-१९५१
८१	श्री कलाशदान, एम० एससी०, एलएल० बी, ७-२-१९२१, जोधपुर	१५-५-१९४४	२३-४-१९५१
८२	श्री विपिनचन्द्र ओझा, बी० एससी०, एलएल० बी०, २१-१२-१९१३, भीलवाड़ा	१-१-१९४३	१२-९-१९५२
८३	श्री चांदकरण, बी० ए०, एलएल० बी०, ११-६-१९०६, प्रतापगढ़	१-१०-१९४०	१२-९-१९५२
८४	श्री गिरधारीसिंह, एम० ए०, एलएल० बी०, १५-५-१९१८, चित्तौड़गढ़	१९४४	२३-४-१९५१
८५	श्री सुरेशचन्द्र कासलीवाल, बी० ए०, एलएल० बी०, २८-१०-०५, जयपुर	१०-७-१९४४	१२-९-१९५२
८६	श्री प्रकाशनारायण, बी० एससी०, एलएल० बी०, १६-६-१९, जयपुर	२३-११-१९४४	२३-४-१९५१
८७	श्री श्रीचन्द, बी० ए०, एलएल० बी०, १८-७-१९२०, जोधपुर	२६-६-१९४५	२३-४-१९५१
८८	श्री भैरोंलाल, एम० ए०, एलएल० बी०, १०-९-१९१२, उदयपुर	९-७-१९४३	२३-४-१९५१
८९	श्री अर्जुनसिंह, बी० ए०, एलएल० बी०, ५-११-१९०९, ढोटी (उदयपुर)	११-१-१९४३	२३-४-१९५१
९०	श्री दयाचन्द, बी० ए०, एलएल० बी०, १५-५-१९१४, किशनगंज (कोटा)	अप्रैल, १९४२	२३-४-१९५१
९१	श्री वसुदेव सहाय, बी० एससी०, एलएल० बी०, १३-१०-१९०९, वारां (कोटा)	५-१-१९३७	२३-४-१९५१

वर्तमान पद व दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
मुन्सिफ, विलाडा, १६-५-५५	४००	
मुन्सिफ, फलीदी, १२-६-५६	४००	
मुन्सिफ, वाली, ७-७-५४	४२५	
मुन्सिफ, जोधपुर सिटी, १६-६-५६	४००	
मुन्सिफ, कुशलगढ, १८-६-५६	४००	
मुन्सिफ, सागवाडा, ११-२-५३	४२५	
मुन्सिफ, हिन्डीन, १२-६-५६	५००	
मुन्सिफ, सीकर, २१-२-५३	४७५	
मुन्सिफ, देसूरी, २०-६-५६	४००	
मुन्सिफ, गंगापुर, १-७-५३	४२५	
मुन्सिफ, व मजिस्ट्रेट, मावली, २१-५-५५	४२५	
मुन्सिफ व मजिस्ट्रेट, सलूम्वर, १-११-५६	४२५	
मुन्सिफ, अकलेरा, ८-११-५४	४२५	

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	राजकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	राजस्थान न्याय सेवा में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
९२	श्री राजेन्द्रविहारीलाल, बी० एससी०, एलएल० बी०, २३-२-१०, झालावाड़	२-११-१९४५	२३-४-१९५१
९३	श्री गोपालसहाय, बी० ए०, एलएल० बी०, २३-१२-१७, जयपुर	३-११-१९४५	२३-४-१९५१
९४	श्री रामजीलाल, बी० कॉम०, एलएल० बी०, ५-१०-२१, सवाई माधोपुर	३-११-१९४५	२३-४-१९५१
९५	श्री बृजविहारीलाल, बी० ए०, एलएल० बी०, ९-३-१९१८, कोटा	८-६-१९४७	११-४-१९५३
९६	श्री गोकुलसिंह, एम० ए०, एलएल० बी०, ६-१-१९१९, मांडा (कोटा)	३-७-१९४३	२३-४-१९५१
९७	श्री नेमीचन्द्र, एम० ए०, बी० कॉम०, एलएल० बी०, २८-१०-१८, कोटा	१-२-१९४३	२३-४-१९५१
९८	श्री द्वारकादास गुप्ता, बी० ए०, एलएल० बी०, १५-३-१७, कोटा	नवम्बर, १९४४	२३-४-१९५१
९९	श्री मांगीलाल, एम० ए०, एलएल० एम०, २२-७-२२, झालावाड़	जून, १९४५	२३-४-१९५१
१००	श्री रोशनलाल शर्मा, बी० ए०, एलएल० बी०, ८-३-१९१६, बून्दी	१-१०-१९३८	२३-४-१९५१
१०१	श्री बृजनन्दनलाल, बी० एससी०, एलएल० बी०, २३-१-१९, जयपुर	अगस्त, १९४३	२३-४-१९५१
१०२	श्री मदनलाल, बी० ए०, एलएल० बी०, १४-९-२४, जोधपुर	फरवरी, १९४६	२३-४-१९५१
१०३	श्री सुरेशचन्द्र माथुर, एम० ए०, एलएल० बी०, २१-३-१९२१, किशनगढ़ (जयपुर)	१९४४	२३-४-१९५१
१०४	श्री देवीसिंह, एम० ए०, एल एल० बी०, २८-७-१९, जोधपुर	४-११-१९४२	२३-४-१९५१

वर्तमान पद व दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
मुन्सिफ, वांसवाड़ा, १८-५-५५	४२५	
..	४५०	निजि सहायक, न्याय एवं गृह मंत्री, ५-१२-५६
मुन्सिफ, थानागाजी, ४-६-५५	४७५	
मुन्सिफ व मजिस्ट्रेट, लक्षमणगढ़, ३०-१-५६	४००	
मुन्सिफ व मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर, ७-११-५५	४२५	
मुन्सिफ व मजिस्ट्रेट, गंगापुर, (भरतपुर), ७-३-५३	४२५	
मुन्सिफ, धौलपुर, १५-१-५७	४२५	
..	४००	ड्राफ्ट्समेन, ला० डिपार्टमेंट, जयपुर, ९-१-५६
मुन्सिफ, वारां, १२-६-५६	४२५	
मुन्सिफ, शाहपुरा, १८-९-५३	४५०	
मुन्सिफ, जयपुर (पश्चिम), १६-४-५५	४००	
मुन्सिफ व मजिस्ट्रेट, निम्बाहेड़ा, ९-५-५५	४२५	
मुन्सिफ, परवतसर, ३०-५-५५	४२५	

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	राजकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	राजस्थान न्याय सेवा में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१०५	श्री जगदीशमल, बी० ए०, एलएल० बी०, १८-६-१९१६, जोधपुर	८-३-१९४४	२३-४-१९५१
१०६	श्री पूरनचन्द्र, बी० ए०, एलएल० बी०, ३-२-१९१५, गंगानगर	१६-३-१९४४	११-४-१९५३
१०७	श्री मोहम्मद अब्दुर्रहमान, बी० ए०, एलएल० बी०, जून, १९०८, बीकानेर	१९४६	२३-४-१९५१
१०८	श्री घनश्यामदास, बी० ए०, एलएल० बी०, १-७-१९१७, गंगानगर	२८-४-१९४५	२३-४-१९५१
१०९	श्री उमरावचन्द्र, बी० ए०, एलएल० बी०, ११-१०-१९२०, जोधपुर	८-७-१९१६	२३-४-१९५१
११०	श्री मोहम्मदसिंह, बी० ए०, एलएल० बी०, जनवरी, १९२०, पाली	जून, १९४४	२३-४-१९५१
१११	श्री पी० एम० बख्शी, एलएल० बी०, ३-९-१९२१, सौराष्ट्र	२२-७-१९४७	२३-४-१९५१
११२	श्री मोहम्मद याकूब, एम० एससी०, एलएल० बी०, १५-१०-१७, डूंगरपुर	१-१२-१९४१	२३-४-१९५१
११३	श्री मदनसिंह, बी० ए०, एलएल० बी०, ३०-६-१६, उदयपुर	१७-११-१९४२	२३-४-१९५१
११४	श्री श्यामलाल, एम० ए०, एलएल० बी०, २३-१-१९२४, जोधपुर	२५-६-१९४७	२३-४-१९५१
११५	श्री तुलसीराम, बी० ए०, एलएल० बी०, १२-३-१९२१, जोधपुर	२४-२-१९४५	२३-४-१९५१
११६	श्री विजयकरण, बी० ए०, एलएल० बी०, ५-१०-१९२०, पाली	३१-८-१९४६	२३-४-१९५१
११७	श्री सुमेरदान, बी० ए०, एलएल० बी०, २१-८-१९१५, जोधपुर	६-१०-१९३८	१२-९-१९५२
११८	श्री शिवजीलाल, बी० ए०, एलएल० बी०, ५-३-१९२३, जोधपुर	२९-११-१९४७	२३-४-१९५१

वर्तमान पद व दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
मुन्सिफ, जालोर, १९-६-५६	४२५	
मुन्सिफ, कोटपुतली, ५-५-५५	४००	
मुन्सिफ, भादरा, १९-६-५६	४००	
मुन्सिफ, मालपुरा, १७-११-५४	४२५	
मुन्सिफ, जयपुर डिस्ट्रिक्ट, १९-५-५५	४२५	
मुन्सिफ, उदयपुर सिटी, ७-७-५४	४२५	
..	७७०	ऑफिसियल नाम चयन ड्यूटी इन लॉ कमीशन, दिल्ली
मुन्सिफ व मजिस्ट्रेट, छोटी सावड़ी, १९-६-५६	४२५	
मुन्सिफ, कपासन, २१-५-५६	४२५	
मुन्सिफ, बान्दीकुई, १८-५-५६	३७५	
मुन्सिफ, नाथद्वारा, ७-७-५४	४२५	
मुन्सिफ, सिरोही, १८-५-५५	४२५	
मुन्सिफ, जंतारण, १६-५-५५	३५०	
मुन्सिफ, जयपुर (पूर्व), ७-१-५७	४००	

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	राजकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	राजस्थान न्याय सेवा में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
११९	श्री जयनारायण, बी० ए०, एलएल० बी०, २७-११-१९११, बीकानेर	१५-३-१९४७	२३-४-१९५१
१२०	श्री गिरधारीलाल, बी० ए०, एलएल० बी०, २१-२-२०, अलवर	२९-८-१९४७	२३-४-१९५१
१२१	श्री तीरथ चौथराम भगत, बी० ए०, एलएल० बी०, १५-११-१८, भरतपुर	फरवरी, १९४८	२३-४-१९५१
१२२	श्री सोमदेव, बी० ए०, एलएल० बी०, ३-६-०७, बिजनौर (उत्तर प्रदेश)	८-३-१९४९	२३-४-१९५१
१२३	श्री शम्भूसहाय, बी० ए०, एलएल० बी०, ३-१-२२, कोटा	१०-११-१९४४	२३-४-१९५१
१२४	श्री द्वारकादास बजाज, बी० ए०, एलएल० बी०, १४-३-१९, जयपुर	१७-१-१९४९	९-८-१९५४
१२५	श्री भानु कुमार, बी० कौम०, एलएल० बी०, ४-२-१९२२, टोंक	२१-१२-१९४८	२३-४-१९५१
१२६	श्री मोहनलाल व्यास, बी० ए०, एलएल० बी०, १-७-०७, जोधपुर	१३-२-१९३६	२३-४-१९५१
१२७	श्री चम्पालाल, एम० ए०, एलएल० बी०, २२-१-१९०९, सोजत (पाली)	३-८-१९४६	२३-४-१९५१
१२८	श्री कपूरचन्द मेहता, बी० ए०, एलएल० बी०, ११-७-११, जोधपुर	६-१-१९३२	१२-९-१९५२
१२९	श्री उगमराज, एम० ए०, एलएल० बी०, २०-१-१९२०, जोधपुर	२५-११-१९४७	२३-४-१९५१
१३०	श्री हेमराज बाड़मेरा, बी० ए०, एलएल० बी०, १-१-१२, जोधपुर	२२-१-१९४९	३-१-१९५५
१३१	श्री रतनलाल बाड़मेरा, बी० ए०, एलएल० बी०, ५-९-२०, जोधपुर	७-६-१९४९	२३-४-१९५१
१३२	श्री रामराजलाल, एम० ए०, एलएल० बी०, २१-११-२७, करौली	१-१२-१९५६	१-१२-१९५६

वर्तमान पद व दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
मुन्सिफ, डीडवाना, ९-४-५५	४० ४२५	
मुन्सिफ, राजगढ़, २९-५-५६	४२५	
मुन्सिफ, करौली, २६-५-५५	३७५	
मुन्सिफ, बयाना, १-७-५५	४२५	
मुन्सिफ, राजसमन्द, १९-६-५६	४२५	
मुन्सिफ, बहरोर, १९-६-५६	४५०	
मुन्सिफ, बीसा, ९-८-५५	४२५	
मुन्सिफ, मेड़ता, ७-५-५५	४००	
मुन्सिफ, कानोड, १५-६-५६	४२५.	
मुन्सिफ, भीनमाल, १३-६-५६	३७५	
मुन्सिफ, सांचौर, १७-५-५५	४००	
मुन्सिफ, बाड़मेर, ५-७-५६	४००	
मुन्सिफ, भीम, १९-६-५६	४००	
मुन्सिफ, बून्दी, १-१२-५६	२५०	

क्र. सं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	राजकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	राजस्थान न्याय सेवा में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१३३	श्री मुरलीधर, बी० कॉम०, एलएल० बी०, १२-११-२५, जयपुर	३०-११-१९५६	३०-११-५६
१३४	श्री श्यामसुन्दर, बी० ए०, एलएल० बी०, १-५-१९२८, छोटी सादड़ी	५-१२-१९५६	५-१२-५६
१३५	श्री बलवीरप्रसाद, बी० ए०, एलएल० बी०, ५-१-१९२६, डूंगरपुर	१५-१२-१९५६	१५-१२-५६
१३६	श्री रनजीतमल, एम० ए०, एलएल० बी०, १९-१२-२७, जोधपुर	२८-११-१९५६	२८-११-५६
१३७	श्री गुलाबदास बंजल, एम० एससी०, एलएल० बी०, ६-७-१९११	१७-११-१९४१	..
१३८	श्री पी० एल० अग्रवाला, बी० एससी०, एलएल० बी०, ३१-३-१९१२	३-१-१९४३	..
१३९	श्री बी० एन० भाटिया, बी० ए०, एलएल० बी०, ३०-४-१९११	३-४-१९४८	..
१४०	श्री बी० के० डी० बंजल, बी० ए०, एलएल० बी०, १४-४-१९१४	२१-८-१९४३	..
१४१	श्री आर० एन० कौल, बी० एससी०, एलएल० बी०, ३०-५-१९२६	३१-१०-१९५४	..
१४२	श्री आर० एल० गर्ग, एम० ए०, एलएल० बी०, १८-३-१९२३	२५-१-१९५६	..
१४३	श्री जी० के० शर्मा, बी० ए०, एलएल० बी०, ७-२-१९२८	८-९-१९५६	..
१४४	श्री एस० एन० डीडवानिया, बी० एससी०, एलएल० बी०, २७-१०-२३	८-९-१९५६	..
१४५	श्री एस० एन० चौधरी, बी० एससी०, बी० एल०, २७-५-१९०४, पश्चिमी बंगाल	२१-७-१९३९	..

वर्तमान पद व दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
मुन्सिफ, अलवर, ३०-११-५६	६० २५०	
मुन्सिफ, कोटा, ५-१२-५६	२५०	
मुन्सिफ, जोधपुर तहसील, १५-१२-५६	२५०	
मुन्सिफ, सोजत, २८-११-५६	२५०	
सोनीयर सब-जज, अजमेर, ५-११-५६	६४०	
सब-जज, अजमेर, ५-११-५६	६१०	
सब-जज,	..	भारत सरकार में डेप्यूटेशन पर
सब-जज, ध्यावर, १-११-५६	६१०	
एडीशनल सब-जज, अजमेर, ५-११-५६	३००	
सब-जज एवं डेट सेंटिलमेन्ट ऑफिसर, केकड़ी, १२-११-५६	..	
सैंकिन्ड एडीशनल सब-जज, अजमेर	२५०	
डेट सेंटिलमेन्ट आफिसर, अजमेर, १-११-५६	..	
सिविल जज एवं मजिस्ट्रेट, आवूरोड़, १-११-५६	४२५	

खण्ड

राजस्थान एकाउन्ट्स सर्विस के

क्र.सं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	राजस्थान एकाउन्ट्स सर्विस में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१	श्री रामकृष्ण धावन, बी०ए०, डिप्लोमा एल०सी०सी० (लन्दन), २५-१२-०७ जयपुर	२५-६-३२	३०-४-५२
२	श्री हरनारायण सक्सेना, बी० कॉम, २०-१०-१९०८, टोंक	२-६-३१	"
३	श्री दिष्णुमित्र सक्सेना, बी० ए०, एलएल०बी०, १-१२-१४, जोधपुर	२२-५-३८	"
४	श्री हनुमान प्रसाद पुरोहित, बी० ए०, १८-७-१९०५, जयपुर	१-८-३८	"
५	श्री नीरकचन्द, १-११-०३, जोधपुर	१०-१२-२०	"
६	श्री मानकचन्द मेहता, ३-५-०३, जोधपुर	२५-४-२०	"
७	श्री जतनमल लूनावत, बी० ए०, १-१२-१४, जयपुर	१-११-३६	"
८	श्री बृजबहादुर श्रीवास्तव, बी० ए०, २०-२-१९०४, जयपुर	८-१०-३०	"
९	श्री नूरजबल पाटनी, बी० ए०, ५-९-१९०९, जयपुर	१६-११-३६	"
१०	श्री मेहताबचन्द मेहता, बी० कॉम०, एलएल० बी०, ३०-६-११, जोधपुर	१-११-३२	"
११	श्री महारतन परिहार, बी० ए०, ३१-१२-१९०९, जोधपुर	२२-३-३३	"
१२	श्री रिसालसिंह शर्मा, बी० ए०, एलएल० बी०, हिन्दी प्रभाकर, १२-१-१९०९, बीकानेर	४-९-३०	"

अधिकारियों की सूची

वर्तमान पद तथा उस पर नियुक्ति का दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
निरीक्षक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जयपुर, १५-११-५३	४०० ७०० १०० वि० वे०	
पेंशन लाईजन ऑफिसर, सचिवालय, जयपुर, १०-२-५६	४२५ ७५ वि० वे०	
कोषाध्यक्ष, बीकानेर, १-१०-५४	४२५	
अतिरिक्त कोषाध्यक्ष, जयपुर, २०-१२-५५	४२५	
कोषाध्यक्ष, जालोर, १९-१२-५३	४००	
कोषाध्यक्ष, बाड़मेर	४००	
लेखाधिकारी, सहायता एवं पुनर्संस्थापन विभाग, जयपुर, १-९-१९५५	४५०	
लेखाधिकारी, यातायात विभाग, जयपुर, ५-१२-५३	४००	
लेखाधिकारी, सहकारी विभाग, जयपुर, १७-३-५६	४२५	
लेखाधिकारी, वित्त विभाग, जयपुर	५०० ७५ वि० वे०	
कोषाध्यक्ष, जोधपुर, १४-५-५५	४५०	
लेखाधिकारी, कृषि विभाग, जयपुर, ५-१२-५३	४००	

क्र. सं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	राजस्थान एकाउन्टस सर्विस में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१३	श्री देवोनारायण गुप्ता, एम० ए०, ३०-९-१९०८, जयपुर	१-१०-३०	३०-४-५२
१४	श्री कनकराज जसवन्त राज हाथी, ३१-१-१९०४, सौराष्ट्र	१३-११-२३	"
१५	श्री मनोहर लाल जैन, बी० कॉम०, मई, १९०९, भरतपुर	२४-८-३३	"
१६	श्री शमशुद्दीन अहमद, बी० ए०, ५-२-१९०५, टोंक	१-६-२५	"
१७	श्री तेजराज सिंघवी, १७-२-१९०३, जोधपुर	१०-६-२४	"
१८	श्री ब्रंजी प्रसाव भागव, १९-११-१०, अलवर	२७-१०-३०	"
१९	श्री शम्भुदयाल भागव, १०-४-१९०३, गुडगाँव	१०-१-२७	"
२०	श्री नृगल बिहारी, १-१०-०३, भरतपुर	२५-२-२९	"
२१	श्री वृजनारायण, २१-८-०८, अलवर	२४-८-२६	३०-४-५१
२२	श्री द्वारका लाल गुप्ता, २२-१०-०६, झालावाड़	१८-९-२५	"
२३	श्री रामलाल माथुर, बी० ए०, ए.ए.ल० बी०, २-५-१३, जोधपुर	२-७-३४	"
२४	श्री श्रीचन्द लोढा, १-२-१४, जयपुर	१-८-४५	"
२५	श्री रामचन्द्र भागव, १५-८-१९०६, अलवर	१-१२-२७	"
२६	श्री सुभराज लारोइया, बी० ए०, ६-४-१९०७, लुधियाना	७-७-३१	"
२७	श्री हंसराज परिहार, बी० कॉम०, ५-५-१९०८, जोधपुर	१३-१०-३३	"

वर्तमान पद तथा उस पर नियुक्ति का दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
पाठ्यक्ष, सोकर, ६-१-१९५४	४० ४२५	
शाधिकारी, चंवल कंट्रोल बोर्ड, यू देहली, २९-९-५६	५७५	डेप्युटेशन पर
शाधिकारी, विकास विभाग, जयपुर	४०० ५० वि० दे०	
कोषाध्यक्ष, टोंक, २७-१२-५२	८६०	
कोषाध्यक्ष, जयपुर	५५०	
कोषाध्यक्ष, अजमेर, २-४-५७	४२५	
लेखाधिकारी, शिक्षा विभाग, बीकानेर	४५०	
कोषाध्यक्ष, भरतपुर, १-१०-४९	४२५	
कोषाध्यक्ष, अलवर	४२५	
कोषाध्यक्ष, बूंदी, १२-१-५४	४२५	
कोषाध्यक्ष, झालावाड़, ७-१-५४	४२५	
कोषाध्यक्ष, चित्तौड़गढ़, १२-१-५४	४२५	
कोषाध्यक्ष, भीलवाड़ा, २-१-५४	४२५	
कोषाध्यक्ष, गंगानगर, ८-६-५६	४२५	
कोषाध्यक्ष, पाली, २८-१२-५३	४२५	

क्र.सं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवामें प्रविष्ट होने का दिनांक	राजस्थान एकाउन्ट्स सर्विस में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
२८	श्री सरदारसिंह गहलोत, २९-१०-१३, सिरौही	११-१२-३३	३०-४-५१
२९	श्री रिछपालसिंह, बी० ए०, एल० सी० सी०, १-११-१९०६, वैहली	१८-५-३१	"
३०	श्री भीमसेन, बी० काम०, २७-१-११, गंगानगर	३-११-३६	"
३१	श्री एन० एम० माथुर, बी० काम०, १०-१-१६, उदयपुर	२३-११-४३	"
३२	श्री बिहारी लाल बोरडिया, एम० ए०, २०-७-१९०७, उदयपुर	११-१०-४१	"
३३	श्री ग्यारसीराम, १०-९-०९, अलवर	१५-८-२८	"
३४	श्री रामकृष्ण गुप्ता, बी० ए०, ३१-७-१७, जयपुर	१-३-३९	"
३५	श्री बृजलाल, ३-६-०६, जयपुर	१५-१०-२८	"
३६	श्री बल्लभचन्द भन्साली, बी० ए०, २७-१०-१६, जोधपुर	२७-८-३६	"
३७	श्री मोहनलाल माथुर, १०-७-०७, जोधपुर	१९-१०-२९	"
३८	श्री घनश्याम लाल चौधरी, बी० कॉम०, २०-५-२२	१-९-४२	२६-४-५५
३९	श्री जगदीश लाल माथुर, २-१-२०	४-८-३८	"
४०	श्री कृष्णदत्त भार्गव, २४-८-२२	१९-४-४७	"
४१	श्री राधेश्याम शर्मा, बी० ए०, एल० एल० बी०, १-६-२१, जयपुर	२५-४-४७	"
४२	श्री प्रतापसिंह सुराना, बी० कॉम०, एफ० सी० ए०, ३१-५-१९१९	२४-९-५५	२४-३-५६

वर्तमान पद तथा उस पर नियुक्ति का दिनांक	वेतन	दिशेष
५	६	७
	४०	
कोषाध्यक्ष, सिरौही, २-१-५४	४००	
लेखाधिकारी, राजस्व विभाग, जयपुर, १-३-५४	४००	७५ १०० ५०
लेखाधिकारी, जागीर विभाग, जयपुर, १८-७-५६	४००	
लेखाधिकारी, निर्वाचन विभाग, जयपुर, १९-११-५५	४००	
लेखाधिकारी, आवकारी एवं कर विभाग, उदयपुर, २५-६-५५	३७५	
लेखाधिकारी, सचिवालय, जयपुर	४२५	७५ वि० वे०
लेखाधिकारी, समाज कल्याण विभाग, जयपुर, २५-११-५६	३२५	
लेखाधिकारी, चंचल प्रोजेक्ट, कोटा, २४-८-५५	४२५	
सहायक निरीक्षक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जयपुर, १३-७-५५	४२५	
लेखाधिकारी, हेल्थ सर्कल, निर्माण विभाग, जयपुर, १-१०-५६	४००	
लेखाधिकारी, विद्युत एवं यंत्र विभाग, जयपुर	३००	
अतिरिक्त कोषाध्यक्ष, जोधपुर, १-४-५७	३००	
कोषाध्यक्ष, कोटा, ९-११-५५	३००	
लेखाधिकारी, खनिज एवं भूगर्भ विभाग, उदयपुर	३००	
लेखाधिकारी, वित्त विभाग, वाणिज्य, २४-९-५५	५२५	७५ वि०

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	राजस्थान एकाउन्ट्स सर्विस में नियुक्ति का दिनांक
१	२	४	४
४३	श्री मांगीलाल माथुर, बी० कॉम०, एलएल० बी०, २६-१२-२४	६-६-५५	६-६-५५
४४	श्री लक्ष्मीनारायण सौंडिल्य, बी० ए०, एलएल० बी०, साहित्य रत्न, १२-८-२१	१३-५-४१	..
४५	श्री रामस्वरूप नागर, एम० कॉम०, ३१-८-२९	१९४८	२४-९-५५
४६	श्री जान मोहम्मदखां, एम० ए०, २८-११-२७	१०-१०-५५	..
४७	श्री मोहनलाल पंसारी, एम० कॉम०, १४-८-२६	१०-१०-५५	..
४८	श्री चेतन्यप्रकाश, बी० ए०, १-६-३४	१-९-५६	..
४९	श्री काशीप्रसाद जैन, बी० कॉम०, १३-६-२१	३१-८-५६	..
५०	श्री ब्रह्मदत्त जोशी, बी० ए०, एलएल० बी०, २५-१-३४	१०-९-५६	..
कार्यवाहक एवं पुनर्नियोजित			
५१	श्री केशवलाल नरसिंहपुरा, बी० ए०, २७-२-१९०५, उदयपुर	२-७-३८	..
५२	श्री त्रिलोकीनाथ भागवत, बी० ए०, २६-१०-०८ महेंद्रगढ़	१९३४	..
५३	श्री श्रीनाथ पुरोहित, ३१-१-०९, जोधपुर	३-१-३०	..
५४	श्री सरदारमल धारीवाल, ८-५-०१, बीकानेर	२५-५-४४	..
५५	श्री फतेहलाल गुप्ता, १६-७-१३	१३-८-३२	..
५६	श्री केसरीसिंह दरडा, बी० कॉम०, २३-८-१९०८	१९-११-३५	..

वर्तमान पद तथा उस पर नियुक्ति का दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
अधिकारी, वित्त विभाग, इन्वेस्टमेन्ट्स, -६-५५	४०० ७५ वि० ते०	
स्थान एकाउन्ट्स सर्विस, २४-९-५५	२७५	प्रोबेशनर
" २४-९-५५	२५०	
" १-९-५६	२५०	
" १-९-५६	२७५	
" १-९-५६	२५०	प्रोबेशनर
" ३१-८-५६	२५०	प्रोबेशनर
"	२५०	प्रोबेशनर

सेवाधिकारी एवं कोषाध्यक्ष

कोषाध्यक्ष, वांसवाड़ा, १९-१२-१९	३००	
कोषाध्यक्ष, डूंगरपुर, ९-१-५४	३००	
कोषाध्यक्ष, नागौर, ६-१०-१९५२	४७५	
कोषाध्यक्ष, चूरु, १९-९-५४	५३८-९-	
कोषाध्यक्ष, सवाई माधोपुर, १२-११-५५	३००	
लेखाधिकारी, जागीर, जयपुर, १७-१०-५२	३००	

क्र. संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्र वष्ट होने का दिनांक	राजस्थान एकाउन्ट्स सर्विस में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
५७	श्री सुनहरीलाल, १-९-१९०५	१४-२-३४	..
५८	श्री एम० एम० व्यास, बी० ए०, एलएल० बी०, ७-८-१४	१९-१२-३३	..
५९	श्री मोहनलाल शर्मा, बी० ए०, २५-५-१५	१-१२-२९	..
६०	श्री एन० सी० घुर्गा	१०-२-५६	..
६१	श्री सालिगराम	१३-१-५६	..
६२	श्री के० जी० माथुर	३-६-५६	..
६३	श्री आर० सी० भार्गव	२२-९-५६	..
६४	श्री एस० सी० भंडारी	८-१२-५६	..
६५	श्री डी० आर० जैन, बी० कॉम०, एलएल० बी०	१६-१-५७	..
६६	श्री रामदास गर्ग	२४-११-५६	..
६७	श्री मुकुन्दराम पंड्या	२२-११-५६	..
६८	श्री हरिश्चन्द्र	१२-१२-५६	..
६९	श्री नोरतनमल अजमेरा, बी० ए०, २५-५-१९१५	१-९-१९४२	..
७०	श्री एम० आर० गोयल

खण्ड - ६

कृषि एवं खाद्य विभाग

(अ) उप-संचालक (प्रशासन)

उप-संचालक कपास, जयपुर डिविजन,
भरतपुर
उदयपुर एवं कोटा डिविजन, उदयपुर
बीकानेर व जोधपुर डिविजन, जोधपुर
संचालक उद्यान (होर्टीकल्चर)

५००-३०-७४० ई० बी० ३०-८००-५०-९००

(ब) कृषि रसायनज्ञ

वनस्पति विशेषज्ञ
कृषि अभियन्ता
प्लांट पैथोलोजिस्ट
एन्टामोलोजिस्ट

सांख्य अधिकारी (स्टेटिश्शियन)

३००-२५-५०० ई० बी० २५-६००
ई० बी० २५-८००(स) सहायक कृषि संचालक
सहायक कृषि अभियन्ता
सहायक पौध संरक्षण अधिकारी

२५०-२५-५०० ई० बी० २५-७००

जिला कृषि अधिकारी

२००-१५-२७५-२५-३७५ ई० बी० २
६००

प्रधानाध्यापक, कृषि विद्यालय

२५०-२५-४०० ई० बी० २५-५००

फल विशेषज्ञ

२५०-२५-५०० ई० बी० २५-७००

(द) फार्म मैनेजर

सहायक प्लांट पैथोलोजिस्ट
अनुसन्धान सहायक (रीसर्च असिस्टेन्ट)

१. १५०-१०-२२० ई० बी० १०-२५०
१२½-३५०

सहायक एन्टामोलोजिस्ट

२. ११०-५-१३५ ई० बी० १०-२२५

ट्रेक्टर फोरमेन

१२०-८-१६० ई० बी० १०-२५०

कृषि विकास अधिकारी

११०-५-१३५ ई० बी० १०-२२५

कृषि

क्रमा संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१	श्री समर्थराज, आर० ए० एस्	१०-१०-२८	१-१२-५३
२	श्री समशेरसिंह, एम० एससी०, बी० एससी० (आर्त्स), १९-१०-०५, जालन्धर	४-९-२८	४-९-२८
३	श्री चैतनारायण शिवपुरी, बी० एससी० (कृषि), अलवर, ६-२-१९०३	१-९-३३	१-९-३३
४	श्री ताराचन्द काला, बी०एससी० (कृषि), एम० एससी० (टेक्सस, यू० एस० ए०), १७-३-१२, जयपुर	३१-१-३४	३१-१-३४
५	श्री इन्दुशेखर शर्मा, बी० एससी० (कृषि), २२-१-१२, जयपुर	१-४-४६	१-४-४६
६	श्री रनवीरसिंह, एम० एससी०, पीएच० डी० (यू० एस० ए०), ९-४-२३, बीकानेर	९-१२-३०	९-१२-५०
७	श्री हीरसिंह गहलोत, डिप्लोमा (कृषि), एम० आर० ए० एस० ई० (लन्दन), २७-४-१९०७, जोधपुर	२२-१२-३६	१६-६-४८
८	श्री एम० पी० भटनागर, बी० एससी० (ऑर्गिनि), एसोसि० आई० ए० आर० आई०, १०-८-१०, जयपुर	१-३-३६	८-११-४४
९	श्री किशनमल मेहता, एम० एससी०, एसोसियेट आई० ए० आर० आई०, ११-९-१६, जोधपुर	२-२-४३	१७-४-५०
१०	श्री सूरजनारायण अरोड़ा, एल० एजी० पोस्ट ग्रेज्यूएट (कृषि), आई० ए० आर० आई०, १२-१०-१९०८, जयपुर	१-७-३२	१-७-३२
११	श्री श्रीनारायण सक्सेना, बी० एससी० (कृषि), १५-१२-१९०७, कोटा	६-३-३३	••

विभाग

वर्तमान पद और दिनांक	दत्तन	विशेष
५	६	७
कृषि संचालक एवं खाद्य आयुक्त, राजस्थान, जयपुर, १-१२-५३	४० ९५०	
उप-कृषि संचालक, प्रशासन, जयपुर, २०-७-५६	७१०	
..	४७५	पी० डब्लू० डी० विभाग से होर्टिकल्चरिस्ट के पद प (३०-६-५१) से
उप-कृषि संचालक, जोधपुर, ६-२-४९	६००	
..	५५०	प्रिन्सिपल एक्सटेन्शन ट्रेनिंग सेन्टर, कोटा (११-२-५३) से
उप-कृषि संचालक (कपास), उदयपुर, १६-२-५५	४७५	स्थानापन्न
उप-कृषि संचालक, उदयपुर एवं कोटा, उदयपुर, २६-२-५३	५५०	स्थानापन्न
वनस्पति विशेषज्ञ, जयपुर, १-१-५०	५००	
कृषि रसायनिक, कोटा, १२-२-५०.	५३०	
..	४०० ८० वि० से०	प्रिन्सिपल एक्सटेन्शन ट्रेनिंग सेन्टर, तिमिंगंज (१-१०-५४) से
उप-कृषि संचालक, जयपुर, भरतपुर, २४-१२-५५	५००	

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१२	श्री लक्ष्मणस्वरूप माथुर, बी० एससी० (कृषि), ५-७-१९१२, अलवर	१-६-३४	१-६-३४
१३	श्री दयाशंकर चौबीसा, उदयपुर, २२-११-०९	९-७-३६	१-१-५४
१४	श्री श्रीराम पुरोहित, बी० एससी० (कृषि), ७-६-१९१०, जोधपुर	३१-१२-३५	३१-१२-३५
१५	श्री हजारीलाल भार्गव, बी० एससी०, ११-१२-१४, जयपुर	१०-५-३७	१-३-४९
१६	श्री जोधसिंह, बी० एससी० (कृषि), ५-१२-२२, भरतपुर	१-११-४३	१४-२-५०
१७	श्री श्रीवरसिंह, बी० ए०, १७-१२-२८, भरतपुर	१-५-४३	१-५-४३
१८	श्री हरीनारायण माथुर, बी० एससी०, १-४-१९२१, जयपुर	२-१२-४३	२४-२-४७
१९	श्री जगमोहन माथुर, बी० एससी०, (कृषि), ३०-८-१९२०, उदयपुर	१२-६-४४	१२-६-४४
२०	श्री भोपालसिंह भटनागर, बी० एससी० (कृषि), १५-२-१९१६, उदयपुर	१-७-४४	१-७-४४
२१	श्री रतनसिंह रुडिया, बी० एजी०, १४-६-१९११, उदयपुर	१३-७-४४	१३-७-४४
२२	श्री उमाशंकर वादल, बी० एससी० (कृषि), २५-१२-१९१९, मध्यभारत	२८-८-४४	२८-८-४४
२३	श्री आर० एन० चतुर्वेदी, एल० (कृषि), ६-८-१९०६, कोटा	१६-९-४४	१६-९-४४
२४	श्री नेमीचन्द भुरन्ट, बी० एससी० (कृषि), १-१-१९२३, नागौर	६-८-४५	६-८-४५

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
रीजनल फरडील इजर ऑफिसर, राजस्थान, जयपुर, ३-७-५६	२७५	भारतीय सरकार की से प्रतिनियुक्ति पर
	२८०	पी० डब्लू० डी० विभाग में गार्डन सुपरिन्टेन्डेन्ट के पद पर प्रतिनियुक्ति पर
लोकस्ट चार्निंग अधिकारी, जयपुर, १६-५-५३	२७५	अस्थायी
जिला कृषि अधिकारी, अलवर, ७-६-५०	२१५	
साहायक कृषि संचालक, जयपुर, २३-५-५५	२५०	पी० डब्लू० डी० विभाग में गार्डन सुपरिन्टेन्डेन्ट के पद पर प्रति नियुक्ति पर (१७-१०-५१) से
	२५०	
जिला कृषि अधिकारी, टोंक, १-४-५०	२२५	
फल विशेषज्ञ, फल विकास अधिकारी, जयपुर, ६-१२-५६	२७५	
	२२५	लेक्चरर एक्सटेन्शन ट्रेनिंग सेन्टर, कोटा, ३-९-५६, से
	३५०	सुपरिन्टेन्डेन्ट बेसिक एग्रीकल्चर स्कूल, उदयपुर
साहायक कृषि बाजार अधिकारी, ८-११-५६	२८०	
जिला कृषि अधिकारी, कोटा, ५-१-५०	३५०	
जिला कृषि अधिकारी, पाली	२१५	

क्र. संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
२५	श्री जोगेंद्रपालसिंह, बी० एससी० (कृषि), १७-३-१९१९, श्री गंगानगर	२२-८-४५	२२-८-४५
२६	श्री ब्रजमोहन त्रिवेदी, बी० एससी० (कृषि), १५-१०-१९२४, विजनोर (यू० पी०)	२२-९-४५	१-९-४८
२७	श्री मनसुखराम पांडे, बी० एससी० (कृषि), ५-१-१९१६, डूंगरपुर	१-१२-४४	१-१२-४४
२८	श्री साहिबसिंह, बी० एससी० (कृषि), ५-३-१९०३, अलीगढ़ (यू० पी०)	०२१-१०-४६	२१-१०-४६
२९	श्री बैकुंठनाथ, बी० ए०, १७-७-२२, जयपुर	२-१-४५	फरवरी, १९४७
३०	श्री वृजबिहारी वर्मा, बी० एससी० (कृषि), १२-२-१९२४, जयपुर	२५-३-४७	२५-३-४७
३१	श्री छतरसिंह सिंघ, बी० एससी० (कृषि), १५-७-१९०४, जयपुर	१३-३-४७	१३-३-४७
३२	श्री रामशरण शर्मा, बी० एससी० (कृषि), ३१-३-१९२४, अलवर	१-६-४८	१-६-४८
३३	श्री हमीरसिंह झाला, बी० एससी० (कृषि), २३-११-१९२५, झालावाड़	१-१०-४७	१-१०-४७
३४	श्री जसवन्तकुमार वासुदेव, बी० एससी० (कृषि), १५-६-१६, होसियारपुर (पंजाब)	३१-७-४८	३१-७-४८
३५	श्री एम० एम० जैन, बी० एससी० (कृषि), आई० ए० आर० आई०, ५-११-२६, भरतपुर	२७-७-४८	५-१-५०
३६	श्री किशोरी रमन भार्गव, बी० एससी० (कृषि), ६-७-१९२४, जयपुर	८-९-४८	८-९-४८
३७	श्री भवनेश्वरदयाल उपाध्याय, बी० एससी० (कृषि), ७-११-२३, अलवर	८-१२-४८	८-१२-४८

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
जिला कृषि अधिकारी, गंगानगर, ६-४-५१	६० २३५	
जिला कृषि अधिकारी, बूंदो. १२-१-५०	२२५	
जिला कृषि अधिकारी, नागौर, १९५०	२२५	
जिला कृषि अधिकारी, जयपुर, ५-१-५०	२९०	
जिला कृषि अधिकारी, सवाई माधोपुर, ३-१-५०	२२५	
जिला कृषि अधिकारी, कपासन, १३-६-५३	१९५	स्थानापन्न
जिला कृषि अधिकारी, हनुमानगढ़, ५-१-५०	३२०	
जिला कृषि अधिकारी, सिरोही, २८-१२-५५	१५०	
जिला कृषि अधिकारी, भरतपुर, ३-८-५४	१७५	
जिला कृषि अधिकारी, बांसवाड़ा, १०-१-५६	२००	
जिला कृषि अधिकारी	३००	स्थाना
जिला कृषि अधिकारी, सीकर, ३-१२-५५	२००	
	१६०	

लेक्चरर एक्सटेन्सशन
ट्रेनिंग सेन्टर, कोटा,
२-१२-५४ से

क्रम सं०	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
३८	श्री रायस्वरूप विजय, बी० एससी० (कृषि), २७-१२-१९२४, झालावाड़	२२-१२-४८	२५-५-४९
३९	श्री परमेश्वरसिंह, बी० एससी० (कृषि), २२-६-१९२५, जयपुर	१५-१-४९	१५-१-४९
४०	श्री मुहुटबिहारी, बी० एससी० (कृषि), २८-१०-२३, जयपुर	२४-२-४७	२४-२-४७
४१	श्री सुदर्शनसिंह, बी० एससी० (कृषि), १०-७-२७, झालावाड़	१-३-४९	१-३-४९
४२	श्री चैनसुख जैन, बी० एससी० (कृषि), १५-३-१९२५, अजमेर	१७-३-४९	१७-३-४९
४३	श्री छतरसिंह भटनागर, बी० एससी० (कृषि), ६-१२-१९२२, उदयपुर	१०-५-४९	१७-३-४९
४४	श्री केसरीसिंह शीसोदिया, बी० एससी० (कृषि), २४-१-१९२६, चित्तौड़गढ़	१२-५-४९	१२-५-४९
४५	श्री रवीन्द्रदत्त शर्मा, बी० एससी० (कृषि), ८-६-१९१८, आगरा (यू० पी०)	२०-५-४९	२०-५-४९
४६	श्री आनन्दसिंह नेगी, बी० एससी० (कृषि), १६-५-१९१६, गढ़वाल (यू० पी०)	८-५-४९	८-५-४९
४७	श्री मोहनलाल माथुर, बी० एससी० (कृषि), २०-२-१९२८, उदयपुर	२७-६-४९	२७-६-४९
४८	श्री कन्हैयालाल शारदा, बी० एससी० (कृषि), २-१-२६, जयपुर	२१-७-४९	२१-७-४९
४९	श्री शेरसिंह कोठारी, बी० एससी० (कृषि), १०-४-१९२५, अजमेर	१९-८-४९	१९-८-४९
५०	श्री करणसिंह झाला, बी० एससी० (कृषि), ३१-७-२८, झालावाड़	८-९-४९	८-९-४९
५१	श्री हरदेवसिंह, बी० एससी० (कृषि), १३-९-१९१८, सीकर	५-२-५०	५-२-५०

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
	६०	
	१९०	लेक्चरर, कृषि एक्सटेन्शन ट्रेनिंग सेंटर, शिवगंज, १९-१०-५६
जिला कृषि अधिकारी, झालावाड़, २१-१२-५५	२००	
जिला कृषि अधिकारी, भीलवाड़ा, ४-६-५६	२००	
जिला कृषि अधिकारी, जालोर, २८-५-५६	१५०	प्रतिनियुक्ति पर
जिला कृषि अधिकारी, टोंक, ३०-३-५७	१४५	
	१३५	विकास खण्ड अधिकारी, १८-६-५६
जिला कृषि अधिकारी, उदयपुर, ५-११-५६	२१५	
	१४५	इन्स्पेक्टर वेटिक ए ग्रीकलचर स्कूल, सवाई माधोपुर
जिला कृषि अधिकारी, जोधपुर	१७५	राजस्थान कौटन एक्सटेन्शन स्कीम में कौटन इन्स्पेक्टर भीलवाड़ा, के पद पर प्रतिनियुक्ति, ५-३-५१
फार्म मैनेजर, बस्ती, १-७-५०	१४३-७-०	
फार्म मैनेजर, गंगानगर	१३०	
फार्म मैनेजर, मन्डोर	२००	
	१००	विकास खण्ड अधिकारी, मान्डल, १९५६
	२५ वि० वे०	

क्रम सं०	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
५२	श्री कमलकान्त दुब्बे, एम० एससी० (कृषि), १०-१-१९२७, भरतपुर	११-७-५०	११-७-५०
५३	श्री शिवलहरी शर्मा, बी० एससी० (कृषि), १८-१०-१९२७, सवाई माधोपुर	१८-७-५०	१८-७-५०
५४	श्री उम्मेदमल लोढा, बी० एससी० (कृषि), ८-१०-१९२४, जोधपुर	१९-८-५०	१९-८-५०
५५	श्री मोहनसिंह गोधारा, एम० एससी० (कृषि), ९-३-१९२५, कोटा	२३-११-५०	२३-११-५०
५६	श्री रघुनन्दनलाल माथुर, एम० एससी०, एलएल० बी०, १-६-१९२०, सवाई माधोपुर	६-५-४६	६-५-४६
५७	श्री चन्द्रमोहन माथुर, बी० एससी० (कृषि), २३-३-१९२५, जयपुर	२३-७-४६	२३-७-४६
५८	श्री महेशचन्द्र भार्गव, बी० एससी० (कृषि), ८-२-१९२५, जयपुर	१८-९-४८	१८-९-४८
५९	श्री सर्वेश्वरदयाल माथुर, बी० एससी० (कृषि), १७-११-२४, जयपुर	११-१-५०	११-१-५०
६०	श्री पुरषोत्तमदास भार्गव, एम० एससी०, एसोसी० आई० ए० आर० आई०, १७-५-१९२२, जयपुर	२८-१०-४९	२८-१०-४९
६१	श्री शरणबिहारीलाल, बी० एससी० (कृषि), ३-१-१९१०, जयपुर	११-९-३४	२-७-४६
६२	श्री निहालसिंह चौधरी, एम० एससी०,	जनवरी १९५१	जनवरी, १९५१
६३	श्री एम० पारथा सारथी, बी०ई० (मेक०), ३०-८-१९२४, बंगलौर	१२-२-५१	१२-२-५१
६४	श्री के० दास गुप्ता, बी०एम०ई०, फरवरी, १९२१, कलकत्ता	४-४-५१	४-४-५१

वर्तमान पद और दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
एग्रिकल्चर एक्सटेन्शन अधिकारी, महवा ३०-११-५३	६० १२० २५ वि० वे०	
विकास खण्ड अधिकारी	११५ २५ वि० वे०	
एग्रिकल्चर एक्सटेन्शन अधिकारी, गोविन्दगढ़	११५	
		विकास विभाग में एग्रिनोमिस्ट, कोटा प्रति नियुक्ति पर
लान्ट पैथोलोजिस्ट, नवम्बर, १९५२ से	१८०	स्थानापन्न
सहायक कृषि रसायनिक, कोटा, ११-२-५७	२५०	
हार्म मैनेजर, दुर्गापुरा, ४-१२-५६	१५०	
लान्ट प्रोटेक्शन अधिकारी, १६-१२-५५	१५०	स्थानापन्न
वहीट बोटेनिस्ट, दुर्गापुरा,	३२५	प्रति नियुक्ति पर
सुपरिन्टेन्डेन्ट, बेसिक एग्रिकल्चर स्कूल		
रिंक अधिकारी (स्टेटिश्ियन)		भारत सरकार की सेवा में प्रति नियुक्ति पर
रिषि अभियन्ता, १९-१-५६	५००	
रिषि अभियन्ता,	७२५	अन्डरग्राउन्ड वाटर बोर्ड की सेवा में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जोधपुर के पद पर प्रति नियुक्ति पर १८-१-५६ से

संख्या क्रम	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्त का दिनांक
१	२	३	४
६५	श्री अब्दुल कयाम खां, ३१-१२-२१, कलकत्ता	११-७-४९	११-७-४९
६६	श्री रिसालसिंह शर्मा, आर० एस० एस०, १२-१-१९०९, बीकानेर	४-९-३०	५-१२-५३
६७	श्री सुरेन्द्रकुमार शर्मा, एम० एससी० (जियोलोजी), १६-११-२८, बीकानेर	२०-१२-५०	२०-१२-५०
६८	श्री एच० सी० कोठारी, १३-९-१३, जयपुर	१०-९-४३	१-४-५५
६९	श्री करतारसिंह, एल० सी० (कृषि), २-४-१९०८, चूरू	२३-८-४८	२३-८-४८
७०	श्री जागीरसिंह, एल० सी० (कृषि), २-६-११, श्री गंगानगर	३-३-४९	३-३-४९
७१	श्री शान्तिकुमार जैन, बी० एससी० (कृषि), ४-४-३२, जयपुर	२८-५-५१	२८-५-५१
७२	श्री एस० एम० गांधी, एम० एससी० (बोटेनी), २१-७-२८, जालौर	२९-५-५३	२९-५-५३
७३	श्री बिहारीलाल माथुर, एम० एससी०, ११-१०-२९, जोधपुर	२४-६-५३	२४-६-५३
७४	श्री नन्दलाल माथुर, बी० एससी० (कृषि), ७-३-१५, किशनगढ़	२०-११-५३	२०-११-५३
७५	श्री घन्नालाल, एम० एससी० (कृषि), ३-४-२८	२१-११-५३	२१-११-५३
७६	श्री सांवतसिंह, एम० एससी०, १-४-३०, लुधियाना	२४-११-५३	२४-११-५३
७७	पी० एन० लाला, बी० एससी० (कृषि), ४-९-२८, जयपुर	२७-६-५०	२७-६-५०
७८	श्री लालू गोपाल पारीक, बी० एससी० (कृषि), १७-१-३०, जयपुर	२१-१-५२	२१-१-५२

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
ट्रेक्टर फोरमेन, जयपुर, १-१-५०	६० १५०	
लेखाधिकारी, कृषि विभाग, जयपुर, ५-१२-५३	३५०	
रिसर्च असिस्टेन्ट एन्टामोलोजिस्ट जयपुर, २०-१२-५०	१२०	
अंक अधिकारी, जयपुर, ३०-४-५५	४२५	प्रतिनियुक्ति पर
फार्म मैनेजर, पड़ासोली, ८-६-५३	२००	स्थानापन्न
फार्म मैनेजर, रायसिंहनगर, ९-५-५३	१००	स्थानापन्न
रिसर्च असिस्टेन्ट बोटेनी, १४-४-५४, दुर्गापुरा	१००	अस्थायी
रिसर्च असिस्टेन्ट व्हीट, दुर्गापुरा, २९-५-५३	१६०	अस्थायी
रिसर्च असिस्टेन्ट जीरा, कोटा, २४-६-५४	१६०	अस्थायी
रिसर्च असिस्टेन्ट एग्रोनोमी टैल्स, सुमेरपुर, २०-११-५३	१७०	अस्थायी
रिसर्च असिस्टेन्ट एग्रोनोमी, कोटा, २१-११-५३	१७०	अस्थायी
रिसर्च असिस्टेन्ट, टी० सी० एम० स्कीम, रायसिंह नगर, २४-११-५३	१७०	अस्थायी
एग्रिकल्चर एक्सटेन्शन अधिकारी, डूंगरपुर, १२-१२-५३	१२० २५ वि० वे०	
एग्रिकल्चर एक्सटेन्शन अधिकारी, बस्ती, १-८-५४	१०५ २५ वि० वे०	

क्र. संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
७९	श्री दौलतराज महता, बी०एससी० (कृषि), ३-७-३०, जोधपुर	६-१०-५३	६-१०-५३
८०	श्री मांगीलाल वर्मा, बी० ए०, १३-७-२४, कोटा	२-८-४३	१-६-४६
८१	श्री श्यामलाल पुजारी, ११-११-१७, उदयपुर	१-४-३९	१-४-३९
८२	श्री सबर्लसिंह कछवा, एम० एससी०, १०-७-२८, जोधपुर	२०-८-५२	२०-८-५२
८३	श्री बी० वी० संबरवाल, बी० एससी०, ५-२-२५, सोलन (एच० पी०)	१९-३-४९	१९-३-४९
८४	श्री गंगस्वरूप सांख्य, बी० एससी० (कृषि), १३-८-३०, अलवर	१४-५-५३	१४-५-५३
८५	श्री विष्णुचन्द्र पंडित, बी एससी० (कृषि), १-५-३०, नागौर	१७-२-५१	१७-२-५१
८६	श्री मोहनसिंह, बी० एससी० (कृषि)	२९-६-५३	२९-६-५३
८७	श्री जसकरणासिंह बी० एससी० (कृषि), ३-६-२५, मेनपुरी (यू० पी०)	१५-६-५१	१५-६-५१
८८	श्री यशवन्तसिंह झाला, बी० एससी० (कृषि), २०-९-२१, झालावाड़	३०-५-५३	३०-५-५३
८९	श्री बलदेव कृष्ण शर्मा, बी० एससी०, ७-७-३०, जयपुर	२१-१०-५२	२१-१०-५२
९०	श्री अहमद मुस्तफा खां, १-३-१६	१-१२-३७	१-१२-३७
९१	श्री अचलसिंह अरहा, बी० एससी०, पाली, ९-१०-२९	१७-२-५४	१७-२-५४
९२	श्री करुणाशंकर एस० दवे, १८-१-२५, सिरोही	१-६-४८	१-६-४८

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
एग्रिकल्चर एक्सटेन्शन अधिकारी, देसूरी, २३-११-५३	६० १०० २५ वि० वे०	
एग्रिकल्चर एक्सटेन्शन अधिकारी, लाडपुरा, २६-११-५३	११० २५ वि० वे०	
एग्रिकल्चर एक्सटेन्शन अधिकारी, गिरवा, २६-११-५३	११० २५ वि० वे०	
एग्रिकल्चर एक्सटेन्शन अधिकारी, आबू, २७-५-५४	११० २५ वि० वे०	
एग्रिकल्चर एक्सटेन्शन अधिकारी, रार्यासिहनगर, २७-११-५३	१०५ २५ वि० वे०	प्रति नियुक्ति पर
एग्रिकल्चर एक्सटेन्शन अधिकारी, किशनगढवास, १४-५-५३	१०५ २५ वि० वे०	"
एग्रिकल्चर एक्सटेन्शन अधिकारी, आमेट, १-१२-५४	११० २५ वि० वे०	"
एग्रिकल्चर एक्सटेन्शन अधिकारी, वसेरी, २०-११-५४	१०५ २५ वि० वे०	"
एग्रिकल्चर एक्सटेन्शन अधिकारी, सवाई माधोपुर, ९-१२-५४	११५ २५ वि० वे०	"
एग्रिकल्चर एक्सटेन्शन अधिकारी, करौली, १६-४-५५	१०५ २५ वि० वे०	"
एग्रिकल्चर एक्सटेन्शन अधिकारी, श्री करणपुर, २-१२-५४	११० २५ वि० वे०	"
एग्रिकल्चर एक्सटेन्शन अधिकारी, डीग, ३०-१०-५४	१०० २५ वि० वे०	"
कृषि विकास अधिकारी, सिवाणा, १४-१२-५४	१०० २५ वि० वे०	"
कृषि विकास अधिकारी, पिडवारा, १२-२-५५	११० २५ वि० वे०	"

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिन, क	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
९३	श्री हरभगवान दास, २४-३-२७, करनाल (पंजाब)	२१-३-४९	२१-३-४९
९४	श्री गुरुदयालसिंह केहरा, बी० एससी० (कृषि), १४-५-३३, अमृतसर (यू० पी०)	३०-६-५३	३०-६-५३
९५	श्री हरिशचन्द्र, बी० एससी० (कृषि), ५-८-३०, उदयपुर	१५-२-५४	१५-२-५४
९६	श्री मेघराज बंशाली, बी० एससी० (कृषि), १८-११-२६, जोधपुर	६-८-५४	६-८-५४
९७	श्री मांगीलाल सिधी, १-५-३०	२५-४-४८	२५-४-४८
९८	श्री यशवन्तजी त्रिवेदी, बी० एससी० (कृषि) २९-२-२५	१-८-५०	१-८-५०
९९	श्री चरणबिहारीलाल, बी० एससी० (कृषि), ३१-३-२६	३-८-५०	३-८-५०
१००	श्री विनोदप्रकाश जौहरी, बी० एससी० (कृषि), १०-७-२८	२-४-५१	२-४-५१
१०१	श्री टीकम डडलानी, बी० एससी० (कृषि), ११-८-२६	१८-५-५१	..
१०२	श्री आर० सी० महता, एम० ए०, बी० एससी० (कृषि), ११-४-३१	२-७-५४	२-७-५४
१०३	श्री अमरजीतसिंह, बी० एससी० (कृषि), ५-३-३४	१८-८-५४	१८-८-५४
१०४	श्री भैरूलाल वर्मा, बी० एससी० (कृषि) १७-६-३३	१८-८-५४	१८-८-५४
१०५	श्री रमेशकुमार, बी० एससी० (कृषि), २७-११-३६	२-९-५४	२-९-५४
१०६	श्री रघुनाथसिंह, बी० एससी० (कृषि), १३-९-२९	२१-९-५४	२१-९-५४

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
कृषि विकास अधिकारी, मालपुरा, १-१२-५४	१०० २५ वि० वे०	विकास विभाग में प्रति नियुक्ति पर
कृषि विकास अधिकारी, टोड़ा भीम, २-१२-५४	१०० २५ वि० वे०	"
कृषि विकास अधिकारी, सिमलवाड़ा, २२-१२-५४	१०० २५ वि० वे०	"
कृषि विकास अधिकारी, आहोर (जालोर), २-१२-५४	१०० २५ वि० वे०	"
कृषि विकास अधिकारी, बाली	१०० २५ वि० वे०	"
कृषि विकास अधिकारी, गढ़ी, ९-५-५५	१०० २५ वि० वे०	"
कृषि विकास अधिकारी, नीम का थाना, १-१०-५५	१०० २५ वि० वे०	"
कृषि विकास अधिकारी, जयपुर, १-१०-५५	१०० २५ वि० वे०	"
कृषि विकास अधिकारी, सुमेरपुर, १४-५-५६	१०० २५ वि० वे०	"
कृषि विकास अधिकारी, सांभर लेक, २४-११-५५	१०० २५ वि० वे०	"
कृषि विकास अधिकारी, कुम्भलगढ़, ३-१२-५५	१०० २५ वि० वे०	"
कृषि विकास अधिकारी, हिन्दौन, १-१०-५५	१०० २५ वि० वे०	"
कृषि विकास अधिकारी, सागवाड़ा, २-१०-५५	१०० २५ वि० वे०	"
कृषि विकास अधिकारी, मांडलगढ़, १-१०-५५	१०० २५ वि० वे०	"

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होन का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१०७	श्री देवीसहाय वर्मा, बी० एससी० (कृषि), २२-१-२८	२६-११-५४	२६-११-५४
१०८	श्री रघुवीरसिंह, बी० एससी० (कृषि), १-६-३४	२-१२-५४	२-१२-५४
१०९	श्री ओ० बी० बम्ब, बी०एससी० (कृषि),	४-१२-५४	४-१२-५४
११०	श्री रामजीलाल, बी० एससी० (कृषि), १५-३-३२	४-१२-५४	४-१२-५४
१११	श्री राजेन्द्रनाथ, बी० एससी० (कृषि), ८-३-३१	१३-१२-५४	१३-१२-५४
११२	श्री हरब्रह्म सिंह, बी० एससी० (कृषि), १-१०-२८	२४-१२-५४	२४-१२-५४
			५.शु-पालन
११३	श्री एम० एल० घोशाल, जी० बी० बी० सी०, १०-१०-१९०३, जिला फरीदपुर	३-७-३१	५-१-५०
११४	श्री जी० एस० राठीड़, डी०बी०एम०बी०, (यू०एस०ए०), १०-१०-१४, नागौर	८-७-४८	५-१-५०
११५	श्री दुर्गादान, जी०बी०वी०सी०,पी०जी० २८-३-०८, पाली	१-४-३१	५-१-५०
११६	श्री देवराज बजाज, बी०वी०एससी०, १८-१२-१९१६,	१-९-३५	५-१-५०
११७	श्री पी० डी०.माथुर, एम० एससी०, एम०एस० (यू० एस०ए०), ४-४-१७ बीकानेर	२-८-४३	५-१-५०
११८	श्री एम० के० दीसी, बी० एससी०, जी०एस०बी०सी०,बी०वी०एस०सी०, ६-२-१९२२, उदयपुर	७-६-४१	५-१-५०

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
कृषि विकास अधिकारी, झालरापाटन, ६-१०-५५	१०० २५ वि० वे०	विकास विभाग में प्रति नियुक्ति पर
कृषि विकास अधिकारी, हिडोली, ३-१०-५५	१०० २५ वि० वे०	"
कृषि विकास अधिकारी, कोटडा	१०० २५ वि० वे०	"
कृषि विकास अधिकारी, वेगूं, १-१०-५५	१०० २५ वि० वे०	"
कृषि विकास अधिकारी, बारां, १०-२-५६	१०० २५ वि० वे०	"
कृषि विकास अधिकारी, सांगानेर, ३-३-५६	१०० २५ वि० वे०	"

विभाग

उप-संचालक, पशु-चिकित्सा एवं पशुपालन विभाग, उदयपुर, ७-३-५७	५६०
उप-संचालक, पशु-चिकित्सा एवं पशुपालन विभाग, जयपुर, ७-३-५७	६००
उप-संचालक, पशु-चिकित्सा एवं पशुपालन विभाग, जोधपुर, ९-३-५७	५६०
उप-संचालक, पशु-चिकित्सा एवं पशुपालन विभाग, जयपुर, ७-३-५७	५००
उप-संचालक, पशु-चिकित्सा एवं पशुपालन विभाग, अजमेर	५८०
ऐनिमल हस्बेन्ड्री आफिसर, जयपुर	५००

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
११९	श्री अविनाशस्वरूप, आई० डी० डी०, ए० आई० डी०, आई० डी० डी० वाई, (एम०एससी०), एन० २ मार्केट मिल्क, २९-१२-१८, जोधपुर	१५-३-४१	५-१-५०
१२०	श्री हीरालाल पटेल, आई० डी० डी० पी० जी०, (ब्रीडिंग), पी० जी०, २७-७-०७, (मार्केटिंग), अलवर	६-८-३३	१३-१-५०
१२१	श्री वसंतिलाल छावड़ा, आई० डी० डी०, ३-३-१९१९, जयपुर	३०-१०-४५	१-१-५०
१२२	श्री आर० एन० हांडा, आई० डी० डी०, १२-६-१९१२, रायसिंहनगर	२८-११-३४	११-२-५०
१२३	श्री बी०के० माथुर, आई० डी० डी०, जयपुर	१७-५-४८	१७-१-४८
१२४	श्री एल० सिंघवी, आई० डी० डी०, २०-१०-१९२२, उदयपुर	१-४-४८	२६-१-५०
१२५	श्री अहमद नबीखान, १७-५-०८, रामपुर	९-८-२९	१-२-४०
१२६	श्री अभिनुद्दीन गौरी, ८-७-०५, झालावाड़	१३-७-३२	१३-७-३२
१२७	श्री एम० ए० खान, २२-२-१०, जयपुर	३-६-३६	३-६-३६
१२८	श्री बुद्धसिंह, १७-५-१३, जाटूसाना	२१-६-३९	२१-६-३९
१२९	श्री चिरंजीलाल, ७-३-१७, अलवर	१-१०-४१	२५-१-५०
१३०	श्री डी०पी० शुक्ला, ४-१२-१५, अजमेर	१४-४-३९	१-११-५६
१३१	श्री दौलतसिंह, १-७-१९१०, चित्तौड़गढ़	२२-४-३४	१-४-५०
१३२	श्री जी० एस० मेहता, किशनगढ़, १०-१०-१९१७	११-५-४०	७-४-४९
१३३	श्री हनुमानसिंह, १५-४-१९१०, नागौर	१-४-३२	१-१-५०
१३४	श्री जगमोहनलाल, ४-७-१८, अलवर	१९-६-४१	१-४-५०

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
दुग्ध विकास अधिकारी, राजस्थान, जयपुर ५-१-५०	४००	
लाइव स्टोक डेवलपमेन्ट आफिसर, राजस्थान, जयपुर	४२५	
गौशाला विकास अधिकारी, राजस्थान, जयपुर, १-१-५०	४२५	
सुपरिन्टेन्डेन्ट, कैंटल ब्रीडिंग फार्म	२००	
सुपरिन्टेन्डेन्ट, कैंटल ब्रीडिंग फार्म, १५-७-५२	२००	
सुपरिन्टेन्डेन्ट, कैंटल ब्रीडिंग फार्म २६-१-५०	२००	
डिस्ट्रिक्ट वेटेरिनरी आफिसर, २-३-५७	२५०	स्थानापन्न
डिस्ट्रिक्ट वेटेरिनरी ऑफिसर	२५०	"
डिस्ट्रिक्ट वेटेरिनरी ऑफिसर	२५०	"
पैथोलोजिस्ट, १-३-४९	२५०	
डिस्ट्रिक्ट वेटेरिनरी आफिसर, २-३-५७	२५०	
डिस्ट्रिक्ट वेटेरिनरी ऑफिसर, १-११-५६	३२५	
डिस्ट्रिक्ट वेटेरिनरी ऑफिसर, २-३-५७	२५०	
डिस्ट्रिक्ट वेटेरिनरी ऑफिसर, २-३-५७	२५०	
डिस्ट्रिक्ट वेटेरिनरी ऑफिसर, २-३-५७	३००	
डिस्ट्रिक्ट वेटेरिनरी ऑफिसर	२७५	

क्र. संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१३५	श्री जगनाथसिंह, १५-११-१२, भीलवाड़ा	२५-४-३६	१-४-५०
१३६	श्री किशोरसिंह, १२-१२-०७, जोधपुर	१-८-२८	१-११-५०
१३७	श्री किशोरसिंह हाड़ा, १०-७-१५, कोटा	२४-५-४१	२३-१-५०
१३८	श्री लक्ष्मणसिंह, ८-८-२०, जोधपुर	१-७-३७	१-४-५०
१३९	श्री लक्ष्मणपुरी, १-१०-१४, बून्दी	१-४-३७	१-४-५०
१४०	श्री मूलसिंह, १-१०-१८, पाली	१-८-३७	१-४-५०
१४१	श्री महावीर सहाय, १९-४-२०, जोधपुर	३-११-३८	२०-४-४६
१४२	श्री मदनलाल, ५-७-१५, अलवर	१४-११-४०	१-९-४८
१४३	श्री सुगनसिंह, २२-७-०४, गौरावार	२१-१-४२	१-४-५०
१४४	श्री ए० डी० लीला रमानी, ६-२-०३, शककर (सिन्ध)	७-५-२५	१-११-५६
१४५	श्री आनन्दबिहारी, १८-३-२६, जयपुर	२८-३-४६	१०-५-५२
१४६	श्री ए० रामचन्द्र राव, २१-१०-३४, हंवरवाव	३-१-५७	३-१-५७
१४७	श्री बी० एस० निरवाण, १-३-२९, अजमेर	..	१-११-५६
१४८	श्री ब्रजलाल मिर्धा, २८-१०-३१, कमालिया	१६-११-५६	१६-११-५६
१४९	श्री भगतसिंह सलिक, २०-३-३३, रोहतक	२३-११-५६	२३-११-५६
१५०	श्री सी० बी० रावदेव, ८-४-३३, प्रभानी	४-२-५७	४-२-५७
१५१	श्री दौलतसिंह, ७-११-१३, झुझुनू	७-४-३७	१६-६-५४
१५२	श्री धरमपालसिंह, ५-२-३०, गुडगांव	३-७-५४	३-७-५४
१५३	श्री डी० पी० माथुर, ६-११-२४, जयपुर	१३-८-५३	१३-८-५३

वर्तमान पद और दिनांक	वेतन	विवरण
५	६	७
डिस्ट्रिक्ट वेटेरिनरी ऑफिसर, ५-३-५७	२५०	
डिस्ट्रिक्ट वेटेरिनरी ऑफिसर, २५-३-५७	२५०	
डिस्ट्रिक्ट वेटेरिनरी ऑफिसर, २-३-५७	२५०	
डिस्ट्रिक्ट वेटेरिनरी ऑफिसर २-३-५७,	२५०	
डिस्ट्रिक्ट वेटेरिनरी ऑफिसर, २-३-५७	२५०	
डिस्ट्रिक्ट वेटेरिनरी ऑफिसर, २९-३-५७	२५०	
डिस्ट्रिक्ट वेटेरिनरी ऑफिसर, १४-३-५७	२५०	
डिस्ट्रिक्ट वेटेरिनरी ऑफिसर, २-३-५७	२५०	
डिस्ट्रिक्ट वेटेरिनरी ऑफिसर, २-३-५७	२५०	
वेटेरिनरी असिस्टेन्ट सर्जन, १-७-५४	२५०	
वेटेरिनरी असिस्टेन्ट सर्जन, १०-५-५२	२००	
वेटेरिनरी असिस्टेन्ट सर्जन, ३-१-५७	२००	अस्थायी
वेटेरिनरी असिस्टेन्ट सर्जन, २६-६-५२	१७०	
वेटेरिनरी असिस्टेन्ट सर्जन, १६-११-५६	२००	अस्थायी
वेटेरिनरी असिस्टेन्ट सर्जन, २३-११-५६	२००	
वेटेरिनरी असिस्टेन्ट सर्जन, ४-२-५७	२००	अस्थायी
वेटेरिनरी असिस्टेन्ट सर्जन, १६-६-५४	१२५	
वेटेरिनरी असिस्टेन्ट सर्जन, ३-७-५४	२००	
वेटेरिनरी असिस्टेन्ट सर्जन, १३-८-५३	२००	

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१५४	श्री जी० भीम रेडी, १२-११-१९३१, मेहबूब नगर	१९-११-५६	१९-११-५६
१५५	श्री गोपालराव शाहने, २-५-३०, परभानी	७-१-५७	७-१-५७
१५६	श्री ग्यानसिंह, १-८-२२, भरतपुर	१-४-५०	१-४-५०
१५७	श्री जी० सी० महाजन, ७-१२-१०, स्यालकोट	१-७-३४	१-११-५६
१५८	श्री हीरसिंह, १०-११-२०, पाली	१-५-४३	१-४-५०
१५९	श्री एच०के०शर्मा, १५-४-३१, भरतपुर	६-५-५२	६-५-५२
१६०	श्री हरगोविन्द, ९-८-२६,	४-५-५२	४-५-५२
१६१	श्री हरीनारायण, २२-६-१५, अलवर	१९-४-५५	१९-४-५५
१६२	श्री हीरावल्लभ लूमी, २५-१-१३, कोटा	२८-१-४१	१-१०-४८
१६३	श्री जैसिंह, २२-६-२१, पाली	२-९-४४	२८-३-५१
१६४	श्री जे०एस०सक्सेना, १५-६-२९, बूंदी	७-६-५२	७-६-५२
१६५	श्री के० प्रकाश राव, २७-११-३५, हैदराबाद	१४-२-५७	१४-२-५७
१६६	श्री कन्हैयालाल, १०-३-१८, अलवर	९-९-४८	९-९-४८
१६७	श्री कैलाशनारायण पुरोहित, २९-४-३२, जोधपुर	२९-४-५२	२९-४-५२
१६८	श्री कल्याणदान चारण, ३-११-२६, नागौर	६-९-५२	६-९-५२
१६९	श्री मोहनलाल सेठिया, ४-१-२९, पाली	२५-५-५३	२५-५-५३
१७०	श्री एम० एस० भटनागर, ८-८-११, बुलन्दशहर	१५-१-५६	१५-१-५६
१७१	श्री एम० एल० माथुर, २१-१२-१८, अजमेर	३०-९-४७	१-११-५६

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
वेटेरिनरी असिस्टेन्ट सर्जन, १९-११-५६	२००	अस्थायी
वेटेरिनरी असिस्टेन्ट सर्जन, ७-१-५७	२००	अस्थायी
वेटेरिनरी असिस्टेन्ट सर्जन, १-४-५०	२३०	
वेटेरिनरी असिस्टेन्ट सर्जन, १-९-४७	१९०	
वेटेरिनरी असिस्टेन्ट सर्जन, १-४-५०	२३०	
वेटेरिनरी असिस्टेन्ट सर्जन, ६-५-५२	२००	
वेटेरिनरी असिस्टेन्ट सर्जन, ४-५-५२	२००	
वेटेरिनरी असिस्टेन्ट सर्जन, १९-४-५५	२००	
वेटेरिनरी असिस्टेन्ट सर्जन, १-१०-४८	२३०	
वेटेरिनरी असिस्टेन्ट सर्जन, २८-३-५२	२१०	
वेटेरिनरी असिस्टेन्ट सर्जन, ७-६-५२	२००	
वेटेरिनरी असिस्टेन्ट सर्जन, १४-२-५७	२००	अस्थायी
वेटेरिनरी असिस्टेन्ट सर्जन, ९-९-४८	२१०	
वेटेरिनरी असिस्टेन्ट सर्जन, २९-४-५२	२००	
वेटेरिनरी असिस्टेन्ट सर्जन, ६-९-५२	२००	
वेटेरिनरी असिस्टेन्ट सर्जन, २५-५-५३	२१०	
वेटेरिनरी असिस्टेन्ट सर्जन, १५-१०-५६	१५०	
वेटेरिनरी असिस्टेन्ट सर्जन, ३०-९-४७	२००	

क्रम संख्या १	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान २	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक ३	दिभाग में नियुक्ति का दिनांक ४
१७२	श्री एम०के०भट्टाचार्य, १-१०-३०, बिहार	१-८-४९	१-११-५६
१७३	श्री एन०के०कृष्णामूर्ति, १०-४-३२, मैसूर	१४-४-५५	१४-४-५५
१७४	श्री ओमप्रकाश कालिया, २३-३-३२, लुधियाना	२४-९-५४	२४-९-५४
१७५	श्री पी०वी०भावे, १०-३-३१, हैदराबाद	२४-१०-५६	२४-१०-५६
१७६	श्री रंगराव कुलकरनी, ८-१२-२४, गुलबर्गा	११-१-५७	११-१-५७
१७७	श्री रविकान्त आर० पोतदार, ४-१२-३३, निजामाबाद	४-१-५७	४-१-५७
१७८	श्री आर० रू न० गौतम, १६-५-३०, अजमेर	१८-११-५२	१-११-५७
१७९	श्री राधामोहन भार्गव, १५-४-२९, जयपुर	१-५-५२	१-५-५२
१८०	श्री डयरज कल्ला, १२-१२-२९, जोधपुर	६-५-५१	६-५-५१
१८१	श्री एस० एन० तोशनीवाल, १४-१२-३१, अजमेर	१५-५-५४	१-११-५६
१८२	श्री श्रीकिशन व्यास, ३-१-२८, जोधपुर	३-५-५१	३-५-५१
१८३	श्री सवाईसिंह, १-४१५, नागौर	१७-४-४१	१६-७-५१
१८४	श्री श्रीराम शर्मा, २१-६-२६, अलवर	२०-५-५३	२०-५-५३
१८५	श्री सुरेन्द्रसिंह, १-७-२६, बीकानेर	२६-४-४७	१-४-५०
१८६	श्री सुरेन्द्रसिंह चावला, २१-८-२२, लखनौ	१-५-४६	१-११-५६
१८७	श्री सूरजनारायण, १२-१०-२३, जयपुर	८-५-४७	८-५-४७
१८८	श्री सोमनाथ थापर, १४-२-३०, बीकानेर	१३-९-५३	१३-९-५३
१८९	श्री वी० सी० जवरिया, १०-३-१२, केरला	२८-८-३६	९-१-५०
१९०	श्री वी० श्रीधरदास, ७-१०-३०, हैदराबाद	१५-३-५७	१५-३-५७

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
वेटेरिनरी असिस्टेन्ट सर्जन, १-४-५६	१५०	अस्थाई
वेटेरिनरी असिस्टेन्ट सर्जन, १४-४-५५	२००	
वेटेरिनरी असिस्टेन्ट सर्जन, २४-९-५४	२००	
वेटेरिनरी असिस्टेन्ट सर्जन, २४-१०-५६	२००	अस्थाई
वेटेरिनरी असिस्टेन्ट सर्जन, ११-१-५७	२००	अस्थाई
वेटेरिनरी असिस्टेन्ट सर्जन, ४-१-५७	२००	अस्थाई
वेटेरिनरी असिस्टेन्ट सर्जन, १८-११-५२	१५०	
वेटेरिनरी असिस्टेन्ट सर्जन, १-५-५२	२००	
वेटेरिनरी असिस्टेन्ट सर्जन, ६-५-५१	२००	
वेटेरिनरी असिस्टेन्ट सर्जन, १५-५-५४	१५०	अस्थाई
वेटेरिनरी असिस्टेन्ट सर्जन, ३-५-५१	२१०	
वेटेरिनरी असिस्टेन्ट सर्जन, १६-७-५१	२००	
वेटेरिनरी असिस्टेन्ट सर्जन, २०-५-५३	२००	
वेटेरिनरी असिस्टेन्ट सर्जन, १-४-५०	२००	
वेटेरिनरी असिस्टेन्ट सर्जन, २१-८-५५	२१०	
वेटेरिनरी असिस्टेन्ट सर्जन, ८-५-४७	२२०	
वेटेरिनरी असिस्टेन्ट सर्जन, १३-९-५३	२००	
वेटेरिनरी असिस्टेन्ट सर्जन, १-१-५०	२५०	
वेटेरिनरी असिस्टेन्ट सर्जन, १५-३-५७	२००	अस्थाई

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१९१	श्री वाई०वी०थाटे, २९-१२-१६, जोधपुर	१६-४-४२	१-४-५०
१९२	श्री आर०सी०वाठा, २३-१२-२९, जयपुर	५-१२-५१	५-१२-५१
१९३	श्री चाँदीसह, १६-३-१६, मांगरोल	६-११-४२	१-४-५०
१९४	श्री हरीसिंह सोडा, १०-७-२३, झुंझुनू	१५-४-५०	१५-४-५०
१९५	श्री डी०के०चक्रवर्ती, १-११-१०, बंगाल	१०-९-३५	१६-६-५४
१९६	श्री पी० के० गंगुली, १-२-२६, बंगाल	१-२-४८	१-२-४८
खाद्य			
१९७	श्री एस० के० व्यास, बी० कॉम०, जोधपुर, १८-११-१९१९	जून, १९४२	१४-६-५१
१९८	श्री मुरलीलाल, १०-७-२७	२-७-५३	२-७-५३
१९९	श्री आर० आर० मेहता, बी०एससी०, (एग्रि०), १३-१०-३३	४-६-५५	४-६-५५
२००	श्री बहलसिंह नथावल, बी० एससी०, (एग्रि०), २-४-३२	६-६-५५	६-६-५५
२०१	श्री विजयमल ओसवाल, २४-६-३०	१४-६-५५	१४-६-५५
२०२	श्री सन्तजी भट्ट, बी०एससी० (कृषि), १८-२-३४	१५-६-५५	१५-६-५५
२०३	श्री महेशवत्त, बी०एससी० (कृषि), १०-७-३६	२१-६-५५	२१-६-५५
२०४	श्री ओ० एस० सोनी, २६-७-३१	२१-६-५५	२१-६-५५
२०५	श्री के० एल० सेग, २०-११-२६	४-७-५५	४-७-५५
२०६	श्री ईश्वरसिंह, बी० एससी० (कृषि), ७-९-३५	९-७-५५	९-७-५५

वर्तमान पद और दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
वेटेरिनरी असिस्टेन्ट सर्जन, १-४-५०	४० २२०	
वेटेरिनरी असिस्टेन्ट सर्जन, ५-१२-५१	२००	
वेटेरिनरी असिस्टेन्ट सर्जन, १-४-५०	२३०	
वेटेरिनरी असिस्टेन्ट सर्जन, १५-४-५०	२२०	
वेटेरिनरी असिस्टेन्ट सर्जन, १६-६-५४	३७५	
वेटेरिनरी असिस्टेन्ट सर्जन, १-२-४८	२१०	
शाखा		
खाद्य आयुक्त के निजी सहायक, १४-६-५१, जयपुर	३२५	
एग्रिकल्चर एक्सटेंशन अधिकारी, बांदाकुई १२-६-५६	..	
एग्रिकल्चर एक्सटेंशन अधिकारी, बिलेरा, २३-५-५६	..	
एग्रिकल्चर एक्सटेंशन अधिकारी, सांचोर	..	
एग्रिकल्चर एक्सटेंशन अधिकारी, फझोर	..	
एग्रिकल्चर एक्सटेंशन अधिकारी, कपासन	..	
एग्रिकल्चर एक्सटेंशन अधिकारी, प्रतापगढ़, १६-७-५६	..	
एग्रिकल्चर एक्सटेंशन अधिकारी, उदयपुर	..	
एग्रिकल्चर एक्सटेंशन अधिकारी, राजसमन्व	..	
एग्रिकल्चर एक्सटेंशन अधिकारी, टोंक, ३-७-५६	..	

क्र. संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
२०७	श्री भोपालचन्द भंडारी, बी० एससी०, (कृषि). ७-५-३१	१८-७-५५	१८-७-५५
२०८	श्री जयनारायणसिंह, बी०एससी० (कृषि), ७-६-३३, झुन्झुनू	२१-७-५५	२१-७-५५
२०९	श्री हरीसिंह मेड़तिया, बी० एससी० (कृषि), ८-२-३३, नागौर	२८-७-५५	२८-७-५५
२१०	श्री मुख्तियारसिंह, बी० एससी० (कृषि), ८-९-३२, गंगानगर	१७-९-५५	१७-९-५५
२११	श्री बी० एम० जोशी, बी० एससी०	७-५-५६	७-५-५६
२१२	श्री कैलाशचन्द्र, बी० एससी०	२१-५-५६	२१-५-५६
२१३	श्री भोजराजसिंह, बी० एससी०	२४-७-५६	२४-७-५६
२१४	श्री गुरुप्रसाद, बी० एससी०	जुलाई, १९५६	जुलाई, १९५६
२१५	श्री डी० आर० बजाज, बी० एससी०	२२-९-५६	२२-९-५६
२१६	श्री चौथमल, बी० एससी०, ९-५-३१	१-१०-५६	१-१०-५६
२१७	श्री वी० पी० कुलश्रेष्ठ, बी० एससी०	१-१०-५६	१-१०-५६
२१८	श्री बख्तावरसिंह कुटर, ४-४-३३, फिरोजपुर	१७-१०-५६	१७-१०-५६
२१९	श्री लालचन्द	१९-१२-५६	१९-१२-५६
२२०	श्री एम० सी० जोशी, एल० एजी०, पोस्ट ग्रेज्युएट डिप्लोमा, आई० ए० आर० आई, न्यू देहली, २२-३-१९१०	१-४-४१	१-४-५१
२२१	श्री देवेन्द्र शर्मा, बी० एससी० (कृषि), १०-१०-२५	९-९-४६	९-९-४६
२२२	श्री भंवरलाल कोठारी, बी० ई०, १९-६-२२	१८-४-५६	१८-४-५६

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
इंग्रीकलचर एक्सटेन्शन अधिकारी, खारची, १२-६-५६	६०	..
इंग्रीकलचर एक्सटेन्शन अधिकारी, किशनगढ़, ६-१०-५६
इंग्रीकलचर एक्सटेन्शन अधिकारी, अन्ता, १-१२-५६
इंग्रीकलचर एक्सटेन्शन अधिकारी, हनुमानगढ़
इंग्रीकलचर एक्सटेन्शन अधिकारी, मांडल
इंग्रीकलचर एक्सटेन्शन अधिकारी, गंगापुर
इंग्रीकलचर एक्सटेन्शन अधिकारी, लक्ष्मनगढ़
इंग्रीकलचर एक्सटेन्शन अधिकारी, राजाखेड़ा
इंग्रीकलचर एक्सटेन्शन अधिकारी, खानपुर
इंग्रीकलचर एक्सटेन्शन अधिकारी, बूंदी २५-१-५७
इंग्रीकलचर एक्सटेन्शन अधिकारी, धरियावद
इंग्रीकलचर एक्सटेन्शन अधिकारी, आसपुर, मार्च, १९५७
इंग्रीकलचर एक्सटेन्शन अधिकारी, डीडवाना १९-१२-५६
गन्ना विकास अधिकारी, जयपुर	५९०	..
कृषि सूचना अधिकारी	२५०	..
सहायक कृषि अभियन्ता	२७५	..

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
२	२	३	४
२२३	श्री सी० एल० नागर, बी० एससी० (कृषि), १७-३-१९०६	१-४-४१	१-४-४१
२२४	श्री आर० एन० राम्भी, एम० एससी० (कृषि)	७-११-५६	७-११-५६
२२५	श्री लक्ष्मीनारायण	२२-१२-२९	१८-४-५१
२२६	श्री वी० एम० रायना, बी०एससी० (कृषि)	१६-४-५१	१६-४-५१
२२७	श्री वी० एन० सक्सेना, बी०एससी० (कृषि), एम० ए०, २४-१२-२१ टोंक,	३-९-५५	३-९-५५
२२८	श्री सन्तोषकुमार भटनागर, एम० एससी० (बोटेनी)	६-१२-५६	६-१२-५६
२२९	श्री रामस्वरूप, एम० एससी०	७-१-५६	७-१-५६
२३०	श्री जे० एम० जौहरी, एम०एससी० (कृषि)	२-३-५७	२-३-५७
२३१	सुश्री टी० उमादेवी भैरव, बी०एससी०	२६-१०-५६	२६-१०-५६
२३२	श्री के० बी० ट्रहान, एम० एससी० (कृषि)	५-१२-५६	५-१२-५६
२३३	श्री बाबूलाल, एम० एससी० (बोटेनी)	५-१२-५६	५-१२-५६
२३४	श्री राममूर्ती, एम० एससी०	६-१२-५६	६-१२-५६
२३५	श्री एन० पी० सहगल, एम० एससी०, १-४-३३	२६-१२-५६	२६-१२-५६
२३६	श्री एन० आर० टेल्लेटी, ९-७-३९, गुजरात	१२-१२-५२	१२-१२-५२
२३७	श्री बलजीर्तिसिंह, एम० एससी०	३-९-५४	३-९-५४
२३८	श्री एच० एस० शंकरनारायण, बी० एससी० (कृषि), ७-६-१९३०, मैसूर स्टेट	२२-११-५४	२२-११-५४
२३९	श्री घनपतराज भंडारी, एम०एससी०, (बोटेनी)	११-४-५५	११-४-५५
२४०	श्री गोकुर्त्तिसिंह सेखावत, एम०एससी० (कृषि)	१-८-५५	१-८-५५

वर्तमान पद और दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
	६०	
जिला कृषि अधिकारी, अजमेर	..	
कॉटन इन्स्पेक्टर	१७५	
कॉटन इन्स्पेक्टर	१८५	
कॉटन इन्स्पेक्टर	२३५	
कॉटन सुपरवाइजर, कपासन	१८५	
रिसर्च असिस्टेन्ट, दुर्गापुरा	..	
रिसर्च असिस्टेन्ट, दुर्गापुरा	..	
रिसर्च असिस्टेन्ट, दुर्गापुरा	..	
रिसर्च असिस्टेन्ट, दुर्गापुरा	..	
रिसर्च असिस्टेन्ट, दुर्गापुरा	..	
रिसर्च असिस्टेन्ट, मन्डोर	..	
रिसर्च असिस्टेन्ट, दुर्गापुरा	..	
रिसर्च असिस्टेन्ट, कोटा	..	
रिसर्च असिस्टेन्ट, १-३-५७ कोटा	..	
रिसर्च असिस्टेन्ट, १-३-५७, कोटा	..	
रिसर्च असिस्टेन्ट, १-३-५७, कोटा	..	
रिसर्च असिस्टेन्ट, उदयपुर	..	
रिसर्च असिस्टेन्ट, २६-११-५६, बूंदी	१६०	

क्र.सं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
२४१	श्री इन्द्रजीतसिंह, एम० एससी० (कृषि), १-१-३१	३०-७-५२	६-४-५५
२४२	श्री तखतसिंह	१७-१-५०	१६-९-५०
२४३	श्री श्रीलाल, आई० पी० आई० डिप्लोमा	१-१-३४	१-१-३४
२४४	श्री घासीलाल	१६-५-३५	१६-५-३५
२४५	श्री राघेमोहन, आई० पी० आई० डिप्लोमा	१-५-४४	१-५-४४
२४६	श्री गोकुलचन्द, आई० पी० आई० डिप्लोमा	१-६-४६	१-६-४६
२४७	श्री उदयभानसिंह, एम०एससी० (कृषि), जयपुर	२८-७-५६	२८-७-५६
२४८	श्री महेशदत्त अजमेरा, बी०एससी० (कृषि), ९-६-१९३५, आनर्स	१३-१२-५६	१३-१२-५६

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
रिसर्च असिस्टेंट, अजमेर	६०	
फार्म सुपरिन्टेन्डेन्ट	..	
फार्म मैनेजर कोटा, अगस्त, १९५६	..	
फार्म मैनेजर, हिन्डीन, अगस्त, १९५६	..	
फार्म मैनेजर, भरतपुर, अगस्त, १९५६	..	
फार्म मैनेजर, बोरीखेरा (कोटा), १०-१०-१९५६	..	
सहायक गन्ना विकास अधिकारी, ३०-३-५७	..	
रिसर्च असिस्टेंट, कोटा	..	

खण्ड १०

सहकारी विभाग

पद १	वेतन श्रृंखला २
पंजीयक	आई० ए० एस०
उप-पंजीयक	२५०-२५-५०० नि० बं० २५-७५० वि० वे० १००
सहायक पंजीयक पंजीयक के निजी सहायक प्रचार अधिकारी शिक्षा अधिकारी विस्तार अधिकारी	२००-१५-२७५-२०-३७५ नि० बं० २५-६०० वि० वे० ७५

क्र.सं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१	श्री विक्रम प्रसाद सूद, आई० ए० एस०, २४-१-१९१८, जलन्धर (पंजाब)	१३-८-४२	२६-१२-५६
२	श्री गुलाबसिंह लोढा, आर० ए० एस०, ४-११-१९१०, जोधपुर	१५-९-३७	१४-५-५५
३	श्री वृजवल्लभ शर्मा, एम०ए०, बी०कॉम०, बी०टी०, एलएल० बी०, १-३-०३, भरतपुर	२६-४-२६	२२-५-४८
४	श्री सुखदयाल गुप्ता, बी० ए०, २५-६-१२, रोहतक (पंजाब)	२४-१-४५	२४-१-४५
५	श्री सूरजमल पाटनी, रा० अका० स०, ५-१०-१९०९, जयपुर	१६-११-३४	१७-३-५६
६	श्री श्रीनाथ चतुर्वेदी, बी० ए०, एलएल० बी०, ५-१२-१९१७, चंचल (कोटा)	१-७-४४	२५-१२-५६
७	श्री रामशरण शर्मा, एम०ए०, बी०कॉम०, एलएल० बी०, साहित्य रत्न, १-१२-१९२२, कोटा	५-३-४९	९-४-४९
८	श्री तुलसीराम शर्मा, बी० ए०, १५-७-१९१२, अलवर	५-५-४४	५-५-४४
९	श्री राजमल सिंघी, बी०ए०, एलएल० बी०, १२-९-१९१५, सिरोही	२१-४-४५	१४-४-५१
१०	श्री रतनबिहारी त्यागी, बी० ए०, एलएल० बी०, ६-६-१५, सहारनपुर, (यू० पी०)	२७-११-४८	९-४-४९
११	श्री त्रिभुवननाथ शर्मा
१२	श्री रामनाथ कोल, बी० ए०, २६-१-२५, श्रीनगर	१५-११-४८	१५-११-४८

वर्तमान पद और दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
पंजीयक सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर, २६-१२-५६	६० १००० २०० वि० वे०	
उप-पंजीयक (शासन), सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर, १४-५-५५		
उप-पंजीयक		मैनेजर, राजस्थान सरकार सहकारी बैंक के पद पर प्रतिनियुक्ति पर १७-७-५४ से ।
उप-पंजीयक (विस्तार), सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर, २५-९-५५		
लेखा अधिकारी, सहकारी विभाग, राजस्थान, जयपुर, १७-३-५६		
प्रचार अधिकारी, सहकारी विभाग, राजस्थान, जयपुर, २५-१२-५६		स्थायी रूप से असिस्टेंट, डाइरेक्टर, सार्वजनिक सम्पर्क विभाग ।
विस्तार अधिकारी, सहकारी विभाग, राजस्थान, जयपुर, ६-७-५६		
सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, भरतपुर, ५-७-५६		
सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, अलवर, १२-१-५७		
सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां		पीस्टिंग की प्रतीक्षा में
सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां		व्याख्याता, सहकारी खंड स्तर अधिकारी गण, प्रशिक्षण केन्द्र, कोटा, ६-२-५७ से ।
सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, उदयपुर, ७-१ ७		

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१३	श्री इन्द्र नारायण पांडे, बी० ए०, एलएल० बी०, १२-१-१९१४	११-१-४०	१-८-४२
१४	श्री गोपीचंद काला, बी० ए०, ६-३-२०, जयपुर	२-९-४१	१५-१२-४४
१५	श्री इपचंद लुहाडिया, बी० कॉम०, एलएल० बी०, ११-११-१९, जयपुर	१८-९-४८	१८-९-४८
१६	श्री मिश्रीलाल जैन, बी० एससी०, एलएल० बी०. बी० ए० (अर्थशास्त्र), ९-४-१९२२, जयपुर	६-१-५०	६-१-१९५०
१७	श्री महावीरप्रसाद राजवंशी, बी० ए०, २८-८-१९२२, बीकानेर	२८-१०-४६	१९-८-४७
१८	श्री भैरतरतन व्यास, बी० ए०, एलएल० बी०, ३-७-२३, बीकानेर	२२-९-४८	२२-९-४८
१९	श्री गोविन्दकान्त शर्मा, बी० ए०, २५-८-३३, जयपुर	१६-८-५५	२८-१-५६
२०	श्री कुन्दनलाल कपूर, बी० ए०, एलएल० बी०, १७-३-५६, लाहौर	२-४-५१	११-१-५७
२१	श्री हुकमाराम, बी० ए०, पाली	९-११-४५	८-५-५६
२२	श्री श्रीकृष्ण माथुर, एम० कॉम०, अगस्त, १९३१	३१-३-५६	२५-६-५६
२३	श्री राधाकृष्ण, बी० ए०, एलएल० बी०, जयपुर	..	१०-१०-५६
२४	श्री सम्पतराज जैन, बी० कॉम०, ३-४-१९१९, भीनाय, अजमेर	५-५-४५	५-५-४५

वर्तमान पद और दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जयपुर, १४-७-५५	₹०	
सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, गंगानगर, २३-७-१९५५		स्थानापन्न
सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जोधपुर, २८-७-५५		स्थानापन्न पूना कोओपरेटिव ट्रेनिंग कालेज में प्रशिक्षण पर।
शिक्षा अधिकारी, सहकारी विभाग, राजस्थान, जयपुर, २८-६-५६		स्थानापन्न
पंजीयक, सहकारी समितियों के निजी सहायक, २८-६-५६		पूना कोओपरेटिव ट्रेनिंग कालेज में प्रशिक्षण पर।
सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, कोटा, २९-२-५६		स्थानापन्न
सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, (उद्योग), २८-१-५६		अस्थायी
पंजीयक, सहकारी समितियां के निजी सहायक, १४-३-५७		अस्थायी
सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, प्रधान कार्यालय, जयपुर		अस्थायी
सहायक पंजीयक सहकारी समितियां, सवाई माधोपुर, २५-६-५६		अस्थायी
सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, १०-१०-५६		अस्थायी
सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, अजमेर, २४-९-१९५५		स्थानापन्न

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
२५	श्री सुखपालचंद भण्डारी, रा० अका० स०, ७-१०-१९२४, जोधपुर	८-१२-५६	१०-१२-५६
२६	श्री हरनारायण गुप्ता, बी० कॉम०, बहरोड़, अलवर	९-५-३४	११-३-५७

वर्तमान पद और दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
मुख्य अंकक्षण अधिकारी, सहकारी विभाग, राजस्थान, जयपुर, १०-१२-५६	६०	अस्थाई
सहायक पंजीयक, स० स०	..	पोस्टिंग की प्रतीक्षा में अस्थाई

खण्ड ११

उद्योग एवं रसद विभाग

सं. क्रम	पद	संख्या	वेतन श्रृंखला
१	२	३	४
१	संचालक, उद्योग एवं रसद विभाग	१	आई० ए० एस०
२	संयुक्त संचालक	२	८००-१२००
३	उप-संचालक	४	५००-३०-७४० ई० बी० ३०- ८००-५०-९००
४	टेक्निकल सहायक	१	५००-३०-७४० ई० बी० ३०- ८००-५०-९००
५	विकास अधिकारी, हस्तकला	१	३००-६००
६	लेखाधिकारी	१	२५०-७५०
७	सहायक संचालक, उद्योग एवं रसद विभाग	९	२५०-६००
८	अध्यक्ष, हस्तकला प्रशिक्षणालय	१	२५०-६००
९	अध्यक्ष, ऊन कुटीर उद्योग प्रशिक्षणालय	१	२५०-६००
१०	अध्यक्ष, टसर एवं सैरिकलचर शिक्षणालय	१	२५०-६००
११	टेक्निकल सहायक, उपसंचालक, भेड़ व ऊन	१	२५०-६००
१२	अधीक्षक, रोजनल अनुसंधान केन्द्र	१	२५०-६००
१३	भेड़ अनुसंधान अधिकारी	१	२५०-६००
१४	ऊन प्रयोगशाला अधिकारी	१	२५०-६००
१५	अधीक्षक, कुटीर उद्योग प्रशिक्षणालय	१	२५०-६००

क्र.सं.	पद	संख्या	वेतन श्रृंखला
१	२	३	४
१६	सहायक संचालक, भेड़ व ऊन	१	२००-४००
१७	अध्यक्ष, भेड़ व ऊन शिक्षण केन्द्र	१	२००-४००
१८	अधीक्षक, दरी व गलीचा प्रशिक्षणालय	१	२००-४००
१९	व्यवस्थापक, ऊन पिंजन एवं सिद्धि केन्द्र	१	२००-४००
२०	विकास अधिकारी, उत्पादक एवं प्रशिक्षण केन्द्र	१	२००-४००
२१	व्यवस्थापक, गाडिया लौहार वर्कशॉप	१	२००-४००
२२	जिला उद्योग अधिकारी	१९	२००-४००
२३	अधीक्षक ऊन श्रेणीकरण	५	१५०-३५०
२४	क्रय-विक्रय अधिकारी	४	१५०-३२५

उद्योग एवं रसद विभाग के

क्रम सं०	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३
१	श्री एम० यू० मेनन, आई० ए० एस०, १०-३-१९०९, कोट्टाकल मालाबार, मद्रास	१५-१२-२८
२	श्री अतुलचन्द्रदास गुप्ता, एम० ए०, १-९-१९१०, बंगाल	१-२-३९
३	श्री करतारनारायण माथुर, एम० एससी०, २-९-१९१६, जयपुर	१-८-४१
४	श्री एन० एल० नारायण, जी० बी० एससी० पी० जी०, १४-१-१५, बंगलौर, (ऊन में अधिसदस्यता, आस्ट्रेलिया)	१४-४-४७
५	श्री रामकिशोर केशोट, जी० बी० एससी०, २५-२-१९१२, जयपुर	१-९-३५
६	श्री इयराज पुरोहित, एम०एससी०(रसायन), १०-७-२३, जोधपुर, (अधिसंज्ञित, अमेरिका)	२८-५-५२
७	श्री भगवानलाल सुखवाल, बी०एससी० (इन्जीनीयरिंग), १-७-१९१५, उदयपुर	२६-१०-३८
८	श्री जी० एस० शुक्ला, बी० एससी०, शिल्पकला डिप्लोमा (अमेरिका), १८-७-२४, पूना	२८-६-५०
९	श्री डी० आर० जैन, सी०कॉम, एलएल०बी०, एसी०ए०, चाटर्ड अकाउन्टेन्ट, ७-१०-२७, वृंदा	१६-१-५७
१०	श्री वृरणासिंह, बी०एससी०, २७-७-२३, भरतपुर	१९-१२-४४
११	श्री कृत्रविहारी उंगायच, एम०ए०, बी०कॉम०, एलएल० बी०, १५-५-२४, जयपुर	९-५-४६
१२	श्री चमनलाल कपूर, बी० ए०, २९-८-१४, जयपुर	२०-६-४६
१३	श्री वद्रीप्रताप गुप्ता, एम०एससी०, २९-३-१५, जयपुर	१५-७-४६
१४	श्री केशवदेव शर्मा, चर्मकला डिप्लोमा (इंग्लेन्ड), २४-९-२७, मथुरा	१-१२-४८
१५	श्री पन्नालाल, बी० ए०, १७-५-१९०६, जोधपुर	२८-४-३०

अधिकारियों की सूची

वर्तमान पद व दिनांक	वेतन	विशेष
४	५	६
संचालक, उद्योग एवं रसद, राजस्थान, जयपुर, २६-४-५६	२,२५०	
संयुक्त संचालक, टेकेनिकल, ३-१२-५६	८००	
उप-संचालक, उद्योग व रसद, २४-१-५६	५३०	स्थानापन्न
उप-संचालक, हाथ करघा, जयपुर, २४-११-५६	६५०	
उप-संचालक, भेड़ व ऊन, बीकानेर, २४-११-५६	५३०	
उप-संचालक (रसायन), जयपुर, २१-१२-५५	५३०	
टेकेनिकल सहायक, आयुक्त उद्योग व रसद, २९-१२-५६	५००	
विकास अधिकारी, हस्तकला, २१-४-५६	३२५	
लेखा अधिकारी, १६-१-५७	२५०	
सहायक संचालक, उद्योग व रसद, जयपुर	३८०	
सहायक संचालक, उद्योग व रसद, भरतपुर	२७५	
सहायक संचालक, उद्योग व रसद, जोधपुर, १६-५-५५	२७०	
सहायक संचालक, उद्योग व रसद, बीकानेर, ६-१-५६	२७५	
सहायक संचालक (सामुदायिक योजना), जयपुर, २३-१०-५४	२३०	
सहायक संचालक (सामुदायिक योजना), उदयपुर, १-३-५६	२८०	

क्र.सं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३
१६	श्री भंवरलाल निगम, विशारद, १५-१-१५, बांसवाड़ा	६-२-४८
१७	श्री विजय कुमार व्यास, बी०ए०, एलएल० बी०, ४-३-२४, बीकानेर	२८-९-४८
१८	श्री दिनेशचन्द्र दवे, एम०कॉम०, एलएल०बी०, १०-९-३१, कोटा	४-८-५६
१९	श्री सत्यकीर्ति शर्मा, बी०एससी० (कृषि), १-५-२६, चौमू, जयपुर	२५-८-५२
२०	श्री देवीलाल थानवी, २१-४-२१, बीकानेर	८-१०-४७
२१	श्री ललित कृष्ण शर्मा, बी० एससी०, २६-८-२६, जयपुर	२६-२-५३
२२	सूश्री सुनन्दा नारायण, एम० एससी०, १-५-१९१९, बंगलौर	३-५-४७
२३	श्री निरंजन स्वरूप माथुर, एम०एससी० १५-३-२९, जयपुर	२७-१२-५४
२४	श्री के० एल० चड्ढा, जी० बी० एससी०, पोस्ट ग्रेज्यूएट डिप्लोमा भेड़ व ऊन, आ० ई० सी० ए० आर०, ७-९-१९	२-८-४४
२५	श्री सीताराम हृदिद्या, बी० कॉम०, आई० डी० डी० पी० जी०, आई० सी० ए० आर०, १०-२-२७, जयपुर	१-३-४८
२६	श्री गुरुदत्त, एल० बी० पी० (ऑनर्स), ऊन विशेषज्ञ (आस्ट्रेलिया), २९-११-१५, अमृतसर	५-८-५४
२७	श्री एन० हरीहरण, बी०एससी०, डिप्लोमा टेक्सटाईल, १३-३-२१, ट्रिवेन्ड्रम (कोरला)	२५-१०-५६
२८	श्री बालकृष्ण मोहता, रंगाई, छपाई एवं ऊन में डिप्लोमा, २१-१०-२१, बीकानेर	२२-५-४७
२९	श्री श्रीकृष्ण शर्मा, एम० ए०, २०-११-३१, न्यू देहली	५-१२-५३
३०	श्री रमेशचन्द्र चटर्जी, ५-११-१५, उदयपुर	२९-३-३८

वर्तमान पद चदिनांक	वेतन	विशेष
४	५	६
सहायक त्रंचालक (सामुदायिक योजना), रसद, जयपुर, १-६-५६	२५०	
सहायक त्रंचालक, मारकेटिंग एवं प्रदर्शिनी, जयपुर, १९-६-५६	२७५	
सहायक संचालक, अंक संकलन शाखा, जयपुर, ४-८-५६	२५०	
सहायक संचालक, भेड़ व ऊन, बीकानेर, १-९-५६	२००	
अध्यक्ष, ऊन हुटीर उद्योग प्रशिक्षणालय, बीकानेर, अक्टूबर, १९५६	२५०	
अध्यक्ष, टसर एवं सेरिकल्चर शिक्षणालय, कोटा, नवम्बर, १९५६	२५०	
टेकेनिकल सहायक, उप-संचालक, भेड़ व ऊन, २२-९-५६	..	
ऊन प्रयोगशाला अधिकारी, २९-९-५६	२५०	
अधीक्षक, रीजनल अनुसंधान केन्द्र, सरदार शहर, १३-१२-५६	२५०	
भेड़ व अनुसंधान अधिकारी, २२-१२-५६	२००	
अध्यक्ष, भेड़ व ऊन शिक्षण केन्द्र, जयपुर, २२-१२-५६	..	पंजाब राज्य से प्रतिनियुक्ति पर
अध्यक्ष, दरी व गलीचा प्रशिक्षण केन्द्र, जयपुर, २२-१२-५६	२००	
व्यवस्थापक, ऊन पिंजन एवं सिद्धि केन्द्र, बीकानेर, २७-२-५६	..	
विकास अधिकारी, उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, २०-८-५६	..	
व्यवस्थापक, गाडिया लौहार वर्कशॉप, चित्तौड़गढ़, २८-८-१९५६	३०० फिक्स्ड	

क्र. सं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३
३१	श्री अनन्तराम, बी० ए०, एलएल० बी०, ८-८-२३, बीकानेर	२८-५-४९
३२	श्री विजयमल एस० माथुर, ४-३-१९०८, जोधपुर	२३-७-२६
३३	श्री नारायण पाठक, एम० ए०, बी० एससी०, एलएल० बी०, ३-१०-१९१९, अजमेर	२९-१०-५६
३४	श्री रामदत्त शर्मा, एम० ए०, एलएल० बी०, ७-१-१९०८, जयपुर	१-१-३७
३५	श्री रामचन्द्र पुरोहित, एम० ए०, एलएल० बी०, २-१०-२६	५-९-५५
३६	श्री इयाम सुन्दर नाथ, २३-१२-२४, जोधपुर	दिसम्बर, १९४३
३७	श्री कुन्दनमल जैन, बी० एससी०, बी० टी०, एलएल० बी०, ५-७-१८, जयपुर	३-१-४९
३८	श्री पारसमल भंडारी, बी० ए०, एलएल० बी०, ७-८-२८, जोधपुर	१-८-४६
३९	श्री लक्ष्मीनारायण श्रीवास्तव, एम० कॉम०, एलएल० बी०, साहित्य-रत्न, विशारद, १०-२-२६, जयपुर	नवम्बर, १९४८
४०	श्री आनन्दकिशोर जौहरी, एम० ए०, २३-९-२८, जयपुर	५-१०-५१
४१	श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा, एम० एससी० (रसायन), १-७-३१, भरतपुर	१५-३-५६
४२	श्री आर० सी० श्रीवास्तव, बी० ए०, एलएल० बी०, २८-८-२४, धौलपुर	२-२-४९
४३	श्री जितेन्द्र कुमार जैन, एम० कॉम०, एलएल० बी०, २५-१२-३३, सवाई माधोपुर	२३-११-५६
४४	श्री ओटमल मरडिया, बी० कॉम०, १८-३-१४, सिरौही	१-८-३६
४५	श्री लक्ष्मीकान्त वर्मा, बी० ए०, विशारद, ५-२-१९१२, जयपुर	९-१०-३६
४६	श्री रिखवराज रेहता, एम० कॉम०, एलएल० बी०, ५-२-२५, जोधपुर	६-६-५६
४७	श्री के० एल० गुप्ता, ८-४-२०, सादुलपुर, बीकानेर	१५-६-४४

वर्तमान पद व दिनांक	वेतन	विशेष
४	५	६
जला उद्योग अधिकारी, गंगानगर, १८-४-५६	२००	
जला उद्योग अधिकारी, अलवर, १-५-५६	२००	
जला उद्योग अधिकारी, अजमेर, २९-१०-५६	२००	
जला उद्योग अधिकारी, सवाई माधोपुर, १-११-५६	२००	
जला उद्योग अधिकारी, बाड़मेर, १०-११-५६	२००	
जला उद्योग अधिकारी, जयपुर, १७-११-५६	२००	
जला उद्योग अधिकारी, टोंक, १७-११-५६	२००	
जला उद्योग अधिकारी, सीकर, १९-११-५६	२००	
जला उद्योग अधिकारी, चित्तौड़गढ़, १९-११-५६	२००	
जला उद्योग अधिकारी, भीलवाड़ा, २२-११-५६	२००	
जला उद्योग अधिकारी, बांसवाड़ा, २२-११-५६	२००	
जला उद्योग अधिकारी, सिरोही, २३-११-५६	२००	
जला उद्योग अधिकारी, कोटा, २३-११-५६	२००	
जिला उद्योग अधिकारी, पाली, २६-११-५६	२००	
जिला उद्योग अधिकारी, बूंदी, २८-११-५६	२००	
जिला उद्योग अधिकारी, डूंगरपुर, १-१२-५६	२००	
जिला उद्योग अधिकारी, झालावाड़, ८-१२-५६	२००	

क्र.सं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३
४८	श्री सहेशदत्त जोशी, बी० ए०, एलएल० बी०, १-७-१६, जोधपुर	१-६-४२
४९	श्री वनश्याम गोस्वामी, एम० ए०, वीकानेर	२२-७-४४
५०	श्री कृष्णस्वरूप, बी० एससी० (कृषि), ८-८-१२, जयपुर	२३-९-३९
५१	श्री महेंद्रसिंह, बी० एससी० (कृषि), ६-१-३१	१-१२-५१
५२	श्री ए० सी० दुबे, बी० एससी० (कृषि), १५-३-३०, जयपुर	२५-९-५१
५३	श्री कंवरबहादुर माथुर, बी० एससी०, २३-२-२३, जयपुर	३-१०-४७
५४	श्री दलैलसिंह राठोड़, बी० एससी० (कृषि), पी० जी० आई० सी० ए० आर०, २६-६-३०	१-३-५४
५५	श्री अमरसिंह सापट, २-११-१९०५, जंसलमेर	४-११-२७
५६	श्री ए फ० जे० पटेल, १३-२-१९०४, बम्बई	१५-३-३६
५७	श्री तुषोत्तमप्रसाद शर्मा, बी० ए०, एलएल० बी०, १-७-२६, गंगानगर	९-१०-४८
५८	श्री अकबरहुसेन, १४-१-१८, उदयपुर	१-५-४६

वर्तमान पद व दिनांक	वेतन	विशेष
४	५	६
जिला उद्योग अधिकारी, नागौर, १२-१२-५६	२००	
जिला उद्योग अधिकारी, चूरु, २८-१-५७	२००	
अधीक्षक, ऊन श्रेणीकरण, जैसलमेर, २९-२-५६		
अधीक्षक, ऊन श्रेणीकरण, बीकानेर, २९-२-५६		
अधीक्षक, ऊन श्रेणीकरण, जयपुर, १-७-५६	१५०	
अधीक्षक, ऊन श्रेणीकरण, उदयपुर, सितम्बर, १९५६	१५०	
अधीक्षक, ऊन श्रेणीकरण, जोधपुर	१५०	
क्रय विक्रय अधिकारी, जोधपुर, २३-२-५६	२२०	
क्रय विक्रय अधिकारी, जयपुर, ३-१२-५६		
क्रय विक्रय अधिकारी, नई दिल्ली, २२-११-५६	१५०	
क्रय विक्रय अधिकारी, केन्द्रीय, जयपुर, ३-१२-५६	२००	

खण्ड

देवस्थान

क्र. सं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१	श्री जीवराजसिंह, आर० ए० एस०, २७-११-१९०५, हरासर (चूरु)	१-७-१९२६	१२-४-५१
२	श्री हनुमानसहाय पुरोहित, आर० टी० एस०, "ए" श्रेणी, २-१२-०२, जयपुर	१-९-१९२५	१०-१०-५२
३	श्री वृजनाथ, आर० टी० एस०, "ए" श्रेणी, १०-१२-१९०५, उदयपुर	२-६-१९३२	१७-९-५६
४	श्री रेवतीरामण, आर० ए० एस०, ५-२-१९०७, जयपुर	६-९-१९२९	२४-१०-५६

१२

विभाग

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
कमिश्नर, देवस्थान विभाग, राजस्थान, उदयपुर, १२-४-१९५१	₹० ११००	
सहायक कमिश्नर, देवस्थान विभाग, उदयपुर, १०-१०-५२	४००	
सहायक कमिश्नर, जयपुर, २४-१०-५६	४२५	
सहायक कमिश्नर, उदयपुर, १७-९-५६	४५०	

खण्ड

आबकारी व

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१	श्री गुलजारीलाल माथुर, आर० ए० ए०, १-७-१९०६, उदयपुर	२९-८-२९	१-८-५५
२	श्री मुलकराज महाजन, एम० ए०, बी० ए० (ऑनर्स), सितम्बर १८९७, गुरदासपुर, (पूर्वी पंजाब)	६-१०-५२	१-४-५५
३	श्री प्रेमसिंह, आर० ए० ए०, १-१-१२, पाली	१४-९-३६	१४-९-३६
४	श्री सुरज प्रकाश सिंह, बी० ए०, एलएल० बी०, १९-२-१९२०, जोधपुर	१३-४-४२	१४-३-४४
५	श्री निहारीलाल बोरदिया, आर० ए० अका० ए०, २०-७-१९०७, उदयपुर	११-१०-४१	२५-६-५५
६	श्री अभयसिंह, आर० ए० ए०, १८-१०-१९०३, उदयपुर	२७-७-३०	२४-३-५४
७	श्री मोहम्मद इस्माइल, आर० ए० ए०, ४-१-१९०६, डूंगरपुर	२५-७-२८	१-४-३६
८	श्री सोभार्ग्यसिंह झाला, आर० ए० ए०, २०-६-१९०४, झालावाड़	१-६-३१	९-७-५४
९	श्री भंवरलाल कच्छहरा, आर० ए० ए०, २७-४-१९१९, उदयपुर	१-७-४१	१-४-५५
१०	श्री फूलचंद जैन, ५-५-१९०४, करौली	१७-१०-२४	१२-१२-४७
११	श्री टी० के० जोशी, आर० ए० ए०, ६-३-१९०९, इन्दौर	६-८-४२	६-८-४२

१३

कर विभाग

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
आयुक्त, आवकारी व कर विभाग, राजस्थान, उदयपुर, १-८-५५	₹ १०५०	
अतिरिक्त आयुक्त, सेल्स टैक्स व एग्रिकल्चर इन्कम टैक्स, राजस्थान, जयपुर, १-४-५५	₹ ३०० मय पेंशन	सविदा आधार पर
सहायक आयुक्त, आवकारी व कर विभाग, उदयपुर, १७-१०-५६	₹ ५००	
सहायक आयुक्त, आवकारी व कर विभाग, उदयपुर, १३-७-५३	₹ ४२० (₹ ३००-१५-४५०)	स्थानापन्न
लेखाधिकारी, आवकारी व कर विभाग, उदयपुर, २५-६-५५	₹ ३७५	
उप आयुक्त, आवकारी व कर विभाग, उदयपुर, २३-४-५५	₹ ८६० (₹ ५००-३०-८६०-४०-१००)	स्थानापन्न
सहायक आयुक्त, आवकारी व कर विभाग, उदयपुर, ७-६-५६	₹ ४५०	
सेल्स टैक्स ऑफिसर, उदयपुर, १२-६-५६	₹ ४२५	
एग्रिकल्चर इन्कम टैक्स व सेल्स टैक्स ऑफिसर, उदयपुर, ९-६-५६	₹ ३५०	
सहायक आयुक्त, आवकारी व कर विभाग, डूंगरपुर, २५-६-५६	₹ २५० (₹ १५०-१०-२०० ई० बी० ₹ १२-३००)	स्थानापन्न
सहायक आयुक्त, आवकारी व कर विभाग, भोलवाड़ा, १२-६-५६	₹ ४७५	

क्र. संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१२	श्री रणजीतसिंह कोठारी, आर० ए० एस०, १५-५-१९१६, बांसवाड़ा	१०-८-४६	१०-८-४६
१३	श्री कान्तिलाल ओझा, बी० ए०, एल एल० बी०, ६-१२-१९१४, बांसवाड़ा	१०-९-४१	१२-६-५६
१४	श्री भंवरलाल मेहता, आर० ए० एस०, ९-६-१९०८, बीकानेर	२६-३-३१	२६-३-३१
१५	श्री क्षेत्रकुमार सेन, आर० ए० एस०, १-५-१९०५, जयपुर	१-१०-३२	१-१०-३२
१६	श्री शंकरलाल माथुर, आर० ए० एस०, नवम्बर, १९०७, भरतपुर	१९-७-२९	४-६-५४
१७	श्री मातादीन शर्मा, आर० ए० एस०, ९-९-५५	९-९-५५	१५-११-५६
१८	श्री भवानीशंकर पालीवाल, बी० ए०, ३-३-१९१०, उदयपुर	१-८-३१	१६-१०-४२
१९	श्री नवरत्न वर्मा, आर० टी० एस० (ग्रुप 'ए'), ५-४-१५, जयपुर	१३-११-४४	२०-१०-५३
२०	श्री फरीसिंह, आर० ए० एस०, १-३-१६, जोधपुर	१-७-३८	१०-११-५४
२१	श्री शिवपालसिंह, आर० ए० एस०, १६-११-१९०९, जयपुर	१-१२-३२	१-१२-३२
२२	श्री प्यारेलाल तलवार, आर० ए० एस०, २३-५-१९०७, अलवर	१९२६	१-११-३१
२३	श्री एच० जी० मेहरा, २४-१०-२०	८-१०-४१	१६-८-५३
२४	श्री तेजसिंह कोठारी, आर० ए० एस०, ६-१-१९१०, उदयपुर	१२-९-३२	१६-८-५४
२५	श्री दानसिंह, आर० टी० एस० (ग्रुप 'ए'), १४-१२-२३, जैसलमेर	१-३-४९	१-११-५१

वर्तमान पद तथा विनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
सहायक आयुक्त, आवकारी व कर विभाग, चित्तौड़, ७-६-५४	४००	
सहायक आयुक्त, आवकारी व कर विभाग, बांसवाड़ा, १२-६-५६	४००	स्थानापन्न
उप-आयुक्त, आवकारी व कर विभाग, जयपुर, ११-९-५६	५५०	
सहायक आयुक्त, आवकारी व कर विभाग, जयपुर, १६-६-५६	४००	
एग्रीकल्चर इन्कॉम टैक्स व सेल्सटैक्स ऑफिसर, जयपुर, ४-६-५६	३५०	
सेल्स टैक्स ऑफिसर, जयपुर, १५-११-५६	२७५	
सहायक आयुक्त, आवकारी व कर विभाग, सीकर, १६-६-५६	२७५	स्थानापन्न
सहायक आयुक्त, आवकारी व कर विभाग, झुन्झुनू, २०-१०-५३	४५० (२६०-१५-३५०-२०- ४५०-२५-५५०)	स्थानापन्न
सहायक आयुक्त, आवकारी व कर विभाग, भरतपुर, १३-६-५६	२७५	
सहायक आयुक्त, आवकारी व कर विभाग, अलवर, १२-१०-५२	४००	
सहायक आयुक्त, आवकारी व कर विभाग, अजमेर, १-११-५६	४००	
सेल्सटैक्स ऑफिसर, अजमेर, १-११-५६	४९०	
उप-आयुक्त, आवकारी व कर विभाग, जोधपुर, १५-११-५६	८०० (५००-३०-८६०- ४०-९००)	
सहायक आयुक्त, आवकारी व कर विभाग जोधपुर, १४-६-५६	३५०	

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
२६	श्री गोत्रीनाथ एस० राय, बी०ए०, आर०ए०एस०, २४-१-११, जोधपुर	२७-१०-३२	३०-८-५६
२७	श्री बनेसिंह, तृतीय आर० ए० ए०, ६-३-१४, जोधपुर	१-६-३९	१-७-५०
२८	श्री वंशीलाल माथुर, आर० ए० एस०, १७-९-११, जोधपुर	१०-२-३६	१०-२-३६
२९	श्री मणोलाल पारिख, आर० ए० एस०, २०-७-१९०६, प्रतापगढ़	१९३४	१९३४
३०	श्री आनंदसिंह, आर० ए० एस०	२८-८-५५	१९-९-५६
३१	श्री रणजीतसिंह, आर० ए० एस०, १०-११-१९०२, जयपुर	<u>१-१२-२३</u> १-१२-४४	२६-११-४६
३२	श्री प्रकाशचन्द्र माथुर, बी० ए०, एलएल०बी०, ८-११-२०, जोधपुर	२८-५-४५	२८-५-४५
३३	श्री रामनिवास माथुर, बी० ए०, एलएल०बी०, आर० ए० एस०, १८-८-१८, सवाई माधोपुर	१७-३-४५	७-६-५७
३४	श्री पूर्णसिंह, ३-७-२१, धोलपुर	७-६-४६	७-६-४६
३५	श्री यमसुख महेश्वरी, आर० ए० एस०	२६-८-५५	३०-६-५६
३६	श्री भोपालसिंह वक्षी, आर० ए० एस०, १-२-१९१८, उदयपुर	१४-४-४२	२-६-५६
३७	श्री पी० डी० खन्ना	..	९-११-५६
३८	श्री रामचन्द्र शर्मा, आर० ए० एस०, २-१०-१९०४, बीकानेर	९-१०-४८	२२-१०-५३

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
	६०	
एग्जिक्यूटिव इन्कम टैक्स व सेन्स टैक्स ऑफिसर, जोधपुर, ३०-८-५६	४००	
सहायक आयुक्त, आवकारी व कर विभाग, पाली, २१-९-५६	४००	
सहायक आयुक्त आवकारी व कर विभाग, नागौर, ११-६-५६	५००	
सहायक आयुक्त, आवकारी व कर विभाग, सिरोही, १३-६-५६	४००	
सहायक आयुक्त, आवकारी व कर विभाग, वाडमेर, १९-९-९५६	२७५	
उप आयुक्त, आवकारी व कर विभाग, कोटा, ५-३-५५	७०० १०० वि० वे० (५००-२५-७५०)	स्थानापन्न
सहायक आयुक्त, आवकारी व कर विभाग, कोटा, ३-९-५५	४२५ (३००-१५-४५०)	स्थानापन्न
सेन्स टैक्स ऑफिसर, कोटा, ७-६-५६	४५०	
सहायक आयुक्त, आवकारी व कर विभाग, झालावाड़, ३०-५-५६	२५०	स्थानापन्न
सहायक आयुक्त, आवकारी व कर विभाग, सवाई माधोपुर, ३०-६-५६	२७५	
सहायक आयुक्त, आवकारी व कर विभाग, टोंक, १७-११-५६	४००	
उप-आयुक्त, आवकारी व कर विभाग, बीकानेर, ९-११-५६	६१०	
सहायक आयुक्त आवकारी व कर विभाग, बीकानेर, १३-६-५६	४००	

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्टि हाने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	५
३९	श्री जयनारायण गोड़, आर० ए० एस०	२६-८-५५	१०-१०-५६
४०	श्री ब्रह्मसालसिंह, आर० ए० एस०, १९-७-१४, जोधपुर	११-१२-३६	१३-२-४५
४१	श्री दौलतसिंह, आर० टी० एस०, (ग्रुप 'ए'), १२-११-१३, अऊवर	१-१०-३५	१-१०-३५
४२	श्री सरदारसिंह, २-५-१९१७, बाड़मेर	२६-९-५१	२६-९-५१
४३	श्री नरोत्तमदास मंत्री, २३-९-२५	२१-१०-४४	१-८-५५
४४	श्री अर्जुन कोटवानी, २-१-२३	२-८-५५	२-८-५५
४५	श्री नारायणराव दवे, ७-३-१९१८, सिरोही	१८-२-३७	..
४६	श्री गौतमपाल, १०-७-२२, बीकानेर	१-४-४२	..
४७	श्री शोभालाल दाबी	१७-११-५६	१७-११-५६
४८	श्री कालूलाल	६-१०-५६	६-१०-५६
४९	श्री जगजोवनलाल	६-११-५६	६-११-५६
५०	श्री उदयकिशन बोरा	१३-११-५६	१३-११-५६

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
सेल्स टैक्स ऑफिसर, बीकानेर, १०-१०-५६	२७५	
सहायक आयुक्त, आवकारी व कर विभाग, गंगानगर, २९-९-५६	४७५	
सहायक आयुक्त, आवकारी व कर विभाग, चुरू, २१-९-५५	३५० (१७०-१०-२५० ई० बी० २५-४००)	स्थानापन्न
उप-आयुक्त, आवकारी व कर विभाग, एन्टो-स्मगलिंग फोर्स, जोधपुर, २६-९-५१	६०० (४५०-२५-५०० ई० बी० २५-६५०) ५० वि० वे०	
सहायक सेल्स टैक्स ऑफिसर, व्यावर, १-११-५६	२५०	अस्थायी
सहायक सेल्स टैक्स ऑफिसर, जोधपुर, १-११-५६	२५०	अस्थायी
सहायक सेल्स टैक्स ऑफिसर, अलवर, १-११-५६	२२०	अस्थायी
सहायक सेल्स टैक्स ऑफिसर, गंगानगर, २७-१०-५६	२००	अस्थायी
सहायक सेल्स टैक्स ऑफिसर, भरतपुर, १७-११-५६	२००	अस्थायी
सहायक सेल्स टैक्स ऑफिसर, पाली, ६-१०-५६	२००	अस्थायी
सहायक सेल्स टैक्स ऑफिसर, भीलवाड़ा, ६-११-५६	२००	अस्थायी
सहायक सेल्स टैक्स ऑफिसर, सिरौही व जालोर, १३-११-५६	२००	अस्थायी

खण्ड

वन

क्र. संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
मुख्य वन संरक्षक राजस्थान			
१	श्री नरेन्द्र नाथ सेन, आई० एफ० एस० (रिटायर्ड)	२२-४-५५	२२-४-५५
वन संरक्षक			
२	श्री नन्दन भार्गव, बी० एससी०, ए०आई० एफ० सी०, ७-१२-१९१४, कोटा	१४-५-४०	१४-५-४०
३	श्री रामप्रताप शर्मा, एम० एससी०, एलएल०बी०, १-७-१९१०, अलवर	१६-१२-३३	१५-११-३९
४	श्री गोपी किशन बीरडा, एम० एससी०, एलएल० बी०, ए०आई०एफ०सी०, २०-१-१६, जोधपुर	१-५-४०	२८-३-४८
विषय वन अधिकारी			
१	श्री मोहनलाल माथुर, कोयम्बटूर, रैनजर, १०-८-१९१०, उदयपुर	१५-९-३५	१५-९-३५
२	श्री गोपालसिंह चौधरी, देहरादून, रैनजर, २१-१-१९०८, भरतपुर	२१-२-४०	२१-२-४०
३	श्री ज्वाला स्वरूप माथुर, बी०ए०, देहरादून, रैनजर, १-१०-०४, अलवर	१५-३-४४	१५-३-४४
४	श्री महेंद्र प्रकाश माथुर, एम० एससी०, बी०एससी० (एडिनबर्ग), ११-३-२३, जयपुर	२०-८-४७	२०-८-४७
५	श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, बी०एससी०, ए०आई०एफ०सी०, ५-९-२६, बूंदी	११-११-४९	११-११-४९

१४

विभाग

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
	६०	
(१,०००-५०-१,५००)		
मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर २२-४-५५	२२५०	संविदा विश्राम वृत्ति आधार पर
(५००-३०-७४० नि० व० ३०-८००-५०-६००)		
वन संरक्षक, पूर्ववृत्त, कोटा, २-१-५४	७७०	
वन संरक्षक पश्चिमी वृत्त, उदयपुर जून, सन् १९५२	..	स्थानापन्न
वन संरक्षक, प्लानिंग, जयपुर, २४-१२-५५	..	स्थानापन्न
(२५०-२५-५०० नि० व० २५-७००)		
विषय-वन अधिकारी, भरतपुर, २०-७-५६	४७५	
विषय वन अधि कारी, चित्तौड़, २४-१२-५५	४२५	
विषय वन अधिकारी, कोटा, १९-९-५५	..	
विषय वन अधिकारी	५००	भारत सरकार की सेवा में प्रतिनियुक्ति पर ५-५-५३ से
विषय, वन अधिकारी, जौधपुर, १०-७-५६		

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
६	श्री बाल कृष्ण पुरी, बी० एससी०, ए०आई० एफ० सी०, १४-१०-२७, चित्तौड़गढ़	११-४-५०	११-४-५०
७	श्री अतर सिंह, एम० ए०, बी० एससी० (कृषि), २० आई० एफ० सी०, ५-२-१९२६, मेरठ	२२-११-५०	२२-११-५०
८	श्री चन्द्र मोहन माथुर, एम० एससी०, ए० आई० एफ० सी०, १०-७-२७, कोटा	९-४-५१	९-४-५१
९	श्री उमाशंकर पाठक, १०-१२-०६, डूंगरपुर	१-७-२३	१८-११-२७
१०	श्री भारत सिंह, बी० एससी० (कृषि), ए० आई० एफ० सी० (आनर्स), ३-१०-१९३०, भरतपुर	२-४-५३	२-४-५३
११	श्री कलाश सिंह सांखला, एम० एससी०, ए० आई० एफ० सी०, ३०-१-२५, जोधपुर	१-४-५३	१-४-५३
१२	श्री ओम प्रकाश माथुर, बी० एससी० (कृषि), ए० आई० एफ० सी०, ८-५-१९२९, जयपुर	७-४-५४	७-४-५४
१३	श्री मदन सिंह यादव, बी० एससी०, देहरादून, रेन्जर, २०-९-१५, झुन्झुनू	३-९-३८	२९-१-४४
१४	श्री गोपीनाथ पिलई, त्रावनकोर, रेन्जर, ३-१२-१९, उदयपुर	१०-१२-४२	१०-१२-४२
१५	श्री अमृतलाल सांखला, देहरादून, रेन्जर, ६-११-२४, उदयपुर	३-४-४५	३-४-४५
१६	श्री डी० पी० नागदेव		

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
विषय वन अधिकारी, जयपुर, २४-१२-५५	४००	
विषय वन अधिकारी, झालावाड़, १३-१०-५३	४००	
विषय वन अधिकारी	३७५	
विषय वन अधिकारी, बांसवाड़ा, १७-१२-५४	४७५	स्थानापन्न
विषय वन अधिकारी, बारां, २९-४-५४	३५०	स्थानापन्न
विषय वन अधिकारी	३५०	
विषय वन अधिकारी, बूंदी, १४-४-५५	३२५	स्थानापन्न
विषय वन अधिकारी, टोंक, २१-१२-५५	३२५	स्थानापन्न
विषय वन अधिकारी, उदयपुर, १७-१२-५५	३२५	स्थानापन्न
विषय वन अधिकारी, सिरौही, २३-१२-५५	३००	स्थानापन्न
विषय वन अधिकारी, अजमेर १-११-५६	५९०	अस्थाई

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४

वर्किंग प्लान अधिकारी

१	श्री देवदत्त आर्य, एम० एससी०, ए० आई० एफ० सी०, ३०-१०-१९२९, कोटा	२-४-५५	२-४-५५
२	श्री कौशल कुमार कोटिया, बी० एससी०, ए०आई०ए०सी०, ११-७-१९२३, जयपुर	२-४-५५	२-४-५५

सहायक वन संरक्षक

१	श्री पुरुषोत्तम स्वरूप श्रीवास्तव, बी० एससी०, ए०आई०एफ०सी०, १९-७-१९३०, कोटा	२-४-५६	२-४-५६
२	श्री श्रीम प्रकाश पारीक, बी० एससी०, ए०आई०एफ०सी०, १६-७-३४, जयपुर	२-४-५६	२-४-५६
३	श्री हरिदचन्द्र गुप्ता, बी० एससी०, ए०आई०एफ०सी०, १०-६-३३	२-४-५६	२-४-५६
४	श्री नरेन्द्र कुमार खुल्लड़, बी० एससी०, ए० आई० एफ० सी०	१-४-५७	१-४-५७
५	श्री कृष्ण बिहारी लाल माथुर, बी० एससी०, ए० आई० एफ० सी०	१-४-५७	१-४-५७
६	श्री शिवदयाल माथुर, बी० एससी० फोरेस्ट्री, आस्ट्रेलिया, ३१-१२-२६, जोधपुर	१३-१२-५५	१३-१२-५५

उप-विषय वन

१	श्री हरदयाल सिंह सिवन्द, बी० एससी०, देहरादून, रेन्जर, १७-८-२५ गंगानगर	१५-४-४७	१५-४-४७
२	श्री जगदीश नारायण माथुर, बी० ए०, देहरादून, रेन्जर, ९-११-०९, जयपुर	१८-१२-३५	१८-१२-३५
३	श्री अकबर अली, देहरादून, रेन्जर, १०-२-१९१८, उदयपुर	३-४-४५	३-४-४५

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
(२५०-२५-५०० नि० बं० २५-७००)		
वकिंग प्लान अधिकारी, जोधपुर, १-४-५६	२७५	अस्थायी
वकिंग प्लान अधिकारी, वित्तौड़, १-४-५६	२७५	अस्थायी
(२५०-२५-५०० नि० बं० २५-७००)		
सहायक वन संरक्षक, जोधपुर, २-४-५६	२५०	अस्थायी
सहायक वन संरक्षक, जयपुर, २-४-५६	२५०	अस्थायी
सहायक वन संरक्षक., बारां, २-४-५६	२५०	अस्थायी
सहायक वन संरक्षक, भरतपुर, १-४-५७	२५०	अस्थायी
सहायक वन संरक्षक, उदयपुर, १-४-५७	२५०	अस्थायी
अटेचड ऑफिसर, कार्यालय वन संरक्षक, पूर्वीवत, कोटा, १३-१२-५५	२७५	अस्थायी
अधिकारी		
उप-वनविषय अधिकारी, अलवर, २३-२-५६	२२० ५० वि० वे०	
उप-वन विषय अधिकारी, सवाई माधोपुर, १-११-५६	..	स्थानापन्न
उप-वन विषय अधिकारी, डूंगरपुर २३-२-५६	२५० ५० वि० वे०	स्थानापन्न

क्र.सं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियमित का दिनांक
१	२	३	४
४	श्री मोहन सिंह सक्तावत, बेहरादून, रेन्जर, २८-५-१९२२, उदयपुर	२-४-४९	२-४-४९
वन बन्दीवस्त			
१	श्री नर्गसिंह, आर० ए० एस०	..	२०-८-५६
२	श्री शुभकरण, आर० ए० एस०	..	१३-८-५६
सहायक वन			
१	श्री नाथू सिंह चौहान, २९-६-१९१२, उदयपुर	१९-८-३४	१-४-४२
२	श्री माधोसिंह राठीड, ७-२-१९१०, भोलवाडा	१-११-३४	१-४-४२
३	श्री मदन लाल शर्मा, बी० ए०, एलएल०बी०	..	२०-४-५६
४	श्री नरसिंहदास हलदिया, जयपुर	२०-१२-४६	१७-१-५६
५	श्री माणक लाल	..	७-१-५७
६	श्री ईश्वर सिंह	..	२५-२-५६
७	श्री सोमदत्त	..	२२-१२-५६
८	श्री अब्दुल रहमान खां	..	२९-१०-५६

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
उपवन विषय अधिकारी, खेरवाड़ा, १-३-५६	६० २१० ५० वि० वे०	स्थानापन्न
अधिकारी		
वन बन्दोबस्त अधिकारी, जयपुर, २०-८-५६	..	
वन बन्दोबस्त अधिकारी, कोटा, १३-८-५६	..	
बन्दोबस्त अधिकारी		
सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी, उदयपुर, ८-३-५६	२५०	
सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी, कोटा, २०-२-५६	२५०	
सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी, सवाई माधोपुर, ३०-४-५६	..	
सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी, जयपुर १७-१-५६	..	
सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी, बारां, ७-१-५७	..	
सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी, झालावाड़, २५-२-५६	..	
सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी, जोधपुर, २२-१२-५६	..	
सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी, धयाना, २९-१०-५६	..	

खण्ड

कारागृह

क्र. सं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१	श्री रामसिंह, ७-३-१९०४, जयपुर	१४-४-३८	१-२-४६
२	श्री रघुनाथ प्रसाद सवसेना, २१-१-१२, बूंदी	१-३-३१	४-९-४१
३	श्री जेकब के० मेथ्यू, ३०-३-१५, दावनकोर	१५-११-४७	१५-११-४७
४	श्री केवलसिंह पंवार, बी० ए०, एलएल० बी०, ३-४-१२, जोधपुर	१६-७-३४	१८-१२-४६
५	श्री गोपाल सिंह, ३-५-१९०७, जोधपुर	२-४-२८	१२-११-४९
६	श्री अमरसिंह राणावत, १-८-१९१८, भीलवाड़ा	१५-८-४४	१५-८-४४
७	श्री पूरनमल, १०-५-१९०५, अलवर	१०-५-२३	७-३-४८
८	श्री हरचरणसिंह, २-६-१९०५, गुड़गांव	२७-८-२७	१-४-४३
९	श्री गंगाप्रसाद शर्मा, २३-६-१२, जोधपुर	१-११-३०	१-९-३९
१०	श्री तपेश्वरनाथ टिक्कू, सितम्बर, १९०७,	••	१३-२-५७
११	श्री हरलाल सिंह, १-१-१९०८	५-७-३१	५-७-३१
१२	श्री वीरसिंह, बी० ए०, १९-१२-२१, सीकर	२६-१-५२	२६-१-५२
१३	श्री प्रेमराज, १-६-१९१६	१०-२-३६	१-२-४९

विभाग

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	टिप्पणी
५	६	७
महानिरीक्षक, कारागृह राजस्थान, जयपुर, १-८-५२	४० ११०० (९००-५०-१३००)	
सहायक महानिरीक्षक, कारागृह, राजस्थान, जयपुर, ३१-३-५१	५०० (५००-३०-७४० नि० बं० ३०-८००)	
संचालक, कारागृह उद्योग, जयपुर, १-४-५०	२०० (१५०-१०-२२० नि० बं० १०-२५०-१२½-३२५)	
अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जयपुर, ३०-७-५३	५९० (५००-३०-७४० नि० बं० ३०-८००)	
अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर, १९-२-५७	५०० (५००-३०-७४० नि० बं० ३०-८००)	स्थानापन्न
अधीक्षक, डिस्ट्रिक्ट कारागृह, "अ" श्रेणी, उदयपुर, १-४-५०	४७५ (२५०-२५-४०० नि० बं० २५-६००)	
अधीक्षक, डिस्ट्रिक्ट कारागृह, "अ" श्रेणी, बोकानेर, ११-८-५४	३५० (२५०-२५-४०० नि० बं० २५-६००)	
उप-अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जयपुर, ४-४-५१	२०० (१५०-१०-२२० नि० बं० १०-२५०- १२½-३२५)	
अधीक्षक, आदर्श कारागृह, अजमेर, १-४-५७	२५० (२५०-२५-४०० नि० बं० २५-६००)	स्थानापन्न
अधीक्षक, डिस्ट्रिक्ट कारागृह, "अ" श्रेणी, अलवर, १३-२-५७	२५० (२५०-२५-४०० नि० बं० २५-६००)	अस्थायी
उप-अधीक्षक, डिस्ट्रिक्ट कारागृह, भरतपुर, १-११-५६	२४० (२००-१०-२५०-१५-४००)	
उप-अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर, २८-११-५४	१७० (१५०-१०-२२० नि० बं० १०-२५०-१२½-३२५)	
उप-अधीक्षक, डिस्ट्रिक्ट कारागृह, गंगानगर	२०० (१५०-१०-२२० नि० बं० १०-२५०-१२½-३२५)	

खण्ड

श्रम

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	ज्ञासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१	श्री चन्द्रधर ईसर, आर० ए० एस०	२२-४-४४	२५-७-५५
२	श्री नरेन्द्रकुमार जोशी, बी० ए०, एलएल० बी०, १०-७-२०, कोटा	१६-५-४६	१६-५-४६
३	श्री टीकमचन्द जैन, एम० ए०, एलएल० बी०, डी० एस० डब्ल्यू, १-४-२३, कोटा	२९-११-४८	२९-११-४८
४	श्री हंसराज पाबुवाल, बी० एस सी०, (इन्जि०), ए०एम०आई०ई०, २०-११-२१, जयपुर	१-८-४५	१-८-४५
५	श्री मुकन्दलाल अग्रवाल, १२-८-१४, उदयपुर	१-१२-४६	२८-३-४९
६	श्री हरिदत्तमंगल, बी० ए०, ए० एल० बी०, डी० एस० डब्ल्यू०, १८-९-१९, जोधपुर,	१४-३-४१	१४-४-५१
७	श्री प्रभाकरदेव डंडिया, बी० ई०, ३१-७-३०, जयपुर	१८-७-५४	१८-७-५४
८	श्री सन्निदानन्द शर्मा, बी० एससी०, (इन्जि०), ३-९-१६, कोटा	१४-३-५३	१४-३-५३
९	श्री उमरावमल पाटनी, बी० काम०, एलएल० बी०, डिप्लोमा, एल० ओ० (वनारस), १३-४-२०, जयपुर	४-९-४२	१३-४-५०

१६

विभाग

वर्तमान पद व विनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
श्रम आयुक्त, राजस्थान, जयपुर, २५-७-५५	₹० १०५०० (१०००-५०-१५००)	
सहायक श्रम आयुक्त, विधि एवं प्रशासन, जयपुर, १८-१२-१९५५	₹२५ (३००-२५-५५० ई० बी० ३०-७००)	
सहायक श्रम आयुक्त, श्रम कल्याण	₹०० (३००-२५-५५० ई० बी० ३०-७००)	
प्रमुख निरीक्षक, कारखाना एवं वाष्प यंत्र निरीक्षक	₹२५ (३००-२५-५५० ई० बी० ३०-७००)	
निरीक्षक, कारखाना एवं वाष्प यंत्र, जयपुर	₹०० (२५०-२५-५०० ई० बी० २५-७००)	
	₹०० (२५०-२५-५०० ई० बी० २५-७००)	राजस्थान सचिवालय में सहायक सचिव, नियुक्ति विभाग (ई) के पद पर प्रतिनियुक्ति पर ।
निरीक्षक, कारखाना एवं वाष्प यंत्र, जोधपुर	₹७५ (२५०-२५-५०० ई० बी० २५-७००)	
निरीक्षक, कारखाना एवं वाष्प यंत्र, भीलवाड़ा	₹०० (२५०-२५-५०० ई० बी० २५-७००)	अस्थाई
श्रम अधिकारी		भारत सरकार की सेवा में प्रतिनियुक्ति पर, १८-१२-५५ से ।

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१०	श्री लीलाधर चतुर्वेदी, एम० ए०, एलएल० बी०, ६-७-२४, इटावा (यू० पी०)	२०-१०-४८	२०-१०-४८
११	श्री नैमीचन्द्र जैन, एम० ए०, एलएल० बी०, डी० एस० डब्ल्यू०, २७-१०-२२, कोटा	२५-११-४८	२५-११-४८
१२	श्री जयलाल माथुर, एम० ए०, एलएल० बी०, डिप्लोमा, एस० एस० ए० (दिस०), १८-१०-१८, जोधपुर	१८-८-४१	२३-११-५३
१३	श्री उमरावसिंह भटनागर, बी० ए०, डिप्लोमा, एस० डब्ल्यू०	५-१२-५१	८-१-५५
१४	श्री पृथ्वीनाथ भागवत, एम० ए०, एलएल० बी०, डिप्लोमा, एस० डब्ल्यू०, ३१-७-२५, कोटा	११-१२-५४	११-१२-५४
१५	सुश्री उपरानी माथुर, बी० ए०, डी० एस० डब्ल्यू०, १३-१२-११, जयपुर	८-१२-५१	८-१२-५१
१६	हुमारी सावित्री गुप्ता, एम० ए०, रायां डि० मथुरा, १६-६-३२	११-११-५३	११-११-५३
१७	श्री चमनसिंह अरोरा, एम० ए०, डी० एस० डब्ल्यू०, १८-७-१४, कलकत्ता	१-१२-४४	..
१८	श्री ईश्वरदयाल गर्ग, १०-९-३२, बी० ई०, पिलानी	१-१०-५६	१-१०-५६
१९	श्री रामनारायण शर्मा, बी० ई०

वर्तमान पद व दिनांक	वेतन	विशेष
५	२	७
श्रम अधिकारी	२५० (२००-१५-२७५-२०- ३७५ ई० बी० २५-५५०)	भारत सरकार की सेवा में
श्रम अधिकारी, कोटा	(२००-१५-२७५-२०-३७५ ई० बी० २५-५५०)	
श्रम अधिकारी, जोधपुर	२१५ (२००-१५-२७५-२०-३७५ ई० बी० २५-५५०)	
श्रम अधिकारी, भीलवाड़ा	(२००-१५-२७५-२०- ३७५ ई० बी० २५-५५०)	अस्थायी
श्रम अधिकारी, जयपुर, ८-८-५६	२०० (२००-१५-२७५-२०- ३७५ ई० बी० २५-५५०)	अस्थायी
महिला श्रम कल्याण, अधिकारिणी	२८० (२००-१०-२८० ई० बी० १५-४०० २००-२०-४००)	(व्यक्तिगत ग्रेड)
श्रम सांख्यिकीय अधिकारिणी	२३० (२००-१०-२५० ई० बी० १५-४००)	अस्थायी
श्रम अधिकारी, अजमेर	२८० (२००-१५-२७५-२०- ३७५-२५-५५०)	अस्थायी
निरीक्षक, कारखाना एवं वाष्प यंत्र, कोटा	२५० (२५०-२५-५०० ई० बी० २५-७००)	अस्थायी
निरीक्षक, कारखाना एवं वाष्प यंत्र, द्यावर	(२५०-२५-५०० ई० बी० २५-७००)	अस्थायी

खण्ड

स्थानीय निकाय

क्र० संख्या १	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान २	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक ३	विभाग में नियुक्ति का दिनांक ४
१	श्री सुरेन्द्रनाथ मिश्रा, आर० ए० एस०, ८-६-१९१४, जयपुर	१९-८-१९४०	१७-८-५६
२	श्री भगवान सहाय जोशी, आर० ए० एस०, २-२-१९१७, जयपुर	१-३-१९४४	२९-४-५०
३	श्री चान्दमल बाछावत, बी० ए०, एलएल० बी०, १-१०-१९०६, चित्तौड़गढ़	१-१०-१९३२	१८-१२-५२
४	श्री रजुबीर सिंह, बी० ए०, एलएल० बी०, ४-५-१९१०, कोटा	२६-१-१९४८	८-३-५१
५	श्री गोवर्धन लाल शर्मा, १८-१०-१९०४, झालावाड़	१४-७-१९२५	२१-३-५०

१७

विभाग

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	निशेष
५	६	७
निर्देशक, स्थानीय निकाय, राजस्थान, जयपुर, १७-८-५६	६० ७५० १५० वि० वे० (२५०-२५-५०० ई० बी० २५-७५०)	
सहायक निर्देशक, स्थानीय निकाय, राजस्थान, जयपुर, २९-४-५०	४७५ १०० वि० वे० (२५०-२५-५०० ई० बी० २५-७५०)	
प्रादेशिक निरीक्षक, जयपुर, १८-१२-५२	२७५ (२००-१५-२७५-२०-३७५ ई० बी० २५-६००)	
प्रादेशिक निरीक्षक, उदयपुर, ८-३-५१	२७५ (२००-१५-२७५-२०-३७५ ई० बी० २५-६००)	
प्रादेशिक निरीक्षक, बीकानेर, २१-३-५०	३८५ (२००-१५-२७५-२०-३७५ ई० बी० २५-६००)	

खण्ड १८

खनिज एवं भू-गर्भ विभाग

वेतन श्रृङ्खला

संचालक	..	१०००-५०-१५००
उप-संचालक (प्रशासन)	..	आर० ए० एस०
माइन मैनेजर	..	५००-३०-७४० नि० बं० ३०-८००-५०-१०
माइनिंग इंजीनियर	..	५००-३०-७४० नि० बं० ३०-८००-५०
सहायक माइन मैनेजर सहायक माइनिंग इंजीनियर	}	२५०-२५-५०० नि० बं० २५-७००
जियोलॉजिस्ट वरिष्ठ	..	५००-३०-७४० नि० बं० ३०-८००-५०
जियोलॉजिस्ट कनिष्ठ केमिस्ट कम सेरानी टेकनोलॉजिस्ट	}	२५०-२५-५०० नि० बं० २५-७००

खनिज एवं

क्र० संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१	श्री मन्शीलाल सेठी, बी० एससी० (माइनिंग), एम० ई० एम० (कोलेरेडा), यू० एस० ए०, ए० एम० जी०, आई० एम० ए०, एम० आई० ई०, ८-८-१९१९, जयपुर	४-१-१९४३	४-१-१९४३
२	श्री मुरलीधर वाजरेयी, आर० ए० एस०, एम० ए०, एल० टी०, १-११-१९०३, झालावाड़	९-२-१९३९	२०-६-१९५५
३	श्री ओंकारलाल जोशी, ए० आई० एस० एम० (माइनिंग), ए० आई० एस० एम० (जियोलॉजी), एम० एम० जी० आई०, १२-११-१९०६, उदयपुर	२०-१०-१९३२	२०-१०-१९३२
४	श्री गोपालमल मेहता, बी०एससी० (माइनिंग), एम०एम०जी०आई०, २-१-१९१२, जोधपुर	१-४-१९३६	१-४-१९३६
५	श्री टी०जी०जॉर्ज, बी०एससी०, ५-१०-१९०३	१३-९-१९४६	१३-९-१९४६
६	श्री भगवानशरण सहाय, बी०एससी०, ए०आई०एस०एम०(माइनिंग), २३-५-१९१६, जयपुर	७-२-१९४८	७-२-१९४८
७	श्री गंगास्वरूप माथुर, एम०एस०, जी० आई०, एफ० जी० एम० एस०, १२-२-१९०६, अलवर	२-४-१९३५	२-४-१९३५
८	श्री योगेश्वरनाथ दवे एम०एससी० (जियोलॉजी), एम०एम०जी०आई०, एफ० जी० एम० एस०, १-९-२५, बनारस	९-४-१९४९	९-४-१९४९
९	श्री अशोकचन्द्र मिश्र, एम०एससी० (जियोलॉजी), एफ०जी०एम०एस०, एम० एम० जी० आई०, २९-१२-१९२०, कलकत्ता	२-५-१९४९	२-५-१९४९

भू-गर्भ विभाग

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
सचालक, खनिज एवं भूगर्भ विभाग, उदयपुर, १८-६-१९४९	८२३-७-० २०० वि०वे०	स्थानापन्न
उप-संचालक (प्रशासन), खनिज एवं भूगर्भ विभाग, उदयपुर, २०-६-५५	५७५ १०० वि० वे०	
माइनिंग इंजिनियर, उदयपुर, २६-५-५६	५५०	
माइनिंग इंजिनियर, जोधपुर, १०-६-५६	५५०	
माइनिंग इंजिनियर, उदयपुर, २-६-५६	८००	
माइनिंग इंजिनियर भीलवाड़ा, १८-६-५६	५५०	
माइनिंग इंजिनियर, फोटा, २७-५-५६	४५०	
जियोलॉजिस्ट, उदयपुर, ९-११-५६ (सेंट्रल ऑफिस)	४००	अस्थायी
जियोलॉजिस्ट (वरिष्ठ), सेंट्रल ऑफिस, उदयपुर, १-१०-५६	४००	एक वर्ष के प्रोवेंशन पर

अधिकारि-सूची

क्र० संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१०	श्री के० राजराजन, २-३-१९२५, मद्रास	२-५-१९४९	२-५-१९४९
११	श्री अनाथबन्धु मुकर्जी, एम० एम० जी० आई०, ४-११-१९०४, बर्दवान (पश्चिमो बंगाल)	२८-१-१९२८	२८-१-१९२८
१२	श्री राधेश्याम शर्मा, बी० ए०, एलएल० बी०, १-६-१९२१, जयपुर	२५-४-१९४७	४-३-१९५५
१३	श्री चांदमल जैन, बी० एससी० (माइनिंग), १६-११-१९२६, जयपुर	२२-९-१९५०	२२-९-१९५०
१४	श्री सुन्दरसिंह, बी० एससी० (माइनिंग), २३-९-१९२३, गंगानगर	४-३-१९५३	४-३-१९५३
१५	श्री कृष्णवीरसिंह, बी० एससी० (माइनिंग), २४-१०-१९३२	२६-५-१९५५	२६-५-१९५५
१६	श्री आर० जी० गुप्ता, बी० एससी० (माइनिंग)	१४-१२-१९५६	१४-१२-१९५६
१७	श्री पुरुषोत्तमदास स्वामी, एम० एससी० (केमिस्ट्री), एम० एल० (सिरेमिक इंजिनियर), ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी, विशारद, एफ० जी० एम० एस० डी०, २५-५-१९२५, दीकानेर	२९-८-१९५३	२९-८-१९५३

वर्तमान पद और दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
टि. योलॉजिस्ट (कनिष्ठ)	६०	जी० एस० आई० कलकत्ता की सेवा में प्रतिनियुक्ति पर, ४-११-५१ से
नाइन्स मैनेजर, पलाना, २१-१०-४४	९६०	
लेखाधिकारी, उदयपुर, ४-३-१९५५	२७५	
सहायक माइनिंग इंजिनियर, अजमेर, १-११-५६	३२५	
सहायक माइनिंग इंजिनियर, बीकानेर, ११-६-५५	३००	
सहायक माइनिंग इंजिनियर, अलवर, ११-१२-५६	२५०	
सहायक माइनिंग इंजिनियर, टोंक, ४-१२-५६	२५०	
फोमिस्ट कम सिरमिक टेक्नोलॉजिस्ट, उदयपुर, २९-८-५३	३००	

खण्ड

पंचायत

क्र. सं०	नाम, जन्म दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१	श्री हरीसिंह जाट, आर० ए० एस०, ३०-१०-१९०८, उदयपुर	६-९-१९३३	२२-९-५१
२	श्री मांगीलाल भव्य, १-१०-१९१४, झालावाड़	२-१२-४८	२९-९-५१
३	श्री कृष्णवल्लभ कार्तिक सुदी १०, सम्बत् १९६०, बून्दी	२९-९-२०	४-५-५४
४	श्री सोहनलाल आंचलिया, १४-१-१०, उदयपुर	१-१०-२८	६-३-५३
५	श्री नाहरसिंह, बी० कॉम, एलएल० बी०, ३-१०-२६, झंझुनू	१८-१०-५१	४-८-५५
६	श्री सुन्दरेन्द्रनाथ व्यास, बी० एससी०, एलएल० बी०, २५-१०-२२, उदयपुर	६-४-४९	२०-७-५५
७	श्री कलाशचन्द्र सोगानी, २१-६-१८, अजमेर	१५-११-५१	१८-७-५५

१६

विभाग

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
मुख्य पंचायत अधिकारी, राजस्थान, जयपुर	४० ६२५ १५० वि०वे० ५००-३०-७४० ई० बी० ३०-८००-५०-९००	
डिविज़नल पंचायत ऑफिसर, जं.घपुर	२८० २००-१०-३८० ई० बी० १५-४००	स्थानापन्न
डिविज़नल पंचायत ऑफिसर, फोटा	२६० १७० १०-३५० ई० बी० १५-३८०-२०-४००	अस्थायी
डिविज़नल पंचायत ऑफिसर, उदयपुर	३९० २६०-१५-३५० ई० बी० २०-४५०-२५-५५०	राजस्थान तहसीलदार सेवा से प्रतिनियुक्ति पर
डिविज़नल पंचायत ऑफिसर (प्रधान कार्यालय) जयपुर	२१० २००-१०-२८० ई० बी० १५-४००	सचिव, जिला बोर्ड के पद से तबादले पर
डिविज़नल पंचायत ऑफिसर, बीकानेर	२१० २००-१०-२८० ई० बी० १५-४००	स्थानापन्न
डिविज़नल पंचायत ऑफिसर, अजमेर	३२५ २५०-८५०	अस्थायी

खण्ड

यातायात

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१	श्री बी० सिन्हा, आर० ए० एस०, १-१०-१९०२, जयपुर	१-१०-१९२५	१६-४-१९५६
२	श्री करतारसिंह, बी० एतसी०, एलएल० बी०, आर० ए० एस०, २०-२-१३	२२-१०-१९३६	१२-६-१९५६
३	श्री बी० बी० श्रीवास्तव, बी० ए०, २०-२-१९०४, जयपुर	८-१०-१९३०	५-१२-१९५३
४	श्री एन० एन० वर्मा, आर० ए० एस०, २०-६-१९२०, उदयपुर	२-१०-१९४२	६-९-१९५२
५	श्री सी० एस० पंचोली, आर० ए० एस०, १९-११-१९२३	१५-१२-१९४३	१३-६-१९५५
६	श्री रामसिंह जैन, एम० ए०, एलएल० बी०, ८-१-१९३०, सवाई माधोपुर	२६-४-१९५४	२६-४-१९५४
७	श्री शंकरमल माथुर, बी० ए० एलएल० बी०, ३०-१-१९२१, जोधपुर	२९-१२-१९४२	१८-११-१९५०
८	श्री रावे कांत शर्मा, बी० कॉम०, १५-२-१९२८, जयपुर	३-३-१९५३	३-३-१९५३
९	श्री मदनलाल गुप्ता, बी० ए०, एलएल० बी०, २४-१०-१९२३, अलवर	२०-१०-१९४२	६-३-१९५३
१०	श्री दीलत चन्द जैन, एम० कॉम०, एलएल० बी, १०-११-१९३०, जयपुर	१२-८-१९५४	१२-८-१९५४
११	श्री आइशान चौवरी	..	२१-१-१९५६
१२	श्री एस० के० वनर्जा, २-८-१९१२	१-३-१९५२	१-३-१९५२

२०

विभाग

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
यातायात संचालक, राजस्थान, जयपुर, १६-४-१९५१	६० ७४३-१२-०	
यातायात उप-संचालक, जयपुर	५२५	
लेखाधिकारी, जयपुर, ५-१२-१९५३	४००	
प्रादेशिक यातायात अधिकारी, जोधपुर, ६-९-१९५२	४००	
प्रादेशिक यातायात अधिकारी, उदयपुर, १०-८-१९५०	४००	
निजी सहायक, यातायात संचालक, जयपुर, २४-८-१९५४	२०५	
सहायक प्रादेशिक यातायात अधिकारी, कोटा, १-३-१९५३	२३५	
सहायक प्रादेशिक यातायात अधिकारी, जयपुर, ३-३-१९५३	२२५	
सहायक प्रादेशिक यातायात अधिकारी, वीकानेर, ६-३-१९५३	२२५	
मैनेजर, सिरोही मोटर सर्विस, सिरोही, १२-२-१९५४	२०५	
सहायक प्रादेशिक यातायात अधिकारी, जोधपुर, २१-१-१९५६	२००	
घीफ सुरिस्टेण्डेंट मैनेजर, जयपुर, १-३-१९५२	४००	

खण्ड

सैटिल मेन्ट

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१	श्री पशुपति नाथ कौल, आर० ए० एस०, २-१२-१९०२, जोधपुर	३१-५-२८	२३-४-५६
२	श्री इकवाल नाथ कौल, आर० ए० एस०, २९-७-१९१०, जोधपुर	१२-१०-३२	२४-६-५०
३	श्री मुनीश्वर नाथ हुक्कू, आर० ए० एस०, २-१-१९०५, जोधपुर	२७-४-२६	१-२-४४
४	श्री धरनीधर मोहले, आर० ए० एस०, २८-८-१९०६, उदयपुर	२३-७-३२	२३-७-३२
५	श्री बालमुकुन्द गुप्ता, आर० ए० एस०, १-२-१९०७, जयपुर	५-५-२९	५-५-२९
६	श्री शेरसिंह, आई० ए० एस०, ११-४-२४, जयपुर	२५-१०-४५	..
७	श्री बृजराज बहादुर, आई० ए० एस०, २८-२-१९३०, दिल्ली	२-४-५२	६-१२-५६
८	श्री पेंहर्पासिंह, आर० ए० एस०, ३-८-०६, जयपुर	३-१-२७	२०-८-५६
९	श्री केशवपुरी, आर० ए० एस०, ५-२-११, जोधपुर	१-११-३२	७-१-५६
१०	श्री मातादीन, आर० ए० एस०, २०-४-२३, सीकर	१५-१०-४८	१७-१-५३
११	श्री रामरतन अग्रवाल, आर० ए० एस०, ५-२-१९१०, जोधपुर	७-४-३८	२४-९-५३

२१

विभाग

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
सैटिलमेन्ट कमिश्नर, राजस्थान, जयपुर, २३-४-५६	६० १२०० २०० वि० वे०	खुदकाश्त
एडिशनल सैटिलमेन्ट कमिश्नर, राजस्थान, जयपुर, १२-१२-५६	५५० १०० वि० वे०	
सैटिलमेन्ट ओफिसर, कोटा, २-१-५२	..	
सैटिलमेन्ट ओफिसर, उदयपुर, १९-६-५०	..	
सैटिलमेन्ट ओफिसर, जयपुर, १९-६-५०	..	
सैटिलमेन्ट ओफिसर, झालावाड़, ५-२-५५	..	
सैटिलमेन्ट ओफिसर, सीकर, ६-१२-५६	..	
सैटिलमेन्ट ओफिसर, अलवर, २०-८-५६	..	
सैटिलमेन्ट ओफिसर, पाली, ७-१-५६	..	
सैटिलमेन्ट ओफिसर, सिरोही, २१-७-५६	..	
सैटिलमेन्ट ओफिसर, जोधपुर, २१-७-५६	..	

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१२	श्री जुगलबिहारीलाल श्रीवास्तव, आर० ए० एस०, अगस्त, १९२२, जयपुर	१-५-४३	११-२-५५
१३	श्री फतेहसिंह (द्वितीय), आर० ए० एस०, १२-४-१९२१, पाली	१६-५-४२	१३-४-४७
१४	श्री बृजवल्लभ मेहता, आर० ए० एस०, १५-१-२१, जयपुर	१९-७-४६	२२-१०-५४
१५	श्री जगदीश नारायण माथुर, आर० ए० एस०, २-७-२४, जयपुर	१८-८-४९	३-९-५४
१६	श्री राम बाबू कोठ्यारी, आर० ए० एस०, १५-४-१९१५, भरतपुर	२०-२-४५	१-७-५०
१७	श्री सरदारसिंह, आर० ए० एस०, १९-६-१४, बाड़मेर	१-११-३४	२६-३-५५
१८	श्री जोरावर सिंह एन०सांडू, आर० ए० एस०, १-१-१९२१, पाली	२६-३-२७	१९-६-५०
१९	श्री मिलाचन्द जैन, आर० ए० एस०, २५-८-१९१४	२९-१०-३७	१५-८-५५
२०	श्री मानसिंह, आर० ए० एस०, १०-१२-१९१४, उदयपुर	१-४-३६	२५-६-५६
२१	श्री गजानन्द, आर० ए० एस०, १-८-१९२०, गंगानगर	१७-२-४४	२५-१०-५६
२२	श्री शिवदत्त शर्मा, आर० ए० एस०, ३०-१-१९१८, भरतपुर	२०-७-४३	१-५-५६
२३	श्री बीरेन्द्रवीर वज्र, आर० ए० एस०, ८-१२-१९१९, जयपुर	१८-१-४४	१५-४-५६
२४	श्री मदनलाल बावेजा, आर० ए० एस०, १-१०-१९२१, वेस्ट पंजाब	२१-५-४८	१-२-५६

चर्तमान पद तथा उस पर नियुक्ति का दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
असिस्टेन्ट सेंटिलमेन्ट ओफिसर, कोटा, ११-२-५५	६०	
असिस्टेन्ट सेंटिलमेन्ट ओफिसर, सिरोही, १-७-५०		
असिस्टेन्ट सेंटिलमेन्ट ओफिसर, अजमेर, २२-१०-५४		
असिस्टेन्ट सेंटिलमेन्ट ओफिसर, उदयपुर, ३-९-५४		
असिस्टेन्ट सेंटिलमेन्ट ओफिसर, उदयपुर, १-७-५०		
असिस्टेन्ट सेंटिलमेन्ट ओफिसर, पाली, २६-३-५५		
असिस्टेन्ट सेंटिलमेन्ट ओफिसर, पाली, १९-६-५०		
असिस्टेन्ट सेंटिलमेन्ट ओफिसर, अलवर, १५-८-५५		
असिस्टेन्ट सेंटिलमेन्ट ओफिसर, पाली, २५-६-५६		
असिस्टेन्ट सेंटिलमेन्ट ओफिसर, जोधपुर, २५-१०-५६		
असिस्टेन्ट सेंटिलमेन्ट ओफिसर, झालावाड़, १-५-५६		
असिस्टेन्ट सेंटिलमेन्ट ओफिसर, जयपुर, १५-४-५६		
असिस्टेन्ट सेंटिलमेन्ट ओफिसर, सीकर, मुख्यालय जयपुर, १-२-५६		

द्वितीय श्रेणी के असिस्टेंट

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१	श्री अहोराम, २-३-१९११, मंगानगर	१०-३-२८	२९-१-५३
२	श्री सुखचन्द मेहता, ८-३-१९०८, जयपुर	१५-२-२५	१५-२-२५
३	श्री जगन्नार्थसिंह, ३-१-१९०८, नागौर	१५-९-२५	१५-९-२५
४	श्री लालबिहारसिंह, १०-१०-१९०८, आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश)	२९-३-२९	२९-३-२९
५	श्री गिरधरसिंह, १-१०-१९०७, मंगानगर	१५-८-२९	२२-७-४१
६	श्री भंवरलाल खंडेलवाल, १८-१२-१९०३, उदयपुर	५-७-२४	५-७-२४
७	श्री जेठमल व्यास, ११-११-१९०७, जोधपुर	२५-५-२७	१-१०-४९
८	श्री हत्तीनुद्दीन, २५-३-१९०५, उदयपुर	१-१-२३	१-१-२३
९	श्री जगनारायणसिंह, ५-११-१९१६, नागौर	१८-५-४३	११-७-४४
१०	श्री कानमल मलगा, ४-८-१९१३, व्यावर	१०-९-३९	१-१०-४६
११	श्री चिमनसिंह, २८-५-१९१७, लीकर	८-६-३५	५-७-५४
१२	श्री सागरमल, २-११-१९०३, जोधपुर	दिसम्बर, २६	४-५-५५
१३	श्री रघुवर दयाल, ३-६-१९०८, जयपुर	२६-५-३७	२३-८-५५
१४	श्री घीसीलाल, ३१-१०-१९०४, जयपुर	१-१-२४	५-११-५६
१५	श्री देवेन्द्रमोहन कासलीवाल, ६-९-१९११, जयपुर	१८-१२-३५	८-१०-५६
१६	श्री मदनमोहनलाल, त्रिवेदी, ४-७-१९०५, सवाई माधोपुर	१६-८-२४	३१-१०-५६
१७	श्री आफतावअली, ४-९-१९०३, जयपुर	३-११-२३	१६-१०-५६

सैटिलमेन्ट ऑफिसरों की सूची

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
	रु०	
असिस्टेन्ट सैटिलमेन्ट ओफिसर, पाली, १८-५-५४		
असिस्टेन्ट सैटिलमेन्ट ओफिसर, अलवर, १९-६-५०		
असिस्टेन्ट सैटिलमेन्ट ओफिसर, सीकर, जुलाई, १९५०		
असिस्टेन्ट सैटिलमेन्ट ओफिसर, जयपुर, १-६-४६		
असिस्टेन्ट सैटिलमेन्ट ओफिसर, पाली, १९-६-५०		
असिस्टेन्ट सैटिलमेन्ट ओफिसर, उदयपुर, ५-१०-४८		
असिस्टेन्ट सैटिलमेन्ट ओफिसर, जोधपुर, १९-६-५०		
असिस्टेन्ट सैटिलमेन्ट ओफिसर, उदयपुर, ५-१०-४८		
असिस्टेन्ट सैटिलमेन्ट ओफिसर, झालावाड़, १९-६-५०		
असिस्टेन्ट सैटिलमेन्ट ओफिसर, बाड़मेर, ९-७-५२		
असिस्टेन्ट सैटिलमेन्ट ओफिसर, सिरोही, ५-७-५४		
असिस्टेन्ट सैटिलमेन्ट ओफिसर, जोधपुर, ४-५-५५		
असिस्टेन्ट सैटिलमेन्ट ओफिसर, जयपुर, २३-८-५५		
असिस्टेन्ट सैटिलमेन्ट ओफिसर, जयपुर, ५-११-५६		
असिस्टेन्ट सैटिलमेन्ट ओफिसर, जयपुर, ८-१०-५६		
असिस्टेन्ट सैटिलमेन्ट ओफिसर, जयपुर, ३१-१०-५६		
असिस्टेन्ट सैटिलमेन्ट ओफिसर. सीकर. १६-१०-५६		

क्र. संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१८	श्री निजामुद्दीन, १०-१-१९०५, उदयपुर
१९	श्री अनराज
२०	श्री नारायणदास	..	२४-११-५६
२१	श्री भुरालाल पंचौली, १८-९-१९०५, भौलवाड़ा	७-७-२३	२२-११-५६
२२	श्री शंकररूपराय, २६-११-१९१३, जोधपुर	३-१२-३४	२-२-५७

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
असिस्टेन्ट सेंटिलमेन्ट ओफिसर, उदयपुर	र०	
असिस्टेन्ट सेंटिलमेन्ट ओफिसर, जोधपुर		
असिस्टेन्ट सेंटिलमेन्ट ओफिसर, पाली, २४-११-५६		
असिस्टेन्ट सेंटिलमेन्ट ओफिसर, कोटा, २२-११-५६		
असिस्टेन्ट सेंटिलमेन्ट ओफिसर, जयपुर, २-२-५७		

खण्ड

मुद्रण एवं लेखन

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१	श्री बृजमोहननाथ तनखा, आई० ए० एस०, (रिटायर्ड), ८-१०-१९०१, जयपुर	२३-७-१९२६	७-५-१९५५
२	श्री इफितखारअली, २४-७-१९१०, जयपुर	७-११-१९३१	७-११-१९३१
३	श्री श्रीराम शर्मा, २४-१२-१९००, बीकानेर	११-१२-१९१८	११-१२-१९१८
४	श्री धर्मेन्द्र वीर शिवहरे, बी० ए०, एलएल० बी०, १२-१२-११, फतेहपुर (यू० पी०)	१-१०-१९४४	१-१०-१९४४
५	श्री गुलवाड़ी शिवराव उमेश, ४-३-०५, कनारा	४-११-१९४३	४-११-१९४३
६	श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा, ४-३-१९०५, मेरठ	२०-५-१९३३	••
७	श्री हवीब अहमद, १०-१-१९०७, जोधपुर	१५-७-१९२५	४-११-१९२६
८	श्री सुखराम कछवाह, १५-१-०७, जोधपुर	१३-८-१९२९	२२-१२-१९३०
९	श्री करणराज, ७-६-१९१५, जोधपुर	१३-८-१९३६	१३-८-१९३६

२२

सामग्री विभाग

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
संचालक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान, जयपुर, ७-५-५५	₹ ११२० ₹ ५० वि० वे०	
अध्यक्ष, राज्य मुद्रणालय, जोधपुर, ३१-१०-५५	२००-१५-२७५-२०-३७५ ई० बी० २५-५५०	
अध्यक्ष, राज्य मुद्रणालय, बीकानेर, २३-४-१९५१	२००-१५-२७५-२०-३७५ ई० बी० २५-५५०	
अध्यक्ष, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर, १९-१०-१९५५	५५० ३००-३३०-१५-४५०- २५-७००	
अध्यक्ष, राज्य मुद्रणालय, उदयपुर, ९-६-१९५१	२००-१५-२७५-२०-३७५ ई० बी० २५-५५०	
सहायक अध्यक्ष, राज्य मुद्रणालय, अलवर	१५०-१०-२०० ई० बी० १०-२५०-१२ $\frac{१}{२}$ -३००	
सहायक अध्यक्ष, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर, १६-१२-१९५५	२६२-८-० १५०-१०-२०० ई० बी० १०-२५०-१२ $\frac{१}{२}$ -३००	
सहायक अध्यक्ष, राज्य मुद्रणालय, जोधपुर, २२-१२-५५	१५०-१०-२०० ई० बी० १०-२५०-१२ $\frac{१}{२}$ -३०	
सहायक अध्यक्ष, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर, ६-१०-५५	१७० १५०-१०-२०० ई० बी० १०-२५०-१२ $\frac{१}{२}$ -३००	

खण्ड

पंजियन एवं

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१	श्री मुलकराज महाजन	...	१४-१-५३
२	श्री गोपीचन्द सौगानी, बी० ए०, एलएल० बी०, २६-१२-१९०६, जयपुर	१५-११-४३	१३-३-५०
३	श्री दुर्गादत्त किरारू, बी० ए०, एलएल० बी०, २९-१२-१९०९, बीकानेर	३०-६-४२	१०-७-५२
४	श्री माधोनारायण सिंगल, एम० ए०, एलएल० बी०	१०-१-४१	२१-११-५२
५	श्री ब्रह्मीनारायण मोहता, बी० ए०, एलएल० बी०, २२-१-१९०८, जयपुर	२१-१०-३७	२४-१०-५२

२३

मुद्रणा विभाग

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
प्रधान निरीक्षक	₹ १३००	
निरीक्षक	२७५	
निरीक्षक	३२५	
निरीक्षक	१५०	
निरीक्षक	४२५	

खण्ड

आयुर्वेद

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३
१	श्री प्रेम शंकर शर्मा, भिषगाचार्य, ६-६-११, उदयपुर	१-७-४४
२	श्री श्याम सुन्दर शर्मा, आयुर्वेदाचार्य, संस्कृत, १५-७-१९०९ बीकानेर	१५-५-४४
३	श्री हरिगोपाल दवे, एम०ए०, एम०एड०, भिषगाचार्य, ८-१२-१९०६, कलकत्ता	१८-४-४७
४	श्री जयरामदास स्वामी, भिषगाचार्य, १४-११-०५, जयपुर	१-१०-३३
५	श्री श्रीनिवास चतुर्वेदी, आयुर्वेदाचार्य, एम०बी०बी०एस०, २७-१२-२४, जयपुर	२७-९-४७
६	श्री कल्याण प्रसाद शर्मा, भिषगाचार्य, २९-११-१९११, जयपुर	१३-१-३५
७	श्री रूपशंकर शर्मा, आयुर्वेदाचार्य, ३०-१०-१७, उदयपुर	१-६-४४
८	श्री प्रभूदत्त शर्मा, भिषगाचार्य, सीकर	१८-१०-५६
९	श्री मोहनलाल भार्गव, आयुर्वेदाचार्य, जयपुर	..

२४

विभाग

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
४	५	६
संचालक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, १६-७-५५	५२५ ५००-२५-७०० ई० बी० ३०-८५०	
उप-संचालक, आयुर्वेदिक विभाग, राजस्थान, २-८-५५	२५० २५०-२५-४०० ई० बी० २५-६००	
व्यवस्थापक फार्मैसीज्, राजस्थान, १-४-५०	५०० २५०-२५-४०० ई० बी० २५-६००	एडहॉक
प्रिन्सिपल, आयुर्वेदिक कालेज, जयपुर, २३-५-५४	४००-२५-६५० ई० बी० ३०-८००	
प्रोफेसर, राजस्थान आयुर्वेदिक कालेज, जयपुर, १-४-५०	२५०-१५-४०० ई० बी० २५-६००	
प्रोफेसर राजस्थान आयुर्वेदिक कालेज, जयपुर, १-४-५०	२५०-१५-४०० ई० बी० २५-६००	
प्रोफेसर, राजस्थान आयुर्वेदिक कालेज, उदयपुर, १४-९-५५	२५०-१५-४०० ई० बी० २५-६००	स्थानापन्न
प्रोफेसर राजस्थान आयुर्वेदिक कालेज, उदयपुर, १८-१०-५६	२५०-१५-४०० ई० बी० २५-६००	
प्रोफेसर, राजस्थान आयुर्वेदिक कालेज, जयपुर, २९-१०-५६	२५०-१५-४०० ई० बी० २५-६००	

खण्ड

विकास

क्र.सं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१	श्री भगवत सिंह मेहता, आई० ए० एस०
२	श्री ए० पी० दीवान, आई० ए० एस०	..	७-११-५६
३	श्री कन्हैयालाल बराया, आर० ए० एस०	१३-५-४४	१०-१०-५३
४	श्री रणधीर सिंह, आर० ए० एस०, ३-२-१३	मई, १९४५	२०-३-५४
५	श्री यशोदेव शर्मा, आर० ए० एस०, १-११-२३	१-८-४६	६-२-५४
६	श्री मनोहर लाल जैन, आर० ए० एस०, मई, १९०९	..	१९-९-५२
७	श्री मोहन लाल पंसारी, आर० ए० एस०, १४-८-१९२६	१०-१०-५५	८-६-५७
८	श्री जी० एल० महाजन, १५-१२-२५	२१-३-५२	१२-७-५४
९	श्री नन्दलाल मायुर (प्रथम), आर० ए० एस०	४-३-३६	२-१०-५४
१०	श्री बालेन्द शर्मा, आर० ए० एस०	..	१-१०-५५
११	श्री हनुमानसहाय रावत, आर० ए० एस०, २३-७-१९१७	१-७-३८	२-७-५५
१२	श्री जी० पी० उदावत, २२-१२-१९०९	..	२८-४-५७
१३	श्री लाजपत राय बर्मानी, २-५-१९२६	..	१-१२-५६
१४	श्री प्रफुल्लचन्द्र, आर० टी० एस०	..	२२-६-५७

२५

विभाग

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
विकास आयुक्त, विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर	६०	
उप-विकास आयुक्त (वरिष्ठ), विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर	८८० २०० वि० वे०	
संचालक, प्रशिक्षण, विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर, २-७-५५	५५० १५० वि० वे०	
उप-विकास आयुक्त, विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर, २८-१-५७	४२५ १०० वि० वे०	
सहायक विकास आयुक्त, विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर	४२५ ७५ वि० वे०	
लेखाधिकारी, विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर	४५० ५० वि० वे०	
अतिरिक्त लेखाधिकारी, विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर, ८-६-५७	२७५	
अंकाधिकारी, विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर	२६५	
जोनल विकास अधिकारी, जयपुर, १५-६-५७	४७५ १०० वि० वे०	
जोनल विकास अधिकारी, जोधपुर, २४-४-५७	..	
जोनल विकास अधिकारी, उदयपुर, १३-४-५७	..	
क्षेत्र विकास अधिकारी, सांभर, २८-४-५७	..	
क्षेत्र विकास अधिकारी, सांगानेर, १-१२-५६	..	
क्षेत्र विकास अधिकारी, गोविन्दगढ़, अलवर, २२-६-५७	..	

संख्या क्रम	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१५	श्री रतनचन्द महेश्वरी, ८-३-१९२१	१-७-४८	२-४-५७
१६	श्री पृथ्वीसिंह, आर० टी० एस०	..	२९-१०-५६
१७	श्री लक्ष्मीचन्द, आर० टी० एस०	..	२४-६-५७
१८	श्री जयकुमार जैन, आर० टी० एस०, २०-७-१९२१	..	१२-११-५५
१९	श्री मनोहर लाल शर्मा, ३०-११-०६	..	२५-७-५२
२०	श्री राजेश्वरदयाल माथुर, आर० ए० एस०, ९-१०-१९१७	१-१२-४२	१-१०-५४
२१	श्री चांदसिंह	..	३०-६-५६
२२	श्री बालकृष्ण बोहरा, आर० टी० एस०, १३-९-१५	..	३१-८-५५
२३	श्री गणपतराय, आर० ए० एस०, २५-८-१९२५	..	१७-१२-५५
२४	श्री किरण बाबू, आर० ए० एस०, १०-६-१९२१	..	१५-१२-५५
२५	श्री राधाकिशन त्रिपाठी, आर० टी० एस०	..	३-३-५६
२६	श्री गोविन्दनारायण माथुर, आर० टी० एस०, १८-३-१९१५	..	३-५-५७
२७	श्री उम्मेदसिंह, आर० ए० एस०, २४-१२-२३	२२-६-४८	१५-१२-५४
२८	श्री देवदत्त शर्मा	२२-१-५३	२१-११-५६
२९	श्री जवाहर सिंह राव, आर० ए० एस०	..	५-११-५६
३०	श्री बंशीधर शर्मा, आर० टी० एस०	..	१८-४-५६
३१	श्री सूरज करण अरुण	..	२५-८-५६
३२	श्री मोहन सिंह भंडारी, आर० ए० एस०	..	२८-१२-५५

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
क्षेत्र विकास अधिकारी, डोंग (भरतपुर), २-४-५७	६०	
क्षेत्र विकास अधिकारी, बसेड़ी (भरतपुर), २९-१०-५६	..	
क्षेत्र विकास अधिकारी, हिन्डोन, २४-६-५७	..	
क्षेत्र विकास अधिकारी, जयपुर, ५-६-५७	..	
क्षेत्र विकास अधिकारी, टोडाभीम, ९-१०-५४	..	
क्षेत्र विकास अधिकारी, सवाई माधोपुर, १-१०-५४	..	
क्षेत्र विकास अधिकारी, महूवा, २२-६-५७	..	
क्षेत्र विकास अधिकारी, देसूरी, ३१-८-५५	..	
क्षेत्र विकास अधिकारी, मालपुरा, १७-१२-५५	..	
क्षेत्र विकास अधिकारी, डोडवाना, १५-१२-५५	..	
क्षेत्र विकास अधिकारी, विलाड़ा, ३-३-५६	..	
क्षेत्र विकास अधिकारी, सुमेरपुर, ३-५-५७	..	
क्षेत्र विकास अधिकारी, वाली, २५-१२-५४	..	
क्षेत्र विकास अधिकारी, सिंवाना, २१-११-५६	..	
क्षेत्र विकास अधिकारी, आहोर, ५-११-५६	..	
क्षेत्र विकास अधिकारी, सांकड़ा, १८-४-५६	..	
क्षेत्र विकास अधिकारी, पिन्डवाड़ा, १५-९-५६	..	
क्षेत्र विकास अधिकारी, डूंगरपुर	..	

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
३३	श्री अखिलाल भट्ट, आर० टी० एस०, २४-११-१५	..	३१-१०-५५
३४	श्री भंवरलाल दशोरा, आर० ए० एस०	..	२-६-५५
३५	श्री कुन्दनलाल चतुर्वेदी, आर० ए० एस०, १८-१-१४	१-२-३७	१९-११-५३
३६	श्री जगन्नाथ शर्मा, आर० टी० एस०, ८-१०-२३	१-११-४७	१४-९-५४
३७	श्री मोतीलाल कक्कड़, आर० ए० एस०	..	२१-९-५४
३८	श्री मंगलाल सुरेखा, आर० ए० एस०	..	११-५-५६
३९	श्री ताराचन्द अग्रवाल, आर० ए० एस०	..	५-२-५५
४०	श्री चौथमल जैन, आर० टी० एस०	..	२४-४-५७
४१	श्री रामनारायण सक्सेना, आर० टी० एस०	..	१-४-५६
४२	श्री बलदेव कृष्ण बिजू, आर० ए० एस०, २८-४-१८	१-२-४१	२६-२-५४
४३	श्री पृथ्वी सिंह राठीड़, आर० टी० एस०	..	१९-९-५६
४४	श्री सेवा लाल शाह, १-९-१२	..	७-५-५५
४५	श्री सत्यव्रत शर्मा, आर० टी० एस०	..	२५-५-५७
४६	श्री डी० पी० माथुर (प्रथम)	१३-१०-४५	३-१०-५३
४७	श्री रघुनारायसिंह, आर० टी० एस०
४८	श्री बालस्वरूप भटनागर, आर० टी० एस०, १५-७-१९०७	२३-४-२७	२-४-५७
४९	श्री रामजीलाल, आर० टी० एस०, १३-१-१३	१६-७-३७	२९-३-५६
५०	श्री फतेहलाल पाण्डेया, आर० टी० एस०, ५-९-२०	७-१०-४७	२४-४-५७

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
क्षेत्र विकास अधिकारी, सागवाड़ा, ३१-१०-५५	६०	..
क्षेत्र विकास अधिकारी, राजसमन्द
क्षेत्र विकास अधिकारी, आमेट, १९-११-५३
क्षेत्र विकास अधिकारी, गढ़ी
क्षेत्र विकास अधिकारी, गिरवा
क्षेत्र विकास अधिकारी, रायसिंहनगर, ११-५-५६
क्षेत्र विकास अधिकारी, करनपुर, ५-२-५५
क्षेत्र विकास अधिकारी, वारां, २४-४-५७
क्षेत्र विकास अधिकारी, लाडपुरा (फोटा), १-४-५६
क्षेत्र विकास अधिकारी, शाहबाद, २६-२-५४
क्षेत्र विकास अधिकारी, कुम्भलगढ़
क्षेत्र विकास अधिकारी, सीमलवाड़ा
क्षेत्र विकास अधिकारी, बस्ती, २५-५-५७
क्षेत्र विकास अधिकारी, झालरापाटन, १६-६-५७
क्षेत्र विकास अधिकारी, नौखा
क्षेत्र विकास अधिकारी, बूंदी
क्षेत्र विकास अधिकारी, चिड़वां
क्षेत्र विकास अधिकारी, प्रतापगढ़

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
५१	श्री बाला सहाय शर्मा, आर० ए०एस०, १-२-१९२१	२३-८-४४	१६-४-५४
५२	श्री लालसिंह सोलंकी, आर० टी० एस०, १५-७-१९२२	१-५-४७	४-५-५७
५३	श्री गोवर्धनलाल चौबीसा, आर० टी० एस०, १३-४-१९०९	९-३-२३	२८-४-५७
५४	श्री बृजबिहारी सिंह, आर० टी० एस०, ८-३-१९१८	१५-१२-३८	१८-११-५६
५५	श्री दुर्गाचन्द्र, आर० टी० एस०	..	१९-११-५५
५६	श्री कल्याणसिंह, आर० टी० एस०
५७	श्री गुरुबक्स सक्सेना, आर० टी० एस०	..	२२-५-५६
५८	श्री बी० एल० पाण्डे, आर० ए० एस०	..	३-६-५६
५९	श्री सायरमल सिंघवी, २-२-१९२३	१५-१०-४२	४-६-५६
६०	श्री ओम् प्रकाश मलहोत्रा, १०-३-१९३१	..	२९-४-५७
६१	श्री हरी नारायण शर्मा, ६-५-१९२७	..	२७-९-५२
६२	श्री भोत राम, आर० टी० एस०, २-१-१९२३	..	२२-५-५६
६३	श्री कालीचरणकिशोर, ९-२-१९०५	२०-११-२९	७-६-५६
६४	श्री वृजकिशोर, आर० टी० एस०, ३०-५-१९१९	२९-७-४१	१९-५-५६
६५	श्री मोहनसिंह, आर० टी० एस०	..	१२-५-५६
६६	श्री एच० जी० भूटाणी, आर० ए० एस०, २१-१०-१९१२	६-८-४९	१७-९-५५
६७	श्री पी० एन० प्रधान, ७-५-१९२१	२४-३-४७	१-११-५६

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
क्षेत्र विकास अधिकारी, नीम-का-थाना	६०	..
क्षेत्र विकास अधिकारी, मांडलगढ़
क्षेत्र विकास अधिकारी, वेगूं, २८-४-५७
क्षेत्र विकास अधिकारी, कोटडा, १८-११-५६
क्षेत्र विकास अधिकारी, लाडनूं, १९-११-५५
क्षेत्र विकास अधिकारी, सरदार शहर
क्षेत्र विकास अधिकारी, खामनोर, २२-५-५६
क्षेत्र विकास अधिकारी, कपासन
क्षेत्र विकास अधिकारी, आसपुर
क्षेत्र विकास अधिकारी, सांचोर, २९-४-५७
क्षेत्र विकास अधिकारी, अन्ता, १७-१०-५३
क्षेत्र विकास अधिकारी, उदयपुर वाटी
क्षेत्र विकास अधिकारी, तिजारा, ७-६-५६
क्षेत्र विकास अधिकारी, टोंक, १९-५-५६
क्षेत्र विकास अधिकारी, वान्दीकुई, १२-५-५६
सामुदायिक योजना अधिकारी (उद्योग), जयपुर, १७-९-५५
सामुदायिक योजना अधिकारी (उद्योग), पिसांगन, अजमेर, १-११-५६

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
६८	श्री ए० एच० खां, आर० टी० एस०, २८-१२-१९१३	१-१२-३९	१७-१०-५६
६९	श्री श्यामबिहारी चन्द भंडारी, आर०टी०एस०	..	२९-९-५६
७०	श्री किशनलाल धाभाई, आर०ए०एस०	..	२-६-५६
७१	श्री हरी मोहन माथुर, आर०ए०एस०	१०-१२-४६	१२-१०-५४
७२	श्री बल्लभसिंह लौढा, आर०टी०एस०	..	८-११-५६
७३	श्री भवानीसिंह देवरा, आर०टी०एस०	..	१२-९-५६
७४	श्री कल्याणसिंह, आर०ए०एस०	..	१५-९-५६
७५	श्री तख्तसिंह, आर०टी०एस०, २५-१२-१९१२	३-५-३४	२२-९-५६
७६	श्री विष्णुदत्त, आर०टी०एस०, ९-६-२५	..	४-१०-५४
७७	श्री पर्वतसिंह, आर०टी०एस०	..	२०-९-५६
७८	श्री रूपनारायण, आर०टी०एस०, १७-९-१९१७	२-११-४२	२-१०-५६
७९	श्री रूपचन्द	..	२-११-५६
८०	श्री हरदेवसिंह वर्मा, १३-९-१८	२३-७-४८	२७-११-५६
८१	श्री शक्तिदान	..	१९-११-५६
८२	श्री शिव लहरी शर्मा	..	१-१०-५६
८३	श्री गोपालसिंह, आर०टी०एस०, १३-११-२४	..	१-१०-५४
८५	श्री डी० पी० माथुर (द्वितीय)	..	१-११-५६
८४	श्री डी० एस० श्रीवास्तव	..	१-११-५६
८६	श्री श्री पारसमल, आर० टी० एस०	..	१४-५-५७

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
	६०	
क्षेत्र विकास अधिकारी, लक्ष्मणगढ़, १७-१०-५६	..	
क्षेत्र विकास अधिकारी, ओसियां, १-१०-५६	..	
क्षेत्र विकास अधिकारी, किशनगढ़ बास, २-६-५६	..	
क्षेत्र विकास अधिकारी, करौली	..	
क्षेत्र विकास अधिकारी, शिव, ८-११-५६	..	
क्षेत्र विकास अधिकारी, खारची, १२-९-५६	..	
क्षेत्र विकास अधिकारी, हिंडोली, १५-९-५६	..	
क्षेत्र विकास अधिकारी, खानपुर, २२-९-५६	..	
क्षेत्र विकास अधिकारी, किशनगढ़ अजमेर, ८-९-५५	..	
क्षेत्र विकास अधिकारी, बागीडोरा, २०-९-५६	..	
क्षेत्र विकास अधिकारी, राजाखेड़ा, २-१०-५६	..	
क्षेत्र विकास अधिकारी, हनुमानगढ़	..	
क्षेत्र विकास अधिकारी, मांडल, २७-११-५६	..	
क्षेत्र विकास अधिकारी, धरियावद	..	
क्षेत्र विकास अधिकारी, गंगापुर	..	
क्षेत्र विकास अधिकारी, आत्रू, ६-१-५७	..	
क्षेत्र विकास अधिकारी, मसूदा	..	
क्षेत्र विकास अधिकारी, जवाजा	..	
क्षेत्र विकास अधिकारी, पिसांगन	..	

क्रम संख्या	नाम	जन्म-दिन, तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१		२	३	४
८७	श्री जे० सी० अग्रवाल		..	१-११-५६
८८	श्री सोहनलाल सिवासिया		..	१-११-५६
८९	श्री बलवन्तसिंह मेहता		..	२३-३-५७
९०	श्री यशवन्तसिंह झाला, २०-९-२१		३०-५-५३	३०-४-५६
९१	श्री एस० डी० शुक्ला, २२-८-२२		..	१-५-५६
९२	श्री सत्यदेव, आर० टी० एस०, ३-१-१४		..	२७-४-५७
९३	श्री श्रीनारायण, आर० टी० एस०, ५-१२-१९२४		१-१०-४६	९-५-५७
९४	श्री शिवनारायण तिवारी, ६-७-२५		..	२७-४-५७
९५	श्री ए० जे० जयसिंघानी, २५-१-१७		जून, १९४८	२३-५-५७
९६	श्री जी० एस० सांखला, २-९-२७		..	२-५-५७
९७	श्री सीताराम गोपालदेशमुख, आर० टी०एस०, ६-१२-१९०७		..	६-५-५७
९८	श्री लक्ष्मी शरण माथुर, आर० टी० एस०, १४-१-०८		१२-२-३२	२३-४-५७
९९	श्री जवानसिंह, आर० टी० एस०, १२-१२-१९२०		..	मई, १९५७
१००	श्री आर० एन० चावला, १५-८-१५		..	२६-४-५७

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
क्षेत्र विकास अधिकारी, श्रीनगर, १-११-५६	६०	
क्षेत्र विकास अधिकारी, केकड़ी		
सहायक क्षेत्र विकास अधिकारी, कुशलगढ़, २३-३-५७		
क्षेत्र विकास अधिकारी, चित्तौड़, ३०-४-५६		
क्षेत्र विकास अधिकारी, शाहपुरा, १-५-५६		
क्षेत्र विकास अधिकारी, कुचामन, २७-४-५७		
क्षेत्र विकास अधिकारी, मन्डावर, ९-५-५७		
क्षेत्र विकास अधिकारी, नदवई, २७-४-५७		
क्षेत्र विकास अधिकारी, सूरतगढ़, २३-५-५७		
क्षेत्र विकास अधिकारी, उदयपुर, (बड़गांव), २-५-५७		
क्षेत्र विकास अधिकारी, फागी, ६-५-५७		
क्षेत्र विकास अधिकारी, सूरजगढ़, २३-४-५७		
क्षेत्र विकास अधि कारी, सोजत, मई ५७		
क्षेत्र विकास अधिकारी, भिनाय, २६-४-५७		

खण्ड

जागीर

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१	श्री दौलत सिंह, आई० ए० एस०, ४-८-१९०६, ढाणी (अजमेर)	१४-५-३१	१-१२-५६
२	श्री गोरधन सिंह, आई० ए० एस०, १८-२-१२, खानपुर, तहसील परवतसर	२९-५-४७	२२-५-५६
३	श्री मगन लाल नाणावटी, आर० ए० एस०, २३-४-१९०६, वांसवाड़ा	३-८-२७	३-६-५६
४	श्री परमानन्द शर्मा, आर० ए० एस०, २३-९-१९१३, समासपुर कोटा,	२२-९-३४	३०-५-५४
५	श्री जी० के० भगत, आर० ए० एस०, १-१२-१९१०, सिन्ध	८-१२-३८	१-११-५६
६	श्री अब्दुल गफ्फार, बी० ए०, १२-११-१९१५, उदयपुर	१-११-३४	९-१२-५३
७	श्री डी० सी० गोमावत, आर० ए० एस०, ११-९-१९०२, सिरोही	१३-५-२७	७-२-५६
८	श्री केसरी सिंह दरडा, २३-९-१९०८, मांडलगढ़ भीलवाड़ा	१९-११-३५	१७-१०-५२
९	श्री भीमसेन, २७-१-१९११, वेस्ट पाकिस्तान	३-११-३६	१७-७-५६
१०	श्री तारा चन्द जैन, आर० ए० एस०, १०-५-२१, जयपुर	३-११-४५	२०-२-५७
११	श्री जसराज जोशी, आर० ए० एस०, १-१-१९२१, जोधपुर	१-१०-४४	८-२-५७

२६

विभाग

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
जागीर कमिश्नर, राजस्थान, जयपुर, १-१२-५६	६० २२५०	
अतिरिक्त जागीर कमिश्नर, जयपुर, २२-५-५६	९०० १५० वि० वे०	
अतिरिक्त जागीर कमिश्नर, २-१२-५५	५५० १०० वि० वे०	
अतिरिक्त जागीर कमिश्नर, ३०-५-५६	४५० १०० वि० वे०	
अतिरिक्त जागीर कमिश्नर, अजमेर, १-११-५६	..	
सहायक जागीर कमिश्नर, जयपुर	२५०	प्रोविजनल
सहायक जागीर कमिश्नर	४५०	
अकाउन्ट्स आफिसर, जयपुर,	३००	
अकाउन्ट्स आफिसर, जयपुर, १७-७-५६	४०० ३५ वि० वे०	
डिप्टी कलेक्टर, जयपुर, २०-२-५७	४७५ ७५ वि० वे०	
डिप्टी कलेक्टर, टोंक, ८-२-५७	४०० ७५ वि० वे०	

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१२	श्री प्रेम दास अग्रवाल, आर० ए० एस०, २-१-१९०७, इलाहबाद	२-११-३५	१२-३-५६
१३	श्री तुलसीराम अग्रवाल, आर० ए० एस०, १०-१२-२२, झुंझुनू	२८-३-४६	३-३-५५
१४	श्री जय शंकर श्रीमाली, आर० ए० एस०, २२-४-१९१४, उदयपुर	८-१०-४१	२८-८-५६
१५	श्री बी० एन० शर्मा, आर० ए० एस०, ९-४-१९२४	१-१०-४५	१-११-५६
१६	श्री ब्रह्मीदास, आर० ए० एस०, १०-१२-१९१०, जोधपुर	२९-११-४१	३-३-५६
१७	श्री फोजराज, आर० ए० एस०, ५-४-११	२५-९-३७	६-९-५६
१८	श्री जोधसिंह मेहता, आर० ए० एस०, १९-९-१९०९	२६-११-३२	७-७-५६
१९	श्री नन्दलाल माथुर, आर० ए० एस०, २२-९-१९०८, अजमेर	१७-८-३९	५-२-५५
२०	श्री तेजनारायण काक, आर० ए० एस०, १-११-१९१४	२८-८-३९	२०-४-५६
२१	श्री इपलाल गांधी, आर० ए० एस०, २४-१०-१९०८, डूंगरपुर	१-६-३४	२२-११-५५
२२	श्री वनेसिंह (द्वितीय), आर० ए० एस०, १-४-१९१६, पाली	२८-४-४३	७-७-५६
२३	श्री सुखलाल मंत्री, आर० ए० एस०, २८-९-१९१२, जोधपुर	३-९-३८	३०-६-५६
२४	श्री गोपाल नारायण भावन, आर० ए० एस०, ३-११-१९२०	३-११-४५	३-९-५६
२५	श्री यासीन अली, ४-३-१९०९, टोंक	१२-७-३२	२५-१-५५

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
डिप्टी कलेक्टर, सवाई माधोपुर	६०	
डिप्टी कलेक्टर, सीकर	५५	
डिप्टी कलेक्टर, झुंझुनू, २८-८-५६	५५	
डिप्टी कलेक्टर, अजमेर, १-११-५६	५५	
डिप्टी कलेक्टर, जोधपुर, ३-३-५६	५५	
डिप्टी कलेक्टर, पाली, ६-९-५६	५५	
डिप्टी कलेक्टर, बाड़मेर, ७-७-५६	५५	
डिप्टी कलेक्टर, जालोर, १४-११-५६	५५	
डिप्टी कलेक्टर, नागौर, २०-४-५६	५५	
डिप्टी कलेक्टर, उदयपुर	५५	
डिप्टी कलेक्टर, चित्तौड़गढ़	५५	
डिप्टी कलेक्टर, भीलवाड़ा, ३०-६-५६	५५	
डिप्टी कलेक्टर, चूरु व बीकानेर	४७५	
	७५ वि० व	
डिप्टी कलेक्टर, कोटा, २५-१-५५	५५	

खण्ड

समाज कल्याण

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शसकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१	श्री रामसिंह चौहान, आर० ए० एस०, ११-९-१९१८, बांसवाड़ा	१९-६-४५	१४-६-५५
२	श्री वृजमोहन पुरोहित, आर० ए० एस०, १३-२-१९१६	१५-५-४३	२९-३-५७
३	श्री रामकृष्ण गुप्ता, आर० एस सी० एस०, ३१-७-१९१७, जयपुर	१-३-३९	२४-११-५६
४	श्री उत्सवलाल शर्मा. एम० ए०, साहित्य रत्न, १६-३-१९२३, उदयपुर	२३-३-४९	२३-३-४९
५	श्री नानालाल बोर्दिया, १३-१२-१९२०, उदयपुर	३-५-४१	१-१-५१
६	श्री एम० पी० कल्ला, एम० ए०, डी० एस० एस० ए०, २७-९-२२, बीकानेर	१९-८-४७	२४-३-५२
७	श्री कैलाशबहादुर माथुर, बी० एससी० १६-१-१९०३, जयपुर	१-१२-२४	२२-९-५५
८	श्री शान्तिलाल गुप्ता, बी० ए०, एलएल० बी०, १-११-२३, डूंगरपुर	२८-९-४८	२२-६-५४
९	श्री हरसिंह भोल, बी० ए०, १२-७-३४, बीलख, उदयपुर	२३-६-५६	२३-६-५६
१०	श्री मदनमोहन शर्मा, बी० ए०, २६-४-२३, जयपुर	११-३-५४	११-३-५४
११	श्री दिनेशनारायन, एम० ए०, एलएल० बी०, २६-१२-३१, जयपुर	१९-१२-५३	२-४-५५
१२	श्री मती अनूपमा भंडारी, एम० ए०, ५-६-१९३०, उदयपुर	२८-३-५५	२८-३-५५

२७

विभाग

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
संचालक, समाज कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर, १४-६-५५	६० ५०० १५० वि० वे०	
सहायक संचालक, समाज कल्याण विभाग, हंडव्वाट्टर जयपुर, २७-३-५७,	४००	
लेखाधिकारी, समाज कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर, २४-११-५६,	३२५	
सहायक संचालक, समाज कल्याण विभाग, जयपुर, २८-३-५७	३७५	
सहायक संचालक, समाज कल्याण विभाग, जोधपुर, २२-९-५५	३७५	
सहायक संचालक, समाज कल्याण विभाग, उदयपुर, १२-६-५६	३७५	
सहायक संचालक, समाज कल्याण विभाग, बीकानेर, २२-९-५५	..	
सहायक संचालक, समाज कल्याण विभाग, भरतपुर, २६-५-५६	२५०	
शोध अधिकारी, समाज कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर, २३-६-५६	२५०	
प्रकाशन अधिकारी, समाज कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर, २६-२-५५	२३०	
समाज शिक्षा अधिकारी, समाज कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर, १९-१०-५५	२२०	
महिला कल्याण अधिकारी, समाज कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर, २८-३-५५	२४०	

क्र. संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१३	श्री सुखवीरसिंह गहलोत, एम० ए०, एलएल० बी०, १९-७-२३, जोधपुर	१४-८-४८	३०-११-५६
१४	श्री विश्वेन्द्रनाथ गुप्ता, बी० ए०, एलएल० बी०, १७-११-२३ भरतपुर	१३-१२-४८	१-३-५५
१५	श्री सोहनलाल दवेरा, बी० ए०, एलएल० बी०, ७-७-२१, जोधपुर	२७-७-४०	७-१-५६
१६	श्री तेजसिंह पाण्डे, एम० ए०, ११-२-२२, भरतपुर	२१-४-४५	१३-१-५५
१७	श्री जगदीशप्रसाद, बी० ए०, एलएल० बी०, १२-३-१९१९	१२-१-४९	९-६-५४
१८	श्री प्यारेलाल पुरोहित, बी० ए०, एलएल० बी०, १९-३-१६, बांसवाड़ा	१-११-३७	१-१२-५४

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
विशेषाधिकारी, पुनर्वास गाडिया लोहार, राजस्थान, जयपुर, ३०-११-५६	६०	
विशेषाधिकारी, पुनर्वास भील, धरियाव, १६-१-५७	१८५	
समाज कल्याण अधिकारी, हंडकवार्टर जयपुर, २५-५-५६	२१५	
समाज कल्याण अधिकारी, अजमेर, ११-१-५७	२१०	
समाज कल्याण अधिकारी, डूंगरपुर, ७-१-५७	..	
समाज कल्याण अधिकारी, बांसवाड़ा, ११-१-५७	१७५	

खण्ड

राजस्थान वेटेरीनरी साइन्स एगड

क्रम सं०	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१	लपटीनेन्ट कर्नल ए० सी० अग्रवाल, बी० एससी०, एम० आर० सी० बी० एस०, २६-७-१९००, जालन्धर (पंजाब)	१९-१-२५	४-१०-५४
२	डाक्टर मोहनसिंह पुरोहित, जी० बी० बी० सी० एम० एस०, पीएच० डी०, १-१-२४, पाली	२१-७-४१	१६-८-५४
३	डाक्टर बलवीर कृष्ण सोनी, बी० बी० एस० सी०, एम० एस०, पीएच० डी०, ८-४-२८, गुरदासपुर (पंजाब)	३-१-५५	३-१-५५
४	श्री कृपा कृष्ण व्यास, जी० बी० बी० सी०, पी० जी० एफ०, आर० बी० सी० एस०, १५-६-२०, जोधपुर	१९-४-४३	२९-८-५५
५	श्री रतनसिंह सोलंकी, जी० बी० बी० एम० एस०, १६-४-१९१६, जोधपुर	१६-४-४१	१८-९-५५
६	श्री पी० एन० मेहरोत्रा, बी० बी० एस० सी० एण्ड ए० एच० एम० आर० सी० बी० एस०, १-७-२९, अचनेरा (आगरा)	१७-१२-५६	१७-१२-५६
७	श्री जे० एच० सोलंकी, बी० ए०, जी० बी० बी० सी०, १७-१-२०, बीकानेर	२७-६-४२	१६-८-५४
८	श्री ए० पी० आसोपा, बी० एससी०, जी० बी० बी० सी०, एलएल० बी०, पी० जी०, ४-६-१९२२, जोधपुर.	२०-४-४६	१६-८-५४
९	श्री मुंशी लाल, जी० बी० बी० सी०, बी० बी० एस० सी० एंड ए० एच०, १-२-२५, कुनेठा, (इटावा)	१४-७-५६	१४-७-५६

२८

एनिमल हस्वेंडरी कालेज, वीकानेर

वर्तमान पद	वेतन	विशेष
५	६	७
प्रिन्सीपल	१५००	स्थाई संविदा पर
प्रोफेसर ऑफ एनिमल हस्वेंडरी	५४०	
प्रोफेसर ऑफ फिजियोलॉजी	५२०	
प्रोफेसर ऑफ एनोटोमी	४८०	
प्रोफेसर ऑफ सरजरी एंड रेजीडेंट हाउस सर्जन	४५०	
प्रोफेसर ऑफ पथोलॉजी एंड बक्टीरियोलॉजी	४५०	
लेक्चरर ऑफ एनोटोमी	३५०	
लेक्चरर ऑफ बायोकेमिस्ट्री	३२५	
लेक्चरर ऑफ फार्माकोलॉजी	३००	

क्र० सं०	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१०	श्री पी० डी० माथुर, बी० एससी० (वेटे०), १५-१०-२५, जोधपुर	१-५-५१	१-११-५४
११	श्री सी० एस० माथुर, बी० वी० एस० एंड ए० एच०, २१-१०-२७, अजमेर	१९-२-५७	१९-२-५७
१२	श्री के० आर० लोढा, जी० बी० वी० सी०, जी० वी० पी०, ५-१-२५, जोधपुर	१४-४-४५	१६-८-५४

वर्तमान पद	वेतन	विशेष
५	६	७
लेक्चरर क्लोनिक्ल एंड प्रीवेनटिव मेडिसिन्स	३००	८-१२-५६ से लेक्चरर
लेक्चरर एनिमल न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स	३००	
लेक्चरर पेरिसिटालोजी	३००	८-१२-५६ से लेक्चरर

खण्ड

राजस्थान कृषि

क्रम सं०	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३
१	डा० अमरसिंह राठौड़, बी० एससी० (एग्री०), एम० एस०, पीएच० डी०, १-७-१९१३, मध्यभारत	१-७-१९५०
२	श्री घनेन्द्र गुप्ता, बी० एससी०, एम० एससी०, १०-३-२१, जोधपुर	२-३-१९४८
३	डा० राम मूरतसिंह, बी० एससी०, एम० एससी०, पीएच० डी०, १७-७-१९५४, जौनपुर (यू०पी०)	१८-११-१९५६
४	श्री चन्द्रप्रकाश त्रिवेदी, बी० एससी० (एग्री०), एम० एससी० (एग्री०), १५-५-१९२३ मुरादाबाद	१२-७-१९४७
५	सुश्री कुसुम राठौड़, बी० ए०, एम० एस०, १७-२-१८, जनागढ़	१५-७-१९५०
६	श्री कल्याणसिंह कुशवाहा, बी० एससी० (एग्री०), एम० एससी० (एग्री०-जुलोजी), २०-५-१९२४, गांव धूध, सवाई माधोपुर	१५-७-१९५०
७	श्री केदारनारायण, नाग, बी० एससी०, बी० एससी० (एग्री०), इन्जीनियरिंग, १०-११-१९२७, जयपुर	१६-५-१९५२
८	श्री प्रमोद बिहारीलाल, बी० एससी० (एग्री०), एम० एससी० (एग्री०-केमेस्ट्री), २-५-१९२५, फंजाबाद	८-११-१९५६
९	श्री देवीसिंह सारस्वत, बी० एससी०, एम० एससी० (एग्री०), २३-१-१९२६, तारापुर	१४-११-१९५६
१०	श्री रतनचन्द्र मेहता, बी० एससी० (एग्री०), एम० ए० (इकोनामिक्स), ११-४-३१, जयपुर	२-७-१९५४

२६

महाविद्यालय, उदयपुर

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
४	५	६
प्रिन्सिपल, ३-११-१९५५	६८०	
प्रोफेसर ऑफ एग्रीकल्चरल वोटैनी एण्ड प्लांट पैथोलोजी, १५-९-१९५६	४५०	
प्रोफेसर ऑफ एग्रोनोमी, ८-११-१९५६	५००	
लेक्चरर एग्रोनोमी, ८-८-१९५५	४४०	
लेक्चरर इन इकोनोमिक्स, स्टेटिस्टिक्स, फा मनेजमेंट एण्ड एक्सटेंशन, १८-८-१९५५	४२०	
लेक्चरर इन एग्रो० झूजी एण्ड एन्टोमोलोजी, ११-१२-१९५६	४००	
लेक्चरर इन एग्रो० इंजिनियरिंग, २६-११-५५	२७५	
लेक्चरर इन एग्रो० केमेस्ट्री, ८-११-१९५६	२५०	
लेक्चरर इन एनीमल हस्बेन्ड्री एण्ड डेयरींग १४-११-५६	२५०	
डिमान्स्ट्रेटर, ३०-३-१९५७	२००	

क्रम सं०	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३
११	श्री रामधर के० मुरालिया, बी० एससी० (एग्री०), १७-१०-१९३३, हूशंगाबाद (म० प्र०)	२७-७-१९५५
१२	श्री रामनारायणलाल मुरालिया, बी० एससी० (एग्री०), ७-१-१९३२, हूशंगाबाद (म० प्र०)	२९-७-१९५५
१३	श्री माधोसिंह, बी० एससी० (एग्री०), एम० एससी० (एग्री०), २५-४-१९३६, शंभपुरा	२०-७-१९५६
१४	श्री जगदेवसिंह ढालीवाल, बी० एससी० (एग्री०), बी०टी०, ५-९-१९२८, राजगढ़	९-११-१९५६

वर्तमान पद और दिनांक	वेतन	विशेष
४	५	६
डिमोन्स्ट्रेटर, २७-७-१९५५	१६०	
डिमोन्स्ट्रेटर, १९-८-१९५५	१६०	
डिमोन्स्ट्रेटर, २५-३-१९५७	२००	
डिमोन्स्ट्रेटर, ९-११-१९५६	२००	

खण्ड

ए० के० एन०

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान,	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३
१	डा० के० डी० बबोजा, १८-७-१८९६	
२	श्री जी० एस० सक्सेना, ५-११-१९२०	
३	श्री पी० सी० थापन, १-७-१९२८	
४	श्री बी० एस० राठौड़, २०-८-१९२४	
५	श्री वाई० एम० चक्रदेव, २५-५-१९०१	
६	श्री वी० के० कौल, १५-५-१९२२	
७	श्री ए० एम० माईकल, १७-६-१९३०	
८	डा० गजाधरसिंह, १-९-१९२४	
९	डा० वी० पी० श्रीवास्तव, १८-२-१९३१	
१०	श्री एम० के० सक्सेना, १०-७-१९३३	
११	श्री टी० पन्थ, २८-६-१९३२	
१२	श्री पी० डी० देवदासन, १-१-१९१५	

३०

एग्रिकल्चरल इन्सटीट्यूट, जोबनेर

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
४	५	६
प्रिन्सिपल	६०	
लेक्चरर, फिजिक्स एण्ड मैथामेटिक्स	९००	
लेक्चरर, ए० एच० एण्ड डी०	३४०	
लेक्चरर, एग्रिकल्चरल इकोनोमिक्स एण्ड स्टेटिस्टिक्स	३१०	
लेक्चरर, एग्रिकल्चरल केमेस्ट्री	२९५	
लेक्चरर, एग्रिकल्चरल बोटनी	२९५	
लेक्चरर, एग्रिकल्चरल इन्जीनियरिंग	२३०	
लेक्चरर, एग्रोनोमी	२५०	अस्थाई रूप में बतौर एग्रो नोमी के प्रोफेसर का कार्य कर रहे हैं।
लेक्चरर, एग्रिकल्चरल जिओलोजी एण्ड एन्टोमोलोजी	२५०	
लेक्चरर, इंगलिश एण्ड सोसियल स्टडीज	२१०	
डिमोन्स्ट्रेटर	२२०	
डिमोन्स्ट्रेटर	२२०	

खण्ड ३१

शिक्षा विभाग

अधिकारियों का वेतन

शिक्षा संचालक	अभ्युक्ति १०००-५०-१५००
उप-शिक्षा संचालक	} ५००-३०-७४० नि० वं० ३०-८००-५०-९००
विशेष शिक्षा अधिकारी (आयोजना)	
उप-संचालक (सामाजिक शिक्षा)	
स्कूलों के निरीक्षक	३००-२५-५५०-३०-७०० निरीक्षकों की केडर में सहायक शिक्षा संचालक, निरी- क्षक (आयोजना), विभागीय परीक्षाओं के रजिस्ट्रार, संस्कृत पाठशालाओं के निरीक्षक और स्कूलों के निरीक्षक सम्मिलित हैं ।
स्कूलों के उप-निरीक्षक और बेसिक एस० टी० सी० स्कूलों सहित हाई स्कूलों के प्रधानाध्यापक	२५०-१५-४०० नि० वं० २०-५००
बहुप्रयोजनीय और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के प्रधानाध्यापक	३००-२५-५५० नि० वं० ३०-७००
डिग्री कॉलेजों के व्याख्याता	२५०-१५-४०० नि० वं० २५-६००
इन्टरमीजिएट कॉलेजों के व्याख्याता	२००-१०-२८० नि० वं० १५-४००-२५-४५०
आचार्य	११०-५-१३५ नि० वं० १०-२२५
डिग्री कॉलेजों में प्रध्यापक	३००-२५-५५० नि० वं० ३०-७००
उस विषय के विभागाध्यक्ष जिसमें स्नात- कोत्तर शिक्षण होता है	५००-२५-७०० नि० वं० ३०-८५०
उन कॉलेजों के प्रिन्सिपल जिनमें स्नात- कोत्तर शिक्षण होता है	७००-५०-१२००

डिप्टी कॉलेजों के प्रिन्सिपल	५००-२५-७०० नि० बं० ३०-८५०
प्रिन्सिपल, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बीकानेर	
प्रिन्सिपल, इन्टरमीडिएट कॉलेजों और सादूल पब्लिक स्कूल, बीकानेर	३००-२५-५५० नि० बं० ३०-७००
प्रिन्सिपल, महाराजा संस्कृत कॉलेज, जयपुर	४००-२५-६५० नि० बं० ३०-८००
प्राध्यापक, महाराजा संस्कृत कॉलेज, जयपुर	२५०-१५-४०० नि० बं० २५-६००
व्याख्याता, महाराजा संस्कृत कॉलेज, जयपुर	१५०-१०-२२० नि० बं० १०-२५० १२१/२-३००
प्रिन्सिपल, गवर्नमेन्ट संस्कृत कालेज, अलवर तथा महाराजा संस्कृत कालेज, उदयपुर	२५०-१५-४०० नि० बं० २५-६००

शिक्षा

क्र. संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३
१	श्री राय धर्मधीर थापर, १९-६-२०, वेस्ट पंजाब	१५-१०-१९४९
२	श्री बलवंतसिंह स्याल, ९-१२-१९०९, यू० पी०	..
३	श्री आर० पी० श्रीवास्तव, १९-१२-१९०२, यू० पी०	१६-७-१९२७
४	श्री आर० जी० गुप्ता, १-१-१९०२, मुरादाबाद	३-८-१९२५
५	श्री उमाशंकर गौड़, अगस्त, १९०६, जोधपुर	२३-७-१९२९
६	श्री रामनारायण शर्मा, नवम्बर, १९०६, अलवर	६-९-१९२६
७	श्री एस० एम० सैय्यद, २८-१२-१९११, मेरठ	१-४-१९४६
८	श्री अब्दुल सत्तार खान, २-२-१९०९, अजमेर	२२-७-१९३३
९	श्री शम्भू दयाल भार्गव, १०-४-१९०३, गुड़गांव	१०-१-१९२७
१०	श्री नौरत्नमल अजमेरा, १८-११-१९१८, जयपुर	सितम्बर, १९४२
११	श्री खान मिर्जा, ३-२-१९०७, जोधपुर	८-६-१९२८
उपाध्यक्ष		
१	श्री बाल गोविन्द तिवारी, ४-२-१९०९, झालावाड़	३-११-१९४७
२	श्री शम्भूलाल शर्मा, ५-१-१९०९, उदयपुर	२१-८-१९३१
३	श्री मोहनलाल माथुर, ३०-९-१९०४, जयपुर	२८-७-१९२६
निरीक्षक राजकीय		
१	श्री सी० वी० शाह, १०-२-१२, अलीगढ़	१-११-३४
२	श्री एस० एन० ब्रह्मभट्ट, १-१०-१९०६, जयपुर	१८-७-२७

विभाग

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
४	५	६
अध्यक्ष, शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर, २१-४-५६	१,२५०	
अतिरिक्त शिक्षा अध्यक्ष, राजस्थान, बीकानेर, ३१-१०-५६	१,०००	यू०पी० सरकार से डेप्युटेशन पर
संयुक्त शिक्षा अध्यक्ष, राजस्थान, बीकानेर, अप्रैल, ५७	७५०	
उपाध्यक्ष, बेसिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर, १७-११-५६	५००	
उपाध्यक्ष, समाज शिक्षा अधिकारी, राजस्थान, बीकानेर, २३-२-५६	५००	
सहायक शिक्षा अध्यक्ष, राजस्थान, बीकानेर, नवम्बर, ५६	३००	
सहायक शिक्षा अध्यक्ष (योजना), राजस्थान, बीकानेर, २८-७-५६	३००	
उप-निरीक्षक (योजना) राजस्थान, बीकानेर, १-११-५६	२५०	
अकाउन्ट्स ऑफिसर, राजस्थान, बीकानेर, ४-१-५१	४००	
अकाउन्ट्स ऑफिसर (द्वितीय), राजस्थान, बीकानेर, १७-२-५६	२५०	
निजी सहायक, शिक्षा अध्यक्ष, राजस्थान, बीकानेर, ३-४-५६	३२५	
शिक्षा विभाग		
उपाध्यक्ष, शिक्षा विभाग, जयपुर, ७-२-५६	५००	
उपध्यक्ष, शिक्षा विभाग, जोधपुर, २३-८-५६	५६०	
उपाध्यक्ष, शिक्षा विभाग, उदयपुर, नवम्बर, १९५६	५३०	
पाठशालाएं		
निरीक्षक, बीकानेर	३४०	
निरीक्षक, चूरु, १-५-५५	३७५	

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३
३	श्री एम० सी० भट्टाचार्य, २-२-१९०७, वेस्ट बंगाल	१-४-५०
४	श्री रामचन्द्र कल्ला, २३-३-१९०९, जोधपुर	जुलाई, १९३०
५	श्री हेमेश्वर कुमार राय, २-१०-१९०५, कारवा कश्वर	३-८-२९
६	श्री जगदीश्वर दयाल नैश्य, ४-१२-१०, बीकानेर	२१-९-३७
७	श्री भगवती प्रसाद, २८-८-१९०७, जोधपुर	२६-६-२६
८	श्री गणेशचन्द्र चतुर्वेदी, २८-३-११, भरतपुर	६-८-३२
९	श्री आर० सी० माथुर, २१-११-१९०७, जयपुर	२४-७-३०
१०	श्री उमाशंकर दवे, १७-८-१४, बूंदी	१-४-३८
११	श्री किशनचंद, १८-८-१९०८, जयपुर	७-२-२७
१२	श्री गिरधीलाल, १-१-१९०८, कोटा	२७-८-२८
१३	श्री बी० डी० वृजवासी, १२-१२-१२, जयपुर	१५-७-३५
१४	श्री श्याम सुन्दर शंखधर, १-११-१९०३, मुरादाबाद	८-१२-३४
१५	श्री हरिहरलाल गुप्ता, ८-११-११, भरतपुर	१३-७-३६
१६	श्री किशनमुरारीलाल सक्सेना, ३१-१२-१९०७, अलवर	२-१२-३१
१७	श्री के० एन० के० शर्मा, २९-३-१२, साउथ कर्नाडा	११-११-४२
१८	श्री जुगल किशोर शर्मा, ४-७-१९०६, जयपुर	१४-२-३४
१९	श्री ए० वांकी, २१-२-१९०३	१६-८-२८
२०	श्री एस० एम० एल० श्रीवास्तव, २३-८-११, सीतापुर	८-९-३९
२१	श्री एन० एम० राव, १९-२-१९०७, अजमेर	७-३-११
२२	श्रीमती विष्णु माया कौल, २-१-१२, अजमेर	जुलाई, १९३९
	श्रीमती कमला पटवर्धन, ४-४-१२, जोधपुर	२-९-४०

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
४	५	६
निरीक्षक, गंगानगर, १-५-५५	३७५	
निरीक्षक, जोधपुर	३००	
निरीक्षक, नागौर, ७-७-५६	३२५	
निरीक्षक, उदयपुर	४५०	
निरीक्षक, भोलवाड़ा, १-५-५५	३००	
निरीक्षक, चित्तौड़	३६०	
निरीक्षक, जयपुर	३२५	
निरीक्षक, किशनगढ़, २८-६-५६	३८५	
निरीक्षक, टोंक, २२-८-५६	४००	
निरीक्षक, सीकर	३८०	
निरीक्षक, झुन्झुन	२९०	
निरीक्षक, अलवर	३५०	
निरीक्षक, भरतपुर	३१०	
निरीक्षक, करौली, १-५-५५	३७५	
निरीक्षक, संस्कृत पाठशाला, जयपुर, ५-३-५१	४५०	
निरीक्षक, रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाएं, जयपुर, ५-११-५३	४५०	
निरीक्षक, पाली, नवम्बर, १९५६	८००	
निरीक्षक, कंटा, १-५-१९५५	..	
निरीक्षक, अजमेर, नवम्बर, १९५६	६२५	
सहायक अध्यक्ष, शिक्षा विभाग, अजमेर, १-११-५६	५३०	
सहायक अध्यक्ष, शिक्षा विभाग, जोधपुर, जुलाई, १९५६	५००	

क्र. सं०	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३
		उप-निरीक्षक
१	श्री अहमदअली, १५-५-१५, जयपुर	१६-७-३९
२	श्री वी० डी० सिंह, १५-१-०७, जयपुर	१६-७-३८
३	श्री देवीसिंह, १५-११-०९	७-८-३५
४	श्री रघुनन्दन स्वरूप, १-१-०९, अलवर	१०-१२-३४
५	श्री ओमप्रकाश सिंगल, १९-१-१७, जयपुर	१-९-४३
६	श्री एम० जी० तिवारी, ११-२-०७, जयपुर	१५-७-२८
७	श्री वसीरुद्दीन, १२-१२-०५, डूंगरपुर	१४-८-२९
८	श्री सदाशंकर झा, ३१-११-०७, प्रतापगढ़	२९-१०-२९
९	श्री मोहनलाल पालोवाल, ३१-१-१८, कांकरोली	१८-१२-४०
१०	श्री ब्रह्मदेव शर्मा, ९-४-१५, अलीगढ़	१६-६-४४
११	श्री हरिकिशन व्यास, १२-१०-१२, जोधपुर	६-२-३२
१२	श्री मखनसिंह, ५-७-१७, गंगानगर	२२-७-३८
१३	श्री विश्वेश्वरदयाल, ३१-१-१०, मेरठ	१६-१०-३३
१४	श्री गणपतिसिंह, १५-३-१६, सिरोही	२७-३-३६
१५	श्री हंसराज, २-१-१६, गंगानगर	८-७-३९
१६	श्री नन्दलाल, १५-३-१८, जोधपुर	२३-८-३७
१७	श्री श्रीनाथ शर्मा, १७-४-११, जोधपुर	१७-७-३०
१८	श्री ओंकारलाल, ३०-१०-१०, उदयपुर	१८-१२-४०
१९	श्री राधेश्याम, ८-२-०८, उदयपुर	६-९-३६
२०	श्री गजानन्द झा, जून, १९०७, बिहार	४-७-२७

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
४	५	६
	६०	
राजक्रीय पाठशालायें		
उप-निरीक्षक, जालोर	३२०	
उप-निरीक्षक, बाड़मेर, ६-८-५६	३००	
उप-निरीक्षक, जंसलमेर, १-५-५५	३००	
उप-निरीक्षक, क्षालावाड़	२९५	
उप-निरीक्षक, झूगरपुर, ३-१०-५०	३१०	
उप-निरीक्षक, सिरोही, जुलाई, १९५६	..	
उप-निरीक्षक, बूंड़ी, जुलाई, १९५६	..	
उप-निरीक्षक, बांसवाड़ा, जुलाई, १९५६	..	
उप-निरीक्षक, कार्यालय उपाध्यक्ष, उदयपुर, १-५-५५	२६५	
उप-निरीक्षक, कार्यालय उपाध्यक्ष, जोधपुर, १-८-५५	२५०	
उप-निरीक्षक, कार्यालय उपाध्यक्ष, जयपुर	..	
उप-निरीक्षक, बीकानेर	२५०	
उप-निरीक्षक, चूरु	३२५	
उप-निरीक्षक, गंगानगर, १-४-५५	२५०	
उप-निरीक्षक, जोधपुर	२५०	
उप-निरीक्षक, पाली, १२-१-५६	२५०	
उप-निरीक्षक, उदयपुर, २०-७-५०	२५०	
उप-निरीक्षक, भोलवाड़ा	२५०	
उप-निरीक्षक, चित्तौड़, १८-१-५०	२६५	
उप-निरीक्षक, जयपुर	२५०	

क्र.सं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३
२१	श्री महेशचन्द्र भारद्वाज, १-८-१५, अलवर	१८-११-३५
२२	श्री मदनलाल श्रीवास्तव, २५-१०-१७, कोटा	१२-८-४०
२३	श्री बेरीसालसिंह, २१-९-१२, जयपुर	१०-८-४४
२४	श्री गोकुलचन्द सिद्ध, १६-५-१४, अलवर	२८-९-३४
२५	श्री सीतासहाय पारीक, १५-६-१९, जयपुर	४-९-४४
२६	श्री मोहिनीमोहन, ८-७-१३, किशनगढ़	१-२-४२
२७	श्री सवाईसिंह, १९-७-१२, जोधनेर	१७-११-३४
२८	श्री मूलराज माथुर, १-४-१३, जयपुर	९-७-४३
२९	श्री देवीप्रसद माथुर, १६-१०-०५, अजमेर	२८-१-५६
३०	श्री मोहनलाल माथुर, ४-८-०८	१३-८-३४
३१	श्री शिवप्रसाद शास्त्री, २१-८-०६, बीकानेर	९-१-३७
३२	श्री इन्द्रराज ३०-१२-०६, जोधपुर	२-५-५७
उप-निरीक्षिका		
१	सुश्री रोवर्ट, २७-९-१९, जयपुर	२-९-४४
२	सुश्री टी० महादेव, ३१-३-०९, ट्रावतकोर कोचीन	१०-१०-४६
३	सुश्री एस० सूरी, ७-११-२२, पंजाब	२५-८-४८
४	सुश्री एस० के० बालानी, १०-६-२०, हैदराबाद	२०-७-४८
५	सुश्री एस० टंका, १-४-२३	१५-७-४५
६	सुश्री शान्ती भण्डारी, ११-५-२५	२२-२-४०
७	सुश्री आर० चौधरी, १८-३-२३	२२-९-४५
८	सुश्री ई० डी० राजरीयां, ३०-११-२३	१-१०-४६

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
४	५.	६
उप-निरीक्षक, किशनगढ़, १९-७-५२	२६५	
उप-निरीक्षक, डोंक, ३१-१-५७	२६५	
उप-निरीक्षक, झुंझुनू	२८०	
उप-निरीक्षक, अलवर, २६-४-५५	२६५	
उप-निरीक्षक, करौली, १-७-४८	३१०	
उप-निरीक्षक, कोटा, १९५६	..	
उप-निरीक्षक, सीकर, सितम्बर, ५५	..	
उप-निरीक्षक, भरतपुर, जुलाई, १९५६	..	
उप-निरीक्षक, अजमेर, नवम्बर, ५६	२५०	
उप-निरीक्षक, अजमेर, १-१०-५६	..	
उप-निरीक्षक, संस्कृत पाठशाला, जयपुर, २२-१२-५३	..	
उप-निरीक्षक, संस्कृत पाठशाला, जयपुर, १९-७-५२	..	
शिक्षा विभाग		
उप-निरीक्षिका, भरतपुर, ३१-८-५५	२६५	
उप-निरीक्षिका, उदयपुर,	..	
उप-निरीक्षिका, चित्तौड़गढ़	..	
उप-निरीक्षिका, जोधपुर, १४-७-५६	..	
उप-निरीक्षिका, जयपुर, २४-९-५६	२५०	
उप-निरीक्षिका, बीकानेर, १०-१-५७	२५०	
उप-निरीक्षिका, कोटा, १०-११-५६	२५०	
उप-निरीक्षिका, अजमेर, २२-१०-५६	२५०	

डिप्टी तथा पोस्ट

महाराजा कालेज,

क्र.सं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३
१	श्री एस० डी० अरोड़ा (रसायन शास्त्र), एम० एससी०, पी एस० डी०, एल० टी०, १२-१२-१९०१, जोधपुर	२-११-१९२६
२	श्री आर० आर० कासलीवाल (राजनैतिशास्त्र), एम० ए०, पीएच० डी०, एम० ए० (इतिहास), एम० ए० २ (राजनैति शास्त्र, रा० वि०), पीएच० डी०, २-१०-१९१४, जयपुर	२३-१२-१९४६
३	श्री एस० जे० बी० माथुर (अंग्रेजी), एम० ए० ३, लखनऊ, बी० ए० (ऑनर्स, लंदन), एलएल० बी०, मथुरा, २५-३-१९०४	१-३-१९३०
४	श्री जे० एल० बनर्जी, एम० ए० १ (ढाका), ५-१-२०, ढाका	१७-७-१९४४
५	श्री जी० एल० जोशी, एम० ए० ३ (आगरा), एम० ए० २, रा० वि, २५-९-१९१७, सोकर	२-८-१९४५
६	श्री एल० आर० शर्मा, एम० ए० २ (आगरा), १५-१०-१९२३, नसौराबाद (अजमेर)	१६-७-१९४८
७	श्री पी० दयाल, एम० ए० ३ (आगरा), १५-१-१२, जोधपुर	२३-८-१९३३
८	श्री के० एल० शर्मा, एम० ए० १ (आगरा), एलएल० बी०, १०-१०-२२, सवाई माधोपुर	१६-८-१९४८
९	श्री काशी प्रसाद, एम० ए०, १३-११-२१	११-१-१९४५
१०	श्री डी० के० दत्ता, एम० ए०, १५-८-३६	६-२-१९५६
११	श्री पी० एस० चौहान. एम० ए०, २०-८-१९३०	७-७-१९५४
१२	श्री सरदारसिंह, एम० ए० ३, बी० कॉम २ (आगरा), ५-१-०९	३-९-१९३१
१३	श्री एम० पी० गर्ग, एम० ए० २ (बम्बई), १५-८-२२, जयपुर	१५-११-१९४६

ग्रेज्युएट कालेज

जयपुर

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
४	५	६
प्रिन्सिपल, ७-६-१९५१	६० ७५०	पुनर्नियुक्ति
वाइस प्रिन्सिपल, प्रमुख, राजनीति शास्त्र, १-४-१९५०	६७५ ७५ वि० वे०	
प्रोफेसर और प्रमुख, अंग्रेजी विभाग, १-४-१९५०	६२५	
लेक्चरर, अंग्रेजी विभाग, १-९-१९५०	३४०	
लेक्चरर, अंग्रेजी विभाग, १-४-१९५०	२६५	
लेक्चरर, अंग्रेजी विभाग, १-४-१९५०	२६५	
लेक्चरर, अंग्रेजी विभाग, १-४-१९५०	३१०	
लेक्चरर, अंग्रेजी विभाग, १-४-१९५०	३१०	
लेक्चरर, अंग्रेजी विभाग, १-४-१९५०	२८०	
लेक्चरर, अंग्रेजी विभाग, ६-२-१९५६	२५०	
लेक्चरर, अंग्रेजी विभाग, ७-७-१९५४	२६५	
प्रोफेसर एवं प्रमुख, अर्थशास्त्र विभाग, २०-७-५३	४००	
लेक्चरर, अर्थ शास्त्र विभाग, १-४-१९५०	२६५	

क्र.सं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३
१४	श्री जी० एस० शेखावत, एम० ए० (अर्थ शास्त्र), एलएल० बी०	२१-९-१९५३
१५	श्री सरनार्मासिंह शर्मा, एम०ए० १ (कलकत्ता), पीएच० डी० (राजपूताना), २५-१२-१७, शेखावाटी	१९-९-१९४५
१६	श्री मोतीलाल गुप्ता, एम०ए० १ (आगरा), पीएच० डी० (राजपूताना), अगस्त, ३३	जुलाई, १९४१
१७	श्री के०एस०तिवाड़ी, एम०ए० २ (राजपूताना), ५-६-१९	२१-९-१९४९
१८	श्री सत्येन्द्र चतुर्वेदी, एम० ए० २ (जयपुर), १४-२-३१	१-७-१९५५
१९	श्री ए० बी० माथुर, एम० ए० २, राजनीति (इलाहबाद), २१-१-१९२५, जयपुर	९-७-१९५१
२०	श्री पी० डी० शर्मा, एम० ए० (राजनीति शास्त्र, इतिहास), २४-६-१९३३, अलवर	१५-१-१९५५
२१	श्री सी० एम०जैन, एम०ए० (राजनीति शास्त्र), २-४-३२	१०-८-१९५५
२२	श्री भवानीसिंह, एम० ए० (राजनीति शास्त्र) २, ३०-३-३५, जयपुर	२-७-१९५६
२३	श्री बी० एस० भटनागर, एम० ए० (उर्दू) २, एम० ए०, फिलोसोफी ३, जयपुर, २३-६-०५	६-१०-१९३०
२४	श्री ए० यू० वसावडा, एम० ए० २, डी० लिट०, ११-१०-१२	१९-८-१९४५
२५	श्री आई० सी० शर्मा, एम०ए० २ (पंजाब), १५-३-२१, मुल्तान	९-७-१९४८
२६	श्री डी० एल० शर्मा, एम० ए० २, बी० ए० २, ओनर्स २, ९-३-१९१७, ढाका सिल्लेट	१-२-१९५०
२७	श्री पी० एल० भार्गव, एम० ए० २, संस्कृत (लखनऊ) एम० ए० हिन्दी (आगरा), शास्त्री १, पीएच० डी० (आगरा), १९-५, १९०९, जोधपुर	१८-९-१९३९
२८	श्री जी० सी० पाटनी, एम० एससी० १ (आगरा) पीएच० डी० (राजपूताना), १८-८-१८, जयपुर	१-९-१९४४

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
४	५	६
लेक्चरर, अर्थ शास्त्र विभाग, २१-९-५३	२६५	
प्रोफेसर एवं प्रमुख, हिन्दी विभाग, १-४-१९५०	५००	
प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, ७-७-१९५६	३२५	
लेक्चरर, हिन्दी विभाग, १-४-१९५०	३१०	
लेक्चरर, हिन्दी विभाग, १-७-१९५५	२००	
लेक्चरर, राजनीति शास्त्र, ९-७-१९५१	२६५	
लेक्चरर, राजनीति शास्त्र, १५-१-१९५५	२६५	
लेक्चरर, राजनीति शास्त्र, ७-७-१९५६	२५०	
लेक्चरर सोशियलस्टेडीज, १८-७-१९५६	२००	
प्रोफेसर व प्रमुख, उर्दू विभाग, १६-७-५०	५००	
प्रोफेसर, फिलोसोफी, १९-९-१९५६	५००	
लेक्चरर, दर्शन शास्त्र, ९-१०-१९५०	२६५	
लेक्चरर, दर्शन शास्त्र, १-४-१९५०	२६५	
प्रोफेसर व प्रमुख, संस्कृत विभाग, १३-७-१९५३	५७५	
प्रोफेसर व प्रमुख, गणित विभाग, १३-८-१९५३	५००	

क्र. सं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३
२९	श्री के० एन० मेहरा, एम० एससी० २ (आगरा), २-७-१९१७	१४-२-१९४४
३०	श्री एम० सी० गुप्ता, एम० एससी० १ (राजपूताना), १-१-१९२७, जयपुर	१४-८-१९४८
३१	श्री पी० डी० वर्मा, एम० एससी० १ (राजपूताना), ५-८-१९२८, अलवर	३-८-१९५३
३२	श्री के० एन० भट्ट, एम० ए०, १-१-१९३१, जयपुर	७-३-१९५३
३३	श्री के० एल० भार्गव, एम० एससी०, १५-४-१९२३, जयपुर	१२-३-१९५२
३४	श्री एल० एस० कोठ्यारी, एम० एससी० १ (राजपूताना), १-३-१९३३	१-७-१९५५
३५	श्री वी० एल० तालेकर, एम० एससी० १ (बनारस) पीएच० डी० (राजपूताना), ४-२-१९१६, वर्धा	२-१२-१९४०
३६	श्री जी० एल० गुप्ता, एम० एससी० १ (इलाहाबाद), पीएच० डी०, बरकत घम, ५-७-१९२७	२१-७-१९४२
३७	श्री एम० जी० भाटावडेकर, एम० एससी० १ (आगरा), पीएच० डी०, राजपूताना, ५-८-१९२३, जयपुर	१७-९-१९४५
३८	श्री वी० लाल, एम० एससी० २ (पंजाब), १०-३-१६, जयपुर	३०-१०-१९४७
३९	श्री जी० पी० मिश्रा, एम० एससी० २, एम० एस० आई० ई०, १६-१०-२४, लखनऊ	१७-७-१९४७
४०	श्री वी० एन० राय, एम० एससी० १ (जयपुर), ५-६-१९२५	१६-७-१९४८
४१	श्री पी० वी० बकोरे, एम० एससी० २ (राजपूताना), १५-१०-१९२८, जयपुर	१२-७-१९५१
४२	श्री एन० एल० वर्मा, एम० एससी० २ (आगरा), ११-८-१९२३, कोटा	१-३-१९५२

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
४	५	६
प्रोफेसर, गणित विभाग, १०-१०-१९५६	६०	
लेक्चरर, गणित विभाग, १-४-१९५०	४५०	
लेक्चरर, गणित विभाग, ३-८-१९५३	२९५	
लेक्चरर, गणित विभाग, ७-३-१९५३	२६५	
लेक्चरर, गणित विभाग, ९-१०-१९५४	२६५	
लेक्चरर गणित विभाग, १-७-१९५५	१२०	
प्रोफेसर व प्रमुख, भौतिकशास्त्र विभाग, २२-७-५३	१२५	
प्रोफेसर भौतिकशास्त्र विभाग, २२-७-१९५३	१७५	
लेक्चरर, भौतिकशास्त्र विभाग, १-४-१९५०	२८०	
लेक्चरर, भौतिकशास्त्र विभाग, १-४-१९५०	३१०	
लेक्चरर, भौतिकशास्त्र विभाग, १-४-१९५०	२८०	
लेक्चरर, भौतिकशास्त्र विभाग, १-४-१९५०	२८०	
लेक्चरर, भौतिकशास्त्र विभाग, १२-७-१९५१	२६५	
लेक्चरर, भौतिकशास्त्र विभाग, १-३-१९५२	२६५	

क्र.सं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३
४३	श्री बी० सी० मजुमदार, एम० एससी० २ (इलाहबाद), २७-१२-१९२७, पश्चिमी बंगाल	८-३-१९५१
४४	श्री सज्जनसिंह, एम० एससी०, एलएल० बी०, ९-२-२९, भीलवाड़ा	८-७-१९५३
४५	श्री टी० एल० दशोरा, एम० एससी०, एलएल० बी, १५-३-१९२७	२१-८-१९४८
४६	श्री एस० डी० माथुर, एम० एससी० २ (राजपूताना), १-९-१९३०, जयपुर	२५-२-१९५४
४७	श्री एम० सी० स्वामी, एम० एससी० २ (सागर), १४-२-२६ जयपुर	१५-९-१९५१
४८	श्री ओमेश नारायण सक्सेना, एम० एससी० २, पीएच० डी०, २१-२-१९२६, आगरा	२-९-१९५२
४९	श्री बी०एस०शिवपुरी, एम०एससी० २ (लखनऊ, १२-७-१९२७, जयपुर	१३-७-१९४९
५०	श्री जे० एम० श्रीवास्तव, एम० एससी०, १३-८-३०, भरतपुर	२६-१०-१९५३
५१	श्री ईश्वर प्रकाश, एम० एससी०, १७-१२-३१	८-७-१९५३
५२	श्री राजेन्द्र शंकर, एम०एससी०, २२-१०-३०, आगरा	१८-८-१९५४
५३	श्री बी० प्रसाद, एम०एससी० २, (बनारस), १०-१-१५, बनारस	२५-८-१९४८
५४	श्री एम० बिहारी माथुर, एम०एससी० २ (राजपूताना), १६-८-२७, जयपुर	३०-७-१९५३
५५	श्री जी० सी० शिवाहरे, एम० एससी०, २९-१०-२३, अजमेर	१२-८-१९४३
५६	श्री जे०एन० गौड, एम०एससी० २ (आगरा), पीएच० डी०, रा०ए०आर०आई०सी०, (लंदन), २०-२-१९२०, जयपुर	१३-१०-१९४३
५७	श्री एम०वी० सवन्स, एम०एससी० २ (आगरा), ३१-५-२३, मम्बई	१५-११-१९४८

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
४	५	६
लेक्चरर, भौतिकशास्त्र विभाग, ८-३-१९५१	२६५	
लेक्चरर, भौतिकशास्त्र विभाग, ८-७-१९५३	२६५	
लेक्चरर, भौतिकशास्त्र विभाग, ११-८-१९५२	२६५	
लेक्चरर, भौतिकशास्त्र विभाग, २५-२-१९५४	२६५	
लेक्चरर, भौतिकशास्त्र विभाग, १५-९-१९५१	२६५	
प्रमुख, जीव विज्ञान विभाग, ४-८-१९५६	३००	
लेक्चरर, जीव विज्ञान विभाग, १-४-१९५०	२६५	
लेक्चरर, जीव विज्ञान विभाग, २६-१०-१९५३	२६५	
लेक्चरर, जीव विज्ञान विभाग, २४-२-१९५६	२६५	
लेक्चरर, जीव विज्ञान विभाग, १८-८-१९५४	२६५	
प्रोफेसर, जियोलोजी भूगोल विभाग, १-४-१९५०	३२५	
लेक्चरर, जियोलोजी भूगोल विभाग, ३०-७-१९५३	२६५	
प्रोफेसर, रसायनशास्त्र विभाग, २९-१०-१९५३	३२५	
लेक्चरर, रसायनशास्त्र विभाग, १-४-१९५०	३४०	
लेक्चरर, रसायनशास्त्र विभाग, १-४-१९५०	२६०	

सं. क्रम	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३
५८	श्री पी० एन० वर्मा, एम० एससी०६ (लखनऊ), २७-१२-१९२३, फल्कवाबाद	५-११-१९४८
५९	श्री आर० एल० मित्तल, एम० एससी०२ (राजपूताना), पीएच० डी०, २७-८-२६, महेन्द्रगढ़ (पंजाब)	२४-१०-१९५०
६०	श्री एस० के० आर० पुरेन्दरे, एम० एससी० १ (आगरा), ५-८-१९२७, इन्दौर	२६-१०-१९५२
६१	श्री वी० पी० लवानिया, एम० एससी० २ (राजपूताना), १२-७-१९२९, बीकानेर	३-८-१९५३
६२	श्री ए० पी० भागवत, एम० एससी० १ (आगरा), ८-२-१९३०, मथुरा	२७-१-१९५४
६३	श्री एम० आर० भंडारी, एम० एससी० (राजपूताना), ११-६-१९३०	१४-७-१९५४
६४	श्री सी० एस० भंडारी, एम० एससी०, १४-७-३६	७-७-१९५६
६५	श्री हीरालाल मेहर, एम० एससी, बी० टी०, १९-७-३१	१२-१२-१९५५
६६	श्री एन० आर० खडकावत, एम० ए०, १७-१०-१९	१७-५-१९४८
६७	श्री वी० एस० माथुर, एम० ए० (इलाहाबाद), २५-१२-२७	१४-८-१९४८
६८	श्रीमती सुजेता चौधरी, एम० ए० इतिहास एवं राजनीति शास्त्र, १०-११-२४	२८-९-१९४८
६९	श्री एम० एम० सिंह, एम० एससी०, १-१-२१, बनारस	२७-११-१९५४
७०	श्री आर० एम० भंडारी, एम० एससी० २ (राजपूताना), एलएल० बी०, २९-१०-२२, जोधपुर	१६-८-१९४४
७१	श्री के० सी० जैन, एम० एससी० २ (आगरा), ४-५-२५, जयपुर	१७-८-१९४९

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
४	५	६
लेक्चरर, रसायनशास्त्र विभाग, १-४-५०	२६०	
लेक्चरर, रसायनशास्त्र विभाग, २४-१०-५०	२६५	
लेक्चरर, रसायनशास्त्र विभाग, ६-१०-५२	२६५	
लेक्चरर, रसायनशास्त्र विभाग, ३-८-५३	२६५	
लेक्चरर, रसायनशास्त्र विभाग, २७-१-५४	२६५	
लेक्चरर, रसायनशास्त्र विभाग, १४-७-५४	२६५	
लेक्चरर, रसायनशास्त्र विभाग, ७-७-५६	२००	
लेक्चरर, सामान्य विज्ञान, ७-७-५६	२००	
प्रोफेसर व प्रमुख, इतिहास विभाग, १-७-५६	६५०	
लेक्चरर, इतिहास विभाग, २१-७-५६	२८०	
लेक्चरर, इतिहास विभाग, १६-७-५५	२००	
प्रोफेसर, वनस्पतिशास्त्र विभाग, १९-३-५५	३५०	
लेक्चरर, वनस्पतिशास्त्र विभाग, १३-११-५०	२५०	
लेक्चरर, वनस्पतिशास्त्र विभाग, १-४-५०	२८०	

क्र.सं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३
१	श्री बी० डी० भार्गव, एम० ए०, बी० कॉम०, १-२-०९, जयपुर	१-८-१९३३
२	श्री डी० पी० गुप्ता, एम० ए० (इंग्लिश, इकोनामिक्स), बी० कॉम० १८-१०-१९१३, मथुरा	१७-८-१९४३
३	श्री बी० एल० अग्रवाल, एम० कॉम०, एलएल० बी०, विशारद, २९-९-१९२८, जयपुर	१४-७-१९५१
४	श्री बी० एल० अजमेरा, एम० कॉम०, २४-३-२४, जयपुर	१०-८-१९४८
५	श्री जी० पी० भार्गव, एम० ए०, बी० कॉम०, २६-१२-०८, बैरोज (अलवर)	२७-१०-१९३१
६	श्री आर० एस० उन्गयच, एम० ए०, बी० कॉम०, एलएल० बी०, ७-८-१९२१, जयपुर	५-१-१९४२
७	श्री के० एस० माथुर, एम० ए०, एम० कॉम०, २८-३-२३, अलवर	१०-७-१९४५
८	श्री एम० एम० गुप्ता, एम० कॉम०, एलएल० बी०, विशारद, ६-९-१९२५, जयपुर	१३-११-१९५२
९	श्री एस० सी० हाडा, एम० कॉम०, जयपुर, २३-८-१९२५	७-९-१९४९
१०	श्री एच० एल० जैन, एम० कॉम०, एलएल० बी० (प्रिवियस), २८-११-१९२३, अलवर	१-९-१९४८
११	श्री के० सी० जैन, एम० कॉम०, १२-११-१९२७, जयपुर	७-९-१९४९
१२	श्री बी० एस० माथुर, एम० कॉम०, एलएल० बी०, सितम्बर, १९२६, निवाई	२-१२-१९५३
१३	श्री एच० एम० माथुर, एम० कॉम०, एलएल० बी०, सितम्बर, २३, सांभर	१७-७-१९४७
१४	श्री एल० एस० पोरवार, एम० कॉम०, एलएल० बी०, २८-२-१९२७, अतरू	२४-४-१९५१

जयपुर

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
४	५	६
मन्सिपल, १-८-१९३३	६० ७००	
७-८-१९४३	३२५	
क्वचरार, कामर्स, १४-७-१९५१	२६५	
क्वचरार, कामर्स, १०-८-१९४८	२८०	
क्वचरार, कामर्स, २७-१०-१९३१	३४०	
क्वचरार, कामर्स, ५-१-१९४२	२८०	
क्वचरार, कामर्स, १०-७-१९४५	२९५	
लेक्चरार, कामर्स, १३-११-१९५२	२६५	
लेक्चरार, कामर्स, ७-९-१९४९	२८०	
लेक्चरार, कामर्स, १-९-१९४८	२९५	
लेक्चरार, कामर्स, ७-९-१९४९	२८०	
लेक्चरार, कामर्स, २-१२-१९५३	२६५	
लेक्चरार, कामर्स, १७-७-१९४७	२६५	
लेक्चरार, कामर्स, २४-४-१९५१	२६५	

क्रम सं०	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३
१५	श्री एच० सी० रारा, एम० कॉम०, एलएल० बी०, २४-९-२४, जयपुर	३०-१०-१९४४
१६	श्री एम० एल० शर्मा, एम० कॉम०, एलएल० बी०, १-७-२१, जयपुर	१३-१०-१९४३
१७	श्री एन० आर० सिंह, एम० कॉम०, ११-६-२५, परबतसर	२४-१०-५०
१८	श्री आर० बी० उपाध्याय, एम० कॉम०, १-४-३०, कालाढेरा	२२-३-१९५४
१९	श्री जे० बी० सिंह, एम० ए०, एलएल० बी०, ४-१-२१, जोधपुर	९-९-१९४६
२०	श्री एम० बी० गुप्ता, एम० ए०, भरतपुर	१-७-१९५५
२१	श्री टी० एन० चतुर्वेदी, एम० ए० (इंगलिश), बी० एससी०, साहित्यरत्न, १२-११-१९२९, बांदीकुई	२३-७-१९५३
२२	श्री बी० एस० शर्मा, एम० ए० (इंगलिश), साहित्यरत्न, १५-११-१९२७, अलवर	२३-४-१९५३

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
४	५	६
लेखरार, कामर्स, १-११-१९४७	२६५	
लेखरार, कामर्स, १३-१०-१९४३	३४०	
लेखरार, कामर्स, २४-१०-१९५०	२६५	
लेखरार, कामर्स, २२-३-१९५४	२६५	
लेखरार, कामर्स, ९-९-१९४६	३१०	
लेखरार, कामर्स, १-७-१९५५	२००	
लेखरार, इंगलिश, २३-७-१९५३	२६५	
लेखरार, इंगलिश, २३-४-१९५३	२६५	

राजकीय कालेज,

क्रम सं०	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३
१	श्री भीमसैन, एम० ए०, १४-२-१९०८, अजमेर	३०-८-३२
२	श्री रामेश्वर ओझा, एम० ए०, १५-११-०६, अजमेर	२८-१०-३२
३	श्री आर० एस० कपूर, बी० ए०, आनर्स (लन्दन), ११-६-१५, बीकानेर	१-२-४४
४	श्री भूपतिराव, एम० ए०, २८-१-१०	१-११-४३
५	डा० पी० एन० माथुर, एम० एससी०, पीएच० डी०, २०-३-१८	८-५-४६
६	श्री के० पी० हलदर, एम० एससी०, २९-१२-०९	२७-८-३२
७	श्री मिट्टनलाल गर्ग, एम० एससी०, २१-७-११	२६-७-३७
८	श्री बी० त्यागी, एम० एससी०, १३-८-२२	२४-७-४५
९	श्री पट्टा सेशाद्री, एम० ए०, १५-१०-०७	२४-११-२७
१०	श्री जे० एम० सिक्खेरा, एम० ए०, एलटी०, ५-९-०८	२६-७-४५
११	डा० बी० के० टन्डन, एम० ए०, बी० कॉम०, पीएच० डी०, ७-७-१६	९-८-४६
१२	श्री श्यामनारायण, माथुर, एम० एससी०, १-२-१९	१६-८-४४
१३	श्री डी० जो० मोघे, एम० एससी०, १३-६-२३	१-९-४५
१४	श्री ए० एन० पाराशर, एम० एससी०, २६-१२-२३	२५-७-४६
१५	श्री एन० पी० डेविड, एम० एससी०, १६-१-२४	२०-७-४६
१६	श्री नारायण मेवाराम भम्भानी, एम० ए०, १५-११-१२	२६-७-४८
१७	श्री एम० एल० मलहोत्रा, एम० ए०, १४-९-१५	२०-९-४८
१८	श्री श्यामलाल माथुर, एम० एससी०, २५-७-२८	१-९-४६

अजमेर

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
४	५	६
	६०	
भाचार्य, ३०-८-३२	७४०	
संस्कृत विभाग के अध्यक्ष, २८-१०-३२	७७०	
इतिहास विभाग के अध्यक्ष, १-२-४४	७१०	
गणित विभाग के अध्यक्ष, १-११-४३	५६०	
जूलोजी विभाग के अध्यक्ष, ८-५-४६	६५०	
केमिस्ट्री विभाग के अध्यक्ष, २७-८-३२	४५०	
फिजिक्स विभाग के अध्यक्ष, २६-७-३७	५३०	
बीटैनी विभाग के अध्यक्ष, २४-७-४५	३१०	
लेक्चरर, गणित, २४-११-२७	५१०	
लेक्चरर, अंग्रेजी, २६-७-४५	३१०	
लेक्चरर, वाणिज्य, ९-८-४६	३१०	
लेक्चरर, केमिस्ट्री, १६-८-४४	३१०	
लेक्चरर, फिजिक्स, १-९-४५	३१०	
लेक्चरर, बीटैनी, २५-७-४६	३१०	
लेक्चरर, केमिस्ट्री, २०-७-४६	३१०	
लेक्चरर, अंग्रेजी, २६-७-४८	३१०	
लेक्चरर, अंग्रेजी, २०-९-४८	३७०	
लेक्चरर, जूलोजी, १-९-४६	३१०	

क्र.सं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३
१९	डा० तेजसिंह, एम० एससी०, पीएच० डी०, ३-९-२७	२४-८-४९
२०	डा० एन० सी० सोगानी, एम० एससी०, पीएच० डी०, १७-८-२३	२५-८-४९
२१	श्री प्रेमनारायण माथुर, एम० एससी०, १६-४-२५	२४-८-४९
२२	श्री के० एम० कौल, एम० ए०, २५-७-०४	८-९-४९
२३	श्री हुकमचन्द जैन, एम० ए०, बी० फॉम०, एलएल० बी०, ९-७-२५	९-९-४९
२४	श्री ज्वालाप्रसाद माथुर, एम० एससी०, १७-७-२३	१२-९-४९
२५	श्री विष्णु अम्बालाल जोशी, एम० ए०, ८-७-१४	१२-९-४९
२६	श्री ओमप्रकाश भार्गव, एम० एससी०, २६-६-२९	१८-१-५१
२७	श्री संयद तहजीबुल हसन जैदी, एम० ए०, १२-८-२७	३०-७-५१
२८	श्री सुन्दरलाल सोगानी, एम० ए०, एलएल० बी०, १९-१-२२	२-८-५२
२९	श्री ज्योतिस्वरूप गुप्ता, बी० एससी०, एलएल० बी०, १७-८-१८	२७-९-५१
३०	श्री महेशकुमार भार्गव, एम० एससी०, २०-७-२८	९-८-५२
३१	श्री नरेन्द्रचन्द्र जोशी, एम० एससी०, १-७-२९	८-९-५२
३२	श्री ए० एम० घोष, एम० ए०, १-४-२७	१५-९-५२
३३	श्री जे० एन० महर्षि, एम० एससी०, ६-११-२९	६-१०-५२
३४	श्री एस० सी० भार्गव, एम० एससी०, ४-११-२९	८-८-५४
३५	श्री राघवेश्याम त्रिपाठी, एम० ए०, ९-९-२९	६-९-५४
३६	श्री हरकिशनलाल गुप्ता, एम० एससी०, १-७-२२	११-१०-४९
३७	सुश्री सिविल बेन्जामिन, एम० ए०, एलटी०, ८-१२-३१	१-८-५५
३८	श्री कंदारनाथ डुबे, एम० ए०, २-१-३०	२०-१०-५४

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
४	५	६
लेक्चरर, जूलोजी, २४-८-४९	३१०	
लेक्चरर, केमिस्ट्री, २५-८-४९	२९०	
लेक्चरर, बोटेनी, २४-८-४९	३१०	
लेक्चरर, पोलिटिक्स, ८-९-४९	३१०	
लेक्चरर, अर्थशास्त्र, ९-९-४९	२९०	
लेक्चरर, केमिस्ट्री, १२-९-४९	३१०	
लेक्चरर, हिन्दी, १२-९-४९	३१०	
लेक्चरर, केमिस्ट्री, १८-१-५१	२७५	
लेक्चरर, इतिहास, ३०-७-५१	३५०	
लेक्चरर, लॉज्, २-८-५२	२००	स्थाई
लेक्चरर, लॉज्, २७-९-५१	२००	स्थाई
लेक्चरर, फिजिक्स, ९-८-५२	२६०	
लेक्चरर, बोटेनी, ८-९-५२	२६०	
लेक्चरर, फिलोसोफी, १५-९-५२	२६०	
लेक्चरर, केमिस्ट्री, ६-१०-५२	२४५	
लेक्चरर, जूलोजी, ८-८-५४	२३०	
लेक्चरर, हिन्दी, ६-९-५४	२३०	
लेक्चरर, केमिस्ट्री, २-७-५५	२९०	
लेक्चरर, अंग्रेजी, १-८-५५	२००	
लेक्चरर, हिन्दी, ४-८-५५	२३०	

क्र.सं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३
३९	श्री सुनीलकुमार बनर्जी, एम०एससी०, १३-१०-३५	२७-८-५५
४०	श्री नरेशनाथ तगखा, एम० एससी०, १६-४-३५	१७-९-५५
४१	श्री संयद मजहर हुसैन, एम० एससी०, ११-९-३२	२८-९-५५
४२	श्री मदनसिंह, बी० ए०, एलएल० बी०, १९-९-१०	१७-३-५६
४३	श्री गोपालकृष्ण गुप्ता, एम० ए०, २०-१-२८	१३-८-५५
४४	श्री आर० डी० गोयल, एम०एससी०, १७-१०-३२	२८-१-५६
४५	श्री सिद्धनाथ मेहता, एम० एससी०, १०-६-३०	५-९-५६
४६	श्री रामकुमार आचार्य, एम० ए०, ५-९-१९	२८-१-५६
४७	श्री प्रेमशंकर भागंव, एम० एससी०, ११-२-३५	२८-१-५६
४८	श्री राजेन्द्रनाथ, एम० एससी०, २५-८-३६	६-९-५६
४९	श्री हरिशंकर भारद्वाज, एम० एससी०, २७-६-३०	८-९-५६
५०	श्री अशाकोप, एम० एससी०, १०-९-३५	८-९-५६
५१	श्री आलू ई० काका, एम० ए०, १३-३-३२	११-९-५६
५२	श्री सीताराम अग्रवाल, एम० ए०, २२-४-२३	११-९-५६
५३	श्री मदनमोहन शर्मा, एम०ए०, एलएल०बी०, २४-९-२४	२४-७-५०
५४	श्री महाराज नारायण कक्कड़, एम० ए०, १८-४-१३	२८-९-५६
५५	श्रीमती कान्ता ओझा, एम० ए०, ९-५-३४	२८-९-५६
५६	श्री स्वामीप्रसाद टंडन, एम० एससी०, ३०-६-३५	१-१०-५६
५७	श्री करनसिंह सेवरिया, एम० ए०, १७-८-३३	३१-१०-५६
५८	श्री चंनराज कोठारी, एम० ए०, २३-१०-३४	३१-१०-५६
५९	श्री जोदलकृष्ण गोयल, एम० एससी०, १०-१-३४	१३-९-५६

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
४	५	६
लेक्चरार, फिजिक्स, २७-८-५५	२१५	
लेक्चरार फिजिक्स, १७-९-५५	२१५	
लेक्चरार, केमिस्ट्री, २८-९-५५	२१५	
लेक्चरार, लाज्. १७-३-५६	२००	स्थाई
लेक्चरार, वाणिज्य, १३-८-५५	२००	
लेक्चरार, केमिस्ट्री, ४-९-५६	२००	
लेक्चरार, केमिस्ट्री, ५-९-५६	२००	
लेक्चरार, संस्कृत, ६-९-५६	२००	
लेक्चरार, फिजिक्स, ६-९-५६	२००	
लेक्चरार, केमिस्ट्री, ६-९-५६	२००	
लेक्चरार, फिजिक्स, ८-९-५६	२००	
लेक्चरार, अंग्रेजी, ८-९-५६	२००	
लेक्चरार, अंग्रेजी, ११-९-५६	२००	
लेक्चरार, अर्थशास्त्र, ११-९-५६	२००	
लेक्चरार, संस्कृत, १२-९-५६	२००	
लेक्चरार, हिन्दी, २८-९-५६	२००	
लेक्चरार, अर्थ शास्त्र, २८-९-५६	१००	
लेक्चरार, फिजिक्स, १-१०-५६	२००	
लेक्चरार, गणित, ३१-१०-५६	२००	
लेक्चरार. वाणिज्य, ३१-१०-५६	२००	
लेक्चरार, गणित, ८-११-५६	२००	

महाराणा भूपाल

क्र.सं.	नाम, जन्म दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३
१	श्री शंकरसहाय सक्तेना, एम० ए० (अर्थ शास्त्र), एम० कॉम०, ८-८-१९०४, बरेली (यू० पी०)	१२-७-४८
२	श्री जमरावसिंह भटनागर एम० ए० (अर्थ शास्त्र), १४-१०-१९०४, उदयपुर,	२०-१२-२८
३	श्री भेरूलाल धाकड़, एम० ए०, (अर्थ शास्त्र), १४-११-१७, उदयपुर	१-३-४७
४	श्री गंगाधर द्राचिड़, एम० ए० (अर्थ शास्त्र), ६-७-१७, जयपुर	१८-८-४५
५	श्री भगवतसिंह मुर्डिगा, एम० ए० (अर्थ शास्त्र), १६-१२-३३, उदयपुर	१०-७-५३
६	श्री नरोत्तमदास स्वामी, एम० ए०, (हिन्दी व संस्कृत) विशारद, (हि० सा० सं०), २-१-१९०५, बीकानेर	२९-८-२७
७	श्री विष्णुराम नागर, एम० ए० (हिन्दी, संस्कृत), १३-९-१६, उदयपुर	१३-७-४१
८	श्री कृष्णचन्द्र शं. त्रिय, एम० ए० (हिन्दी), बी०टी०, १४-१-०८, भीलवाड़ा	४-१०-२९
९	श्री राजकृष्ण दूगड़, एम० ए० (हिन्दी व अर्थ शास्त्र), सहित्यरत्न. (हि० सा० सं०). एलएल० बी०, १३-७-२४, वनडा	६-५-५२
१०	श्री ए० नटराज, बी० ए०, २-११-१९११, उदयपुर	२३-८-४६
११	श्री नृसिंहलाल भट्टा गाय, बी० ए०, एलएल० बी०, १-१-२१, उदयपुर	२९-९-५०
१२	श्री वसन्तीलाल सरूपरिया, बी० ए०, एलएल० बी०, १५-९-२७ भट्टानी चौहड़ा, उदयपुर	८-२-५६
१३	श्री चन्द्रसिंह नैनावटी, एम० ए० (राजनीति शास्त्र), १४-३-१९२७, उदयपुर.	३-३-५२

कालेज, उदयपुर

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
४	५	६
प्रिन्सिपल, १२-७-४८	६० ११००	
प्राध्यापक, अर्थ शास्त्र, १-७-४५	३५५	
प्राध्यापक, अर्थ शास्त्र, १-३-४७	२९५	
प्राध्यापक अर्थ शास्त्र, १८-८-४५	२८०	
प्राध्यापक, अर्थ शास्त्र, ५-९-५५	२००	
उपाचार्य प्राध्यापक और अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, १-८-२९	६७५	
प्राध्यापक तथा अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, २२-७-४४	३००	
प्राध्यापक, हिन्दी, ४-१०-२९	३४०	
प्राध्यापक, हिन्दी, ६-५-५२	२६५	
प्रोफेसर, कानून, २३-८-४६	६७५	
पार्ट-टाइम प्राध्यापक, कानून, २३-८-४६	२००	
पार्ट-टाइम प्राध्यापक, कानून, ८-२-५६	२००	
प्राध्यापक, राजनीति, ४-९-५१	२६५	

क्रम सं०	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३
१४	श्री वृजेन्द्रनाथ दवे, एम० ए० (फिलोसोफी तथा राजनीति शास्त्र), बी०टी०, १०-८-१०, उदयपुर	२४-१०-३३
१५	श्री गोपीनाथ शर्मा, एम०ए०, पीएच०डी०, ३-५-०९, उदयपुर	२१-७-३२
१६	श्री घासीराम परिहार, एम० ए०, (इतिहास, व राजनीति) बी० एड, ०२-७-२२, जोधपुर	२५-१-५२
१७	श्री इमामुद्दीन रिजवी, एम०ए०, बी०टी०, १-४-०४, उदयपुर	२०-११-२४
१८	श्री परमानन्द चौधरी, एम० ए०, जी० डी० आर्ट्स बम्बई, डी० टी० टी०, डिप्लोमा, (प्रिंटिंग, जयपुर), आर० डी० एस० (लन्दन), ५-१-२४, कोटा	११-७-४८
१९	श्री वृजराज चौहान, एम०ए०, एलएल०बी०, १-३-२७, उदयपुर	१०-९-४९
२०	श्री नागरमल सेहल, एम०ए०, एलएल०बी० ४-६-०९, जयपुर	६-१२-४६
२१	श्री जे० डबल्यू० हेनरी, एम०ए०, बी०टी०, १३-३-०९ उदयपुर	१४-७-४२
२२	श्री नियाज अहमद, एम०ए०, बी०एड०, ११-१-२०, बांसवाड़ा	१-१-४३
२३	श्री शान्तिस्वरूप शर्मा, एम० ए०, २६-२-२६, अजमेर	३०-१-५२
२४	श्री मदनगोपाल कपूर, एम०ए०, एलएल० बी० (प्रिवियस), १९-६-३४, अजमेर	९-७-५६
२५	श्री अशोककुमार जगधारी, एम० ए०, ११-३-३६, उदयपुर	२१-७-५६
२६	श्री श्यामस्वरूप कुलश्रेष्ठ, एम०ए० (अर्थ शास्त्र, व भूगोल), एलएल० बी०, बी० काम०, पीएच० डी०, १०-७-०४, कोटा	१-९-२९
२७	श्री चतुरभुज मेमोरिया, एम०ए० (जोग्राफी), एम० कॉम०, रिसर्च स्कॉलर, ११-११-२१, उदयपुर	८-८-४३
२८	श्री चैतन्यस्वरूप कुलश्रेष्ठ, एम० कॉम०, एलएल० बी०, १०-५-२६, कोटा	१५-९-४६

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
४	५	६
प्राध्यापक, राजनीति, २४-१०-३३	३००	
अध्यक्ष, इतिहास विभाग, २१-७-३२	५५०	
प्राध्यापक, इतिहास, २५-१-५२	२६५	
प्राध्यापक, उर्दू, २०-११-२४	४७५	
प्राध्यापक, चित्रकला, ११-७-४८	२९५	
प्राध्यापक, समाज शास्त्र, १०-९-४९	२७०	
अध्यक्ष, अंग्रेजी, ६-१२-४६	४२५	
प्राध्यापक, अंग्रेजी, १४-७-४२	२९५	
प्राध्यापक, अंग्रेजी, १-१-४३	२६५	
प्राध्यापक, अंग्रेजी, १४-७-५५	२६५	
प्राध्यापक, अंग्रेजी, ९-७-५६	२००	
प्राध्यापक, अंग्रेजी, १५-७-५७	२००	
प्राध्यापक, कामर्स, १-९-२९	५००	
प्राध्यापक, कामर्स, ८-८-४३	२९५	
प्राध्यापक, कामर्स, १५-९-४६	२९५	

क्र. सं०	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३
२९	श्री रामेश्वरदयाल सक्सेना, एम० ए०, (अर्थ शास्त्र), एम० कॉम०, १-४-१९२७, भोपाल	२३-११-४६
३०	श्री सुरेन्द्रदत्त बहुगुणा, एम० ए० (अर्थ शास्त्र), एम० कॉम०, १०-५-२४, गढ़वाल	९-७-५१
३१	श्री निरञ्जन लीलाराम हिंगोरानी, एम० कॉम०, २५-४-३२, उदयपुर	६-४-५४
३२	श्री नरोत्तमदास गुप्ता, एम० कॉम०, १-१-२९, जयपुर	७-३-५३
३३	श्री मोहनलाल जोशी, एम० कॉम०, ४-५-१७, उदयपुर	६-९-१५
३४	श्री प्रकाशचन्द्र त्रिपाठी, एम० कॉम०, एलएल० बी०, ७-६-३२, उदयपुर	८-८-५१
३५	श्री रामप्रसाद हुसाद, एम० कॉम०, १०-६-२६, जयपुर	३०-९-५३
३६	श्री रामेश्वर जिन्दल, एम० कॉम०, १३-८-२९, बाड़मेर	२८-९-५३
३७	श्री शिवचन्द्र दुबे, एम० एससी०, एलएल० बी०, ४-७-२३, उदयपुर	१७-११-४५
३८	श्री प्रेमनाथ लंगर, एम० एससी०, बी० टी०, एम० आर० एस० टी०, (लन्दन), १२-१०-५२, श्रीनगर	८-११-४८
३९	श्री रघुवीर शरण भार्गव, एम० एससी०, १३-८-२७, कोटा	१६-२-५२
४०	श्री मोहनलाल शर्मा, एम० एससी०, ४-१०-२९, बीकानेर,	५-८-५४
४१	श्री दीनदयाल भटनागर, एम० एससी०, एलएल० बी०, २५-६-३२, उदयपुर	१२-७-५६
४२	डा० एस० वेंकटाचार्य, एम० एससी०, पी.एच० डी०, १-१-१९, नरसापुर	२०-६-४९
४३	श्री रुद्रदत्त शुक्ला, एम० एससी० (वनस्पति), २१-५-३१, अजमेर	६-८-५७
४४	श्री राधाकृष्ण कौशिक, एम० एससी०, (जुलोजी), ४-४-१५, अजमेर	१६-७-४५

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
४	५	६
प्राध्यापक, कामर्स, २३-११-४६	२६५	
प्राध्यापक, कामर्स, १-७-५१	२५०	
प्राध्यापक, कामर्स, ६-४-५४	२६५	
प्राध्यापक, कामर्स, ७-३-५३	२६५	
प्राध्यापक, कामर्स, ४-९-५४	२५०	
प्राध्यापक, कामर्स, ५-२-५५	२००	
प्राध्यापक, कामर्स, ३०-९-५३	२४०	
प्राध्यापक, कामर्स, २८-९-५३	२५०	
अध्यक्ष, केमिस्ट्री, १-३-५५	३५०	
अध्यक्ष, केमिस्ट्री, ८-११-४८	२९५	
अध्यक्ष, केमिस्ट्री, १६-२-५२	२६५	
अध्यक्ष, केमिस्ट्री, ५-८-५४	२६५	
अध्यक्ष, केमिस्ट्री, १२-७-५६	२००	
अध्यक्ष, बायलोजी, २०-६-४९	४७५	
प्राध्यापक, वनस्पति, ६-८-५७	२००	
अध्यक्ष, जुलोजी, १६-७-४५	३७५	

क्र. सं०	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३
४५	श्री श्यामचन्द्र शर्मा, एम० एससी०, ११-११-२७, जोधपुर	१७-९-५१
४६	श्री तुलहंसिंह कोठारी, एम० एससी० (फिजिक्स), २५-४-१२ उदयपुर	११-७-४२
४७	श्री मदनलाल सोनी, एम० एससी०, ४-५-२५, देवगढ़	१७-३-५४
४८	श्री मुरतजा बेग, एम० एससी०, २१-११-३१, झालावाड़	३१-३-५६
४९	श्री रामकंवर जोशी, एम० एससी० (फिजिक्स), ९-४-३२, अलवर	२-७-५६
५०	श्री सी० वी० राठी, एम० एससी०, पीएच० डी०, १३-१-१२, अजमेर	६-७-४०
५१	श्री दर्शनसिंह, एम० ए०, ३०-१-३१, श्रीगंगानगर	२९-७-५७
५२	श्री कृष्णचन्द्र शर्मा, एम० एससी०, २०-९-२६, कोटा	२९-११-४८
५३	श्री जी० वी० डामले, एम० एससी०, २४-१०-२६, उदयपुर	१६-७-५१
५४	श्री मुकुन्द वामन चौधरी एम० एससी०, १०-९-२९, नागपुर	६-९-५५
५५	श्री नेमीचन्द्र जैन, एम० एससी०, २१-८-३१, जयपुर,	१५-९-५५
५६	श्री गणेशनारायण माथुर, एम० ए० (जोग्राफी व समाज शास्त्र) एलएल० बी०, २३-७-२५, अजमेर	२०-१२-४७
५७	श्री देवकीनन्दन चतुर्वेदी, एम० ए० (जोग्राफी), २६-१०-२७, फरोखाबाद	७-७-५६
५८	श्री मदनलाल झंवर, एम० एससी० (ज्यूलोजी), १५-७-३२, उदयपुर	९-८-५५
५९	श्री जनार्दनप्रसाद शर्मा, एम० ए० (समाज शास्त्र), १५-१-३०, भरतपुर	१-८-५७

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
४	५	६
प्राध्यापक, जूलोजी, १-२-५२	२६५	
अध्यक्ष, फिजिक्स, ११-७-४२	४५०	
प्राध्यापक, फिजिक्स, १७-३-५४	२६५	
प्राध्यापक, फिजिक्स, ३१-३-५६	२५०	
प्राध्यापक, फिजिक्स, २-७-५६	२५०	
अध्यक्ष, गणित, ६-७-४०	५००	
प्राध्यापक, गणित, २९-७-५७	२००	
प्राध्यापक, गणित, २९-११-४८	२६५	
ओफिशिएटिंग अध्यक्ष, ज्यूलोजी, १६-७-५१	२५०	
प्राध्यापक, ज्यूलोजी, ६-९-५५	२५०	
प्राध्यापक ज्यूलोजी, १५-९-५५	२५०	
अध्यक्ष, जोग्राफी, २०-१२-४७	५२५	
प्राध्यापक, जोग्राफी, ७-७-५६	२००	
प्राध्यापक, जनरल साइन्स. ९-८-५५	२००	
प्राध्यापक, समाज शास्त्र, १-८-५७	२००	

क्रम सं०	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३
१	श्री शिवराज बहादुर, एम० एससी० (प्राणि शास्त्र), २-१-१९०४, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	१२-६-१९२८
		प्राणि शास्त्र
२	डा० दयाकृष्ण माथुर, एम० एससी०, डी० फिल०, पी० एचडी०, एफ० जेड० एस०, १३-७-१६, जयपुर,	२१-८-१९४४
३	श्री मोहनसिंह राठोड़, एम०एससी०, १-५-१३, जयपुर	२८-६-१९४३
४	श्री किरणबिहारी माथर, एम०एससी०, २५-३-२५, मुरादाबाद	२६-९-१९४७
५	श्री ए० वी० कुरियन, एम०एससी०, २३-५-२७, कुड्डलो (केरला)	१९-२-१९५१
६	श्री चरतभास्कर मेनन, एम०एससी०, १९-७-२१ त्रिचूर,	२६-२-१९५१
७	श्री श्यामचन्द्र शर्मा, एम०एससी०, ११-११-२७, जोधपुर	१३-८-१९५३
		वनस्पति शास्त्र
८	डा० केदारमल गुप्ता, एम० एससी०, डी० एससी०, १०-२-१९१०, अजमेर	१-५-१९४२
९	श्री बोलाप्रागड़ा वेन्कटा, रतनम, एम० एससी०, २६-३-२२, मोरी, (पूर्वी गोदावरी)	१८-२-१९५२
१०	श्री हम्पापुर शैशागिरी नारायण, एम० एससी०, १२-३-२२, मंसूर	२५-१०-१९५०
११	श्री करगराज बाफना, एम० एससी०, ६-१-२५, सिरौही	१-२-१९५१
१२	श्री हरिश्चन्द्र आर्य, एम०एससी०, एसो०आई०ए० आर० आई०, २-७-२५, मैनपुरी,	८-२-१९५१
१३	श्री मदनमल भण्डारी, एम० एससी०, ३१-१-२९, जोधपुर	२९-१-१९५२

जोधपुर

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
४	५	६
प्रिन्सिपल, २६-६-१९५६	६० ८००	
विभाग		
अध्यक्ष और प्राध्यापक, प्राणी शास्त्र विभाग, २६-९-१९५१	५७५	
प्राध्यापक, २८-६-१९४३	३७५	
प्रवक्ता, २६-९-१९४७	२९५	
प्रवक्ता, १९-२-१९५१	२६५	
प्रवक्ता, २६-२-१९५१	२६५	
प्रवक्ता, १३-८-१९५३	२६५	
विभाग		
अध्यक्ष और प्राध्यापक, वनस्पति शास्त्र विभाग, ७-८-१९५३	५७५	
प्राध्यापक, १८-२-१९५२	४२५	
प्रवक्ता, २५-१०-१९५०	२६५	अध्ययन अवकाश पर
प्रवक्ता, १-२-१९५१	२६५	
प्रवक्ता, ८-२-१९५१	२६५	
प्रवक्ता, २९-१-१९५२	२६५	

क्र. सं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३

सामाजिक ज्ञान

१४	श्री दाऊदास हर्ष, एम० ए०, २३-१०-२९, जोधपुर	७-७-५६
१५	श्री दिनेशचन्द्र भारद्वाज, एम० ए०, १५-३-२६, उदयपुर	७-७-५६

रसायन शास्त्र

१६	डा० गणेश विश्वनाथ बकोरे, एम०एससी०, पीएच०डी०, ए० आर० आई० सी०, २५-१-१९४२, देवास	२९-१०-४७
१७	श्री इकवालचन्द्र गोड, एम० एससी०, १८-१०-१३, कनील	५-१०-४२
१८	श्री भवानीपुरी गोस्वामी, एम०एससी०, ३०-७-२५, अजमेर	११-९-४८
१९	श्री घिनायल राध.कृष्ण, एम०एससी०, ११-११-२७, त्रिचूर	२६-२-५१
२०	श्री नवलकिशोर, एम० एससी०, ५-८-३०, जोधपुर	६-१०-५३
२१	श्री कृष्णकान्त, एम०एससी०, डी० फिल०, १७-४-२९, इलाहबाद	११-११-५३
२२	श्री प्रोमदप्रकाश श्रीवास्तव, एम०एससी०, १८-२-३५, जोधपुर	७-७-५४
२३	श्री सीतल राजूप्रसादराव, एम०एससी०, १२-९-२८, पूर्वी गोदावरी	१३-९-५४
२४	श्री रामकृष्ण मेहता, एम०एससी०, ३-७-३२, उदयपुर	४-७-५५
२५	श्री भगतराम मित्तल, एम०एससी०, २९-१२-३०, श्री.कवाड़ा	२-३-५४
२६	श्री सत्यदेव भारद्वाज, एम०एससी०, १८-११-३२, मुन्झनू	२-७-५५
२७	श्री आत्मदेव गुप्ता, एम० एससी०, २४-८-३२, आगरा	१-१०-५६

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
४	५	६
विभाग	रु०	
प्रवक्ता, ७-७-१९५६	२००	
प्रवक्ता, ७-७-१९५६	२००	
विभागा		
अध्यक्ष और प्राध्यापक, रसायन शास्त्र विभाग, ७-७-५६	५००	
प्राध्यापक, ५-१०-१९४२	३२५	
प्रवक्ता, ११-९-४८	२८०	
प्रवक्ता, २६-२-१९५१	२६५	
प्रवक्ता, २०-२-५४	२६५	
प्रवक्ता, ८-९-१९५४	२६५	
प्रवक्ता, ७-७-५४	२६५	
प्रवक्ता, १३-६-५४	२६५	
प्रवक्ता, ४-७-५५	२६५	
प्रवक्ता, २१-७-५५	२६५	
प्रवक्ता, १८-११-५५	२६५	
प्रवक्ता, १-१०-५६	२००	

क्र० सं०	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३
२८	श्री विस्तूचन्द्र बेनर्जी, एम०एससी०, १६-२-२९, इलाहबाद,	८-१०-५६
२९	श्री जगदीश मित्रा लूथरा, एम० एससी०, ३०-११-३५, सिध,	७-७-५६
३०	श्री मुकन्दलाल भटनागर, एम०एससी०, १३-५-३०, जोधपुर	१-७-५५
३१	श्री जुगमन्दिर दास जैन, एम०एससी०, १७-१-३०, मेरठ	२२-१-५७
३२	डा० प्रभात चन्द्र दास, एम० ए०, पीएच० डी०, बी०एल०, १-३-१९०२, कलकत्ता	
३३	श्री दयालसिंह पंचार, एम०ए०, एलएल०बी०, २८-१०-२२, जोधपुर	२३-८-४६
३४	श्री गोविन्दलाल माथुर, एम०ए०, एलएल०बी०, २५-७-१९१४ जोधपुर	१-१०-३५
३५	श्री कृष्ण कुमार झूटसी, एम० ए० १२-११-३४, जयपुर	१९-९-५६
		गणित
३६	श्री वाजकराम गंगवार, एम०ए०, ११-१-०३, फर्रुखाबाद	१८-९-२८
३७	श्री श्याम सुन्दरलाल, एम० ए०, २१-३-१९२३, जोधपुर	१३-८-४६
३८	श्री रिखचन्द्र सिधवी, एम०ए०, एलएल०बी०, २४-३-२४, जोधपुर	२०-८-४८
३९	श्री शोभाय नारायण माथुर, एम०एससी०, १८-७-३०, जोधपुर	१२-७-५४
४०	श्री रामचन्द्र व्यास, एम० ए०, १४-७-२८, जोधपुर	९-२-५२
४१	श्री कान्त किशोर भार्गव, एम०ए०, २-५-३४, अजमेर	४-९-५६
४२	श्री राम किशोर सङ्गेना, एम०एससी०, ११-११-३६, जयपुर	१४-१२-५६
		कानून
४३	श्री श्रीचन्द्र थानवी, एम०ए०, एलएल०एम, ९-१०-१४, जोधपुर	८-८-४२

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
४	५	६
प्रवक्ता, ८-१०-५६	२००	
प्रवक्ता, ७-७-५६	२००	
प्रवक्ता, ५-२-१९५७	२६५	
प्रवक्ता, २२-१-१९५७	२००	
प्राध्यापक व अध्यक्ष, अंग्रेजी विभाग, २-८-१९५५	५५०	
प्रवक्ता, २३-८-१९४६	३१०	
प्रवक्ता, १-७-१९५४	३१०	
प्रवक्ता, १९-९-५६	२००	
विभाग		
प्राध्यापक और अध्यक्ष, गणित विभाग, १-४-४१	६५०	
प्राध्यापक, २-१-५५	३५०	
प्रवक्ता, ९-७-५५	२९५	
प्रवक्ता, १२-७-५४	२६५	
प्रवक्ता, १२-७-५६	२६५	
प्रवक्ता, ४-९-५६	२५०	
प्रवक्ता, १४-१२-५६	२५०	
विभाग		
उप-प्रिन्सिपल और अध्यक्ष, कानून विभाग, ८-८-४२	७५०	

क्रम सं०	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३
४४	श्री श्यामविहारीलाल शर्मा, एम०ए०, एलएल०बी०, १३-९-१९१३, जोधपुर	३०-८-४७
४५	श्री लेखराज, एम०ए०, एलएल०एम०, २-६-२१, जोधपुर	९-७-५१
४६	श्री लक्ष्मीनारायण छंगाणी, एम०ए०, एलएल०बी०, २०-१०-१९१०, जोधपुर	१-९-४७
४७	श्री चांदमल लोढा, बी० ए०, एलएल० बी०, १०-७-१८, जोधपुर	१-९-४७
४८	श्री महावीरचन्द भण्डारी, एम०ए०, एलएल०बी०, १७-७-१९२४, जोधपुर	१५-४-५३
भौतिक शास्त्र		
४९	श्री गोकुल प्रसाद राम प्रसाद निगम, एम०एससी०, १५-८-१९१८, धार	९-७-४५
५०	श्री हरिदत्त पुरोहित, एम० एससी०, १-४-२४, जोधपुर	१९-८-४७
५१	श्री प्रकाशमल माथुर, एम० एससी०, १२-११-२४, जोधपुर	१९-८-४७
५२	श्री घनराज गुप्ता, एम० एससी०, १५-१२-२८, जोधपुर	९-७-५१
५३	श्री हरिश्चन्द्र चतुर्वेदी, एम० एससी०, २५-१२-३०, भरतपुर	५-३-५२
५४	श्री प्रतापसिंह, एम० एससी०, ३०-१०-०९, फर्रुखाबाद	२४-७-४५
५५	श्री हनुमानसहाय शर्मा, एम० एससी०, १-८-३६, जयपुर	१६-१०-५४
५६	श्री सुरेन्द्रनाथ पुरोहित, एम० एससी०, १८-९-२५, जोधपुर	२१-९-४८
५७	श्री गोविन्दलाल गहलोत, एम० एससी०, ४-५-२९, जोधपुर	१८-७-५५
५८	श्री सुशीलकुमार, एम० एससी०, १-७-२६, जयपुर	१-१०-५५
५९	श्री दिनेन्द्रकुमार जैन, एम० एससी०, १३-६-३२, टोंक	१-७-५५

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
४	५	६
प्रवक्ता, पार्ट-टाइम, ३०-८-४७	२००	स्थायी
प्रवक्ता, ९-७-१९५१	२००	स्थायी
प्रवक्ता, १-९-४७	२००	स्थायी
प्रवक्ता, १-९-४७	२००	स्थायी
प्रवक्ता, १५-४-५३	२००	स्थायी
विभाग		
प्राध्यापक और अध्यक्ष, १४-७-५६	३००	
प्रवक्ता, १९-८-४७	३१०	
प्रवक्ता, १९-८-४७	२९५	
प्रवक्ता, ९-७-५१	२६५	
प्रवक्ता, ५-३-५४	२६०	
प्रवक्ता, १६-७-५४	३१०	
प्रवक्ता, १६-१०-५४	२५०	
प्रवक्ता, २१-९-४८		अमेरिका में ४ वर्ष के अध्ययन अवकाश पर
प्रवक्ता, १८-७-५५	२५०	
प्रवक्ता, १-१०-५५	२००	
प्रवक्ता, २५-८-५६	२५०	

सं क्रम १	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
	२	३
६०	श्री खुशीरबिहारी माथुर, एम० एससी०, ७-३-३६, अलवर	१४-११-५६ वनस्पति शास्त्र
६१	श्री परशोतमलाल मिश्र, एम० एससी० (वनस्पति), १९-१०-१९३२, नारनौल	१५-७-५६

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
४	५	६
प्रवक्ता, १४-११-५६	रु० २००	
विभाग		
प्रवक्ता, १५-७-५६	२००	

राजकीय महाविद्यालय

क्र. सं०	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३
१	डा० रामप्रताप सिंह, एम० ए०, डी० लिट०, १-२-०७, सूरपुर, जिला सुल्तानपुर (यू० पी०)	१-९-१९३२
२	श्री प्रवीनचन्द्र, जैन, एम० ए० (हिन्दी संस्कृत), शास्त्री तथा साहित्य-रत्न, १४-४-०९, जयपुर	१-८-१९३२
३	श्री हरीराम तिवारी, एम० ए० (हिन्दी), २-२-१२, चुंखी जालम, (यू० पी०)	१०-७-१९३८
४	श्री बाल गंगाधर, एम० ए० (हिन्दी), १२-२-२२, बूंदी	१-७-१९४५
५	श्री कन्हैयालाल शर्मा, एम० ए० (हिन्दी), साहित्य-रत्न, कनवास (कोटा)	१६-९-१९४८
६	डा० रघुनाथ प्रसादसिंह, एम० ए०, बी० कॉम, पी एच० डी०, १४-४-१३, सोतापुर	१-८-१९३३
७	श्री चन्द्रशेखर ओझा, एम० ए० (इकोनॉमिक्स), १५-३-२२, कोटा	२३-७-१९४६
८	डा० रामसहाय सक्सेना, एम० एससी०, पीएच० डी०, एस० एफ० आई० सी० एस०, ९-७-२९, कोटा	८-८-१९४४
९	डा० जे० पी० सक्सेना, एम० एससी०, पीएच० डी०, एफ० आई० सी० एस०, १९-१२-२७, कोटा	१-११-१९४९
१०	श्री० मुरलिमनोहर, एम० एससी०, १५-५-३०, जयपुर	८-८-१९५५
११	श्री चांदमल गुप्ता, एम० एससी०, १५-२-२६, देवली	..
१२	श्री सुजानसिंह गुप्ता, एम० एससी०, १६-८-३०	७-७-१९५६
१३	श्री श्रीकृष्ण एकबोटे, एम० एससी०, १-८-०२, कोटा	८-७-१९२५
१४	श्री शचिन्द्र कुमार, एम० एससी०, १९-३-२८, कोटा	१४-१०-१९५२
१५	श्री एस० के० वर्मा, एम० एससी०, एम० ए०, १-१२-२६, कोटा	१-८-१९५३

कोटा

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
४	५	६
आचार्य, २६-६-५६	६० ७००	
प्रोफेसर, हिन्दी, संस्कृत, १६-७-४३	६५० ७५	वि०वे० उप-आचार्य,
लेक्चरर, हिन्दी, १०-७-३९	३१०	
लेक्चरर, हिन्दी, १६-९-४९	२८०	
लेक्चरर, हिन्दी, २०-१२-५४	२८०	२४-९-४९, से स्थाई नियुक्ति ।
प्रोफेसर, इकोनोमिक्स, १०-७-५३	५७५	
लेक्चरर, इकोनोमिक्स, २३-७-४६	२९५	
प्रोफेसर, केमेस्ट्री, २-८-५५	५२५	
लेक्चरर, केमेस्ट्री, १-११-५०	२६५	
लेक्चरर, केमेस्ट्री, ८-८-५५	२१०	
लेक्चरर, केमेस्ट्री, ९-८-५४	२५०	
लेक्चरर, केमेस्ट्री, ७-७-५६	२००	
प्रोफेसर, फिजिक्स, १५-७-४५	५००	
लेक्चरर, फिजिक्स, १४-१०-५२	२६५	
लेक्चरर, फिजिक्स, १-८-५३	२६५	

क्र.सं०	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३
१६	श्री आर० आर० अग्रवाल, एम० ए०, ८-१०-०१, बीकानेर	२-७-१९२८
१७	डा० आर० सी० महेन्द्र, एम० ए०, पीएच० डी०, २-४-१९०२, कोटा	२३-७-१९४०
१८	श्री ल० डलीलाल शर्मा, एम० ए० (इंग्लिश, हिन्दी), बी० टी०, २५-१२-१९१७, झालावाड़	९-८-१९३८
१९	श्री एम० आर० भन्ना, एम० ए० (इंग्लिश), २०-४-२८, होशियारपुर (पंजाब)	१६-९-१९५६
२०	श्री फतहचन्द गुप्ता, एम० ए०, बी० कॉम०, ३-४-०९	२२-८-१९३८
२१	श्री ओ० पी० भार्गव, एम० ए०, (इकोनोमिक्स, इंग्लिश), बी० काम०, २-१०-१९१८	८-८-१९४२
२२	श्री जे० एस० सक्सेना, एम० ए०, एम० कॉम०, एल० टी०, २४-११-१९१७, यू० पी०	२२-८-१९४६
२३	श्री बी० एम० एल० भटनागर, एम० ए०, बी० कॉम०, २-२-१९१५, कोटा	२४-८-१९४६
२४	श्री एम० के० शर्मा, एम० कॉम०, एलएल० बी०, ३-१२-२८, जयपुर	९-२-१९५२
२५	श्री एस० सी० पाठक, एम० कॉम०, २-२-३६, भरतपुर	२०-७-१९५५
२६	श्री विसलचन्द जैन, एन० कॉम०, एलएल० बी०, साहित्य रत्न, १-८-१९२८	२८-११-१९५५
२७	श्री एस० एन० दुबे, एम० एससी०, एलएल० बी०, १२-५-१९१६, दिश उनाव	१-९-१९४२
२८	श्री सीभागमल माथुर, एम० ए०, १६-३-१९२६, जोधपुर	७-७-१९५२
२९	श्री राजेश शंकर, जोहरी, एम० एससी०, १०-१२-३५, जयपुर	११-१०-१९४४
३०	श्री पी० के० वंसल, एम० एससी०, १५-११-१९२०, जयपुर	१५-१०-१९४८
३१	श्री आर० एस० भटनागर, एम० एससी०, २-२-१९२६	२-८-१९५१
३२	श्री आर० बी० निगन, एम० एससी०, २०-१-१९२२	२१-९-१९४६

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
४	५	६
प्रोफेसर, फिलोसोफी, ३-१-५५	४००	
लेक्चरर, इंगलिश, २३-७-४०	३७५	
लेक्चरर, इंगलिश, १९-१२-५४	३१०	
लेक्चरर, इंगलिश, १९-१२-५४	२७०	
लेक्चरर, इंगलिश, १६-१-५६	२५०	
प्रोफेसर, कॉमर्स, २२-८-३८	४२५	
लेक्चरर, कॉमर्स, ८-८-४२	२२५	
लेक्चरर, कॉमर्स, २२-८-४६	२९५	
लेक्चरर, कॉमर्स, २४-८-४६	२९५	
लेक्चरर कॉमर्स, ९-७-५५	२५०	
लेक्चरर कॉमर्स, २०-७-५५	२१०	
लेक्चरर कॉमर्स, २८-११-५५	२००	अस्थाई
प्रोफेसर मेथ्स, ३-९-५२	४००	
लेक्चरर मेथ्स, ११-८-५३	२६५	
लेक्चरर मेथ्स, ७-७-५६	२२०	
प्रोफेसर बोटेनी, १५-१०-४८	३००	
लेक्चरर बोटेनी, २-८-५१	२६५	
प्रोफेस. जूलोजी, २१-९-४६	३२५	

क्र.सं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३
३३	श्री विजयनारायण, एम० एससी०, १-९ १९२६, अलवर	१६-९-५२
३४	श्री बलभद्रसिंह, एम० ए०, २-१-१९०८, बीकानेर	२७-२-३६
३५	श्री बी० एल० गौड़, एम० ए०, एलएल० बी०, २६-११-२८, मेरठ	१-११-५२
३६	श्री ओ० एन० मित्तल, मनोहर भवन, रानी बाजार, बीकानेर	३-९-५३
३७	श्री योगेश्वर हरि अलम्बेन, बीकानेर	३-९-५५
३८	श्री पी० बी० एल० माथुर, बी०एससी०, एलएल०बी०, कोटा	१५-११-४८
३९	श्री नाथूलाल जैन, एम० ए०, एलएल० बी०, कोटा	२८-२-५७
४०	श्री एस० डी० स्वामी, एम० ए०, संस्कृत आचार्य, साहित्य व्याकरण, वेदांत तथा सांख्य, २०-११-१४	१-८-४६
४१	श्री एस० एन० स्वामी, एम० एससी०, २-२-३०, बीकानेर	७-९-५३
४२	श्री डी० एन० उपाध्याय, एम०एससी०, २१-११-२९, कोटा	९-७-५१
४३	श्री एस० पी० भार्गव, एम० एससी०, २-१२-३३	७-७-५६
४४	श्री बी० डी० व्यास, एम० ए०, १६-१२-१९१९, बीकानेर	९-७-४०
४५	श्री पी० के० जैन, एम० ए०, कोटा	
४६	श्री सत्यभानु, एम० ए०, इतिहास, राजनीति, ५-३-१९३१	७-७-५६
४७	श्री पी० एन० गोयल, एम० ए०, जी० डी० आर्ट्स, (बम्बई), डी० टी० टी०, फाइन आर्ट्स डिप्लोमा, आर० डी० एस०, लन्दन, ५-१-२४, कोटा	११-७-४८
४८	श्री आर० एन० अप्रवाल, एम० ए०, ९-१-१९३४	२५-११-५५
४९	श्री बी० एल० पालीवाल, एम० एससी०, फिजिक्स, २३-६-२८	१३-७-५४
५०	श्री सी० एस० भट्टनागर, एम० एससी०, केमेस्ट्री, १२-४-१९२६, कोटा	१२-३-५१
५१	श्री मुकुटबिहारीलाल, एम० ए०, (कॉम०), बी० एल०, जोधपुर	१०-९-५५
५२	श्री डी० कृष्णामति, ९-१-१९२८	१२-३-५१

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
४	५	६
लेक्चरर, जूलोजी, १६-९-५२	२६५	
प्रोफेसर, राजनीति, २६-७-५६	३२५	
लेक्चरर, राजनीति, ९-७-५५	२००	
लेक्चरर इतिहास, ३-९-५३	२००	
लेक्चरर, जनरल साइन्स, १०-११-५६	२००	
पार्ट-टाइम लेक्चरर, कानून, १५-११-४८	२००	
पार्ट-टाइम लेक्चरर, कानून, २५-७-५७	२००	
लेक्चरर संस्कृत, ३-८-५३	२००	
लेक्चरर, केमेस्ट्री, ९-८-५४	२००	
लेक्चरर, फिजिक्स, ९-७-५१	२६५	
लेक्चरर, फिजिक्स, ७-७-५६	२००	
लेक्चरर, इंगलिश, १८-१०-५४	२७०	
..	..	स्थाना
लेक्चरर, इतिहास, राजनीति, ७-७-५६	२००	
लेक्चरर, ड्राइंग, ११-७-४८	२९५	
लेक्चरर, सोशियल स्टडीज, २५-११-५५	२००	
लेक्चरर, फिजिक्स, १३-७-५४	२००	
लेक्चरर, केमेस्ट्री, १२-३-५१	२६५	
लेक्चरर, कॉमर्स, १०-९-५५	२००	
लेक्चरर, केमेस्ट्री, १२-३-५१	२६५	

डूंगर कॉलेज

क्र. सं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३
१	श्री टी०सी०मेथु, एम०ए०(आक्सन), २०-११-०१, कोटायस	२४-८-३८
२	श्री एन०आर०वी०कृष्णाराव, एम०ए०, एलएल०बी०, १६-८-१९१०	२६-७-३५
३	श्री टी०डी०सुकर्जी, एम०ए०, बी०टी०, ६-८-०८, हुगली (पश्चिमी बंगाल)	२३-८-३५
४	श्री जे०डी०माथुर, एम०ए०, बी०टी०, १-१-१४, अलवर	१-८-३६
५	श्री शिवनाथसिंह, एम० ए०, एलएल० बी०, २०-२-२९, बीकानेर	३-८-५४
६	श्री कृष्ण कान्त अवस्थी	१७-६-५६
७	श्री खोहन बल्लभ पंत, एम०ए० (हिन्दी तथा संस्कृत), बी०टी०, २२-१०-१९०५, अलमोड़ा (उ० प्र०)	२७-९-४५
८	श्री लक्ष्मणदास व्यास, एम०ए०, बी०टी०, २१-३-१०, बीकानेर	२५-९-३०
९	श्री चंद्र देव शर्मा, एम०ए०, साहित्य रत्न, २०-१२-२२, बीकानेर	२२-७-४६
१०	श्री प्रेम निधि शास्त्री, एम०ए० (हिन्दी तथा संस्कृत) १२-१-१२, भरतपुर	१२-७-३७
११	श्री योगानन्द शर्मा, एम०ए०, शास्त्री, २२-१२-२१, भरतपुर	२७-९-४७
१२	श्री जगवंतसिंह खिची, एम०ए०, एलएल० बी०, १५-४-२०, बीकानेर	४-१२-४३
१३	श्री लालमल भटनागर, एम०ए०, १२-११-१०, कोटा	३-२-३६
१४	श्री घाजोराम परिहार, एम०ए०, २-७-२२, जोधपुर	२५-१-५२

रीकानेर

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
४	५	६
प्रधानाचार्य, २४-८-३८	७००-५०-१२००	
प्राचार्य, २६-७-३५	५००-२५-७०० ई० बी० ३०-८५०	
प्रवक्ता, २३-८-१९३५	२५०-१५-४०० ई० बी० २५-६००	
प्रवक्ता, १-८-१९३६	२५०-१५-४०० ई० बी० २५-६००	
प्रवक्ता, १०-९-५४	२५०-१५-४०० ई० बी० २५-६००	
प्रवक्ता, १७-६-१९५६	२००-१०-२८० ई० बी० १५-४००-२५-४५०	
प्राचार्य, २७-९-४५	५००-२५-७०० ई० बी० ३०-८५०	
प्रवक्ता, २५-९-३०	२५०-१५-४०० ई० बी० २५-६०	
प्रवक्ता	२५०-१५-४०० ई० बी० २५-६०	
आचार्य १२-७-३७	५००-२५-४०० ई० बी० ३०-८५०	
प्रवक्ता, २७-९-४७	२५०-१५-४०० ई० बी० २५-६०	
आचार्य, २४-१२-४३	३००-२५-५५० ई० बी० ३०-६०	
प्रवक्ता, ३-२-३६	२५०-१५-४०० ई० बी० २५-६०	
प्रवक्ता, २५-१-५२	२५०-१५-४०० ई० बी० २५-६०	

क्र. सं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३
१५	श्री जीवनासिंह मेहता, एम० ए०, ११-७-३२, उदयपुर	२१-७-५६
१६	श्री विशनसिन्हा, एम० ए० (अर्थ-शास्त्र), २४-१२-१९२०, अलवर	२५-९-४३
१७	श्री छैलविहारीलाल मायुर, एम० ए०, एलएल० बी०, १६-९-१९१९, जयपुर	७-३-५२
१८	श्री नरेन्द्र देव गौतम, एम० ए०, डी० एससी०, १२-३-१९२२, फोटा	४-९-४४
१९	श्री सोहनसिंह सीढी, एम० ए०, १-८-१९२५, श्री गंगानगर	१२-१०-४६
२०	श्री वी० आर० लूथरा, एम० ए०, १-१०-१९१९	२८-१-५०
२१	श्री गोपाल विहारो मायुर, एम० ए० (दर्शन शास्त्र), १२-४-१९२८, जयपुर	१-२-५२
२२	श्री नंदिपति भुकर्जी, एम० एससी०, बी० एल०, पटना, एफ० एस० सी० (लंदन) ए० आर० एल० आई० सी०, १४-१२-१९००, पटना	१-६-४०
२३	श्री ज्ञानेन्द्र भारद्वाज, एम० एससी०, १-४-१९१०, बंगोह(सहारनपुर)	१५-७-३७
२४	श्री डी० कृष्णानूर्ति, एम० एससी०, ९-१-१९२८, गंतूर	१२-३-५१
२५	श्री कैलाशप्रसाद भार्गव, एम० एससी०, १४-७-१९३२, जयपुर	२०-१०-५४
२६	श्री ज्ञानति स्वरूप शर्मा, एम० ए०, एम० एससी०, ३-६-१९०४, (वर्धा) जलन्धर	२४-८-३१
२७	श्री जगदीश नारायण कपूर, १८-७-१९२९, जयपुर	२१-९-५३
२८	श्री श्रुतिधर गुप्ता, एम० एससी०, ५-७-१९१७, सावर	२१-७-४२
२९	श्री नरेन्द्र प्रकाश वडेहरा, एम० एससी०, १५-९-१९३९, अम्बाला	४-११-५०
३०	श्री सूरज करण राठी, एम० एससी०, ९-७-१९१७, नतिरावाद	२०-९-४३

वर्तमान पद व दिनांक	वेतन	विशेष
४	५	६
प्रवक्ता, २१-७-५६	२००-१०-२८० ई० बी० १५-४००-२५-४५०	
आचार्य, २५-९-४५	५००-२५-७०० ई० बी० ३०-८५०	
प्रवक्ता, ७-३-५२	२५०-१५-४०० ई० बी० २५-६००	
आचार्य, ४-९-४४	५००-२५-७०० ई० बी० ३०-८५०	
प्रवक्ता, १२-१०-४६	२५०-१५-४०० ई० बी० २५-६००	
प्रवक्ता, २८-१-१९५१	२५०-१५-४०० ई० बी० २५-६००	
प्रवक्ता, १-२-५२	२५०-१५-४०० ई० बी० २५-६००	
आचार्य, १६-७-४५	३००-२५-५५० ई० बी० ३०-७००	
प्रवक्ता, १५-७-३७	२९०-१५-४०० ई० बी० २५-६००	
प्रवक्ता, १२-३-५१	२५०-१५-४०० ई० बी० २५-६००	
प्रवक्ता, २०-१०-५४	२००-१०-२८० ई० बी० १५-४००-२५-४५०	
आचार्य, २४-८-३१	३००-२५-५५० ई० बी० ३०-७००	
प्रवक्ता, २१-९-५३	२५०-१५-४०० ई० बी० २५-६००	
आचार्य, २२-७-५३	३००-२५-५५० ई० बी० ३०-७००	
प्रवक्ता, ४-११-५०	२५०-१५-४०० ई० बी० २५-६००	
आचार्य, २०-९-४३	३००-२५-५५० ई० बी० ३०-७००	

क्रम सं०	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३
३१	श्री कृष्ण बिहारीलाल शर्मा, एम० एससी०, १३-८-२४, भरतपुर	७-७-५३
३२	श्री हरिबाबू सक्सेना, एम० एससी०, ८-८-३५	१५-७-५६
३३	श्री एम० एल० सावनी, एम० ए० (अंग्रेजी), एल.एल० एम०, १०-५-१९१४	२७-९-४७
३४	श्री सत्य प्रकाश गुप्ता, एम० ए० (अर्थशास्त्र), एल.एल० बी०, १६-११-२०, बीकानेर	५-९-४७
३५	श्री नंदलाल व्यास, बी० ए०, एल.एल० बी०, १२-४-१९११, बीकानेर	११-९-४८
३६	श्री राजकुमार गोयल, एन० एस सी०, ७-१०-१९३१, कोटा	२१-६-५६

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
४	५	६
प्रवक्ता, ७-७-५३	रु० २५०-१५-४०० ई० बी० २५-६००	
प्रवक्ता, १५-७-५६	२००-१०-२८० ई० बी० १५-४०० २५-६००	
आचार्य, २७-९-४७	५००-२५-७०० ई० बी० ३०-८५०	
प्रवक्ता, पार्ट-टाईम, ५-९-४७	२००	स्थायी
प्रवक्ता, पार्ट-टाईम, ११-९-४८	२००	स्थायी
प्रवक्ता, २१-९-५६	२००-१०-२८० ई० बी० १५-४०० २५-४५०	

एस० डी० गवर्नमेन्ट

क्र० सं०	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होन का दिनांक
१	२	३
१	डा० आर० एन० बागची एम० ए० (अर्थशास्त्र), पीएच०डी०, लंदन, ११-३-१९१०, कृष्णागढ़ (प० बंगाल)	२१-७-४७
२	डा० आर० जी० सरिन, एम० ए०, बी० कॉम०, पीएच०डी०, १०-१२-१९१७, घौलपुर (राज०)	२०-१०-५६
३	श्री आर० वी० तोमर, एम० ए०, १-७-१९३१, देहली	४-१०-५६
४	श्री एम० पी० राय, एम० ए० (राजनीति) तथा (इतिहास), १३-२-१९२३, अजमेर	२८-७-५५
५	श्री एल० पी० माथुर, एम० ए० (इति०), ६-१०-१९२२, अजमेर (राजस्थान)	२८-७-५१
६	श्री एस० के० शुक्ल, एम० ए० (हिन्दी) तथा (संस्कृत), साहित्य-रत्न, साहित्य शास्त्री, काव्य-तीर्थ, १३-४-२३, प्रेमनगर, कानपुर (उत्तर प्रदेश)	१-८-५३
७	श्री एल० एन० उपाध्याय, एम० ए० भूगोल, एलएल०बी० (अलोगढ़), एम० ए० (भूगोल) (पंजाब), १-९-१९१९	१-११-५५
८	श्री ए० वी० जगन्नाथ, एम० एससी० (भौतिक-शास्त्र), १५-२-१९२४	३०-७-५१
९	श्री एस० के० दत्त०, एम० एससी० (रसायनशास्त्र), २४-७-२७, फतेहबाद, आगरा	१७-९-५६
१०	श्री हरिप्रसाद शर्मा, एम० एससी० (गणित), २०-९-१९, व्यावर (राजस्थान)	२५-७-१९४६ से १९-७-१९४८ १-९-१९४९
११	श्री बी० एन० लंडेलवाल, एम० कॉम०, एम० ए०, ४ अक्टूबर, १९२३ (राजस्थान जयपुर)	६-८-१९५५
१२	श्री ए० एन० खसौरिया, एम० ए० (अंग्रेजी), १०-१-१९३२, अजमेर (राजस्थान)	१-११-५५

कॉलेज, व्यावर

वर्तमान पद व दिनांक	वेतन	विशेष
४	५	६
कार्यवाहक प्रिंसिपल, १४-५-१९५६	६० ७००	
२०-१०-१९५६	७००	
४-१०-१९५५	७००	
प्राध्यापक राजनीति, २८-७-१९५५	२६५	
कार्यवाहक प्राध्यापक इतिहास, ४-८-१९५५	२६५	
हिन्दी-विभाग, ६-८-१९५५	२३०	आचिरकालिका
प्राध्यापक, भूगोल (डिप्टी) १-११-१९५६	२००	आचिरकालिका
प्राध्यापक भौतिकशास्त्र, ५-९-१९५६	३५०	
अध्यक्ष रसायन विभाग, प्राध्यापक, १७-९-१९५६	२६०	अचिरकालिका
अध्यक्ष गणित विभाग, प्राध्यापक, १-१०-१९५६	३१०	अचिरकालिका
प्राध्यापक वाणिज्य, ६-८-१९५५	२६५	
प्राध्यापक अंग्रेजी, १-११-१९५५	२३०	

क्र. सं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३
१३	श्री एन० के० शर्मा, एम० कॉम०, एम० ए० (अर्थशास्त्र), साहित्य भूषण, २८ अप्रैल, १९२९, अजमेर (राजस्थान)	१-११-५५
१४	श्री ओ० पी० शर्मा, एम० ए० (समाजशास्त्र), एलएल० बी०, प्रथम, २ मार्च, १९३१, व्यावर (राज०)	५-९-५६
१५	श्री एच० सी० गुप्ता एम० ए० (अर्थशास्त्र), एम० कॉम०, १-११-१९१७, व्यावर (राज)	२८-१-५६
१६	श्री जै० सी० ओझा, एम० ए० (अर्थशास्त्र), एम० कॉम०, एलएल० बी०, २२-१०-१९२२, व्यावर (राजस्थान)	२८-१-५६
१७	श्री एस० एस० शर्मा, एम० ए०, पीएच० डी० (हिन्दी), साहित्यरत्न, जनवरी १९२३, कोटा	५-९-५६
१८	श्री रामअहजा, एम० ए० (समाजशास्त्र), २ सितम्बर, २३, मुगलसराय, (उत्तरप्रदेश)	१३-९-५६
१९	श्री एस० आर० अग्रवाल, एम० ए० (अर्थशास्त्र) २४-४-२३, जयपुर	११-९-५६
२०	श्री आर० के० भार्गव, एम० ए० (गणित), आगरा, बी० एससी० (ईलाहाबाद), ३० जून, १९०७, व्यावर (राजस्थान)	२८-१-५६
२१	श्री टी० एम० मंगल, एम० ए० (भूगोल), बी० काम० १० सितम्बर, १९०७, व्यावर (राजस्थान)	२८-१-५६
२२	श्री आर० के० दानी, एम० ए० (हिन्दी), सी०टी० (आगरा), २५ मई, १९०८, व्यावर (राज०)	२८-१-५६
२३	श्री जी० एन० पीपावत, एम० ए० (अर्थशास्त्र), एम० कॉम०, सी० टी० (आगरा), १० मार्च, १९१३, व्यावर (राजस्थान)	२८-१-५६
२४	श्री के० एम० बाकलीवाल, एम० ए०, एम० कॉम०, साहित्य रत्न, ५-७-१९१७, व्यावर (राजस्थान)	२८-१-५६
२५	श्री एस० एस० त्रिपाठी, एम० ए०, साहित्यरत्न, २ जुलाई, ३४, व्यावर (राजस्थान)	६-११-५६
२६	श्री आर० के० वजाज, एम० कॉम०, एलएल० बी०, प्रथम भाग, १-७-३४, व्यावर (राजस्थान)	३०-१०-५६

वर्तमान पद व दिनांक	वेतन	विशेष
४	५	६
प्राध्यापक वाणिज्य, १ नवम्बर, १९५५	२००	
प्राध्यापक समाजशास्त्र, ५ सितम्बर, १९५६	२००	
कार्यवाहक प्राध्यापक वाणिज्य, ६ सितम्बर, १९५६	३१०	
कार्यवाहक प्राध्यापक, वाणिज्य, १४ फरवरी, १९५६	३१०	
प्राध्यापक हिन्दी विभाग, ५ सितम्बर, १९५६	२००	
प्राध्यापक समाजशास्त्र, १३ सितम्बर, १९५६	२००	
प्राध्यापक अर्थशास्त्र, ११ सितम्बर, १९५६	२००	
प्राध्यापक गणित शास्त्र, जुलाई, १९३१	३१०	
प्राध्यापक भूगोल, जुलाई, १९३६	३१०	
प्राध्यापक हिन्दी विभाग, जुलाई, १९४४	३१०	
प्राध्यापक अर्थशास्त्र, जुलाई, १९४४	३१०	
प्राध्यापक वाणिज्य, २४ मार्च, १९५७	२००	
प्राध्यापक संस्कृत, ६ नवम्बर, १९५६	२००	
प्राध्यापक वाणिज्य, ३० अक्टूबर, १९५६	२००	

क्र. सं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३
२७	श्री आर० एम० सारस्वत, एम० एससी० (रसायन शास्त्र), (आगरा), १७-६-३१, अजमेर (राजस्थान)	४-१०-५६
२८	श्री नवलसिंह, बी०ए०, डी०पी०ईडी०(बाम्बे), ए०ए० एफ० कम्प ए० ए०एफ०, ए०ए०एफ०, एन०सी०सी०, आफिसियल, १३-७-१९२४	२८-१-५६
२९	श्री इयामलाल साथुर, एम० एससी० (जीव-शास्त्र), २५-७-१९२८, आगरा	१-९-४६ से ५-४-१९४७, १९-१०-४८ से अभी तक
३०	श्री के० एल० गुप्ता, एम० ए० (अंग्रेजी), आगरा	२८-१-५६

वर्तमान पद व दिनांक	वेतन	विशेष
४	५	६
प्राध्यापक रसायन शास्त्र, ४ अक्टूबर, १९५६	२००	
पी० टी० आई०, २ जनवरी १९५१	१६८	
प्राध्यापक, जीव-शास्त्र, १८ अक्टूबर, १९४८	३१०	
प्राध्यापक अंग्रेजी, ३ सितम्बर, १९४९	५००	

लोहिया कॉलेज,

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३
१	श्री रामस्वरूप गुप्ता, एम०ए०, एल० सी०पी०, १-९-१९०८, गुड़गांव	२-१०-१९३४
२	श्री पन्नालाल नाग, एम० एससी० एल०टी०, १९ जनवरी, १८९९, कलकत्ता	..
३	श्री गिरीराज प्रसाद गुप्ता, एम०एससी०, १५ मई, १९२३, करौली (सवाईमाधोपुर)	२-८-१९४८
४	श्री जयन्ती प्रसाद भटनागर, एम० ए०, बी० कॉम०, ११ सितम्बर, १९११	१७-५-१९४१
५	डा० रामजीलाल मित्तल, एम० एससी०, २७ अगस्त, १९३५, महेन्द्रगढ़ (पेषसू)	२४-१०-१९५०
६	श्री देवीसिंह यादव, एम० कॉम०, १५ अगस्त, १९१५, रोहतक	१७-७-१९३९
७	श्री गोपाललाल माथुर, एम० एससी०, ९ सितम्बर, १९१६, जोधपुर	९-११-१९५३
८	श्री महेन्द्रसिंह भद्रावर, एम० एससी०, २० सितम्बर, १९२८, कोटा	२-२-१९५४
९	श्री छगनलाल सोनी, एम०ए०, एलएल० बी०, १०-१०-१९१०, सरवारसाहर	१३-७-१९३९
१०	श्री रामबली उपाध्याय, एम० कॉम०, १ मई, १९३०, जयपुर	२२-३-१९५४
११	श्री अजीतसिंह रणधावा, एम० एससी०, २५ मई, १९२८, कोटा	२-३-१९५४
१२	श्री रघुवीर सहाय कुलश्रेष्ठ, एम० ए०, एम० कॉम०, बी० एड०, १७ अक्टूबर, १९२१, कोटा	१९-८-१९४६
१३	श्री हरिविलास मिश्रा, एम० ए०, एलएल० बी०, ११ जुलाई, १९२३, कोटा	१४-८-१९४८

चूरी

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
४	५	६
प्रिन्सिपल, २-१०-१९३४	६५०	
अध्यक्ष, भौतिक शास्त्र विभाग, २५-८-५६	४७५-३-०	पुनर्नियुक्त
अध्यक्ष, गणित विभाग, २ अगस्त, १९४८	३२५	स्थानापन्न
अध्यक्ष, वाणिज्य विभाग, २७ जुलाई, १९४३	३००	स्थानापन्न
अध्यक्ष, रसायनशास्त्र विभाग, २४ अक्टूबर, १९५०	३००	स्थानापन्न
व्याख्याता, वाणिज्य विभाग, १७ जुलाई, १९३९	२८०	
व्याख्याता, गणित विभाग, ९ नवम्बर, १९५३	२५०	
व्याख्याता, रसायन शास्त्र विभाग, २ फरवरी, १९५४	२६५	
व्याख्याता, इतिहास विभाग, १३ जुलाई, १९३९	२८०	स्थानापन्न
व्याख्याता, वाणिज्य विभाग, २२ मार्च, १९५४	२६५	
व्याख्याता, भौतिकशास्त्र विभाग, २ मार्च, १९५४	२६५	
व्याख्याता, वाणिज्य विभाग, १९ अगस्त, १९४६	२६५	
व्याख्याता, राजनैतिक विज्ञान, १४ अगस्त १९४८	२९५	

क्रम सं०	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३
१४	श्री वेंकट शर्मा, एम० ए० (हिन्दी), एम० ए० (संस्कृत), ७-१२-१९२४, गंगाणी (जोधपुर)	६-५-१९५३
१५	श्री विष्णुचन्द्र, एम० ए०, १-६-१९३१, जि० जौनपुर (उत्तर प्रदेश)	१८-९-१९५४
१६	श्री हरिश्चन्द्र शर्मा, एम० ए०, एम० कॉम०, १४-३-१९२७, श्री गंगानगर	९-३-१९५६
१७	श्री चन्द्रप्रकाश अग्रवाल, एम० ए०, १७-१०-१९१५, राजगढ़ (चूरु)	३१-८-१९४२
१८	श्री ओमप्रकाश चावला, एम० कॉम०, १५-२-१९३४, गुजरानवाला (पाकिस्तान)	२३-३-१९५६
१९	श्री बलूचन्द्र पाठक, एम० ए०, ६-१०-१९३२, जयपुर	७-७-१९५६
२०	श्री मुहम्मद नजीरुद्दीन मिनाई, एम० ए०, १-१-१९२८, जयपुर	५-७-१९५४
२१	श्री धर्मेन्द्रसिंह, एम० एससी०, ५-११-१९२९, चूरु	४-९-१९५२
२२	श्री बृजमोहन शर्मा, एम० एससी०, ७-६-१९३४	५-८-१९५५
२३	श्री राजेन्द्र प्रसाद, एम० ए०, २५-५-१९३५	२८-९-१९५६
२४	श्री गणेशनारायण व्यास, एम० ए०, एलएल० बी०, १५-१-१९२८	१०-१२-१९५६

वर्तमान पद व दिनांक	वेतन	विशेष
४	५	६
व्याख्याता, हिन्दी विभाग, ६ मई, १९५३	२६५	स्थानापन्न
व्याख्याता, अंग्रेजी विभाग, १८ सितम्बर, १९५४	२६५	
व्याख्याता, वाणिज्य विभाग, ९ मार्च, १९५६	२६५	
व्याख्याता, अंग्रेजी विभाग, ३१ अगस्त, १९४२	२८०	स्थानापन्न.
व्याख्याता, वाणिज्य विभाग, २३ मार्च, १९५६	२६५	
व्याख्याता, संस्कृत विभाग, ७ जुलाई, १९५६	२००	अस्थायी
व्याख्याता, सामाजिक ज्ञान, ५ जुलाई, १९५४	२५०	अस्थायी
व्याख्याता, सामान्य विज्ञान विभाग, ४ सितम्बर, १९५२	२००	
व्याख्याता, जीव विज्ञान, ५ अगस्त, १९५५	२००	
व्याख्याता, अंग्रेजी विभाग, २८ सितम्बर, १९५६	२००	अस्थायी अस्थायी
व्याख्याता, अर्थशास्त्र विभाग, १० दिसम्बर, १९५६	२००	

राजन्वृषि कॉलेज,

क्र. सं०	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३
१	श्री वी० बी० गोयल, एम० ए०, एलएल०बी०, ७-१-०३, अलवर	२४-९-२८
२	श्री जे० एन० आसोपा, एम० ए०, एलएल० बी०, २१-२-२६, जोधपुर	२०-८-४८
३	श्री आर० के० माथुर, एम० ए०, (राज० शास्त्र), १-७-२५, कोटा	२०-८-५१
४	श्री वी० एल० दशोरा, एम० ए० (इतिहास), एम० ए० (राज० शास्त्र), १५-२-२४, उदयपुर	१२-७-४४
५	श्री देव शर्मा, एम० ए० (इतिहास), एम० ए० (राज०), वी० एड०, २५-७-२७, बीकानेर	७-८-५१
६	श्री शिव शंकर, एम० ए०, २८-१२-०३, अलवर	८-१०-३०
७	श्री आर० डी० भार्गव, एम० ए०, ५-७-२४, कोटा	१३-९-४८
८	श्री पी० सी०, जैन, एम० एससी०, १३-१-३५, अलवर	३०-८-५६
९	श्री एस० पी० तेजपाल, एम० ए०, वी० टी०, एलएल० बी०, ६-१०-१३, करौली (राजस्थान)	नवम्बर, ४०
१०	श्री एस० पी० माथुर, एम० ए०, १९-५-३०, जयपुर	७-७-५४
११	श्री जी० आनन्द, एम० ए०, २०-४-१६, वड़यानी (मध्यभारत)	११-११-४६
१२	श्री डी० पी० वान्चू, एम० ए०, २९-९-२८, देहली	२९-९-५३
१३	श्री पी० सी० जैमन, एम० ए०, २०-२-३०, वादीकुई	११-८-५३
१४	श्री जे० एन० कौल, एलएल० बी०, २-१-३४, जयपुर	११-१०-५३
१५	श्री एम० एल० गुप्ता, एम० एससी०, ३०-१-२४, भरतपुर	३०-८-४८
१६	श्री राम रघुनाथ, एम० एससी०, वी० टी०, १६-११-१९०१, अलवर	१-८-२६

अलवर

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
४	५	६
प्रधानाचार्य, ८-८-४८	८० ७३०	
प्राध्यापक, इतिहास, २०-८-४८	२८०	
प्राध्यापक राजनीति शास्त्र, २३-७-५३	२६५	
प्राध्यापक, राजनीति शास्त्र, ८-७-५४	२६५	
प्राध्यापक, राजनीति शास्त्र, २०-७-५५	२६५	
प्रोफेसर मेथेमेटिक्स, ८-१०-३०	४७५	
प्राध्यापक ५-४-५४	३६५	
प्राध्यापक, १६-७-५७	२००	
प्रोफेसर अंग्रेजी, ७-७-५५	४५०	
प्राध्यापक, ७-७-५४	२६५	
प्राध्यापक, २६-१-४७	२६५	
प्राध्यापक, १८-१२-५३	२३५	
प्राध्यापक, १९-१-५६	२६५	
प्राध्यापक, १०-१-५६	२५०	
प्रोफेसर, फिजिक्स, ३०-८-४८	४७५	
प्राध्यापक, ७-११-४९	३१०	

क्र. सं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३
१७	श्री एस० एस० गोयल, एम० एससी०, २५-११-२५, मुजफ्फरनगर	१६-२-५२
१८	श्री पी० वी० वर्मा, एम० एससी०, वी० टी०, १५-८-१९०९, कोटा	१-१२-३२
१९	श्री रघुवीर बिहारी, एम० एससी०, वी० एससी०, ७-३-३६, अलवर	१४-११-५६
२०	श्री पी० सिन्हा, एम० एससी० (बोटेंनी), एम० एससी०, (केमिस्ट्री), १-१-२४, अलवर	२४-८-४८
२१	श्री ए० कुमार, एम० एससी०, ३०-११-१८, इनसीन रंगून, डिस्ट्रिक्ट वर्मा	४-१-४५
२२	श्री एस० डब्लू० नारवरे, एम० एससी०, २५-९-२५, किशनगढ़, (जयपुर)	२४-१०-५०
२३	श्री वी० पी० भार्गव, एम० एससी०, १७-६-३०	६-१०-५२
२४	श्री एल० एन० व्यास, एम० एससी०, २४-१२-३०, जोधपुर	२८-८-५३
२५	श्री आर० पी० श्रीवास्तव, एम० एससी०, ७-१२-२९, जोधपुर	२१-९-५३
२६	श्री एच० एल० कक्कड़, एम० एससी०, २७-८-३२, जोधपुर	८-९-५५
२७	श्री आर० पी० तिवारी, एम० एससी०, ३१-१२-३१, आगरा	२१-९-५६
२८	श्री रामलाल सागल, एम० ए० (हिन्दी), एम० ए० (संस्कृत), १-९-१९०५, अलवर	३-१०-३०
२९	श्री जी० एल० जैन०, एम० ए०, ८-९-१९, अलवर	३०-७-४८
३०	श्री आर० सी० पुरोहित, एम० ए०, ५-६-२३, जयपुर	२१-३-५२
३१	श्री एस० डी० स्वामी, एम० ए० (संस्कृत), आचार्य ग्रामर साहित्य, २०-११-१४, जयपुर	१-८-४६
३२	श्री डी० पी० गुप्ता, एम० ए० (अंग्रेजी), एम० ए० (अर्थ शास्त्र), १८-१०-१९१३, लखनऊ	१७-८-४३

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
४	५	६
प्राध्यापक, १६-२-५२	२६५	
प्राध्यापक, ७-८-५४	२७०	
प्राध्यापक, १६-२-५७	२००	
प्रोफेसर केमिस्ट्री, २४-८-४८	४७५	
प्राध्यापक, ४-१-४५	३२५	
प्राध्यापक, २४-१०-५०	२६५	
प्राध्यापक, ६-१०-५२	२६५	
प्राध्यापक, २८-८-५३	२१०	
प्राध्यापक बायोलोजी, २१-९-५३	२५०	
प्राध्यापक बायोलोजी, ८-९-५५	२००	
प्राध्यापक सामाजिक विज्ञान, २१-९-५६	२००	
प्रोफेसर हिन्दी, ३-१०-३०	५००	
प्राध्यापक, ३०-७-४८	२९५	
प्राध्यापक, २०-७-५५	२६५	
प्रोफेसर संस्कृत, १-८-४६	३००	
प्रोफेसर वाणिज्य, १७-८-४३	३२५	

क्रम सं०	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३
३३	श्री सी० डी० अवस्थी, एम० ए० (अर्थ शास्त्र), बी० कॉम०, ८-२-१९०६, लखनऊ	११-११-१९३०
३४	श्री महेश नारायण माथुर, एम० ए०, बी० टी०, बी० कॉम०, २०-१०-२६, अलवर	१६-१०-१९३५
३५	श्री पी० एस० सूद, एम० ए० (अर्थ शास्त्र), बी० काम, १२-७-१९२६, अलवर	१-९-१९४८
३६	श्री एम० एल० शर्मा, एम० कॉम, २६-५-१९२७, भरतपुर	१३-३-१९५६
३७	श्री पी० एन० माथुर, एलएल० बी, ५-११-१९२६, जयपुर	२९-७-१९५०
३८	श्री डी० एस० शर्मा, एम० कॉम०, एलएल०बी०, ४-७-१९३१, जयपुर	४-१०-१९५६
३९	श्री जी० आर० शर्मा, एम० ए०, एलएल० बी०, १५-१-१९१४, बीकानेर	१०-८-१९४५
४०	श्री बी० एन० शर्मा, एम० ए०, एलएल० बी०, १०-५-१९१३, अलवर	१०-८-१९३५
४१	श्री टी० एन० चतुर्वेदी, एम० ए०, बी० कॉम०, ६-८-२८, कोटा	५-३-१९५२
४२	श्री डी० शास्त्री, एम० ए० (अर्थ शास्त्र), बी० ए०, ४-७-१९३२, जयपुर	२-७-१९५६
४३	श्री जी० के० शर्मा, एम० ए०, १-७-१९२५, मथुरा	१०-८-१९५५

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
४	५	६
प्रोफेसर-वाणिज्य, २२-७-५७	४००	
प्राध्यापक, १६-१०-३५	२९५	
प्राध्यापक, १-९-४८	२९५	
प्राध्यापक, १२-३-५६	२५०	
प्राध्यापक, २७-८-५४	२६५	
सीट हेड इन्सपेक्टर, ४-१०-५६	२००	
प्रोफेसर अर्थ शास्त्र, १६-७-५३	३७५	
प्राध्यापक, १४-७-४५	२९५	
प्राध्यापक, २८-७-५५	२६५	
प्राध्यापक, २-७-५६	२००	
प्राध्यापक, १०-८-५५	२६५	

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३
१	श्रीमती सावित्री भारतीय, एम० ए०, बी० टी०, २७-१-१९१४, अजमेर	१८-३-३८
२	श्रीमती शीलवती गुप्ता, एम० ए०, १२-१-१९०८, जयपुर	१६-७-४३
३	कुमारी आर० पद्मिनी, एम० ए०, एम० एससी०, १-१२-१९१५	१-८-४४
४	कुमारी के० के० तरवे, एम० ए०, २०-२-१९१४ गया, (बिहार)	२८-८-४४
५	कुमारी हेमलता प्रभु, एम० ए०, २३-४-१९२०, मद्रास	२१-८-४४
६	श्रीमती विमला कोहली, एम० ए०, २६-११-१९२६, देहली	२-११-५०
७	कुमारी शोभना बनर्जी, एम० ए०, १७-७-२५, बंगाल	२५-८-४८
८	श्रीमती सीता हांडा, एम० ए०, १-३-१९२१, गंगानगर	७-७-५३
९	कुमारी कमला जुत्सी, एम० ए०, एम० एससी०, १३-१२-१९३०, जयपुर	७-७-५३
१०	कुमारी आर० आर० सक्सेना, एम० ए०, १२-१०-१९३०, जयपुर	२७-८-५३
११	कुमारी सुशीला मिश्रा, एम० ए०, १६-१०-१९२९, जयपुर	२८-८-५३
१२	कुमारी पुष्पा खन्ना, एम० एससी०, ३-१२-१९२९, जयपुर	९-३-५४
१३	श्रीमती कमला भंडारी, एम० ए०, १५-२-१९२८, उदयपुर	२७-७-४९
१४	श्रीमती रमा कोचर, एम० ए०, एल एल० बी०, १५-११-१९२४, गंगानगर	२३-७-४८
१५	कुमारी श्याम कुमारी वली, एम० ए०, ४-११-१९३४, जयपुर	१-७-५५
१६	कुमारी सत्यवानी कौसल, एम० एससी०, १३-२-१९३१	७-७-५५
१७	कुमारी रोनिका मालवीय, एम० ए०, बी० ईडी०, ३-१२-१९२५, जयपुर	३१-८-४६

जयपुर

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
४	५	६
प्रिंसिपल, १५-११-१९४८-	२० ७९७	
प्रोफेसर, ७-३-१९५५	३५५	
प्रोफेसर, ६-७-५३	३७५	
प्रोफेसर	३७५	
प्रोफेसर, ६-७-५३	३७५	
प्रोफेसर, ५-११-१९५६	३००	
लेक्चरर, २५-८-४८	२८०	
लेक्चरर, ७-७-५३	२६५	
लेक्चरर, ७-७-५३	२६५	
लेक्चरर, २७-८-५३	२६५	
लेक्चरर, २८-८-५३	२६५	
लेक्चरर, २-३-५४	२५०	
लेक्चरर, २१-१०-५४	२६५	
लेक्चरर, १५-१-५५	२६५	
लेक्चरर, १-७-५५	२६५	
लेक्चरर, ७-७-५५	२६५	
लेक्चरर, १४-९-५५	२६५	

क्र. संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	वासकीय-सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३
१८	कुमारी कुलदीप कुमेदान, एम० ए०, बी० टी०, २-८-१९२३, फिरोजपुर (पंजाब)	१४-८-१९४७
१९	श्रीमती डा० एस० रस्तीगी, एम०, बी० बी० एस०, २-३-१९१६, जयपुर	१-३-१९४६
२०	कुमारी कृष्णा स्वरूप, एम० ए०, २०-१२-१९३०, मुल्तान (पूर्वी पंजाब)	१-७-१९५५
२१	कुमारी प्रतिभा माथुर, एम० ए०, जयपुर	..
२२	कुमारी इन्दु माथुर, एम० ए०, २८-८-१९३६, नगीना	७-७-१९५६
२३	कुमारी इन्दिरा अग्रवाल, एम० ए०, १५-११-१९२३, जालन्धर	९-७-१९५६
२४	कुमारी शान्ति शर्मा, एम० एससी०, १९-७-१९३३	७-७-१९५६
२५	श्रीमती सुदक्षना वर्मा, एम० ए०, १-३-१९१०, बाराबंकी (यूपी०)	२४-८-१९३६
२६	कुमारी एल० एम०, जैकब, एम० ए०	७-७-१९५०
२७	कुमारी सरला माथुर, एम० ए०	२२-११-१९५६
२८	कुमारी सुनिता सैन, एम० ए०, १-१२-१९३५, लाहौर	२२-११-१९५६
२९	कुमारी यशोदा वर्मा, एम० ए०, २-३-१९३५, अजमेर	११-१-१९५७
३०	श्रीमती सरला श्रोवर, एम० ए०	..

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
४	५	६
लेक्चरर, २४-१-५६	२९५	
लेक्चरर, १-७-५५	२००	फुल टाइम
लेक्चरर, १-७-५५	२५०	
लेक्चरर, ६-७-१९५६	२१०	
लेक्चरर, ७-७-१९५६	२००	
लेक्चरर, ९-७-१९५७	२००	
लेक्चरर, ७-७-१९५६	२००	
लेक्चरर, १४-७-१९५७	२६५	
लेक्चरर, १२-११-५६	२६५	
लेक्चरर, २२-११-५६	२००	
लेक्चरर, २२-११-५७	२००	
लेक्चरर, ११-१-५७	२००	
..	..	

महाराणी श्री जया

क्र. संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३
१	डा० शारदा प्रसाद कौशिक, एम० एससी०, पीएच० डी०, ७-८-१९०६, बीकानेर	७-८-३१
२	श्री कृष्ण किशोर मर्हण, एम० कॉम०, १९-८-१९२२, अलवर	३-११-४८
३	श्री रामानन्द तिवारी, एम० ए०, डी० फिल०, दर्शन शास्त्री, ३-८-१९१९, जि० एटा	२६-८-४७
४	श्री कृष्ण लाल भटनागर, एम० ए०, अंग्रेजी, १५-९-१९०९, व्यावर	९-८-३५
५	श्री प्रभात कुमार मजुमदार, एम० ए०, इतिहास एवं राजनीति-शास्त्र, ९-३-१९२३, कोटा	३०-७-४६
६	श्री ब्रह्मानन्द शर्मा, एम० ए०, संस्कृत, एलएल० बी०, १०-२-१९२३, श्री गंगानगर	२६-७-४६
७	श्री हरसहाय सक्सेना, एम० ए०, अंग्रेजी, २५-१२, १९२२, भरतपुर	३१-७-४४
८	श्री ब्रह्म स्वरूप श्रीवास्तव, एम० कॉम०, एम० ए०, अर्थ शास्त्र, २८-५-१९२३, लखनऊ	१२-११-४५
९	श्री वसन्तलाल जैन, एम०एस सी०, १३-१२-१९१३, भरतपुर	८-१२-४५
१०	श्री रामानन्द गोयल, एम० कॉम०, विशारद, ७-६-१९२१, मेरठ	३०-८-४६
११	श्री गुरुदत्त सिंह सोलंकी, एम० ए०, हिन्दी, ११-१२-१९१८, भरतपुर	११-९-४६
१२	श्री हुक्म चन्द चतुर्वेदी, एम० ए०, अर्थ शास्त्र, ३-२-१९१०, भरतपुर	१३-१२-३०
१३	श्री विशन लाल माथुर, एम० कॉम, ११-५-१९२२, भरतपुर	२६-१०-४५
१४	श्री रामचन्द्र जैन०, एम० ए०, अंग्रेजी, २१-३-१९२७, भरतपुर	४-९-४८

कॉलेज, भरतपुर

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
४	५	६
प्रिंसिपल एवं अध्यक्ष, गणित विभाग, १६-७-५६	६७५	रु०
प्राध्यापक एवं अध्यक्ष, वाणिज्य एवं अर्थ शास्त्र विभाग, ३-११-४८	४७५	
प्राध्यापक एवं अध्यक्ष, दर्शन शास्त्र विभाग, १३-७-५३	३७५	
कार्यवाहक प्राध्यापक एवं अध्यक्ष, अंग्रेजी विभाग, १-१२-५४	३५०	
प्राध्यापक एवं अध्यक्ष इतिहास एवं राजनीति शास्त्र, ३०-७-४६	२९५	
कार्यवाहक प्राध्यापक एवं अध्यक्ष, हिन्दी और संस्कृत विभाग, २६-७-४६	२९५	
प्रवक्ता, अंग्रेजी, ३१-७-४४	३१०	
प्रवक्ता, वाणिज्य, १२-११-४५	२९५	
प्रवक्ता, भौतिक शा.त्र, ८-१२-४५	२७०	
प्रवक्ता, वाणिज्य, ३०-८-४६	२६५	
प्रवक्ता, हिन्दी, ११-९-४६	२४०	
प्रवक्ता, अर्थ शास्त्र, २३-६-४७	२९५	
प्रवक्ता, वाणिज्य, २३-९-४७	२९५	
प्रवक्ता, अंग्रेजी, ४-९-४८	२९५	

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३
१५	श्री कुंज बिहारी लाल गुप्ता, एम० ए०, राजनीति शास्त्र एवं हिन्दी, ८-५-१९१५, भरतपुर	६-९-३४
१६	श्री राम सरन सिंह, एम० एससी०, एलटी०, १-७-१९१५, मथुरा	३-३-४९
१७	श्री गंगाधर भट्ट, एम० ए०, संस्कृत और हिन्दी शास्त्री, साहित्यरत्न, १-१-१९२७, अलवर	१५-१-५२
१८	श्री महावीर राज गेलरा, एम०एससी०, २०-३-१९३३, जोधपुर	२-७-५५
१९	श्री गोपीचन्द्र वर्मा, एम० ए०, इतिहास एवं राजनीति शास्त्र, १८-२-१९१६, जयपुर	२३-१-५२
२०	श्री दीवानचन्द्र जैन, एम० काम०, ५ ७-१६३१, अलवर	१-५-५२
२१	श्री देवीचन्द्र टी० चान्दवानी, एम० एससी०, २४-७-१९३२, शिकारपुर	३१-८-५५
२२	श्री गंगासिंह नत्थावत, एम० एससी०, ३-१-१९२१, पचकोडिया, जयपुर	१७-३-५६
२३	श्री गोकुल प्रकाश शर्मा, एम० ए०, अर्थ शास्त्र, एलएल० बी०, ५-८-२५, जयपुर	१४-३-५२
२४	श्री भगवत सिंह मुड़िया, एम० ए०, अर्थ शास्त्र	५-९-५५
२५	श्री तिलोक्तनाथ अदालती, एम० ए०, गणित, एलएल० बी०, ३-१२-१९२३, श्रीनगर	९-८-५४

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
४	५	६
प्रवक्ता, राजनीति शास्त्र, २९-१२-४८	२८०	
प्रवक्ता, रसायनशास्त्र, ३-३-४९	२९५	
प्रवक्ता, संस्कृत, २-८-५४	२६५	
प्रवक्ता, रसायन शास्त्र, २-७-५५	२१०	
प्रवक्ता, इतिहास, ११-७-५५	२५०	
प्रवक्ता, वाणिज्य, ७-३-५६	२६५	
प्रवक्ता, भौतिक शास्त्र, १३-३-५६	२१०	
प्रवक्ता, जीव-विज्ञान विभाग, १७-३-५६	२१०	
प्रवक्ता, अर्थ शास्त्र, १४-३-५२	२५०	
प्रवक्ता अर्थ शास्त्र, ६-१०-५६	२००	
कार्यवाहक प्रवक्ता गणित शास्त्र, ९-८-५४	२८०	

श्री महाराज कुमार

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३
१	श्री आर० के० त्रिपाठी, एम० ए०, १-२-१९०१, कानपुर	१२-७-१९२६
२	श्री जे० एस० जेमन०, एम० ए०, ५-२-१९०७, अलवर	१६-११-१९३३
३	श्री पी० एस० श्रीवास्तव, एम० ए०, ८-७-१९२०, झालावाड़	२४-७-१९४३
४	श्री मुरारीलाल, एम० ए०, १२-१-१९१४, बुलंदशहर	८-८-१९३८
५	श्री पी० एस० श्रीवास्तव, एम० ए०, १८-२-१९०७, जोधपुर	१०-८-१९४४
६	श्री जी० के० व्यास, एम० ए०, २१-११-१९१९, जोधपुर	२३-७-१९५१
७	श्री एम० एल० केवलिया, एम० ए०, ६-४-१९२१, जोधपुर	३०-१-१९५२
८	श्री डी० एल० माथुर, एम० ए०, ४-१२-१९२०, जोधपुर	२५-७-१९५१
९	डा० एस० एन० गुप्ता, एम० ए०, पीएच० डी०, १०-६-१९०६, अमरोहा	२१-७-१९३०
१०	श्री एम० एल० जिज्ञासू, एम० ए०, बाली	३०-८-१९४७
११	श्री जी० सी० भन्डारी, एम० ए०, १४-९-१९१३, जोधपुर	१५-७-१९३६
१२	श्री एन० सी० सिधवी, एम० ए०, १-१-१९२५, जोधपुर	४-१२-१९४५
१३	श्री कल्याण भारती, एम० ए०, ५-६-१९२८, कोटा	१-७-१९४४
१४	श्री एस० डी० दरासरी, एम० ए० एम, १५-१-१९१९, भीलवाड़ा	१६-७-१९४८
१५	श्री एज० एन० पुरोहित, एम० ए०, १-७-१९१८, जोधपुर	२४-९-१९४२
१६	श्री भगवतस्वरूप, एम० ए०, ३०-९-१९२८, धौलपुर	१७-९-१९५१
१७	श्री जी० आर० के० शर्मा, एम० ए०, १-७-१९२५, कानपुर	१७-३-१९५२
१८	डा० आर० एन० चौधरी, एम० ए०, पीएच० डी०, १६-३-१९२२, बंगाल	२०-८-१९४८

कॉलेज, जोधपुर

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
४	५	६
	४०	
प्रिन्सिपल, ५-९-१९५४	८००	
प्रोफेसर, अंग्रेजी, ११-७-१९५५	५२५	
लेक्चरर, ,, , २४-७-१९४३	३२५	
लेक्चरर, ,, , २०-८-१९४४	४००	
लेक्चरर, ,, , १०-८-१९४४	३२५	
लेक्चरर, ,, , २३-७-१९५१	२६५	
लेक्चरर, ,, , ३०-१-१९५२	२५०	
लेक्चरर, ,, , १०-१०-१९५३	२६५	
° वाइस प्रिन्सिपल, १-७-१९३०	६७५	
लेक्चरर, हिन्दी, ३०-८-१९४७	३१०	
लेक्चरर, ,, , २०-८-१९४८	२९५	
लेक्चरर, ,, , ८-९-१९५१	२६५	
लेक्चरर, संस्कृत, १९-८-१९५४	२२०	
प्रोफेसर, अर्थ शास्त्र, २२-१२-१९५०	६२५	
लेक्चरर, ,, , ६-९-१९४७	३२५	
लेक्चरर, ,, , १७-९-१९५१	२५०	
लेक्चरर, ,, , १७-३-१९५२	२६५	
प्रोफेसर इतिहास, १३-७-१९५६	५००	

क्र. सं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३
१९	श्री बी० एल० थानवी, एम० ए०, १२-९-१९१५, फलोदी	१८-७-१९४८
२०	श्री आर० पी० व्यास, एम० ए०, १२-८-१९२२, जोधपुर	२६-१०-१९४५
२१	डा० डी० सी० साथुर, एम० ए०, पीएच० डी०, ९-१२-१९१८, जोधपुर	७-७-१९४२
२२	डा० मोहनलाल, एम० ए०, पीएच० डी०, ४-४-१९२७, जोधपुर	२६-१०-१९५३
२३	श्री पुखराज व्यास, एम० ए०, १८-१०-१९१८, जोधपुर	३१-७-१९४२
२४	श्री आर० आर० जी० खेर०, एम० ए०, १६-८-१९१६, झांसी	१०-८-१९४४
२५	श्री राधेश्याम श्याम, एम० ए०, २३-८-१९३१, भरतपुर	२०-७-१९५५
२६	श्री बी० एस० सक्सेना, एम० ए०, २-३-१९२७, कोटा	२६-२-१९५२
२७	श्री श्रीलाल ओधिच्छ, एम० ए०, १४-३-१९२०, लखनऊ	१६-७-१९४८
२८	श्री हुक्मराज भन्डारी, एम० ए०, २४-१०-१९२४, पाली	१-९-१९४८
२९	श्री ए० एल० गांधी, एम० ए०, ३१-३-१९२८, सिरोही	१-१-१९४६
३०	श्री एम० एल० सोलंकी, एम० ए०, ६-७-१९२०, कुचामन	१७-८-१९३८
३१	श्री एच० सी० भारतीया, एम० ए०, ८-४-१९२६, कोटा	४-७-१९५६
३२	श्री ए० बी० एल० सक्सेना, एम० ए०, १८-५-१९२४, कोटा	२-१-१९५४
३३	श्री एस० पी० शर्मा, एम० ए०, व्यावर	२८-११-१९५६
३४	श्री मनोहरलाल, एम० ए०, पीएच० डी०, १८-८-१९०७, अलीगढ़	१-७-१९३८
३५	श्री एस० डी० पांडे, एम० ए०, वी० कौम, २८-२-१९०८, जोधपुर	३१-७-१९३०
३६	श्री के० सी० मेहता, एम० ए०, वी० कौम०, ३-१२-१९१३, जोधपुर	१३-७-१९३३

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
४	५	६
	६०	
लेक्चरर, इतिहास, १२-९-१९४६	३२५	
लेक्चरर, ,, ८-७-१९५३	२६५	
डिप्टी प्रोफेसर, दर्शन-शास्त्र, दिसम्बर १९५५	४००	
लेक्चरर, ,, ४-२-१९५४	२६५	
लेक्चरर, ,, २०-७-१९५३	२६५	
लेक्चरर गणित ९-८-१९५४	२७०	
लेक्चरर, ,, २०-७-१९५५	२००	
लेक्चरर राजनीति, २६-२-१९५२	२६५	
प्रोफेसर राजनीति, १०-८-१९५५	५२५	
लेक्चरर ,, १-९-१९४८	२९५	
लेक्चरर ,, १२-९-७९५५	२००	
डिप्टी प्रोफेसर, भूगोल, ९-८-१९५५	३२५	
लेक्चरर सामान्य विज्ञान, ४-७-१९५६	२००	
लेक्चरर ,, २५-९-१९५६	२००	
लेक्चरर ,, २८-११-१९५६	२००	
लेक्चरर भूगोल, १६-७-१९४५	२७०	
प्रोफेसर वाणिज्य, १९-७-१९५४	६५०	
लेक्चरर ,, १३-७-१९३३	४००	

क्रम संख्या १	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान २	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक ३
३७	श्री देवराज मेहता, एम० कौम०, ६-७-१९२३, जोधपुर	२६-८-१९४७
३८	श्री आर० एल० शर्मा, एम० कौम०, ३१-१०-१९१०, पाली	१-३-१९३०
३९	श्री जसवन्तराज मेहता, एम० कौम०, २३-२-१९२८, जोधपुर	१-९-१९५०
४०	श्री जैकिशन, एम० कौम०, १९-४-१९२५, जोधपुर	१३-८-१९४७
४१	श्री आर० के० शर्मा, एम० कौम०, ५-७-१९२५, जोधपुर	१६-८-१९५०
४२	श्री वी० एन० हुडकू, एम० कौम०, ६-८-१९२९, जोधपुर	२०-४-१९५१
४३	श्री बी० एम० सिमलोटा, एम० कौम०, १४-४-१९३१, सांभर लोक	१२-९-१९५५
४४	श्री एस० पी० सी० भंडारी, एम० कौम०, ४-१-१९३२, जोधपुर	१-७-१९५५
४५	श्री एन० सी० जोशी, एम० कौम०, १५-१०-१९३१, राजस्थान	१०-१०-१९५६
४६	श्री पी० एन० गुप्ता, एम० कौम०, २५-१२-१९३३, राजस्थान	१-७-१९५५
४७	श्री उमरावलाल गुप्ता, एम० कौम०, राजस्थान	५-१०-१९५६
४८	श्री डी० सी० संचेती, एम० कौम०, २३-१-१९३१, जोधपुर	२७-८-१९५६
४९	श्री महेशकुमार मेहता, एम० कौम०, जोधपुर	८-१०-१९५६

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
४	५	६
लेक्चरर वाणिज्य, २६-८-१९४७	३१०	
लेक्चरर ,, , १-७-१९४४	३१०	
लेक्चरर ,, , १-९-१९५०	२६५	
लेक्चरर ,, , १३-८-१९४७	२८०	
लेक्चरर ,, , १६-८-१९५०	२६५	
लेक्चरर ,, , २०-४-१९५१	२६५	
लेक्चरर ,, , १२-९-१९५५	२००	
लेक्चरर ,, , १-७-१९५५	२००	
लेक्चरर ,, , १०-१०-१९५६	२००	
लेक्चरर ,, , १-७-१९५५	२००	
लेक्चरर ,, , ५-१०-१९५६	२००	
लेक्चरर ,, , २७-८-१९५६	२००	
लेक्चरर ,, , ८-१०-१९५६	२००	

राजकीय कालेज

क्रम सं०	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३
१	डा० फतहसिंह, एम० ए०, डी० लिट०, बी० टी०, (१३-१-१९१४), कोटा	२७-८-४५
२	श्री कृष्णकुमार ओझा, एम०, ए० (१६-७-१९१२), अलवर	१५-१२-३४
३	श्री रामसिंह, एम० ए०, सी० टी०, (१-२-१९०५), इटावा	७-७-२२
४	श्री रामनरेशचन्द्र, एम० ए०, (१-११-१९१०), गोरखपुर	२०-७-३७
५	श्री बालचन्द्र शास्त्री, एम० ए०, (१३-९-१९१८), बीकानेर	१६-७-४३
६	श्री रघुराजसिंह, एम० ए०, (१-५-१९०८), अलीगढ़	१५-७-४०
७	श्री धनराज पुरोहित, एम० ए०, (१-४-१९१५) बीकानेर	१०-८-३८
८	श्री चमनलाल रामपाल, एम० एससी० (२५-९-१९०८), स्यालकोट	२५-८-४७
९	श्री फुम्मनसिंह, एम० ए०, (१०-१-१९१४), लायलपुर	१५-१-३७
१०	श्री आर० श्री० मनी, एम० ए०, बी० एससी०, (१०-६-१९२६), मद्रास	२१-१-४९
११	श्री विजयसिंह भटनागर, एम० ए०, एलएल०बी०, (७-३-१९२६), कोटा	१-७-५५
१२	श्री गोपालदास भार्गव, एम० ए०, (२६-१-१९२८), कोटा	१-७-५६
१३	श्री विजयकृष्ण यानवी एम० ए०, (२०-११-१९३५), जोधपुर	१-७-५६
१४	श्री लक्ष्मीनारायण, एम० ए०, (४-२-१९२९), नवलगढ़	३०-९-५६
१५	श्री प्रकाशचन्द्र जोशी, एम० ए०, (४-२-१९३५), अजमेर	६-११-५६

श्री गंगानगर

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष.
४	५	६
प्रिन्सिपल, २७-८-४५	६५०	
प्राध्यापक, आंग्ल भाषा, १५-१२-३४	४२५	स्थानापन्न
व्याख्याता, इतिहास, ७-७-२२	२९५	स्थानापन्न
व्याख्याता, आंग्ल भाषा, २०-७-३७	२७०	स्थानापन्न
व्याख्याता, संस्कृत, १६-७-४३	२८०	स्थानापन्न
व्याख्याता, भूगोल, १५-७-४०	२७०	स्थानापन्न
व्याख्याता, हिन्दी, १०-८-३८	२८०	स्थानापन्न
व्याख्याता, रसायन शास्त्र, २५-८-४७	२९५	स्थानापन्न
व्याख्याता, गणित, १५-१-३७	२६०	स्थानापन्न
व्याख्याता, भौतिक शास्त्र, २१-१-४९	२६०	स्थानापन्न
व्याख्याता, राजनीति विज्ञान, १-७-५५	२५०	अस्थायी
व्याख्याता, राजनीति विज्ञान, १-७-५६	२००	अस्थायी
व्याख्याता, दर्शन-शास्त्र, १-७-५६	२००	अस्थायी
व्याख्याता, अर्थशास्त्र, ३०-९-५६	२००	अस्थायी
व्याख्याता, आंग्ल भाषा, २६-११-५६	२००	अस्थायी

महाराणा कालेज

क्र. संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३
१	श्री राधाकृष्ण अग्रवाल, एम० ए०, एम० कॉम०, २९-१२-१९०८, भीलवाड़ा	१४-९-१९४८
२	श्री गोकुल प्रकाश शर्मा, एम० ए०, ५-८-१९२५, जयपुर,	१४-३-१९५२
३	श्री पद्मपाल चन्द भंडारी, एम० कॉम०, ११-९-१९३२, जोधपुर	१८-८-१९५४
४	श्री मिलापचन्द सोनी, एम० ए०, बी० कॉम०, ३-८-१९२६, कोटा	१८-११-१९५२
५	श्री अनुपसिंह प्रवार, एम० ए०, १०-११-१९२८, जोधपुर	७-७-१९५५
६	श्री दयालसिंह डूंगरपुरिया, एम० एससी०, ६-१०-१९३०, उदयपुर	१२-८-१९५५
७	श्री चुनीलाल कोठारी, एम० कॉम, १४-१०-१९३२, उदयपुर	१४-९-१९५५
८	श्री मोऊयुदिन, एम० ए०, १६-१-१९३२, उदयपुर	१-२-१९५६
९	श्री घनश्याम दास शर्मा, एम० कॉम०, ५-२-१९३४, अलवर	७-७-१९५५
१०	श्री दिनेश चन्द्र शर्मा, एम० ए०, ५-११-१९३२, जयपुर	७-७-१९५६

भीलवाड़ा

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
४	५	६
	६०	
प्रिन्सिपल, महाराणा डिग्री कालेज, भीलवाड़ा, १४-९-१९४८	५००	
अर्थ शास्त्र के प्रवक्ता, १४-३-१९५२	२४०	
वाणिज्य के प्रवक्ता, १८-८-१९५४	२००	
हिन्दी के प्रवक्ता, १७-८-१९५५	२००	
इतिहास के प्रवक्ता, ७-७-१९५५	२००	
सामान्य विज्ञान के प्रवक्ता, १२-८-१९५५	२००	
वाणिज्य के प्रवक्ता, १४-९-१९५५	२००	
साधारण ज्ञान के प्रवक्ता, १-२-१९५६	२००	
वाणिज्य के प्रवक्ता, ७-७-१९५५	२००	
अंग्रेजी के प्रवक्ता, ७-७-१९५६	२००	

महाराज संस्कृत

क्र. सं०	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान.	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिन, क
१	२	३
१.	श्री चन्द्रशेखर द्विवेदी, व्याकरण, वेदान्ताचार्य एवं सांख्या, वेदान्त, न्याय तीर्थ, २-१०-१९१०, टीडा (राज०)	२५-२-५५.
२	श्री शिवप्रताप शर्मा, वेदाचार्य, ३-३-१९०३, जयपुर	१-९-२७
३	श्री वृद्धिचन्द्र शर्मा, व्याकरण, धर्मशास्त्राचार्य, २२-२-१९०६, जयपुर	२२-३-३३
४	श्री बिन्ध्याचलप्रताप शर्मा, ज्योतिषाचार्य, १५-२-१९५३, बिहार	१८-७-३९.
५	श्री पुरुषोत्तम शर्मा, एम० ए०, हिन्दी एवं संस्कृत, १-४-१९०७, जयपुर	१६-७-४३
६	श्री प्रभुनारायण शर्मा, एम० ए०, हिन्दी एवं राजनीति, साहित्य रत्न, ५-१०-१९०५, जयपुर	१-७-२७
७	श्री जगदीश शर्मा, साहित्याचार्य एवं व्याकरण, मध्यमा, २८-१२-१९१०, जयपुर	२३-८-३७
८	श्री गोविन्दनारायण शर्मा, न्याय साहित्याचार्य, ३०-१०-१९१८, जयपुर	२३-३-५२
९	श्री दुर्गादत्त शर्मा, व्याकरण साहित्याचार्य, २७-६-१९१८, जयपुर	२४-२-३९
गवर्नमेन्ट संस्कृत		
१	श्री शम्भूदत्त शास्त्री, एम० ए०, एलएल० बी०	७-७-३७
२	श्री श्रीकान्त ठाकुर, ज्योतिषाचार्य, पोस्टाचार्य, ११-३ १९११, मुजफ्फरपुर (बिहार)	२३-८-३७
३	श्री मदनलाल डोलिया, साहित्याचार्य, साहित्य रत्न, हिन्दी प्रभाकर, १५-८-१९२९, खण्डला	१-११-५४
श्री महाराणा संस्कृत		
१	श्री खंडनाथ मिश्र, न्याय, व्याकरण वेदान्ताचार्य, १५-१०-२९, लालगंज (बिहार)	१५-७-४५

कॉलेज, जयपुर

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
४	५	६
प्रिन्सिपल, २५-२-५५	₹० ४५०	
प्रोफेसर, १-९-२७	३२५	
प्रोफेसर, ७-९-४०	३१०	
प्रोफेसर, १-४-४३	२९५	
प्रोफेसर, १६-७-४३	२९५	
प्रोफेसर, १६-७-४६	२९५	
प्रोफेसर, १-३-४९	२८०	
प्रोफेसर, २२-३-५२	२६५	
प्रोफेसर, १६-७-४३	२६५	
कॉलेज, अलवर		
प्रिन्सिपल, ३०-४-१९४९	४००	
व्याख्याता, २३-८-१९३७	३२०	
व्याख्याता, ११-७-१९५५	१७०	
कॉलेज, उदयपुर		
प्रिन्सिपल, ९-७-५१	३१०	स्थानापन्न

मगनीराम बांगड़ मेमोरियल

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३
१	श्री विनायक गोविन्द गर्दे, एम० एससी० इंजी० (मेनचेस्टर), एम० आई० ई०, एम० ए०, एस सी० ई०, एम० आर० (सेन) आई०, मार्च १९००, सागर (म० प्रदेश)	२२-१०-५१
२	श्री अचलदास बोहरा, बी० एससी० इंजी० (ऑनर्स), (इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल), ए० एम० आई० (भू०), २३-१-१९, जोधपुर	६-४-४९
३	श्री सतीशचन्द्र गोयल, बी० एससी०, सी० ई० (रुडकी), ए० एम० आई० ई० (भारत), ए० एम० इनस्ट० डब्ल्यू० (लन्दन), १०-९-२१, कासगंज एटा (उ० प्रदेश)	२१-१०-५४
४	श्री रूपचन्द मानसिंह अडवानी, बी० ई०, ए० एम० आई० ई०, एम० ई० एम०, मेवंर०, आई० ए० एच० आर०, ४-५-२२, कराची	८-५-५४
५	श्री एन० आर० जूनारकर, बी० ई० (मैके०), ए० एम० आई० ई० (ई०), डी० आई० आई० एससी०, २०-७-१८९९, बम्बई	२८-६-५६
६	श्री गिरिशचन्द्र मिश्रा, एम० एससी० (ज्योलोजी), १६-७-२७, होसंगाबाद म० प्र०)	६-३-५३
७	श्री रामचन्द्र गौड़, एम० ए० (गणित), ९-१२-२३, अलवर	२७-७-४८
८	श्री वृजकिशोर पुरोहित, ग्रेड, आई० ई० (भारत), २५-१२-२७, जोधपुर	२१-८-४७
९	श्री चन्द्रशेखरलाल अग्रवाल, बी० एससी० (आनर्स) (इन्जी०), ए० एम० आई० ई० (भारत), २-७-१९, उमरिया (विंध्य प्रदेश)	१७-१०-५१
१०	श्री मुरारीलाल माथुर, बी० ई० (ऑनर्स) (मैके०), १०-७-३१, अजमेर	२९-७-५२
११	श्री एन० एस० श्री निवासन, बी० ई० (हाई वे), बी० ई० (सिविल), १७-१०-३३, बलूर	१०-१-५७
१२	श्री पी० प्रतापा मोवली, बी० ई० (सिविल), एम० ई०, पी० एच०, एम० आर० सेन०, आई० एम० ए० डब्लू०, डब्लू० ए०, एम० सी० आई० एस० एस०, एम० आई० पी० एच० ई० (लन्दन), १०-५-३०, अनन्तपुर (आन्ध्र स्टेट)	२-७-५३

इंजीनियरिंग कॉलेज, जोधपुर

वर्तमान पद और दिनांक	वेतन	विशेष
४	५	६
प्रिंसिपल तथा अध्यक्ष, सिविल इंजी० विभाग, २२-१०-५१	१३०० २००	संविदा आधार पर वि० वे०
वाइस प्रिंसिपल और प्रोफेसर, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इन्जीनियरिंग, १७-६-५१		केन्द्रीय शासन की सेवा में प्रतिनियुक्ति पर
प्रोफेसर, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, २१-१०-५४	७५०	
प्रोफेसर, सिविल इंजीनियरिंग, ८-५-५४	७३०	
प्रोफेसर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, २८-६-५६	८८०	
प्रोफेसर, ज्योलोजी और केमिस्ट्री, ६-३-५३	४००	
प्रोफेसर, गणित, १७-९-५६	३५५	
असिस्टेन्ट प्रोफेसर, सिविल इंजीनियरिंग, १०-७-५६	३००	
असिस्टेन्ट प्रोफेसर, सिविल इंजीनियरिंग, १६-१०-५१		विद्या भवन, उदयपुर की सेवा में प्रति- नियुक्ति पर
असिस्टेन्ट प्रोफेसर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, २९-७-५२	४२५	
असिस्टेन्ट प्रोफेसर, सिविल इंजीनियरिंग, १०-१-५७	३००	
असिस्टेन्ट प्रोफेसर, सिविल इंजीनियरिंग, २-७-५३	४००	

क्र.सं०	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३
१३	श्री एस० जम्बूनाथन, सी० ई०, ए० एम० आई० ई०, १५-६-१९०३, मन्दावली, मद्रास	१४-९-५६
१४	श्री जी० एस० पंडित, बी० ई० (ऑनर्स), जे० एम० ए० सी० आई०, यू० एस० ए०, २०-५-३०, नागपुर	१७-९-५६
१५	श्री अमृतकुमार, बी० ई० (आनर्स), ६-४-३३, जोधपुर	२४-११-५४
१६	श्री भंवरलाल माथुर, बी० एससी०, बी० ई० १८-७-२९, जयपुर	६-६-५५
१७	श्री घीसालाल बराया, बी० ई० (मे०), ४-८-३३, जयपुर	१९-७-५५
१८	श्री ए० वेदान्तरामानुजम, बी० ई० (सिविल), ३०-८-२९, रामनुद, मद्रास	१९-८-५५
१९	श्री आलमसिंह, बी० एससी०, बी० ई० (सिविल) (ऑनर्स), एम० एस० ओसी०, सी० ई०, ३०-७-२७, मुज्जफर नगर (उ० प्र०)	२४-२-५३
२०	श्री प्रकाश चन्द्र गुप्ता, बी० एससी०, बी० ई० (सिविल), ६-६-३१, जोधपुर	१८-३-५७
२१	श्री जे० एल वट्टरा, बी० ई० (मे०के०), १-१-२४, जयपुर	१-१०-५६
२२	श्री शिवप्रसाद वर्मा, बी० एससी०, बी० ई० (इले०), ११-६-३१, जोधपुर	२०-७-५६
२३	श्री गुणवन्त शामराव कडू, बी० ई०, ए० एम० आई० ई०, ३-२-२६, अमरावती (मध्य प्रदेश)	१०-६-५२
२४	श्री गणपतसिंह भण्डारी, बी० एससी० (ऑनर्स), एम० एससी० (टैके०), एलएल० बी०, १७-७-२४, भीलवाड़ा, उदयपुर	२७-३-५२
२५	श्री कनूरचन्द जैन, एम० एससी० (फिजिक्स), ४-१-३०, मुज्जफर नगर (उ० प्रदेश)	१७-८-५४
२६	श्री ताराचन्द जैन, एम० एससी०, (मेथे०), २-१-३२, जयपुर	१५-७-५४

वर्तमान पद व दिनांक	वैतन	विशेष
४	५	६
असिस्टेन्ट प्रोफेसर, सिविल इंजीनियरिंग, १४-९-५६	४५०	
असिस्टेन्ट प्रोफेसर, सिविल इंजीनियरिंग, १७-९-५६	४२५	
असिस्टेन्ट प्रोफेसर, सिविल इंजीनियरिंग, २४-११-५४	३७५	
असिस्टेन्ट प्रोफेसर, इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग, ६-६-५५	३००	
असिस्टेन्ट प्रोफेसर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, १९-७-५५	३५०	
असिस्टेन्ट प्रोफेसर, सिविल इंजीनियरिंग, १९-८-५५	४००	
असिस्टेन्ट प्रोफेसर, सिविल इंजीनियरिंग, १३-२-५६	३००	
असिस्टेन्ट प्रोफेसर, सिविल इंजीनियरिंग, १८-३-५७	३००	
असिस्टेन्ट प्रोफेसर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, १-१०-५६	३००	
असिस्टेन्ट प्रोफेसर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, २०-७-५६	३००	
वर्कशोप सुपरिन्टेन्डेन्ट, १०-६-५२	३५०	
लेक्चरर, केमिस्ट्री, १७-१०-५३	२६५	
लेक्चरर, फिजिक्स, १९-११-५४	२५०	
लेक्चरर, गणित, २०-११-५६	२००	

क्र.सं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३

इन्टर कालेज

१	श्री मोहनलाल गुप्ता, २६-१२-०४	११-७-३१
२	श्री चित्रपाल सिंह, २६-२-२४, बीकानेर	२५-११-५२
३	श्री महेन्द्र रायजादा, १-८-२७, कोटा	७-८-५२
४	श्री ज्योति स्वरूप माथुर, ४-१०-२६, जोधपुर	जुलाई, ४५
५	श्री महेन्द्र कुमार अग्रवाल, १०-७-३६, सुरादावादा	१९-११-५६
६	श्री वकतेवर अइयर, २५-८-३०	९-१०-५४
७	श्री पारसराज शाह, १९-१२-२४, जोधपुर	८-८-५३
८	श्री परबोतनलाल चतुर्वेदी, २-१२-३४, भरतपुर	१-१०-५५
९	श्री चन्द्र प्रकाश त्रिवेदी, १०-९-३१, जोधपुर	३१-८-५६
१०	श्री असीम नाग	२४-८-५६
११	श्री संतोष कुमार चौधरी	१३-७-५६

इन्टर कालेज

१	श्री रामाशंकर त्रिपाठी, १०-१०-१९१८, जयपुर	९-११-५३
२	श्री रामचन्द्र मित्तल, ६-७-१८, अलीगढ़	७-१२-४६
३	श्री मुहम्मद अली जेदी, २३-५-२७, जयपुर	६-१२-५३
४	श्री नाथुलाल पाठक, ३-४-२५, कोटा	२७-७-५१
५	श्री ब्रह्मदत्त शर्मा, १-१-२६, गंगानगर	२२-८-४२
६	श्री उदयशंकर शर्मा, १-३-१८, दिल्ली	२५-७-५५

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष]
४	५	६
	६०	
सिरोही		
प्रवक्ता, १-७-४७,	३५०	
प्रवक्ता, २५-११-५२	२५०	
प्रवक्ता, २०-१२-५४	२३०	
प्रवक्ता	२००	
प्रवक्ता, १९-११-५६	२००	
प्रवक्ता, ९-१०-५४	२००	
प्रवक्ता, ८-८-५३	२४०	
प्रवक्ता, २-७-५६	२००	
प्रवक्ता, ३१-८-५६	२००	
प्रवक्ता, २४-८-५६	२००	
प्रवक्ता, १३-७-५६	२००	
टौक		
प्रिंसिपल, ९-११-५३	३७५	
प्रवक्ता, ७-१२-४६	२७०	
प्रवक्ता, ६-१२-५३	२४०	
प्रवक्ता, २७-७-५१	२५०	
प्रवक्ता, १-७-५४	२३०	
प्रवक्ता, ८-२-५६	२२०	

क्र. सं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३

हाडेन्द्र इन्टर कॉलेज,

१	श्री गिरिराज किशोरीदत्त, एम० ए०, बी० एड०, मार्च १९०४, बूंदी ।	१-७-१९२२
२	श्री बाल सुकन्द गुप्ता, एम० ए०, बी० टी०, १-१-१९१५, बूंदी	१२-७-१९३३
३	श्री लक्ष्मी नारायण व्यास, एम० ए०, बी० एड०, १०-१०-१९१६, बड़ी सादड़ी (उदयपुर)	१८-४-१९३७
४	श्री गणेश दत्त, एम० ए०, बी० टी०, २५-१२-१९१२, बूंदी	१६-७-३४
५	श्री रामस्वरूप भार्गव, एम० एससी० (रसायन शास्त्र), २४-१०-२९, जयपुर	२४-३-५५
६	श्री सर्वेश्वर नारायण माथुर, एम० एससी० (भौतिक शास्त्र), २२-२-१९३२, अलवर	२-७-५६
७	श्री ब्रज मोहन शर्मा, एम० ए० (हिन्दी), १-९-१९२५, भादवा (जयपुर)	१२-२-१९४२
८	श्री रामस्वरूप शर्मा, एम० कॉम०, २९-८-१९२८, कोटा	१४-८-१९५१
९	श्री दयाभान् श्रीवास्तव, एम० एससी०, २-४-१९३२, उदयपुर	२४-११-५५
१०	श्री मोहनलाल ओसवाल, एम० कॉम० (वाणिज्य), १०-९-१९३३, अजमेर	३०-८-५४
११	श्री वीरेन्द्र कुमार कन्जोलिया, एम० ए० (अंग्रेजी), ९-१०-१९३२, छबड़ा	११-१०-५५
१२	श्री प्रकाश चन्द्र जैन, एम० ए० (हिसाब), अलवर	३०-८-५६
१३	श्री रूप किशोर गोयल, एम० ए० (सामाजिक ज्ञान) ५-१०-२५, जयपुर	१७-६-५०

इन्टर कॉलेज,

- १ श्री सुचोन्द्र कुमार
२ श्री शम्भूसिंह, एम० ए०, ११-२-२९, जयपुर

वर्तमान पद व दिनांक	वेतन	विशेष
४	५	६
	४०	
दून्दी		
प्रिन्सिपल, १-७-१९२२	३९०	
वर्षशास्त्र के प्राध्यापक, १२-७-३३	२८०	
कला के प्राध्यापक, १८-४-३०	२६०	
प्राध्यापक, इतिहास, १६-७-३४	२७०	
प्राध्यापक, रसायन शास्त्र, २४-३-५५	२३०	
प्राध्यापक, भौतिक शास्त्र, २-७-५६	२००	अस्थाई
प्राध्यापक, हिंदी, १२-२-५२	२००	अस्थाई
प्राध्यापक, वाणिज्य, १४-८-५१	२००	अस्थाई
प्राध्यापक, सामान्य विज्ञान, २४-११-५५	२००	
प्राध्यापक, वाणिज्य, ३०-८-५४	२००	
प्राध्यापक, अंग्रेजी, ११-१०-५५	२००	अस्थाई
प्राध्यापक, हिताव, ३०-८-५६	२००	अस्थाई
प्राध्यापक, सामाजिक ज्ञान, २-७-५६	२००	अस्थाई
जीवनेर		
प्रिन्सिपल		
व्याख्याता, १६-७-५२	३६०	

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३

३	श्री विजयसिंह भटनागर, एम० ए०, ७-३-२६, कोटा	१-७-५५
४	श्री प्रेमशरण सिन्हा, एम० ए०, ४-६-३२, आगरा	१-७-५५
५	श्री बृजबिहारी निगम, एम० ए०, ५-५-२९, जयपुर	१-७-५५

इन्टर कॉलेज,

१	श्री बी० एन० द्वे, १०-८-१९१०	
२	श्री लाल बहादुर सिन्हा, ३-८-१०, बीकानेर	६-१०-३३
३	श्री दिनेशचन्द्र शर्मा, १०-१०-२४, भरतपुर	६-२-५२
४	श्री गुलाबसिंह, १-१२-२७, बीकानेर	२७-८-५४
५	श्री मेवराज व्यास, ७-१२-३२, बीकानेर	१६-८-५५
६	श्री दीपचन्द कृपनानी, १-८-३१, बाड़मेर	१९-८-५५

इन्टर कॉलेज

१	श्री विद्यानन्द शर्मा, ५-५-१९०६, मेरठ	१५-९-५१
२	श्री विजय सिंह, २६-११-२२, बीलिया पोकरन जिला	१-९-४७
३	श्री ज्ञानेन्द्रनाथ अरोड़ा, २१-८-३२, भरतपुर	१९-७-५४
४	श्री प्रेम नारायण माथुर, १५-७-३१, अजमेर	१९-८-५४
५	श्री कन्हैयालाल, २१-११-१३, जोधपुर	११-१२-५४
६	श्री नरेशसिंह, २-७-२८, कोटा	३-९-५५
७	श्री लक्ष्मीनारायण चितलंगी, १५-६-३१, जोधपुर	१-७-५५
८	श्री जतन राज कुम्हार, २६-३-२९, जोधपुर	२१-१२-५६

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
४	५	६
व्याख्याता, १०-११-५३	४० २४०	
व्याख्याता, १-७-५४	२६०	
व्याख्याता, २-८-५४	२१०	
सरदार शहर		
प्रिंसिपल	३००	
प्रवक्ता	२५०	
" १२-१२-५५	२६०	
" २७-८-५५	२३०	
" १६-८-५५	२००	
" १९-८-५५	२००	
डीडवाना		
प्रिंसिपल १५-९-५१	३४०	
प्रवक्ता	२९५	
" २७-४-५५	२२०	
" १९-८-५४	२३०	
" २२-८-५५	२००	
"	२००	
" २१-९-५६	२००	
" २१-१२-५६	२००	

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३

इन्टर कॉलेज,

१	श्री शितलप्रसाद वंराठी, १२-८-११, जयपुर	१-८-३३
२	श्री मुहम्मदवक्त जहीन, १६-११-१८, सीकर	जुलाई, ५४
३	श्री मनमोहनलाल शर्मा, १-१२-१२, शाहपुरा	"
४	श्री बद्रीप्रसाद भार्गव, ६-८-२३, जयपुर	"
५	श्री नेमीनारायण जोशी, ३०-१-२६, जोधपुर	१५-८-४९
६	श्री कृष्णकुमार शर्मा, २१-६-२६, बुन्वाबन	११-७-५०

इन्टर कॉलेज,

१	श्री के० एस० सक्सेना, १९-७-१७, गंगानगर	२८-९-४३
२	श्री भंवरलाल शर्मा, ३-१०-२४, उदयपुर	२४-१-५२
३	श्री प्रताप माथुर, ८-८-२८, करीली	२५-१-५२
४	श्री रतनलाल जोशी, २९-१२-२०, बांसवाड़ा	१२-६-४५
५	श्री रमेशचन्द्र शर्मा, ९-४-३०, अलवर	२५-७-५५
६	श्री महावीरसिंह सोलंकी, १-२-३०, भीलवाड़ा	९-९-५५
७	श्री महेन्द्रकुमार पाण्डा, १-६-३३, उदयपुर	६-८-५६

इन्टर कॉलेज,

१	श्री रामेश्वरप्रसाद भार्गव, ७-२-०६, इन्दौर	१६-८-३४
२	श्री मदनगोपाल शर्मा, २०-५-२६, जयपुर	३१-८-५४
३	श्री कैलाशचन्द्र जैन, जयपुर	..
४	श्री राजेन्द्र कुमार सक्सेना, ५-९-३४, जयपुर	१-७-५४

वर्तमान पद और दिनांक	वेतन	विशेष
४	५	६
	४०	
सीकर		
प्रिन्सिपल, २३-७-५५	४००	
प्रवक्ता, जुलाई, ५४	२६०	
" "	२६०	
" "	२६०	
" "	२५०	
" "	२५०	
बांसवाड़ा		
प्रिन्सिपल, २८-९-४३	३२५	
प्रवक्ता, २४-१-५२	२००	
" २५-१-५२	२६०	
" ४-११-५४	२४०	
" २५-७-५५	२००	
" ९-९-५५	२००	
" ६-८-५६	२००	
किशनगढ़		
प्रिन्सिपल	४००	
प्रवक्ता, ३१-८-५४	२२०	
प्रवक्ता	२००	
प्रवक्ता, १-७-५५	२००	

क्र. सं०	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३

५	श्री हजारीलाल कक्कड़, २७-८-३२, जोधपुर	८-८-५५
६	श्री मनीशंकर शुक्ला, ७-८-२९, जयपुर	१-१०-५५
		इन्टर कॉलेज,
१	श्री लखपतराज शाह, ७-६-२५, सिरोही	२६-८-४७
२	श्री किशनमोहन सहाय, ८-१२-३३, धौलपुर	१-११-५४
३	श्री कृष्णदत्त रामदेव, ११-१-२८, जोधपुर	१४-७-५५
४	श्री केदारनाथ गुप्ता, १२-८-२८, भरतपुर	२७-८-५४
५	श्री कमलाकान्त शर्मा, २-१०-३२, अलवर	१-७-५५
६	श्री ताराप्रकाश जोशी, २५-१-३३, जोधपुर	२०-८-५६
७	श्री मुकुटबिहारी गुप्ता, अजमेर	२-७-५६
८	श्री जनार्दनप्रसाद शर्मा, भरतपुर	५-२-५७

श्री राजेन्द्र इन्टर कॉलेज,

१	श्री कन्हैयालाल गोस्वामी, एम० ए०, एलएल० बी०, ६ सितम्बर, १९२०, बीकानेर	२८-७-१९४२
२	श्री बाबलाल निगम, एम० ए०, १ जनवरी, १९०३, झालावाड़	२६-११-१९२६
३	श्री विरेन्द्रनाथ नारंग, एम० एससी०, ७ अप्रैल, १९३० बीकानेर	२-७-१९५६
४	श्री सूरजनारायण सायूर, एम० एससी०, २० जून, १९३०, जोधपुर	१८-७-१९५५
५	श्री श्रीपाल जैन, एम० ए०, एलएल० बी०, ८ अप्रैल, १९३०, बीकानेर	२२-५-१९५०
६	श्री प्रेमनारायण सक्सेना, एम० ए०, १४ अगस्त, १९२२, मेनपुरी (यू० पी०)	१-११-१९४६

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
४	५	६
प्रवक्ता, ८-८-५५	२००	
प्रवक्ता, १-१०-५५	२००	
दौसा		
प्रिन्सिपल, २३-७-५५	३००	
प्रवक्ता, १-११-५४	२२०	
प्रवक्ता, १४-७-५५	२००	
प्रवक्ता, २७-८-५४	२००	
प्रवक्ता, १-७-५५	२००	
प्रवक्ता, २०-८-५६	२००	
प्रवक्ता, २-७-५६	२००	
प्रवक्ता, ५-२-५७	२००	
झालावाड़		
प्रधान आचार्य, २८ जुलाई, १९४२	३१०	स्थानापन्न
हिन्दी लेक्चरर, २६ नवम्बर, १९२६	२७०	
गणित लेक्चरर, २ जुलाई, १९५६	२००	
केमिस्ट्री लेक्चरर, १८ जुलाई, १९५५	२००	
इंगलिश. लेक्चरर, १ जुलाई, १९५५	२००	
अर्थ शास्त्र लेक्चरर, १ नवम्बर, १९४६	२६०	

क्र.संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३
७	श्री महिपालसिंह घेमावत, एम० एस सी०, २५-१०-२९, जोधपुर	१९-११-५६
८	श्री विश्वेश्वर स्वरूप भार्गव, एम०ए०, ३१-३-३०, कोटा	२९-६-५५
इन्टर कॉलेज		
१	श्रीमती शकुन्तला शर्मा, १-८-१९, पंजाब	६-१०-३८
२	श्री मोहन लाल मेहता, ९-४-२८, उदयपुर	१२-७-५६
३	मिस पी० आर० हिगोरानी, ६-८-३२, अलवर	२-८-४६
४	मिस पी० के० शकुन्तला, १९-८-३१, देहली	८-८-५६
५	मिस कमला माथुर, २-८-३२, उदयपुर	२०-७-५५
महारानी सुदर्शन कॉलेज,		
१	डा० मिस रामप्यारी शास्त्री, एम०ए०, बी०टी०, पीएच० डी०, १-८-१९०५, कोटा	१-७-३२
२	सुश्री तनकम्पा पी०, एम०ए०, १४-१०-१९, त्रीवेनड्रम, केरला	२३-७-४५
३	श्रीमती सी० जे० भारद्वाज, एम०ए०, एलएल०बी०, २-९-१९, बीकानेर	६-७-४०
४	श्रीमती सीतापुरी, २०-११-२४	१६-९-४८
५	श्रीमती एस० के० वर्मा, १५-७-१०, ग्वालियर	२४-९-४८
६	श्रीमती एस० आर० वडैरा, एम०ए० १६-११-३०	१-८-५०
७	श्रीमती एस० बी० लूथरा, एम०ए०, एलएल० बी०, १-१२-२४, बीकानेर	१-१०-४७
८	सुश्री माधुरी दुबे, एम०ए०, ६-८-२८, जयपुर	८-७-५४
९	सुश्री पी० मिशरा, एम०ए०, १५-५-३१	१-७-५५
१०	सुश्री कृष्णा दुबे, एम०ए०, १८-६-२९, जयपुर	२०-७-५५

वर्तमान पद और दिनांक	वेतन	विशेष
४	५	६
सरल विज्ञान लेक्चरार, १९-११-५६	२००	
इतिहास लेक्चरार, २४-१-५७	२००	
उदयपुर		
प्रिन्सिपल	३३०	
प्रवक्ता	..	
प्रवक्ता	..	
प्रवक्ता	..	
प्रवक्ता, १-७-५७	..	
बीकानेर		
प्रिन्सिपल, १४-७-५६	५७५	
संस्कृत प्राध्यापिका, १८-७-४७	२७०	
इतिहास, प्राध्यापिका, ११-७-४८	२६०	
डोमेस्टिक साइन्स, प्राध्यापिका, १६-९-४८	२६०	
म्यूजिक प्राध्यापिका २४-९-४८	२३०	
अंग्रेजी, प्राध्यापिका, १-८-५०	२६०	
मेथेमेटिक्स, प्राध्यापिका, १८-७-५०	२७०	
हिन्दी प्राध्यापिका, २८-१०-५४	२००	
दर्शन शास्त्र, प्राध्यापिका, २०-२-५६	२००	
अर्थ शास्त्र, प्राध्यापिका, २०-७-५५	२००	

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३
११	श्री एस० एन० माथुर, एम० एससी०, १३-७-२८	१८-८-५५
१२	डा० (श्रीमती) किरन जैन, एम० ए०, पीएच०डी०, १९-९-२६, अजमेर	१९-१२-५५
राजमहल गर्ल्स		
१	कुमारी आर० पद्मनी, एम० ए०, एम० एससी० (लंदन), १-१२-१९१५, मद्रास	१-८-४३
२	डा० जी० सी० दास, एम० ए०, बी० एल० (कलकत्ता), पीएच० डी०, एम० आर०, एस० एल० (लंदन), विद्या-भूषण, १-३-१९०२	
३	डा० राजकुमारी शिवपुरी, एम० ए०, पीएच०डी०, १३-१२-२७, जोधपुर	४-२-५२
४	श्रीमती बनी गुप्ता, एम० ए० (इतिहास व राजनीति) बी० एड०, ११-६-१९२६, कोटा	४-८-४५
५	कुमारी लक्ष्मी बाजाज, एम० ए० (अंग्रेजी), १७-४-३४, जोधपुर	१५-७-५५
६	कुमारी मोहनी अडवानी, एम० ए०, (दर्शन शास्त्र), १७-१२-३४, जोधपुर	२९-७-५७
७	कुमारी नान्ति शर्मा, एम० एससी० (बोटेनी), १९-७-३३, उदयपुर	७-७-५६
८	श्री मुसल गावकर, (संगीत विशारद) १८-५-१३, ग्वालियर	११-८-४८
९	कुमारी जेकब, एस० ए० (राजनीति शास्त्र), १३-१०-२३, एरनाकुलान	४-२-५२
महारानी गर्ल्स		
१	श्रीमती स्वर्णलता अग्रवाल, ५-३-१९१५, मुरादाबाद	जुलाई, १९३६
२	श्रीमती शान्ति देवी भटनागर, एम० ए०, एलएल०बी०, एल०टी०, १०-७-१९१०, कोटा	१५-९-३६
३	सुश्री शकुन्तला गुप्ता, एम० ए०, बी०टी०, ७-५-१९१२	१-८-३९

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
४	५	६
जनरल साइन्स, प्राध्यापक, १८-८-५५	२००	
सोसि लय स्टेडीज, प्राध्यापिका, ९-१२-५५	२००	
कॉलेज, जोधपुर		
प्रिन्सिपल, १-८-४३	..	
प्रोफेसर, २२-८-५७	..	सेवा मुक्ति के बाद
लेक्चरर, हिन्दी, ४-२-५२	..	
लेक्चरर, इतिहास, १-९-५३	..	
लेक्चरर, इंगलिश, २-१-५६	..	
लेक्चरर, मनोविज्ञान व तर्क शास्त्र, २९-७-५७	..	
लेक्चरर, जनरल साइन्स, ७-७-५६	..	
संगीत शिक्षक, २३-११-५७	..	
लेक्चरर, राजनीति शास्त्र, १४-१२-५७	..	
कॉलेज कोटा		
प्रिन्सिपल, जुलाई, १९३६	४७५	
लेक्चरर, १५-९-१९३६	२८०	
लेक्चरर, संस्कृत, ६-९-५१	२६०	

क्र.सं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३
४	सुश्री मालती देवी रायजादा, एम० ए०, १-८-१९३४, कोटा	२५-८-५६
५	सुश्री सावित्री देवी शर्मा, एम० ए० (हिस्ट्री), बी० एड०, ३-१-१९२७, धौलपुर	११-७-५६
६	श्रीमती गायत्री देवी वैश्य, एम० ए०, पीएच० डी०, १६-१०-२५, जयपुर	११-७-५६
७	सुश्री राजराजेश्वरी जुत्सी, एम० ए०, ३-१०-२५, जयपुर	२१-१-५२
	श्रीमती कमलेश्वरी श्रीवास्तव, एम० ए० (पोलिटिक्स), ५-१०-३०, जयपुर	१०-११-५६
९	श्रीमती लीलावती अडबुले, बी० ए०, १६-३-२८, इन्दौर	२२-१-५२
१०	श्रीमती कमला गंगवाल, एम० ए०, २८-७-२५	१५-९-४८
११	सुश्री शान्ता वन्सल, एम० ए० (अंग्रेजी), २५-३-३४, कोटा	४-८-५६
१२	सुश्री शकुन्तला मेहरा, एम० एससी०, ११-९-३३, अजमेर	१२-७-५६

टीचर्स ट्रेनिंग कालेज,

१	श्री के० के० चतुर्वेदी, एम० ए०, एलएल० बी०, टी० डिप०, बी० एड०, ३१-७-१३	१-११-४३
२	श्री एम० आर० पालीवाल, एम० ए०, एलएल० बी०, एम० एड०, १-१-१५, बीकानेर	१-७-३८
३	श्री सी० एल० भारद्वाज, एम० ए०, बी० टी०, २५-१-११, बीकानेर	१३-१२-३५
४	श्री एम० सी० शर्मा, एम० ए०, बी० टी०, १५-३-१९०९, अलवर	२७-७-३४
५	सुश्री कान्ता सूद, एम० ए०, एम० एड०, ९-९-२५, लुधियाना	१४-८-४७
६	श्री डी० एन० माथुर, एम० एससी०, बी० टी०, ५-५-१८	३१-७-४३

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
४	५	६
लेक्चरार, इकोनोमिक्स, २२-७-५७	२००	
लेक्चरार, सामाजिक-ज्ञान, ११-७-५६	२००	
लेक्चरार, हिन्दी, ११-७-५६	२००	
लेक्चरार, अंग्रेजी, २१-१-५२	२६०	
लेक्चरार, सिव्जिक्स, १०-११-५६	२००	
लेक्चरार, संगीत, २२-१-५२	२५०	
लेक्चरार, इकोनोमिक्स, १५-९-४८	२६०	
लेक्चरार, अंग्रेजी, ४-८-५६	२००	
लेक्चरार, जनरल साइन्स, १२-७-५६	२००	
बीकानेर		
प्रिन्सिपल, १२-६-५३	४२५	१०० वि० वे०
लेक्चरार, १६-९-४६	२८०	
लेक्चरार, १०-९-४६	२८०	
लेक्चरार, १-११-५०	२७०	
लेक्चरार, १५-१२-५४	२६०	
लेक्चरार, १०-९-५५	२००	

क्र. सं०	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३
७	श्री विजयबिहारी माथुर	--
८	श्री भंवरलाल	--
प्रिन्सिपल राजस्थान कला		
१	श्री ब्रह्मानन्द गोस्वामी, ८-२-०७, जयपुर	१५-१२-५०
सरस्वती भवन,		
१	श्री मोतीलाल मनोरिया, एम० ए०, पीएच० डी०, १-७-१९०५, उदयपुर	७-४-१९४६

वर्तमान पद और विनांक	धेतन	विशेष
४	५	६
लेक्चरार	३००	
लेक्चरार		
संस्थान, जयपुर		
प्रिन्सिपल, १५-१२-५०	३००	
उदयपुर		
सुपरिन्टेन्डेन्ट, सरस्वती भवन, उदयपुर, ४-७-१९४६	३९०	

जयपुर जिला के

क्र.सं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३
१	श्री केदार नाथ भार्गव, ४-८-०६, अलवर	१५-७-३२
२	श्री विष्णुदत्त त्रिपाठी, १३-१२-२०, जयपुर	३१-७-४३
३	श्री श्रीनाथ किशोर, २०-२-२४, कोटा	२६-८-४५
४	श्री कमला मोहन शर्मा, १६-११-१३, जयपुर	४-११-४४
५	श्री मंगीनारायण माथुर, ९-५-१४, जयपुर	१५-७-३६
६	श्री रामनारायण झालानी, २-९-०८, जयपुर	१७-९-३४
७	श्री गुलजारी लाल, १५-७-१५, अलवर	२-१२-३७
८	श्री गजेन्द्रनारायण भटनागर, ११-११-१७	१-८-३९
९	सुश्री ए० करकरे, २-२-०९	१५-९-३३
१०	श्री तेजकरण डाडीया, २३-११-११, जयपुर	६-१०-३७
११	श्री श्रीनारायण माथुर, ८-७-०८, जयपुर	३-८-३३
१२	श्री ब्रज बल्लभ माथुर, ५-१-१२, जयपुर	६-१०-३३
१३	श्री रामस्वरूप सत्रवेदी, २-१०-१२, जयपुर	१२-१०-३६
१४	श्री माता प्रसाद सक्सेना, ७-९-०९, डीग	२-१-४५
१५	श्री राजा राम रस्तोगी, ६-१-०४, जयपुर	२२-१२-४३
१६	श्री राज बिहारीलाल माथुर, २५-२-०३, झालावाड़	१-७-२९
१७	श्री रामनारायण महेश्वरी, १-७-१२, मुरादाबाद	१६-६-५४
१८	श्री छज्जू लाल शर्मा, ९-८-०५, जयपुर	२२-८-२८
१९	श्री मूलचन्द गुप्ता, १०-९-१०, अलवर	११-८-३१

प्रधान अध्यापक/अध्यापिका

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
४	५	६
	४०	
महाराजा मलट्टी-परपज स्कूल, जयपुर	२५०	
हायर सेकन्ड्री स्कूल, जमवा रामगढ़, २६-७-५७	३००	
हायर सेकन्ड्री स्कूल, बिछून, १-१०-५६	३००	
हायर सेकन्ड्री स्कूल, रूपनगर, ४-१०-५०	३१०	
बेसिक एस० टी० सी० स्कूल, जयपुर, २३-८-५५	२६५	
बेसिक एस० टी० सी० स्कूल, परसरामद्वारा, १७-९-३४	३२५	
बेसिक एस० टी० सी० स्कूल, गौनेर, २८-८-५६	२५०	
जे० टी० सी० स्कूल, पावटा	२५०	
प्रधान अध्यापिका ट्रेनिंग स्कूल, जयपुर, ४-९-५५	२९५	
दरवार हाई स्कूल, जयपुर, २३-९-५०	३१०	
भोतीकटला स्कूल, जयपुर, १-७-४९	३१५	
राजकीय हाई स्कूल, शाहपुरा, १६-१०-५४	३१५	
राजकीय हाई स्कूल, लालसोट	२६५	
राजकीय हाई स्कूल, गीगगढ़, ११-१-५६	२६५	
राजकीय हाई स्कूल, चाक्षु, ३-१०-५०	३१०	
राजकीय हाई स्कूल, चौमू, १५-१०-५१	३००	
राजकीय हाई स्कूल, कोटपुतली, १६-६-५४	२८०	
राजकीय हाई स्कूल, बेराठ, ५-९-५४	२८०	
एम० आर० हाई स्कूल, किशनगढ़, रैनवाल	२६०	

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३
२०	श्री नन्दलाल, ८-७-०२, जयपुर	६-१०-३०
२१	श्री सोहनलाल माथुर, ७-८-०८	२-११-३४
२२	श्री नटवर बिहारीलाल माथुर, ७-१०-११, जयपुर	१४-८-४०
२३	श्री इयाम बिहारीलाल माथुर, २-१०-०४, मथुरा	१-८-२२
२४	श्री चन्द्र शेखर, १२-११-१९, भीलवाड़ा	२०-९-३८
२५	श्रीमती ओ० जोशी, १६-९-१९	३०-२-४६
२६	श्रीमती सावित्री स्याल	
जिला सीकर के		
१	श्री सीता राम, ७-६-१४, सांभरलेक	२६-७-३८
२	श्री राधा गोपाल शर्मा, ६-१०-२२, जयपुर	२८-८-४५
३	श्री एन० एम० ढढा, १३-४-२२, जयपुर	३०-७-४३
४	श्री कनैया लाल तिवारी, २७-११-११, झुन्झुनू	१४-११-२८
५	श्री राम गोपाल सक्सेना, ४-७-१६, जयपुर	१-७-४३
६	श्री मिठन लाल शर्मा, १८-७-१५, जयपुर	२७-७-३५
७	श्री भगवान दास नागर, ५-११-०५, जयपुर	३१-३-२८
८	श्री नारायण दास पारीक, १८-४-१०, जयपुर	१६-७-३३
९	श्री मुरलीधर, १२-७-१५	८-८-३४
१०	श्री एम० एम० जुत्सी, ७-१-०८, आगरा	२०-१०-३८
११	श्री बन्नीनारायण शर्मा, ९-१-१६, जयपुर	१२-७-४३

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
४	५	६
राजकीय हाई स्कूल, बसवा, २-९-५४	६० २८०	
हाई स्कूल, नारायणा, २८-७-५६	२५०	
राजकीय हाई स्कूल, बांदी कुई, १४-८-४०	२५०	
राजकीय हाई स्कूल, फुलेरा, जुलाई, १९४६	३७०	
राजकीय हाई स्कूल, सरवार, २५-८-५६	..	
राजकीय हाई स्कूल, जयपुर, २६-८-५५	३७५	
प्रधान अध्यापक		
राजकीय हाई स्कूल, श्री माधोपुर, २६-९-५६	२५०	
राजकीय हाई स्कूल, अमरसर, १-९-४५	२६५	
राजकीय हाई स्कूल, खंडेला, ८-९-५४	२७०	
राजकीय हाई स्कूल, खेतड़ी, १६-६-५४	२८०	
राजकीय हाई स्कूल, कनवट, १-९-५५	२६५	
राजकीय हाई स्कूल, छाजा का नागल, ६-९-५५	२६५	
हायर सेकण्ड्री स्कूल, अजीतगढ़, ३१-३-२८	३२५	
हाई स्कूल लोसल, १७-७-५२	२८०	
हाई स्कूल, दांता	२५०	
हाई स्कूल, नीमकाथाता, २०-१०-३८	..	
एस०टी०सी० स्कूल, खेतड़ी, १-९-५५	२१०	

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३

जिला अलवर के

१	श्री एल० एन० माथुर, १०-३-१६, निवाडी	२२-८-३२
२	श्री रमेशचन्द्र पंत, ७-६-०९	१८-११-३६
३	श्री कर्नैयालाल गुप्ता, ४-८-०३, राजगढ़	१-१०-३६
४	श्री देवीप्रसाद गुप्ता, ६-१-१२, अलवर	१७-७-३५
५	श्री त्रिलोकचन्द गुप्ता, ११-६-१४, अलवर	१-७-३९
६	श्री रामधर शर्मा, १-१-१९, जहाजपुर	१-९-५२
७	श्री विद्याधर गुप्ता, १५-४-०९, शाहजहाँपुर	२६-७-४९
८	श्री जगदीश प्रसाद, १-७-१३, अलवर	१३-२-३६
९	श्री केदारनाथ मुद्गल, ९-७-१४, अलवर	१३-१२-३४
१०	श्री घनश्यामस्वरूप शर्मा, ११-७-५२, अलवर	१४-११-३४
११	श्री दामोदरलाल, १५-११-०३, राजगढ़ (अलवर)	२-८-२०
१२	श्री रामाकांत तिवारी, ५-१०-१०, अलवर	१६-३-३३
१३	श्रीमती एस० न्यू सरकार, १५-७-०२, इन्दौर	१५-७-४४
१४	श्री मोहनलाल शर्मा, १४-९-११, अलवर	२४-८-३३
१५	श्री नैपमलसिंह तवंर, १५-३-२०	६-८-४१
१६	श्री लाडलीशरण शर्मा, २४-८-१४	१४-८-४१
१७	श्री चीरंजीलाल भाट, १०-३-२०, जोधपुर	८-४-३८
१८	श्री शिवकुमार, १४-११-२३	९-६-४४

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
४	५	६
प्रधान अध्यापक	६०—	
मल्टी-परपज स्कूल, अलवर, १८-७-५२	३२५	
राजकीय हाई स्कूल, अलवर, १२-१-५६	२५०	
राजकीय हाई स्कूल, वड़ोद, २२-९-५५	२५०	
राजकीय हाई स्कूल, तीजारा, ९-७-५३	..	
राजकीय हाई स्कूल, शाहजहाँपुर, ९-१-५६	२६५	
राजकीय हाई स्कूल, लक्ष्मणगढ़, ३१-१०-५६	२९०	
हायर सेकेन्ड्री स्कूल, राजगढ़	३२५	
राजकीय हाई स्कूल, खेलरी, ३०-७-५६	२५०	
राजकीय हाई स्कूल, नारायणपुर, ६-७-५३	२८०	
राजकीय हाई स्कूल, वास कपाल नगर	..	
राजकीय हाई स्कूल, रामगढ़, ६-९-५४	२६०	
राजकीय हाई स्कूल, मजरीकालान, ३१-१०-५६	२८०	
गर्ल्स हाई स्कूल, अलवर	३१०	
राजकीय हाई स्कूल, प्रतापपुर, १-९-५५	२६५	
राजकीय हाई स्कूल, बन्सूर, १-९-५५	२६५	
राजकीय हाई स्कूल, कोटकासिम	२५०	
हायर सेकेन्ड्री स्कूल, बीजावर चौहान	३००	
एस० टी० सी० ट्रेनिंग स्कूल, अलवर, ३१-८-५५	२६५	

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३

जिला टोंक के

१	श्री गोविन्दनारायण, २८-७-१६, जयपुर	१९-७-४३
२	श्री गंगाप्रसाद शर्मा, १८-८-१४, जयपुर	८-१२-४५
३	श्री लक्ष्मीनारायण, २-८-१७, टोंक	१६-७-४३
४	श्री रामनिवास, ४-१-०६, टोंक	१-९-५५
५	श्रीमती कौशल्या तेजपाल, २९-१०-१७	१-९-४३
६	श्री गिरधर गुप्ता, २५-८-०७, सड़वार	१६-३-३३
७	श्री रामचन्द्र ईसवाल, ७-१०-१३	१६-९-४०

जिला जोधपुर के

१	श्री वृज बिहारी लाल, ५-२-१०, जोधपुर	जुलाई, १९३२
२	श्री प्रमोद राय जे० हाथी, २२-१२-०९, जोधपुर	१४-७-५६
३	श्री प्रभू दयाल, ८-२-०८, जोधपुर	१-८-२७
४	श्री रामलाल राजपाल, ७-१२-०५, कानपुर	२६-९-३२
५	श्री मदनलाल व्यास, ५-५-११, जोधपुर	१-१०-३३
६	श्री कानसिंह, १-४-१४, जोधपुर	१५-७-३६
७	श्री अनराज जोशी, १०-१-२१, जोधपुर	१३-९-४०
८	श्रीमती वसमती उपाध्या, १-१-१५, अराही (बिहार)	१३-८-३६
९	श्री छाबरमल, ५-११-१२	३-८-३१
१०	श्रीमती एम० के० मुकजी, १६-९-१९, जयपुर	१-८-४०

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
४	५	६
प्रधान अध्यापक	२०	
राजकीय हाई स्कूल, मालपुरा, ४-९-५५	२५०	
राजकीय हाई स्कूल, टोडारायसिंह, २१-१०-५१	३००	
राजकीय हाई स्कूल, तवाई, ३०-१०-५६	२६५	
राजकीय हाई स्कूल, उनियारा, १-९-५५	२६०	
गर्ल्स हाई स्कूल, टोंक, १-९-५५	२५०	
हायर सिकेन्डरी स्कूल, लावाहरीसिंह, ३-९-५५	३२५	
एस० टी० सी० स्कूल, टोंक, ८-५-५६	२६५	
प्रधान अध्यापक		
मल्ही-परपज स्कूल, जोधपुर, २२-१०-५१	३५०	
हायर सिकेन्डरी स्कूल, फलोवी, ६-८-५६	३००	
महात्मा गांधी हाई स्कूल, जोधपुर	३४०	
राजकीय हाई स्कूल, महीलाबाग, जोधपुर, १-९-५४	३२५	
राजकीय हाई स्कूल, बिलाड़ा, ३१-१०-५६	३१०	
राजकीय हाई स्कूल, बालोतरा, १५-३-५४	२८०	
राजकीय हाई स्कूल, पीपाड़ सिटी	२६५	
ह्यूसन गर्ल्स हाई स्कूल, जोधपुर	२९०	
एस० टी० सी० स्कूल विद्याशाला, जोधपुर, १-९-५६	२५०	
एस० टी० सी० स्कूल, सरवारपुरा, १२-९-५५	२६५	

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३

जिला पाली के

१	श्री राम स्वरूप लक्षोना, १२-८-०९, भरतपुर	२४-६-२६
२	श्री भरत भूषण गुप्ता, १-१२-१८, कोटा	१६-७-४०
३	श्री चन्दलाल, २-९-०४, सावरं कान्ता (गुजरात)	२६-७-२७
४	श्री अमरचन्द्र, १-४-१३	१६-७-३७
५	श्री जयनारायण, ३-९-१२, जोधपुर	१७-८-३२
६	श्री मूरारीदान चारण, ३१-१२-०३, जोधपुर	१०-८-२९
७	श्री कल्याण सहाय, ३०-७-२१, जयपुर	१९-८-४३
८	श्री जेठमल, ३०-६-१९	७-९-३७

जिला बाड़मेर के

१	श्री पृथ्वी नाथ हुक्कू, २३-३-०३, जोधपुर	१-८-२६
२	श्री कान्तिह, १-४-१४, जोधपुर	१५-७-३६
३	श्री समसेर अली, १२-१-१३	१५-८-३६

जिला जैसलमेर के

१	श्री हरिसिंह वर्मा, १०-१०-१०, झुन्झुनू	१६-९-२९
---	--	---------

जिला जालोर के

१	श्री देवीलाल, ७-४-२२, जोधपुर	१४-७-३९
२	श्री जुगल किशोर, १-७-१०, बुलंदशहर	१४-१२-२९
३	श्री विजय चन्द शर्मा, १०-१-२१, जयपुर	१४-१२-४३

वर्तमान पद तथा दिनांक	धेत्तन	विशेष
४	५	६
	४०	
प्रधान अध्यापक		
मल्टी-परपज स्कूल, सोजत	३२५	
हायर सेकेंडरी स्कूल, जंतारण, २३-८-५७	..	
राजकीय हाई स्कूल, पाली, १-७-४९	३२५	
राजकीय हाई स्कूल, बाली, १-८-५७	२५०	
राजकीय हाई स्कूल, सुमेरपुर	२६५	
राजकीय हाई स्कूल, तखतगढ़, २१-७-४२	३१०	
राजकीय हाई स्कूल, सादड़ी, १४-९-५५	२६५	
राजकीय हाई स्कूल, रायपुर, २८-७-५६	२५०	
प्रधान अध्यापक		
मल्टी-परपज स्कूल, वाड़मेर, १-९-५५	३२५	
राजकीय स्कूल, बालोतरा, ५-३-५४	२८०	
राजकीय हाई स्कूल, सिवाना, ३०-७-५६	२५०	
प्रधान अध्यापक		
राजकीय हाई स्कूल, जंसलमेर, ३०-७-५७	२५०	
प्रधान अध्यापक		
राजकीय हाई स्कूल, जालोर	२५०	
राजकीय हाई स्कूल, भीनमाल, ३१-१०-५६	२६५	
राजकीय हाई स्कूल, मालवारा, ३१-१०-५६	२६५	

क्रम सं०	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने से दिनांक
१	२	३

जिला सिरौही के

१	श्री पारसमल, २-११-१०, पाली	१-८-३०
२	श्री वाऊलाल, ७-७-१३	१-८-३२
३	श्री अमर लाल, १९-७-१९	१६-७-३७

जिला नागौर के

१	श्री तिलक राम, १५-८-१५, गंगानगर	२-११-३५
२	श्री पुत्रराज पुरोहित, ४-६-१७, जोधपुर	२८-७-३३
३	श्री रामशरण दास शर्मा, २१-८-१०, मेरठ	१२-७-३७
४	श्री राधा किशन दत्त शर्मा, १-७-०३, नागौर	१८-८-२४
५	श्री विशन गोपाल शर्मा, २-१-११, जयपुर	७-७-३७
६	श्री लालू सिंह, १२-७-१२, भरतपुर	अगस्त, १९३५
७	श्री करन देव शर्मा, १-५-१६, बुलंदशहर	२-११-४४
८	श्री ज्वाला प्रसाद, १६-२-११, अजमेर	२६-२-३०
९	श्री मोहम्मद अजीजखान, ७-४-०७, टोंक	१०-७-३४
१०	श्री दुर्गादत्त, १-१०-१३	२०-९-३८

जिला कोटा के

१	श्री चन्द्रशेखर भट्ट, १४-७-१७, कोटा	जुलाई, १९३५
२	श्री शिवचरनलाल, १०-९-०६, कोटा	२६-११-२९
३	श्री हरिशचन्द्र सुद, ६-८-०३, कोटा	१५-११-२८
४	श्री शंकरलाल दवे, १-४-०५, मालावाड़	२७-६-२३

वर्तमान पद व दिनांक	वेतन	विशेष
४	५	६
	६०	
प्रधान अध्यापक		
हायर सेकेण्डरी स्कूल, पिंडवाड़ा, २९-७-५२	२९५	
राजकीय हाई स्कूल, शिवगंज, ३०-७-५६	२५०	
एस० टी० सी० स्कूल, सिरोही, ३१-८-५५	३००	
प्रधान अध्यापक		
मल्टी-परपज स्कूल, नागीर	३२५	
हायर सेकेण्डरी स्कूल, छोटी खाटू	३००	
राजकीय हाई स्कूल, लाडनू, २५-९-५४	२८०	
राजकीय हाई स्कूल, जसवन्तगढ, १५-७-५५	३५०	
राजकीय हाई स्कूल, मेड़ता सिटी, १८-७-५२	२९०	
राजकीय हाई स्कूल, कुचामन सिटी, १३-९-५५	२६५	
राजकीय हाई स्कूल, मकराना, २३-९-५०	३१०	
राजकीय हाई स्कूल, कुचेरा, १-२-५६	२५०	
राजकीय हाई स्कूल, परवतसर, जुलाई, १९४०	३२५	
राजकीय हाई स्कूल, मोलासर, १-९-५६	२५०	
प्रधान अध्यापक		
मल्टी-परपज स्कूल, कोटा, १०-९-५५	३००	
न्यू हाई स्कूल, कोटा, २९-७-४९	३२५	
वाँकेशनल हाई स्कूल, कोटा	२९०	
भोस मंडी, १०-९-५५	२६०	

क्रम सं०	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३
५	श्री हजारीलाल, १-८-१७, कोटा	३-७-३६
६	श्री सरोज कुमार, १३-१०-०३, हुगली	२०-१-२८
७	श्री सुरजकरण कोठारी, ४-७-१५, झालावाड़	२६-५-३९
८	श्री किस्तूरचन्द, १-२-२२, कोटा	८-८-५५
९	श्री मदनलाल गुप्ता, ९-३-१२, कोटा	२८-७-३७
१०	श्री कृष्ण बिहारीलाल, १७-६-०७, कोटा	१-७-३५
११	श्री ग्यान चन्द, २१-१-०४, भीलवाड़ा	७-७-२७
१२	श्री श्याम सुन्दर शर्मा, २-३-११	१४-७-३२
१३	श्री देवकीनन्दन कुलश्रेष्ठ, १२-१-१५, भरतपुर	१-१०-३७
१४	श्री भगवानलाल व्यास, १७-१२-२५, कुशलगढ़	१५-७-४७
१५	श्री उदयप्रकाश, ८-७-०७, कोटा	२०-७-३३
१६	श्रीमती एम० के० घेवाल, १५-५-२३	२०-८-४७

जिला बूंदी के

१	श्री गुरुमुखसिंह चावला, १२-८-१३, गुजरात	१२-९-४७
२	श्री इकबाल बहादुर, २-६-१४, जयपुर	१-९-३६
३	श्री मुकटबिहारीलाल, ६-३-०६, बूंदी	२०-७-३३
४	श्रीमती के० शिवहरे, १८-९-१८	२४-७-४६

जिला झालावाड़ के

१	श्री बालेश्वर प्रसाद त्यागी, २७-८-११, कोटा	२१-११-३५
२	श्री रामनारायण गुप्ता, १२-१२-१२, सोनडालक (बारा)	३०-७-३१

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
४	५	६
मल्टी-परपज स्कूल, वारां	३२५	
राजकीय हाई स्कूल, छाबरा	२९५	
राजकीय हाई स्कूल, अकलेरा, ३-१०-५०	३१०	
राजकीय हाई स्कूल, इन्द्रगढ़, १७-९-५५	२६५	
राजकीय हाई स्कूल, रामगंज, ११-९-५५	२५०	
राजकीय हाई स्कूल, सांगोव, २५-९-५४	२८०	
राजकीय हाई स्कूल, मांगरोल, ४-९-५५	२६५	
राजकीय हाई स्कूल, अन्ता, १३-९-५५	२५०	
हायर सेकेन्डरी, छीपावड़ीद; ११-८-५६	३००	
बेसिक एस०टी०सी० स्कूल, कोटा, १-९-५५	२६५	
एस०टी०सी० स्कूल, नान्ता पेलस, कोटा, २-७-५६	२५०	
हायर सेकन्डरी स्कूल, बारां, १-८-५६	३२५	
प्रधान अध्यापक		
राजकीय हाई स्कूल, केशोराय पाटन, ३१-८-५४	३००	
राजकीय हाई स्कूल, लखेरी, १७-३-५५	२६०	
राजकीय हाई स्कूल, नैनवा	३६०	
राजकीय गर्ल्स हाई स्कूल, बंदी, ११-८-५६	२५०	
प्रधान अध्यापक		
राजकीय हाई स्कूल, झालरा पाटन, २-५-५५	२६५	
राजकीय हाई स्कूल, भवानी मंडी, १२-१-५६		

क्रम सं०	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३

३	श्री हेतसिंह, २७-९-२३, कोटा	१४-१२-४२
४	श्रीमती आर०डी०लाल, २३-८-१९	१-७-४२

जिला सवाई माधोपुर के

१	श्री हाकिम सिंह, १०-१-०२, मैनपुर	८-१२-४४
२	श्री रामस्नेही कुलश्रेष्ठ, २५-९-०८, उत्तर प्रदेश	१७-८-४८
३	श्री केशरी लाल तिवारी, १०-७-१९०८, जहाजपुर	१५-८-३३
४	श्री रामनिवास, ९-७-११, अलवर	२२-५-३४
५	श्री रामजीलाल गुप्ता, १८-१२-१४, सवाई माधोपुर	२२-११-३८
६	श्री घासीलाल शर्मा, २३-१०-२४, कोटा	२१-७-४३
७	श्री भगवतप्रसाद, १०-७-०७, सवाई माधोपुर	१६-६-३०
८	श्री सुरजनारायण माधुर, १५-७-०७, जयपुर	१४-१२-४३
९	श्री छैलबिहारी लाल, २१-८-११, बूंदी	५-१-३४
१०	श्री इयामप्रकाश टीकीवाल, २-१-२३	१-८-४५

जिला भरतपुर के

१	श्री बृजबिहारी लाल सक्सेना, १-८-१६, जयपुर	२७-१-४५
२	श्री जमनाप्रसाद ठड्डा, १-११-१२, कोटा	१-८-३४
३	श्री मांगीलाल, १-१२-१४, गांव दाबरीड़	१४-८-३६
४	श्री लक्ष्मणसिंह तोमर, २१-७-१७, जयपुर	२-८-४५
५	श्री मंगलसिंह वर्मा, १४-७-१३, अलवर	१४-११-३४
६	श्री राज नारायण कुलश्रेष्ठ, २५-९-०७, यू० पी०	१९-७-३०

वर्तमान पद व दिनांक	वेतन	विशेष
४	५	६
राजकीय हाई स्कूल, खानपुर, ५-९-५५	२५०	
गर्ल्स हाई स्कूल, झालावाड़, ३१-८-५५	२५०	
प्रधान अध्यापक		
राजकीय हाई स्कूल, सवाई माधोपुर, २३-९-५५	२९०	
राजकीय हाई स्कूल, महुवा	३००	
मल्टी-परपज स्कूल, करौली, ३-८-५०	३५०	
राजकीय हाई स्कूल, हिंडीन, २८-७-५६	२५०	
हायर सेकेंडरी स्कूल, गंगापुर, २५-१०-५२	३१०	
राजकीय हाई स्कूल, बानली, २-९-५५	२४०	
राजकीय हाई स्कूल, टोडा भीम, ३१-१०-५६	२८०	
राजकीय हाई स्कूल, खडार, ३-१०-५०	३१०	
एस०टी०सी०ट्रेनिंग स्कूल, करौली	२६०	
एस०टी०सी० ट्रेनिंग स्कूल, सवाईमाधोपुर, १-९-५५	२६५	
प्रधान अध्यापक		
मल्टी-परपज स्कूल, भरतपुर, १९-१०-५१	..	
राजकीय हाई स्कूल, कामा	..	
राजकीय हाई स्कूल, डींग	२५०	
राजकीय हाई स्कूल, बयाना, २-५-५५	२८०	
राजकीय हाई स्कूल, भूसावर, २७-८-५६	..	
मल्टी-परपज स्कूल, धौलपुर	२८०	

क्रम सं०	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३
७	श्री रघुनाथ प्रसाद, २८-१२-११, भरतपुर	९-७-३४
८	श्री गिरीराज प्रसाद, १३-७-०७, भरतपुर	जनवरी, १९२८
९	श्री देवी प्रसाद, १६-९-११, भरतपुर	१६-४-३६
१०	सुश्री सुकदा सक्सेना, २१-८-०५, लखनऊ	२१-२-४०
११	सुश्री विमला शर्मा, ३-२-२१	९-७-४७
१२	श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा, ६-४-३१, भरतपुर	१६-७-४२

जिला बीकानेर के

१	श्री आनन्द शंकर मार्युर, १३-७-०८, आगरा	१-९-३३
२	श्री मोहन लाल मज्जू, २२-७-२३, श्रीनगर	१-११-४९
३	श्री मदन सिंह बघेला, २८-१-१०, भरतपुर	१०-१-१०
४	श्री श्याम लाल भटनागर, १३-९-१४	६-८-३७
५	श्री स्योरीलाल मलहोतरा, १२-१-०५, गंगानगर	१०-१२-३५
६	श्री सुखवासी लाल दुब्बे, १९-२-१२, धौलपुर	१७-७-२८
७	श्री प्रेमसिंह कुमार, २१-१०-१३, बीकानेर	५-१-४८
८	श्री परमानंद शर्मा, २३-११-११, नागौर	५-८-३७
९	श्री कागती लाल, ५-१-१६, बीकानेर	५-७-४०
१०	श्री परतापचन्द्र भूरा, ४-५-०६, बीकानेर	४-८-२४
११	श्री कर्नयालाल, १५-५-१८	५-७-३९
१२	श्रीमती वेव कुमारी, ९-४-२५	२२-९-४७

वर्तमान पद व दिनांक	वेतन	विशेष
४	५	६
राजकीय हाई स्कूल, बड़ा	२५०	
राजकीय हाई स्कूल, नागर, १९५१	२७०	
राजकीय हाई स्कूल, नंदवाई, १०-९-५४	२७०	
गर्ल्स हाई स्कूल, धौलपुर	२५०	
गर्ल्स हाई स्कूल, भरतपुर, सितम्बर, १९५५	२५०	
बेसिक एस० टी०सी० स्कूल, भरतपुर, १-९-५५	२६५	
प्रधान अध्यापक		
सार्दूल मल्हो-परपज स्कूल, बीकानेर	३५०	
हायर सेकण्डरी स्कूल, नोखा	३००	
हायर सेकण्डरी स्कूल, कालू, ८-८-५६	३३५	
एस० टी० सी० स्कूल, बीकानेर, ५-७-५६	२५०	
फोर्ट हाई स्कूल, बीकानेर	३२५	
सिटी हाई स्कूल, बीकानेर	३००	
चौपड़ा हाई स्कूल, बीकानेर	२९०	
राजकीय हाई स्कूल, भीनासर	२६०	
मोहता हाई स्कूल, बीकानेर	३१०	
राजकीय हाई स्कूल, देशनोक	३२५	
राजकीय हाई स्कूल, नापासर, २-७-५६	२५०	
महारानी गर्ल्स हाई स्कूल, बीकानेर, ३-७-५६	२६५	

संख्या क्रम	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३

जिला चुरू के

१	श्री बालमुकन्द त्रिवेदी, ३-११-०७, सीतामन (मध्यप्रदेश)	२७-८-४३
२	श्री भैरुदान खत्री, ९-५-११, चुरू	१-७-३०
३	श्री हेतराम गुप्ता, १०-१०-०८, रोहतक	४-८-४३
४	श्री बांके लाल गुप्ता, १०-९-७, अलीगढ़	१०-७-२८
५	श्री सत्य नारायण त्रिवेदी, ७-४-११	७-७-३६
६	श्री नारायण सिंह, १-२-०५, इटावा	२८-७-३८
७	श्री नन्द लाल, ७-९-०४	जनवरी, १९३७
८	श्री देवा राम गुप्ता, ३०-१०-१४, आगरा	१-८-४४
९	श्री देवी लाल, १८-१०-१८	२७-१०-३६
१०	श्री मदन लाल गर्ग, १०-४-२१	१-७-३८

जिला गंगानगर के

१	श्री सूरज प्रकाश, १५-६-१२, जयपुर	२१-९-२८
२	श्री रामकिशन दास गुप्ता, ५-१२-०९, अलवर	३०-१०-३३
३	श्री सांवलदान चारण, २-१-१८, जोधपुर	२५-९-३५
४	श्री कामेश्वर दयाल, ७-७-१५, मेरठ	९-७-४१
५	श्री अमर सिंह, १०-१-०८, गंगानगर	८-११-४७
६	श्री कुन्दन लाल जैन, १५-८-१९, भरतपुर	२७-३-३६
७	श्री मनोहर लाल, ३०-१०-०५, मुजफ्फरनगर	७-९-२९
८	श्री कनैया लाल व्यास, १७-८-११	१०-७-३३
९	श्री टी० के० चन्डी, २५-९-२७	२९-९-४७

वर्तमान पद तथा विनांक	वेतन	विशेष
४	५	६
	र०	
प्रधान अध्यापक		
मल्टी-परपज स्कूल, सुजानगढ़	३५०	
हायर सेकेंडरी स्कूल, राजगढ़, ४-८-५६	३२६	
राजकीय हाई स्कूल, चुरू	२५०	
राजकीय हाई स्कूल, डूंगरगढ़, ३-९-५४	३२५	
राजकीय हाई स्कूल, छापर	३८०	
राजकीय हाई स्कूल, बीदासर, २७-८-५४	२९५	
राजकीय हाई स्कूल, राजलदेसर, १-४-५०	२५०	
राजकीय हाई स्कूल, रतन नगर, २४-९-५५	२७०	
राजकीय हाई स्कूल, तारानगर	२५०	
एस० टी० सी० ट्रेनिंग स्कूल, चुरू	२५०	
प्रधान अध्यापक		
मल्टी-परपज स्कूल, गंगानगर	३२५	
हायर सेकेंडरी स्कूल, विजयनगर, ३०-१०-५६	२८०	
हायर सेकेंडरी स्कूल, सूरतगढ़, १-९-५५	३००	
राजकीय हाई स्कूल, करनपुर	२८०	
राजकीय हाई स्कूल, रायसिंह नगर, १२-१-५६	२६५	
राजकीय हाई स्कूल, नोहर, २१-८-५६	२५०	
राजकीय हाई स्कूल, भादरा	२८०	
राजकीय हाई स्कूल, हनुमानगढ़, ३-८-५६	२५०	
गर्ल्स हाई स्कूल, गंगानगर	२५०	

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३

जिला भुन्कुनू के

१	श्री हरसाय छुटेटा, १९-७-०९, जयपुर	१-९-३३
२	श्री उदय लाल महरवाल, २४-३-०२, जयपुर	१-१२-३१
३	श्री राम प्रसाद, १२-१-०४	१६-११-१४
४	श्री त्रिलोकी नाथ भार्गव, २४-८-१०, जयपुर	२१-२-४४

जिला उदयपुर के

१	श्री मदनसिंह भटनागर, १२-१२-१४, उदयपुर	७-७-३८
२	श्री नारायणमल वर्मा, १९-९-१३, उदयपुर	१-१२-४८
३	श्री तुलसीलाल गंगाधर त्रिवेदी, ८-७-१८, उदयपुर	२२-७-४२
४	श्री मोहनलाल माथूर, १२-१२-०४, भीलवाड़ा	८-७-४१
५	श्री बन्नीप्रसाद जोशी, २-१-२२, उदयपुर	२०-७-४३
६	श्री अवधबिहारी वाजपेई, ९-११-२६, उदयपुर	६-७-४३
७	श्री मोहनलाल बाहेती, २५-२-०५, भीलवाड़ा	१-४-३८
८	श्री कमल लाल दशौरा, ३-३-०३, उदयपुर	४-२-२१
९	श्री तख्तसिंह भटनागर, १५-७-०७, उदयपुर	२९-७-४२
१०	श्री गुलाबचन्द मालू, १०-९-०६, भीलवाड़ा	२-७-३०
११	श्री यसवन्तलाल नागर, २०-२-०३, उदयपुर	१-१२-४९
१२	श्री मालसिंह, १२-४-१६, बीकानेर	१२-८-३८
१३	श्री गणेशपुरी, १८-५-१९, उदयपुर	५-७-३९
१४	श्री भंवरलाल कुरावत, १७-७-१९, उदयपुर	२-६-४२
१५	श्री रमेशचन्द्र माथूर, २४-७-२१, उदयपुर	२-८-४१

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
४-	५	६
	६०	
प्रधान अध्यापक		
मल्टी-परपज स्कूल, झुन्झुनू	३२५	
हायर सेकेन्डरी स्कूल, गोरीया	३६०	
राजकीय हाई स्कूल, बिसाऊ, १६-११-५४	२५०	
राजकीय हाई स्कूल, उदयपुर, ५-८-५५	२६५	
प्रधान अध्यापक		
हायर सेकेन्डरी स्कूल, आमेट, २०-७-४९	३५०	
मल्टी-परपज स्कूल, नाथद्वारा, १-१२-४८	३५०	
फतेह हाई स्कूल, उदयपुर	२९०	
कंवरपदा हाई स्कूल, उदयपुर	३१०	
लम्बरदार हाई स्कूल, उदयपुर	२५०	
राजकीय हाई स्कूल, भीम, १४-९-५५	२६५	
राजकीय हाई स्कूल, रिखबदेव	३००	
राजकीय हाई स्कूल, राजनगर, १३-९-५०	३१०	
राजकीय हाई स्कूल, सलुम्बर ६-१२-५२	३००	
राजकीय हाई स्कूल, फतहनगर	३२५	
राजकीय हाई स्कूल, कांकरोली, १-४-५०	३२५	
राजकीय हाई स्कूल, देवगढ, १६-८-५६	२५०	
राजकीय हाई स्कूल, भींडर, १-१०-५६	२५०	
बसिक ट्रेनिंग स्कूल, उदयपुर, १-९-५५	२५०	
बेसिक ट्रेनिंग स्कूल, प्रतापनगर, १७-७-५६	२५०	

सं क्रम	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३

जिला भीलवाड़ा के

१	श्री शोभागमल श्रीमाल, १४-९-१२, जयपुर	३१-८-४३
२	श्री गोपाललाल शर्मा, १३-८-१३, उदयपुर	७-७-३६
३	श्री मोहनलाल शर्मा, १२-१२-०४, मांडल	८-८-४१
४	श्री मानकचन्द्र जैन, १४-१२-०८, कोटा	५-९-२७
५	श्री नारायण एस० त्रिवेदी, २७-८-१७, बांसवाड़ा	१९-७-३८
६	श्री भंवरलाल, २-७-२२, छोटी सादड़ी	३१-७-४३
७	श्री सुज्ञानसिंह कावड़िया, १-७-१४, उदयपुर	५-११-३५
८	श्री गणेशीलाल, २०-९-२३, उदयपुर	१-७-४१

जिला चित्तौड़गढ़ के

१	श्री सूरजनारायण श्रीवास्तव, ७-८-०७, उदयपुर	२९-१०-४८
२	श्री हेमशंकर नागर, २५-११-०६, उदयपुर	२०-४-२९
३	श्रीमती कीरती सक्सेना, १-६-१५, लखनऊ	अक्टूबर, १९४०
४	श्री किरोड़ीलाल चतुर्वेदी, २४-९-१२, सर्वाई माधोपुर	२४-७-३९
५	श्री शिवनारायणसिंह, १८-१२-१४, उदयपुर	२६-१०-४०
६	श्री श्यामलाल भटनागर, २९-३-१०, उदयपुर	१३-१०-३४
७	श्री गोविन्द माधव याजनिक, ११-४-२६, छोटी ब्रह्मपुरी	१-८-४९

जिला झुंझारपुर के

६	श्री विपिन बिहारी वाजपेई, ८-८-२३, उदयपुर	१३-९-४०
८	श्री चन्द्रमल गुरलिया, २४-११-२३, उदयपुर	७-७-४२

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
४	५	६
	४०	
प्रधान अध्यापक		
मह्दीपरपज स्कूल, शाहपुरा, २१-८-५५	३२५	
हायर सैकण्डरी स्कूल, गंगानगर, ३०-७-५६	३५०	
राजकीय हाई स्कूल, वनोरा	२७०	
राजकीय हाई स्कूल, जहाजपुर, १५-९-५६	२६५	
राजकीय हाई स्कूल, मांडलगढ़, १७-९-५५	२६५	
राजकीय हाई स्कूल, रायपुर, १४-९-५५	२५०	
राजकीय हाई स्कूल, भीलवाड़ा, २६-७-५६	२५०	
एस० टी० सी० स्कूल, शाहपुरा, ३-९-५५	२६५	
प्रधान अध्यापक		
मह्दीपरपज स्कूल, प्रतापगढ़, सितम्बर, १९५५	३५०	
राजकीय हायर सैकण्डरी स्कूल, चित्तीड़गढ़, ११-८-५६	३२५	
गर्ल्स हायर सैकण्डरी स्कूल, प्रतापगढ़, १०-८-५६	३००	
राजकीय हाई स्कूल, वड़ी सादड़ी, ५-१०-५६	२५०	
राजकीय हाई स्कूल, फनासिन, २३-७-५२	२९५	
राजकीय हाई स्कूल, निम्बाहेड़ा, १६-८-५६	२६५	
राजकीय हाई स्कूल, बेगू, ३-९-५५	५०	अन्डर सल्लेन्शन
प्रधान अध्यापक		
मह्दीपरपज स्कूल, डूंगरपुर, ११-१-५६	२५	
हायर सैकण्डरी, वंकोरा, ७-९-५६	१००	

क्र.सं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३

३	श्री हरिगिरी गोस्वामी, २१-१०-१२, डूंगरपुर	११-१-३३
४	श्री गोकुलराम शर्मा, १-७-१०, डूंगरपुर	३-८-३४
५	श्रीमती एस० राठी	

जिला वांसवाड़ा के

१	श्री प्रभाशंकर त्रिवेदी, ७-५-०८, वांसवाड़ा	१५-७-३०
२	श्री हरिवल्लभ त्रिवेदी, १५-७-१२, वांसवाड़ा	८-७-३८
३	श्रीमती सरस्वती ओझा, ५-३-१९, रतलाम	८-९-४१
४	श्री विहारीलाल सनाढ्य, १५-९-१५, इटावा	१-४-३३

प्रधानाध्यापक

१	श्री दुर्गा प्रसाद जोशी, १६-८-०४, अलमोडा स्टेट (य० पी०)	४-८-२८
२	श्री डी० एम० जैन, १-७-०७, अजमेर	१२-९-३२
३	श्री एन० चक्रवर्ती, १४-२-१२, अजमेर	२-१-३७
४	श्री सी० एल० बोगावत, २-४-०८, अजमेर	५-७-३२
५	श्री दामोदर प्रसाद कोशिक, ३-६-०९, अजमेर	२३-९-३३
६	श्री जी० एम० सक्सेना, ६-३-०६, व्यावर	२२-७-३०
७	श्री वी० सी० चटर्जी, १६-२-०५, अजमेर	१-७-३१
८	श्री भंभूति सेन, ११-१२-११, अजमेर	२६-९-५३
९	श्री नानूराम वाहली, १६-५-०७, अजमेर	७-५-३१
१०	श्री एस० वी० जोहन, १६-९-०६, अजमेर	८-८-२९
११	श्री एम० सी० मर्तई, २३-१-०१, अजमेर	१६-७-४६

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
४	५	६
राजकीय हाई स्कूल, सागवाड़ा, १९-१२-५१	३१०	
राजकीय हाई स्कूल, तिमलवाड़ा	२८०	
प्रधान अध्यापक		
राजकीय हाई स्कूल, गढी, २९-६-४७	३२५	
राजकीय हाई स्कूल, कुशलगढ़, १-२-५६	२५०	
राजकीय गवर्नर्स हाई स्कूल, बांसवाड़ा, १-९-५५	२५०	
एस० टी० सी० स्कूल, प्रतापपुर	२५०	
अजमेर		
हायर सैकन्डरी स्कूल, पुष्कर	३२०	
हायर सैकन्डरी स्कूल, अजमेर	२६०	
हायर सैकन्डरी स्कूल, केकड़ी	२९०	
हायर सैकन्डरी स्कूल, विजयनगर, १-११-५६	४००	
बी० इ० हाई स्कूल, अजमेर, २६-८-५२	२५०	
एस० डी० राजकीय हाई स्कूल, व्यावर	२५०	
राजकीय हाई स्कूल, अजमेर, २१-१०-५१	३६०	
राजकीय ओसवाल जून हाई स्कूल, अजमेर, १-८-५६	२५०	
राजकीय हाई स्कूल, टांडगढ़, २४-१२-५३	२७०	
राजकीय हाई स्कूल, भीतनगर, २७-८-५५	२६०	
राजेन्द्र हाई स्कूल, अजमेर, ६-१२-५६	३६०	

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३
१२	श्री जी० आर० अफल, १८-७-०४, अजमेर	१८-७-२९
१३	श्री जे० ओ० अनाय, १७-४-०७, मेवाड़	२३-७-३३
१४	श्री के० पी० मण्डानी, ८-५-०७, अजमेर	१७-७-४८
१५	श्री मोहमद अली, १३-२-०८	१३-७-३१
१६	श्री एम० एल० जैन, ४-१२-१४	४-१२-५६
१७	श्री आर० बी० खट्टर, २९-६-०७	
१८	श्री बी० बी० पन्त, १३-१२-०१, अजमेर	..
१९	श्री के० एल० शर्मा, ४-७-०२, अजमेर	१९४१
२०	श्री एच०सी०निहालानी, ७-५-०७, सिन्ध	..
२१	श्रीमती योगावती मित्तल, २१-१२-२२, अजमेर	८-८-४५
२२	श्रीमती विद्या देवी, १-८-१८	१-८-५६

जिला समाज शिक्षा

१	श्री हनुमान प्रसाद सिरोलिया, १-४-१७, वीकानेर	१६-११-३६
२	श्री गोपाल लाल, १-१२-१८, जयपुर	१-९-३९
३	श्री महेश चन्द्र भाट, १-८-१८, उदयपुर	७-४-४२

प्रधान अध्यापिका गंगा

१	श्रीमती सत्य चन्द्रा, २२-५-२४, पश्चिम पाकिस्तान	१९-११-४७
२	श्री विश्वेश्वरस्वरूप भागवत, ३१-४-३०, कोटा	२९-६-५५

प्रिन्सिपल टी० टी० आई०,

१	श्री आर० के० कौल, १५-१२-०९	४-९-४८
---	----------------------------	--------

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
४	५	६
राजकीय हाई स्कूल, देवली १-११-५६	४० २८५	
राजकीय पटेल हाई स्कूल, व्यावर २२-७-५२	३००	
राजकीय हाई स्कूल, पिसांगन	२८०	
राजकीय हाई स्कूल, सावर		
टीकमचन्द जैन हाई स्कूल, अजमेर, १८-१२-५६		
जैन गुरुकुल हायर सैकण्डरी स्कूल, व्यावर		
राजकीय हाई स्कूल, मसूदा, १६-४-५६		
राजकीय हाई स्कूल, भीनाय, २७-८-५५		
राजकीय हाई स्कूल, सिन्धी नम्बर २, अजमेर	३४०	
सैन्ट्रल गर्ल्स हाई स्कूल, अजमेर, १३-८-५१		
मल्टीपरपज स्कूल, व्यावर, १-८-५६		
अधिकारी		
जिला समाज शिक्षा अधिकारी, गंगानगर		
जिला समाज शिक्षा अधिकारी, जयपुर		
जिला समाज शिक्षा अधिकारी, उदयपुर	२५०	
बाल विद्यालय, बीकानेर		
गंगा बाल विद्यालय, बीकानेर, १०-१-५७	२५०	
प्रवक्ता, २४-१-५७	२००	
अजमेर		
प्रिन्सिपल १६-७-४९		

खण्ड ३२

लोक निर्माण विभाग

भवन व पथ, सिंचन एवं विद्युत् तथा यान्त्रिक

मुख्य अभियन्ता	..	१६५०-७५-१८००-१००-२०००
अधीक्षण अभियन्ता	..	१००-५०-१४००
अधिशास्त्री अभियन्ता	..	५००-३०-७४० नि० बं० ३०-८००-५०-१०००
सहायक अभियन्ता	..	२५०-२५-५०० नि० बं० २५-७५०
वस्तुकार, भवन व पथ	..	५००-२५-६५० नि० बं० २५-८००
हाइड्रोलोजी असिस्टेन्ट, सिंचन विभाग		२००-१५-२७५-२०-३७५ नि० बं० २५-६००
लेखाधिकारी	..	२५०-२५-५०० नि० बं० २५-७५०
राज्य रसायज्ञ, भवन व पथ		२५०-२५-४०० नि० बं० २५-५००
विशेषाधिकारी, ग्राम जलदान निर्माण विभाग, भवन व पथ		२५०-२५-५०० नि० बं० २५-७५०
रसायज्ञ		२५०-२५-४०० नि० बं० २५-६००

निर्माण विभाग

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१	श्री किशोरीलाल भायूर, बी० एससी० (आनर्स), (एडिन), एम०आई०ई० (भारत), २०-४-१९०४, जीधपुर	२८-७-१९३०	२८-७-१९३०
२	श्री धीरेन्द्रनाथ गुप्ता, बी० ई० (कलकत्ता), गोल्ड मेडलिस्ट, सी० ई०, एम० आई०ई० (भारत), ए० एम० टी० पी० आई० (लंदन), डिप्लोमा प्लानिंग (लंदन), एफ० आई० टी० पी० (भारत), ३०-१-१९०५, कलकत्ता	१५-१-१९३०	१५-१-१९३०
३	श्री कालाश नाथ भागवत, बी० एतसी०, सी० ई० (रङ्गको), एम०आई०ई० (भारत), १-६-१९१०, अलवर	१-६-१९३३	१-६-१९३३
४	श्री भुवनेश्वरी दयाल मायूर, सी०ई० (रङ्गको), ए० एम० आई०ई० (भारत), २४-६-१९१३, सांभर	१-९-१९३४	१-९-१९३४
५	श्री सेवाराम गढोक, बी० ए०, बी० एससी० (लंदन), एम० एससी० (लंदन), डी० आई० सी० (लंदन), २-८-१९०५, झलम	२०-२-१९३६	२०-२-१९३६
६	श्री दुर्गाप्रसाद रस्तोगी, बी० एससी०, सी० ई० (रङ्गको), ए० एम० आई०ई० (भारत), ३-५-१९१२, जयपुर	११-२-१९३५	११-२-१९३५
७	श्री विद्यारतन भटनागर, बी० एतसी०, बी० एससी० सिविल (लंदन), ए० एम० आई०ई० (भारत) २७-१२-१९१०, कोटा	१-३-१९३५	१-३-१९३५
८	श्री केशवानन्द शर्मा, बी० एससी०, बी० सी० ई०, ए० एम० आई०ई० (भारत), २१-६-१९१४, बीकानेर	१-५-१९३९	१-५-१९३९
९	श्री जगदम्बालाल मायूर, बी० एससी०, बी० ई०, सी० ई०, ए० एम० आई०ई० (भारत), १-९-१९११, उदयपुर	१६-८-१९४१	१६-८-१९३१

(भवन व पथ)

वर्तमान पद और दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
मुख्य अभियन्ता, भवन व पथ, निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर, १५-५-१९४९	₹० १,८०० १०० मीटर भत्ता	नि.मूलक साधारण सुसज्जित निवासस्थान
अधीक्षण अभियन्ता, नगर वृत्त, निर्माण विभाग, भवन व पथ तथा नगर योजनाधिकारी, जयपुर, सितम्बर, १९५३	१,१५०	
अधीक्षण अभियन्ता, भवन व पथ, निर्माण विभाग, मंडल वृत्त, जयपुर, २४-४-१९५१	१,२००	
अधीक्षण अभियन्ता, भवन व पथ, निर्माण विभाग, जोधपुर, २२-१२-१९४९	१,३००	
अधीक्षण अभियन्ता, भवन व पथ, निर्माण विभाग, उदयपुर, १५-९-१९५२	..	
अधिकाारी अभियन्ता, भवन व पथ, सवाई माधोपुर, १७-११-५५	७२५	
अधिकाारी अभियन्ता, भवन व पथ, निर्माण विभाग, कोटा, १-११-४८	७५० १०० मीटर भत्ता	
अधिकाारी अभियन्ता, भवन व पथ, उदयपुर	६५० ५० मीटर भत्ता	
अधिकाारी अभियन्ता, भवन व पथ, राष्ट्रीय राजमार्ग, उदयपुर, ८-१२-१९५४	७०० १०० मीटर भत्ता	

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१०	श्री इन्दरदत्त भार्गव, बी० एससी०, बी० ई०, ए० एम० आई० ई० (भारत), २०-५-१९२०, जोधपुर	१३-१-४४	४-५-५१
११	श्री हरिदत्त गुप्ता, बी० एससी०, सी० ई०, आनर्स (रुड़की), ए० एम० आई० ई० (भारत), १०-६-१९२१, भरतपुर	३-८-४४	३-८-४४
१२	श्री दुर्गाप्रसाद, बी०एससी०, सी०ई० (रुड़की), १६-१०-१९२१, भरतपुर	१०-८-४४	१०-८-४४
१३	श्री के० गोपीनाथ राव, बी० एससी०, बी० ई० (सिविल), ए० एम० आई० ई० (भारत), १४-४-१९१२, बंगलोर	२३-४-४५	२३-४-४५
१४	श्री सी० बी० देसाई, एल० एस० ई०, (आनर्स) (बम्बई), ए० एम० आई० सेनि० (लन्दन), १०-६-१९०२, सूरत	२८-९-२७	२८-९-२७
१५	श्री विद्यासागर गुप्ता, सब-इंजीनियर (रुड़की), २-१०-१९०१, खुरजा	२३-१-२३	२३-१-२३
१६	श्री बालचन्द्र पांडिया, एल० ई० एंड एम० ई०, (बनारस), १-१-१९०१, जयपुर	५-५-२९	२७-३-५१
१७	श्री हरिनारायण पांडे, एल० एस० ई० आनर्स, (बम्बई), ओवरसियर (रुड़की), ५-२-१९०३, जोधपुर	१७-१०-२३	१७-१०-२३
१८	श्री सःयनारायण सिंह, बी०एससी०इंजी० (ऑनर्स) (पटना), ए० एम० आई० ई० (भारत), २०-१०-१९२१, मुंगेर	१२-२-४५	१२-२-४५
१९	श्री एस० अडावी अप्पा, बी०ई०, ए० एम० आई० ई०, (भारत), २७-३-१९२३, मैसूर	२३-११-४५	२३-११-४५
२०	श्री छैलबिहारीलाल माथुर, बी० एससी०, बी०ई०, (सिविल), (बम्बई), ए० एम० आई० ई० (भारत), १-८-१९२०, बीकानेर	८-५-४४	८-५-४४

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	वशेष
५	६	७
अधिशाली अभियन्ता, भवन व पथ, निर्माण विभाग, बीकानेर, ४-५-५१	६०० ५० मोटर भत्ता	
कला सहायक, मुख्य अभियन्ता, भवन व पथ, राजस्थान, जयपुर	६८० ५० मोटर भत्ता	
		विजली विभाग की सेवा में प्रतिनिधित्व पर
अधिशाली अभियन्ता, भवन व पथ, नगर भाग, जयपुर, १-८-४६	७२५ ७५ मोटर भत्ता	
अधिशाली अभियन्ता भवन व पथ, नगर क्षेत्र, जोधपुर, ८-१२-५४	८५० १०० मोटर भत्ता	
निष्पादन अभियन्ता, भवन व पथ, मंडल भाग, साउथ डिवि०, जोधपुर, २८-७-५५	५९४ २६	
अधिशाली अभियन्ता, जल विभाग, -जयपुर	६२५	
अधिशाली अभियन्ता, भवन व पथ, वेस्ट डिवि०, जोधपुर, २६-११-५५	५६०	
अधिशाली अभियन्ता, भवन व पथ, मंडल भाग, निर्माण विभाग, जयपुर, १-१२-५४	५३०	
अधिशाली अभियन्ता, भवन व पथ, निर्माण विभाग, अजमेर, १-११-५६	५५०	
अधिशाली अभियन्ता, भवन व पथ, निर्माण विभाग, अलवर, १४-१२-५४	५३० ५० मोटर भत्ता	

क्र.सं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
२१	श्री वसंतलाल ओवरसियर (रुड़की), सब-इंजी० (शक्कर), १०-१०-१९०६, बरेली	१७-३-४५	१७-३-४५
२२	श्री विश्रामपुरी, बी० ई०, ए० एम० आई० (भारत), २-१०-१९१२, कच्छ	१३-९-३६	२४-८-४१
२३	श्री विजयनारायण कल्ला, बी० एस सी०, बी० ई०, ए० एम० आई० ई० (भारत), ९-४-१९२४, जाधपुर	१९-७-४८	१९-७-४८
२४	श्री कैलाशचन्द्र मिश्र, बी० एससी० सब-इंजी० (रुड़की), ए० एम० आई० ई० (भारत), १८-६-१९२३, जयपुर	१-८-४५	१-८-४५
२५	श्री एस० बी० सिवाडे, बी० ई०, ए० एम० आई० ई० (भारत), ४-९-१९१४, इंदौर	२७-७-४६	२७-७-४६
२६	श्री फतेहराज मेघराज व्यास, एल० एत० ई० आनर्स (बम्बई), १७-१-१९१५, जोधपुर	९-५-३९	९-५-३९
२७	श्री मुरलीमनोहर साधुर, बी० एससी० (सिविल) (ब्रिस्टल), ५-२-१९०९, जयपुर	२-११-३१	२-११-३१
२८	श्री सुन्दरलाल मुरडिया, डिप्लोमा (सिविल इंजी०, (बनारस), २२-१२-१९०५, उदयपुर	९-३-४५	१-४-५०
२९	श्री हरिप्रकाश कुचल, बी० ई० (सिविल) १-५-१९३४, रोहतक	८-५-५४	८-५-५४
३०	श्री हरविन्दरसिंह, बी० ई०, (जोधपुर), २५-५-१९३५, गुजरातवाला	१२-५-५५	१२-५-५५
३१	श्री भंवरलाल कुमावत, डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर (बड़ोदा), ४-१२-१९०७, जयपुर	३०-१०-२५	१-६-३८
३२	श्री ब्रह्मिनारायण शर्मा (सिविल इंजी०), डिप्लोमा, ए० एम० आई० टी० (लंदन), १५-३-१९०५, सीकर	६-६-४५	६-७-५२

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
अधिकासी अभियन्ता, योजना विभाग, जयपुर, २-२-५७	६० ५३०	
अधिकासी अभियन्ता, भवन व पथ, निर्माण विभाग, गंगानगर, २५-७-५५	५३०	
अधिकासी अभियन्ता, भवन व पथ, भरतपुर डिवि० २५-११-५५	५३० ५० मोटर भत्ता	
अधिकासी अभियन्ता, भवन व पथ, जल विभाग, उदयपुर, ४-१-५६	५३०	
अधिकासी अभियन्ता, भवन व पथ, निर्माण विभाग भीलवाड़ा, २३-७-५५	५३०	
अधिकासी अभियन्ता, भवन व पथ, जल व स्वास्थ्य विभाग, जोधपुर, २८-७-५५	५३०	
कला सहायक, अधीक्षण अभियन्ता, भवन व पथ, जोधपुर, १५-२-५६	५००	
कला सहायक, अधीक्षण अभियन्ता, भवन व पथ, उदयपुर, १०-१२-५६		रियायती अवकाश पर
कला सहायक, अधीक्षण अभियन्ता, भवन व पथ, उदयपुर, ४-३-५७		
कला सहायक अधीक्षण अभियन्ता, भवन व पथ, मंडलवृत्त, जयपुर, १२-१-५५	६७५	
सहायक अभियन्ता भवन व पथ, निर्माण विभाग, सवाई माधोपुर	५००	
सहायक अभियन्ता, भवन व पथ, उपखंड किशनगढ़, २३-१२-५६	४५०	

संख्या क्र. १	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
३३	श्री के० पी० त्यागी, अपर सत्रोर्डिनेट ओवरसियर डिप्लोमा (गवर्नमेन्ट इंजी० स्कूल, नागपुर), १०-१-१९०९, कोटा	५-१०-१९४७	५-१०-१९४७
३४	श्री विश्वम्भर नाथ गुप्ता, सब-इंजी० डिप्लोमा (लखनऊ), ३-५-१९०८, झालावाड़	२४-११-१९२८	२४-११-१९२८
३५	श्री सुरम सिंह दत्ता, ओवरसियर लखनऊ, ४-५-१९०४, गुलदासपुर	१-१-१९२७	१-१-१९२७
३६	श्री पीरूमल शर्मा, ओवरसियर, (रुड़की), १२-११-१९०४, मुजफ्फरनगर	६-११-१९३१	६-११-१९३१
३७	श्री किशन सिंह, सब-इंजी० डिप्लोमा (लुधियाना), २०-१०-१९०८, धौलपुर	१-१२-१९३३	१-१२-१९३३
३८	श्री महेन्द्रसिंह कछवाहा, बी० ई०, ७-७-३१, जोधपुर	१६-५-१९५५	२८-१-१९५५
३९	श्री गुरुमुखसिंह, ओवरसियर (लखनऊ), ९-५-१९०९, गंगानगर	१-८-१९३३	१-८-१९३३
४०	श्री जियाउद्दीन अहमद, एम० आई० एस० ई०, ४-१०-१९०४, दिल्ली	१९-४-१९३३	१९-४-१९३३
४१	श्री रेवेलचन्द्र सूरी, सब-इंजी० हार्वर्ट स्कूल, लखनऊ, १०-९-०९, रावलपिन्डी (पाकिस्तान)	१-९-१९३०	१-९-१९३०
४२	श्रीचन्द्रप्रकाश सोरल (सिविल इंजी० डिप्लोमा, पूना), ८-८-१९१७, कोटा	१-४-१९४१	१-४-१९४१
४३	श्री जुगलकिशोर एम० त्रिवेदी, डी०सी०ई०, एल०एस०जी०डी० (बम्बई), १७-७-११, चित्तौड़गढ़	२२-११-१९४६	२२-११-१९४६

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
सहायक अभियन्ता, भवन व पथ, दक्षिण उप-विभाग, उदयपुर, १८-११-५५	४० ३७५	
सहायक अभियन्ता, भवन व पथ, निर्माण विभाग, बूंदी, २७-२-५२	...	
सहायक अभियन्ता, भवन व पथ, गंगानगर, -डिविजन गंगानगर, १७-११-५३	४५०	
सहायक अभियन्ता भवन व पथ, नि० वि० हनुमानगढ़, १६-१२-५३	४५०	
सहायक अभियन्ता, भवन व पथ, नि० वि०, भरतपुर, २१-९-५५	४२५ ५० मीटर भत्ता	
सहायक अभियन्ता, भवन व पथ नि० वि० चांसवाड़ा, ६-८-५६	..	
सहायक अभियन्ता, भवन पथ, उप-खंड, रतनगढ़, १-४-५०	४५०	
१. सहायक अभियन्ता, भवन व पथ, सब डिवि०, उदयपुर	} ५०० ५० मीटरभत्ता	
२ विशेष समय अधिशासी अभियन्ता नगर-विकास कार्यालय, उदयपुर, सन् १९४८ से		
३. कन्स्ट्रिक्शन इंजिनियर, सिटी कारपोरेशन, उदयपुर, अक्टूबर १९४९ से		१०० वि० दे०
सहायक अभियन्ता, भवन व पथ, निर्माण विभाग, पाली, ११-८-५५	४५०	
सहायक अभियन्ता, भवन व पथ, दक्षिण उपखंड, अलवर, २१-११-५५	३७५	
सहायक अभियन्ता, भवन व पथ, वेस्ट सब डिवि०, जोधपुर, २१-१-५६	३७५	

संख्या क्रम १	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान २	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक ३	विभाग में नियुक्ति का दिनांक ४
४४	श्री के० जी० शाह, डिप्लोमा सिविल इंजी० (लखनऊ), २०-३-१९२०, बांसवाड़ा,	३-३-१९४५	३-३-१९४५
४५	श्री रामप्रसाद, ओवरसियर (लखनऊ), इडेडा, सं० १९७० माघ वदि १५	१-३-१९३२	१-२-१९३२
४६	श्री त्रिलोकीनाथ सेठ, सव० इंजी० (दिल्ली) १२-१२-१९१४, पेशावर	१५-८-१९३४	१५-८-१९३४
४७	श्री अम्बालाल मारू डी० सी० ई०, (कला भवन, बड़ौदा), २१-२-१९१०, उदयपुर	४-१२-१९४४	१३-४-१९४९
४८	श्री कल्याणबक्स माथुर, ओवरसियर (रुड़की), ६-२-१९०६, अजमेर	८-११-१९४८	८-११-१९४८
४९	श्री भीमसिंह, सिविल इंजी० डिप्लोमा (लखनऊ), १९-३-१९२२, रोहतक	१३-१-१९४५	१७-४-१९५२
५०	श्री फतेहरूपराय, सैनि० इंजी० (बम्बई), २०-१-१९११, जोधपुर
५१	श्री प्रेमचन्द्र संधी, ओवरसियर (लखनऊ), ए० एम० आई० ई० (भारत), ३-८-२६, जयपुर	२६-७-१९४७	२६-७-१९४७
५२	श्री शिवप्रसाद जोशी, ओवरसियर, (लखनऊ), ए० एम० आई० ई० (भारत), ३-८-१९२२, मंदसौर (मध्य प्रदेश)	१७-२-१९४७	१७-२-१९४७
५३	श्री अमर सिंह, ओवरसियर (रुड़की) २८-१०-१९१०, मुजफ्फरनगर (उ० प्र०)	२१-२-१९३१	२१-२-१९३१
५४	श्री मंगलसिंह, डिप्लोमा सिविल इंजी० (पूना), ८-२-१९०९, जोधपुर	१३-२-१९३३	१३-२-१९३३
५५	श्री मूलसिंह, ओवरसियर (लखनऊ), २२-६-१९०२, पश्चिमी पंजाब	२२-७-१९३०	२२-७-१९३०
५६	श्री प्रहलादराय चौधरी, ओवरसियर (रसूल), ३-१०-१९०३, जयपुर	७-२-१९२७	२२-२-१९३२

वर्तमान पद और दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
सहायक अभियन्ता, भवन व पथ, नि० वि०, डूंगरपुर, १७-३-४९	४२५	२०
सहायक अभियन्ता, भवन व पथ, नि० वि०, डूंगरपुर, २८-३-५७	२५०	
सहायक अभियन्ता, भवन व पथ, नगर उप-भाग, अजमेर, १-११-५६	४२५	
सहायक अभियन्ता, भवन व पथ, उत्तरी उप-खंड, उदयपुर, १-१०-५६	४००	
सहायक अभियन्ता, भवन व पथ, वेस्ट सब- डिवि० भीलवाड़ा, २१-५-५५	००	
सहायक अभियन्ता, भवन व पथ, नगर उपभाग, २, जयपुर, १७-४-५२	३५०	
सहायक अभियन्ता, भवन व पथ, सब-डिवि०, नागौर, १७-४-५४	३७५	
सहायक अभियन्ता, भवन व पथ, नगर उपखंड, अजमेर, १-११-५६	२७५	
सहायक अभियन्ता, भवन व पथ, सब-डिवि०, झालावाड़, १८-९-५३	३००	
सहायक अभियन्ता, भवन व पथ, नि० वि० झुंझुनू, १३-१०-५६	३२५	
सहायक अभियन्ता, भवन व पथ, नि० वि०, वाड़मेर, उप डिवि०, २-९-५३	३२५	
सहायक अभियन्ता, भवन व पथ, रूरल वार्डर सप्लाई स्कीम, जोधपुर	४५०	
सहायक अभियन्ता, जल विभाग, जयपुर	५२५	

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
५७	श्री चैतन्य विजैराज पुरोहित, बी० ई०, १-१-१९३२, जोधपुर	६-३-१९५३	१६-९-१९५४
५८	श्री गोविन्दलाल माथुर, बी० ई०, २-७-१९३१	१५-६-१९५४	२-१२-१९५४
५९	श्री पुरषोत्तमलाल भोला, ओवरसियर (रसूल), १५-११-१९०८, झेलम	२५-११-१९३०	२५-११-१९३०
६०	श्री जगमोहन मलहोत्रा, बी० एससी०, बी० ई० (आनर्स), २६-८-१९३०, हिमाचल प्रदेश	३१-८-१९५४	
६१	श्री कुश कुमार सरिन, बी० एससी० (सिविल) (बनारस), ३०-६-१९३३, धौलपुर	२९-८-१९५४	२९-८-१९५४
६२	श्री श्यामसुन्दर व्यास, बी० ई०, १३-६-१९३१, जोधपुर	९-२-१९५४	९-१२-१९५४
६३	श्री अक्षयराज माथुर, बी० ई०, ५-७-३१, जोधपुर	४-१२-१९५४	४-१२-१९५४
६४	श्री धर्मेन्द्रकुमार गुप्ता, बी० ई० (आनर्स), ४-६-१९३०, जोधपुर	४-१२-१९५४	४-१२-१९५४
६५	श्री पुरुषोत्तमचंद्र त्रिपाठी, बी० एससी०, बी० ई०, ६-८-१९३२, अजमेर	३-१२-१९५४	७-८-१९५५
६६	श्री मनमोहनस्वरूप बी० ई० (आनर्स), १४-३-१९३४, जयपुर	४-१२-१९५४	४-१२-१९५४
६७	श्री केसरीसिंह मेहता, बी० ई०, १४-१-१९३१, उदयपुर	११-१-१९५५	११-१-१९५५
६८	श्री सुरेन्द्रकुमार सक्सेना, बी० एससी०, सी० एससी० (सिविल) (अलीगढ़), २७-४-३२, बूंदी	१०-६-१९५३	१०-६-१९५३
६९	श्री महेशचन्द्र शर्मा, बी० एससी०, बी० ई० आनर्स (सिविल), ७-१२-३२, डूंगलुवा, झुन्झुनू	२०-५-१९५५	२०-५-१९५५

वर्तमान पद और दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
सहायक अभियंता, भवन व पथ, सब डिवि० सिरोही, १८-६-५६	३००	
सहायक अभियंता, भवन व पथ, जल उप-खंड, उदयपुर, २-८-५५	३००	
सहायक अभियंता, भवन व पथ, नगर उप-खंड १, बीकानेर, १७-१२-५६	२५०	
सहायक अभियंता, भवन व पथ, उत्तर उप-खंड, अलवर, ४-५-५४	३०० ५० मोटर भत्ता	
सहायक अभियंता, भवन व पथ, विशेष खंड, जयपुर, २३-१२-५५	३००	
सहायक अभियंता, भवन व पथ, नि० वि०, पीकरण, ४-६-५६	३००	
सहायक अभियंता, भवन व पथ, यो० वि०, उप-खंड २, जयपुर, ४-१२-५४	३००	
सहायक अभियंता, भवन व पथ, नि० वि०, धौलपुर, १५-९-५५	३००	
सहायक अभियंता, भवन व पथ, स्वास्थ्य विभाग, जोधपुर, ४-२-५६	३००	
सहायक अभियंता, भवन व पथ, नि० वि०, दौसा, ४-१२-५४	३००	
सहायक अभियंता, भवन व पथ, इन्डस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम, जयपुर, ८-८-५६	३००	
सहायक अभियंता, भवन व पथ, निर्माण- विभाग, कोटा, १७-१-५५	३०० ५० मोटर भत्ता	
सहायक अभियंता, भवन व पथ, नगर उप-भाग १, जयपुर, ३-९-५५	२७५	

क्र. संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
७०	श्री श्यामलाल जोशी, बी० ई०, २-८-३४, देवगढ़	१९-५-५५	१०-६-५६
७१	श्री रमेशचन्द्र दत्त, ओवरसियर, १३-१२-१९०६, जलन्धर	१८-५-१९३१	१८-५-१९३१
७२	श्री दीपचन्द्र गुप्ता, ओवरसियर (सिविल इंजी० रुड़की), १-१२-१९०५, जोधपुर	६-११-१९३१	६-११-१९३१
७३	श्री ललितबिहारी बक्षी, बी० एससी०, बी० ई० (जोधपुर), ९-२-३१, उदयपुर	१-५-१९५४	८-८-१९५५
७४	श्री समर्थसिंह बक्षी, बी० ई० (जोधपुर), ६-२-३१, उदयपुर	१-५-१९५४	६-९-१९५५
७५	श्री रमेशचन्द्र जोशी, बी० ई० (सिविल), ६-५-३२, अलवर	२४-११-१९५५	२४-११-१९५५
७६	श्री वृजेन्द्रकुमार गुप्ता, बी० ई० ऑनर्स (बन्वई), १०-१०-३४, फतेहपुर	९-१०-१९५४	९-१०-१९५४
७७	श्री पी०एस० राजवंशी, बी० ई०, बीकानेर	१६-१२-१९५४	१६-१२-१९५४
७८	श्री कमलाकान्त ओवरसियर (रुड़की), ए० एम० आई० ई० (भारत), १२-९-१९२७	२६-९-१९४७	७-८-१९५५
७९	श्री नारायणलाल, बी० ई०, ३-५-१९२६, जोधपुर	१२-४-१९५४	१६-८-१९५५
८०	श्री रमेशचन्द्र सेठी, २३-१-२८, जयपुर	८-३-१९५४	२१-१२-१९५६
८१	श्री मोहन बी० जैन, बी० ई० (ऑनर्स), ५-९-१९३०, जालौर	२५-११-१९५५	२५-११-१९५५
८२	श्री रमाकान्त शर्मा, बी० ई०, ग्रेड आई० ई० (भारत), १-२-१९३०, अलवर	२०-८-१९५५	२०-८-१९५५

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
सहायक अभियंता, भवन व पथ, नगर उप-खंड, जोधपुर, १०-६-५६	२५०	
सहायक अभियंता, भवन व पथ, नि० वि०, अकलेरा, १-१-५७	२५०	
सहायक अभियंता, भवन व पथ, राष्ट्रीय मार्ग, भीम, २१-११-५५	२७५	
सहायक अभियंता, भवन व पथ, दक्षिण उप-खंड, खेरवाड़ा, राष्ट्रीय मार्ग, ८-८-५५	२७५	
सहायक अभियंता, भवन व पथ, राष्ट्रीय मार्ग, उत्तरी खंड, नाथद्वारा, ६-९-५५	२७५	
सहायक अभियंता, भवन व पथ, नि० वि०, डिस्ट्रिक्ट उप-खंड, २०-९-५६, जोधपुर	२५०	
सहायक अभियन्ता, भवन व पथ, योजना विभाग, उप-खंड प्रथम, १७-१-५६	३००	
स्पेशियल ऑफिसर, वीकानेर, १६-१२-५४	३००	
सहायक अभियंता, भवन व पथ, नि० वि०, ब्यावर, १-११-५६	२७५	
सहायक अभियंता, भवन व पथ, जल विभाग, जोधपुर, १६-८-५५	२७५	
सहायक अभियन्ता, भवन व पथ, जल उप-खंड, नगर विभाग, वीकानेर, १२-२-५७	२५०	
सहायक अभियन्ता, जलदाय, उप-विभाग, कोटा, २५-११-५५	२७५	
सहायक अभियन्ता, जलदाय, नगर उप-विभाग, कोटा, ५-११-५५	२७५	

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
८३	श्री गोपाल लाल नाग, बी० ई०, १५-११-३२, निवाई (टोंक)	२२-११-५५	२२-११-५५
८४	श्री कृपाशंकर, ओवरसियर (लखनऊ), ११-७-१०, अलवर	३-२-३४	३-२-३४
८५	श्री चन्द्र भूषण ओवरसियर (रुड़की). ए० एम० आई० ई० (भारत), १२-५-२४ भरतपुर	२८-३-४७	२८-३-४७
८६	श्री रामावतार खेमाणी, बी० ई० (इले०), १५-१-२४, झुन्धुनू	१-५-५६	१-५-५६
८७	श्री प्रमोदकृष्ण, बी० ई० (आनर्स), ६-६-३५, जालन्धर	२२-६-५६	२२-६-५६
८८	श्री हरिकृष्ण कल्ला, बी० एससी०, बी० ई०, १-३-३१, जोधपुर	११-५-५५	२३-२-५६
८९	श्री सम्पतमल माथुर, बी० ई०, २५-७-३२, जोधपुर	११-५-५५	११-५-५५
९०	श्री सुनील कुमार मुकर्जी, बी० एससी०, बी० ई०, २९-४-३३, जयपुर	३०-१-५६	३०-१-५६
९१	श्री मीठठुलाल के० शर्मा, एल० एस० ई० (बम्बई), ए० एम० आई० पी० एच० (लन्दन), २१-५-१८, जयपुर	१-३-४४	१-३-४४
९२	श्री छैलबिहारीलाल माथुर, बी० एससी०, बी० ई०, १४-१२-३१, करौली	२८-४-५५	२१-११-५५
९३	श्री विश्वम्भर. धयाल गुप्ता, ओवरसियर (रुड़की), १-३-०४, बुलन्दशहर	१६-३-३३	२०-८-५५
९४	श्री जगजीतसिंह, ओवरसियर (रुड़की) ड्राइंग इन्टर (बम्बई), आर्चिटेक्ट एम० आई० टी० (लन्दन), १८-१-१२, बीकानेर	२६-६-३०	२७-७-५५
९५	श्री प्रेमकिशन गोविल, बी० ई०, २-९-३३, जयपुर	२२-११-५५	१२-११-५५

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
सहायक अभियन्ता, भवन व पथ, नि० वि०, सीकर, १७-१२-५६	२००	..
सहायक अभियन्ता, भवन व पथ, जल विभाग, डिस्ट्रिक्ट उप-खंड, जयपुर	२७५	
सहायक अभियन्ता, भवन व पथ, नि० वि०, टोंक	२७५	
सहायक अभियन्ता, भवन व पथ, जल उप-खंड, अलवर, ११-९-१९५७	२५०	
सहायक अभियन्ता, भवन व पथ, भाकरा मंडी, डि० हनुमानगढ़, ८-१०-५६	२७५	
सहायक अभियन्ता, भवन व पथ, नि० वि०, स्वास्थ्य वृत्त, जयपुर, ३-२-१९५६	२७५	
सहायक अभियन्ता, भवन व पथ, डिस्ट्रिक्ट जल उप-खंड, बीकानेर, १५-१०-५६	२७५	
सहायक अभियन्ता, भवन व पथ, नि० वि०, भोलवाड़ा, ३०-१-५६	..	
सहायक अभियन्ता, भवन व पथ, जल विभाग, नगर उप-खंड, उदयपुर, २०-८-५५	२७५	
सहायक अभियन्ता, भवन व पथ, नि० वि०, चित्तौड़गढ़, ३०-१-५६	..	
सहायक अभियन्ता, भवन व पथ, ईस्ट० सर्व० डि०, जयपुर, २०-८-५५	२७५	
सहायक अभियन्ता, भवन व पथ, नि० वि०, नगर उप-खंड, बीकानेर, ३१-१२-५६	२७५	
सहायक अभियन्ता, भवन व पथ, डि० उप-खंड, कोटा, ४-१-५७	२७५	

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
९६	श्री मोहनलाल माथुर, १-७-०७, जोधपुर	१९-१०-१९२९	१-१०-१९५६
९७	श्री इयामसुन्दर माथुर, बी०ई०, १०-३-१९३४, उदयपुर	३०-४-१९५५	३०-४-१९५५
९८	श्री भवदीशप्रसाद जैन, बी० ई०, २०-९-१९३०, भरतपुर		६-११-१९५६
९९	श्री रमेशचन्द्र पंचार्या, बी०एससी०, बी०ई०, ३०-१०-१९३३, झालावाड़	७-११-१९५६	७-११-१९५६
१००	श्री बनारसीदास गोयल, ओवरसियर (लखनऊ), १३-२-०४	२१-१२-१९२५	२१-१२-१९२५
१०१	श्री गुलजारीलाल शर्मा, ओवरसियर (लखनऊ), १३-१२-१९१०	१-२-१९३७	१-२-१९३७
१०२	श्री कुंदनलाल ढांड, ओवरसियर (लखनऊ), १-४-०९, फिरोजाबाद	१३-१०-१९३१	१३-१०-१९३१
१०३	श्री नार्थसिंह खोसरा, ओवरसियर (बडोड़), ६-५-१९१०	८-१-१९३१	८-१-१९३१
१०४	श्री भावतीलाल माथुर, बी० ई०, १८-१-१९३६	१७-५-१९५६	१७-५-१९५६
१०५	श्री वृजगोपाल शर्मा, बी०ई०, १-६-३६, जयपुर (राजस्थान)	१९-३-१९५७	१६-६-१९५७

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
लेखाधिकारी, निर्माण विभाग, जल वितरण विभाग, जयपुर	४००	
सहायक अभियन्ता, भवन व पथ, औद्योगिक गृह-निर्माण योजना, पाली, ६-१०-५६	२५०	
सहायक अभियन्ता, भवन व पथ, नगर उप-खंड ३, जयपुर, ६-११-५६	२५०	
सहायक अभियन्ता भवन व पथ, स्वास्थ्य उप-खंड जयपुर, ७-८-५६	२५०	
सहायक अभियन्ता, भवन व पथ, नि०वि०, करौली, १२-११-५६	२५०	
सहायक अभियन्ता, भवन व पथ, रुरल वाटर सप्लाई स्कीम, जयपुर, अक्टूबर, ५४	४००	
सहायक अभियन्ता, भवन व पथ, रुरल वाटर सप्लाई स्कीम, वीकानेर, ४-११-५४	४००	
सहायक अभियन्ता, भवन व पथ, रुरल वाटर सप्लाई स्कीम, उदयपुर, ३०-१०-५४	३७५	
सहायक अभियन्ता, भवन व पथ, नि०वि०, हनुमानगढ़, २३-३-१९५७	२५०	
सहायक अभियन्ता, भवन व पथ, नि०वि०, हनुमानगढ़, १९-३-१९५७	२५०	

उद्यान

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१	श्री चैन नारायण शिवपुरी, कृषि प्रशिक्षण (फानपुर), मक्खी पालन प्रशिक्षण, ६-२-१९०३, अलवर	१-९-१९३३	१-९-१९३६
२	श्री श्रीधरसिंह, बी० ए० ट्रेन्ड इन हॉर्टिकल्चर, १७-१२-१९१८, भरतपुर	१-५-१९४३	१-५-१९४३
३	श्री दया शंकर चौबीसा, स्पेशल ट्रेनिंग इन हॉर्टिकल्चर (पूना), २२-११-०९, उदयपुर	१-७-१९३६	१-७-१९३६
४	श्री खीवराज सांखला, एफ० बी० एम०, ८-२-१९०८, जोधपुर	१-६-१९३३	१०-८-१९४५
५	श्री रतन लाल मथुर, बी० ए०, ट्रेन्ड इन हॉर्टिकल्चर (सहारनपुर), १२-१-१९१५, अलवर	१-३-१९३६	१-३-१९३६
अन्य			
१	श्री आर० सी० भार्गव, बी० एससी०	..	२२-२-१९५६
२	श्री परमानन्द एम० गजरिया

विभाग

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
५.	६	७
उद्यानाधिकारी, राजस्थान, ३०-६-५१	६० ५३०	
अध्यक्ष, उपवन विभाग, जयपुर	२७५	
अध्यक्ष, उपवन विभाग, कोटा, ४-८-५५	२६५	
अध्यक्ष, उपवन विभाग, जोधपुर, ३०-७-५५	३८५	
अध्यक्ष, उपवन विभाग, मत्स्य मंडल, अलवर, १६-७-१९५५	१७५	
अधिकारी		
लेखाधिकारी, भवन व पथ, निर्माण विभाग, जयपुर, २२-२-५६	२५०	
वस्तुकार, भवन व पथ, निर्माण विभाग, जयपुर	..	

सिंचन

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३	४

मुख्य

१	श्री मोतीराम, आई० एस० ई० (रिटायर्ड), बी० एससी० (आनर्स), सी० ई० (रुड़की), एम०आई०ई०(भारत), १६-२-१८९७, दिल्ली	२०-९-५२	२०-९-५२
---	--	---------	---------

अधीक्षक

१	श्री एम० आर० पुरी, बी० एससी० (ब्रिस्टोल), ए० एम०आई०ई० (भारत), १०-३-१९०४	१-१-३२	१-१-३२
---	---	--------	--------

२	श्री भगवान दास, सी०ई० (रुड़की), ५-५-१९०२, अम्बाला (पूर्वी पंजाब)	१९-११-२८	१९-११-२८
---	---	----------	----------

३	श्री श्याम लाल गुप्ता, एम०ए०, बी०एससी० (आनर्स), ए० एम० आई० ई०, १-९-०२, भरतपुर	२०-११-४७	२८-१-५०
---	---	----------	---------

४	श्री आर० एन० चौधरी, बी०ई०, (सी०ई०), १५-५-११, जोधपुर	३०-६-३३	२-९-५२
---	--	---------	--------

५	श्री पी० एल० पाहवा, ७-७-१९०८	२२-८-३२	२२-८-३२
---	------------------------------	---------	---------

६	श्री जे० एन० मेहरा, बी० ए०, (सी० ई०), एम०आई० ई०, कानपुर	२०-१२-५६	२०-१२-५६
---	--	----------	----------

अधिशामी

१	श्री आर०एन० चौधरी, बी०ई० (सी०ई०), ५-५-११, जोधपुर	३०-६-३३	२-९-५२
---	---	---------	--------

२	श्री पी० एल० पाहवा, ७-७-१९०८	२२-८-३२	२२-८-३२
---	------------------------------	---------	---------

३	श्री एन० एन० बक्षी, बी० ए०, बी० एससी० (सि०ई०), एल० सी०, ए० एम० आई० ई० (भारत), १०-२-१९०७, पंजाब	६-४-३७	६-४-३७
---	--	--------	--------

विभाग

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
	₹०	
अभियन्ता		
जयपुर, २०-९-५२	२,२०८-५-०	संव्रिदा आधार पर (पेंशन के अलावा)
अभियन्ता		
राजस्थान केनाल, जयपुर, २८-११-५३	१,२५०	
उदयपुर सिर्किल, उदयपुर, ४-१२-५३	१,२००	
जयपुर सिर्किल, जयपुर, १२-७-५१	१,२००	स्थानापन्न
चम्बल प्रोजेक्ट, बैरेज सिर्किल, कोटा, १५-५-५४	१,१००	स्थानापन्न
सिचाई एवं भाकरा सिर्किल, श्रीगंगानगर, २५-११-५६	१,०००	स्थानापन्न
चम्बल प्रोजेक्ट, केनाल सिर्किल, कोटा, २०-१२-५६	८७५	संव्रिदा आधार पर (पेंशन के अलावा)
अभियन्ता		
अधीक्षण अभियन्ता	..	स्थानापन्न

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
४	श्री श्याम लाल गुप्ता, एम० ए०, बी० एससी० (आनर्स), ए० एम० आई० ई०	२०-११-४७	२८-१-५०
५	श्री हरिसिंह चौधरी, बी० ई० (सी० ई०) (आनर्स), एम० एस० ऐसोशियेट, एम० ए० एससी० ई०, ६-७-२०, जोधपुर	५-१-४४	५-१-४४
६	श्री बी०आर० चौकन्ना आथंगर, बी० एससी०, बी० ई० (सिविल), ११-११-१०, बंगलौर	८-५-४५	८-४-४५
७	श्री रोशन लाल मलहोत्रा, बी० एससी०, ए० एम० आई० ई०, २५-२-०८, अम्बाला	१०-७-४६	१०-७-४६
८	श्री जयनारायण, ओवर० (रुड़की), ९-३-०३, जोधपुर	१-७-२५	१४-५-४९
९	श्री रामसिंह व्यास, बी० ई० (पटना), ए० एम० आई० ई०, ८-११-१८, जोधपुर	२-१०-४४	१८-६-५१
१०	श्री महेश नारायण, ओवर० (रुड़की), २२-११-१८, भरतपुर	१-१०-३६	..
११	श्री चन्नी लाल वात्रा, ओवर० 'ए' ग्रेड (रसूल), २६-९-०९, जयपुर	१७-२-३१	१७-२-३१
१२	श्री गोविन्द प्रसाद महर्षि, बी० ए०, एलएल० बी०, ओवरसियर (रुड़की), १२-१०-१२, भरतपुर	७-९-४०	७-९-४०
१३	श्री अमीरचन्द गुलेटी, ओवरसियर 'ए' ग्रेड, (रसूल), १५-९-०८, गंगानगर	२४-७-३२	२४-७-३२
१४	श्री बी० बी० शाह, बी० ई० (सिविल) (बम्बई), २८-१०-१९, पाली	१-५-४७	२१-६-५२
१५	श्री डी० एस० नोटारा, बी० ए०, बी० एससी० (आनर्स) (मेकेनिकल), ए० एम० आई० ई० (भारत), १-१-२५, होशियारपुर (पंजाब)	१९-११-४८	१९-११-४८

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
अधीक्षण अभियन्ता	६००	स्थानापन्न
मुख्य अभियन्ता के टेक्निकल असिस्टेंट, २५-२-५६, जयपुर	६७५	
अजमेर सिंचाई खंड, अजमेर, १७-११-५५	६५०	
घग्घर डिविजन, हनुमानगढ़, २४-१-५२	६००	
जवाई डेम डिविजन, एरनपुरा रोड, १-४-५०	७००	स्थानापन्न
पश्चिमी खंड, जयपुर, २२-११-५५	६००	स्थानापन्न
मत्स्य डिविजन, अलवर, २८-११-५५	६००	
पूर्वी खंड, जयपुर, २९-१२-५५	६००	स्थानापन्न
सर्वे एवं इन्वेस्टिगेशन डिविजन, उदयपुर, १२-६-५४	५५०	स्थानापन्न
राजस्थान केनाल डि०, श्री गंगानगर, २४-११-५४	५५०	स्थानापन्न
पी० ए०, मुख्य अभियन्ता, भाकरा प्रोजेक्ट, जयपुर, २८-३-५५	५५०	स्थानापन्न
राइट केनाल डि० १, चम्बल प्रोजेक्ट, कोटा, ५-७-५४	५५०	स्थानापन्न

क्रमा संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१६	श्री के० एन० नानेश शर्मा, बी० ई०(सिविल), २५-११-०८, मैसूर	२१-२-४५	१-५-४८
१७	श्री बी० के० सेहरा, बी० एससी० (आगरा), बी० एस० (सिविल)(आयोवा) (यू० एस० ए०), १६-११-२३, कोटा	२-१-५०	२-१-५०
१८	श्री जी० एस० शास्त्री, बी० ई०, ए० एम० आई० ई०, २४-४-२२, मैसूर	३०-१२-४५	२२-१०-५४
१९	श्री डी० एम० मन्सारमानी, (मेकेनिकल एवं इलेक्ट्रिक कोर्स), कराची, ९-१०-१४, सिध	२४-४-४८	२४-४-४८
२०	श्री जी० आर० सेनानी, एम० आई० ई० (भारत), २७-११-०८, जालन्धर	२९-११-५२	२९-११-५२
२१	श्री एच० आर० वर्मा, बी० एससी०, सी० ई०, (रुड़की), १६-६-११, आगरा	२३-११-३५	२०-३-५३
२२	श्री ए० एन० हरलोकी, बी० एससी० (सी० ई०), (आनर्स), एम० एससी०, ई० एम० (सिन्हाई) (इंग्लैंड एवं यू० एस० ए०), ५-२-३२, सीतापुर (उ० प्र०)	१-७-४५	१८-३-५३
२३	श्री टी० पी० मक्खोजानी, बी० ई० (सिविल), २८-८-१८९९	१७-८-५४	१७-८-५४
२४	श्री के० सी० मजूमदार, बी० एससी० (सी० ई०), (रुड़की) एम० आई० ई० (भारत), १५-३-१८९६, कलकत्ता	१३-२-५६	१३-२-५६
२५	श्री रामलाल खुराना, ओवर० (रसूल), १-१-०८, मुल्तान (पाकिस्तान)	१७-१०-४७	१७-१०-४७
२६	श्री पी० जी० आचार्य, ओवर० (लखनऊ), १४-७-१०, सौराष्ट्र	२-४-४१	२-४-४१
२७	श्री गिरराजसिंह, ओवर० (लखनऊ) ए० एम० आई० (सी० ई०), (कोलम्बिया, यू० एस० ए०.) २४-१-१९, भरतपुर	१३-८-४७	१३-८-४७

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
पोली भंग, डिवि० हनुमानगढ़, १८-११-५५	६० ५२५	स्थानापन्न
लेप्ट केनाल डिवि०, चम्बल प्रोजेक्ट, कोटा, २५-९-५५	५५०	स्थानापन्न
पारवती प्रोजेक्ट, धौलपुर, २२-१०-५४	६७५	निर्माण विभाग से भवन व पथ से प्रतिनियुक्ति पर
मेकेनिकल डिवि०, चम्बल प्रोजेक्ट, कोटा, २५-९-५५	५२५	विद्युत् एवं यांत्रिक विभाग से प्रतिनियुक्ति पर
कोटा डिवि०, बून्वी, २९-११-५२	६९०	मय पेन्शन के
कांकरोली डिवि०, कांकरोली, ७-११-५४	८४०	उ० प्र० से प्रतिनियुक्ति पर
बरेज डिवि०, कोटा, १७-४-५४	..	उ० प्र० से प्रतिनियुक्ति पर
ओन स्पेशल इञ्जीनीर, राजस्थान केनाल, श्रीगंगानगर, १७-८-५४	८००	पेन्शन के अलावा पुनर्नियुक्ति पर
मुख्य अभियन्ता के० पी० ए०, चम्बल प्रोजेक्ट, जयपुर, १३-२-५६	८००	"
गंग केनाल डिवि०, श्री गंगानगर, २५-४-५६	५००	स्थानापन्न
राइट मेन केनाल डिवि०, चम्बल प्रोजेक्ट, कोटा, १७-८-५६	५००	"
उदयपुर डिवि०, उदयपुर, २५-८-५६	५००	"

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
२८	श्री मनोहरलाल माथुर, बी. एससी., बी० एससी० (बेलफास्ट), १-८-२७, जोधपुर	२८-१-५२	२३-३-५३
२९	श्री अरजुनसिंह कपर, बी० ई० (रुड़की), २३-१०-३०, बीकानेर	२३-६-५२	२३-६-५२
३०	श्री सी० एस० हुकमानी, बी० ई० (रुड़की), २५-३-३०, जयपुर	१९-२-५३	१९-२-५३
३१	श्री जी० बी० सुवाराव	११-२-५७	११-२-५७
सहायक			
१	श्री जयनारायण		
२	श्री रामसिंह व्यास		
३	श्री महेश नारायण		
४	श्री चुन्नीलाल दात्रा		
५	श्री गोविन्द प्रसाद महर्षि		
६	श्री अमीर चन्द गुलेटी		
७	श्री बी० बी० शाह		
८	श्री डी० एस० नोटरा		
९	श्री के० इ० नागेश शर्मा		
१०	श्री बी० के० मेहरा		
११	श्री डी० एम० मन्सारमानी		
१२	श्री सुरेन्द्र नाथ सेठी, ओवर० (लखनऊ), ४-५-१०, झम्लावाड़	१७-१२-२७	१३-१-५७

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
	६०	
जवाई केनाल डिवि०, एरिनपुरा रोड, १-१-५७	५००	स्थानापन्न
रेजा एवं अन्य प्रोजेक्ट खंड, भीलवाड़ा, २०-१२-५६	५००	
डिस्ट्रीक्ट्रीज डिवि०, चम्बल प्रोजेक्ट, कोटा, ३१-१२-५६	५००	
एकवीडक्ट्स डिवि०, चम्बल प्रोजेक्ट, कोटा, ११-२-५७	८५०	

अभियन्ता

अधिसासी अभियन्त

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

एम० आई० वर्क्स, सब-डिविजन, टोंक,
६-१-५४

४२५

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियमित का दिनांक
१	२	३	४
१३	श्री गौरीशंकर एम० भट्ट, ओवर० (लखनऊ), १२-३-१२	१२-६-३०	२३-१२-४९
१४	श्री बलवीर चन्द्र शर्मा, ओवर० डिप्लोमा, ए० एम० आई० ई० टी० (डीटी), २६-९-०९, लुधियाना	१७-४-४३	१७-४-४३
१५	श्री हरिकिशोर गुप्ता, ओवर०, १-६-१२	२३-१२-३३	२३-१२-३३
१६	श्री रामलाल खुराना, ओवर० (रसूल), मुल्तान (प० पाकि०): १-१-०८	१७-१०-४७	१७-१०-४७
१७	श्री रतनलाल गोयल, ओवर० (लखनऊ), ९-७-२४, जयपुर	१४-५-४६	१४-५-४६
१८	श्री पी० जी० आचार्य, ओवर० (लखनऊ), १४-७-१०, सौराष्ट्र	२-४-४९	२-४-४९
१९	श्री सरदारसिंह मेहता, ओवर० (लखनऊ), ४-७-२१, भीलवाड़ा	२५-१०-४४	१-२-५०
२०	श्री गिररार्जसिंह, ओवर० (लखनऊ), ए० एम० आई० सी० ई० (कोलम्बिया), (यू० एस० ए०). २४-१-१९, भरतपुर	१३-८-४७	१३-८-४७
२१	श्री भंवरलाल श्रोवास्तव, ओवर० (रसूल), ४-७-०४, जयपुर	३-२-२८	३-२-२८
२२	श्री बलवन्तसिंह सरूपिरया, ओवर० (उ० प्र०), ११-४-२१, उदयपुर	९-१०-४१	९-१०-४१
२३	श्री बी० वी० मेहता, बी० ई० (सिविल), २-६-०७	९-५-३१	९-२-४०
२४	श्री कैलाश चन्द्र, स्ट्रक्चरल इन्जी० (नई दिल्ली), १५-१२-०५, मेरठ	१८-७-३९	२९-२-५२
२५	श्री बी० के० मुकर्जी, बी० ई० (सिविल), २-१२-२४, बीकानेर	२६-१-५२	२६-१-५२

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
दक्षिण उप-खंड, अजमेर, २०-१२-५४	४२५	
भरतपुर, उप-खंड, भरतपुर, १५-९-५२	४२५	
वासवाड़ा, उप-खंड, वासवाड़ा, ११-१२-५४	४२५	
अधिशाली अभियन्ता, ५-८-५४	..	स्थानापन्न
बून्दी उप-खंड, फरवरी, ५६	४२५	
अधिशाली अभियन्ता	..	स्थानापन्न
नमूना प्रोजेक्ट उप-खंड, नाथद्वारा, २७-६-५२	४२५	
अधिशाली अभियन्ता	..	स्थानापन्न
एम० आई० वर्क्स, सिरोही, ११-८-५५	४२५	अस्थायी
नीम का थाना, उप-खंड, अलवर	४२५	"
सर्वे एवं इन्वेंट्रिस्ट्रिगेशन, उप-खंड उदयपुर, फरवरी, ५६	४२५	"
भीलवाड़ा उप-खंड, भीलवाड़ा, ३१-५-५५	४२५	"
लेफ्ट केनाल, उप-खंड, चम्बल प्रोजेक्ट, फोटा ८-११-५५	४००	"

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
२६	श्री मनोहरलाल माथुर, बी० एससी०, बी० एस० (बैलफास्ट), १-८-२७, जोधपुर	२८-१-५२	२३-३-५३
२७	श्री साधोराम, बी०एससी०, बी० ई० (सिविल), १-१-२४, जोधपुर	१०-७-५२	२४-२-५३
२८	श्री बी० के गुप्ता, बी० एससी० (भारत) (त्रावनकोर) (आगरा), ३-१-२८, चूरू	२०-१२-५१	२१-१२-५१
२९	श्री रणवीरसिंह बी० एससी०, बी० एससी० (इन्जीनियरिंग), ७-५-२२, अलवर	१६-२-५३	१६-२-५३
३०	श्री अर्जुनसिंह कपूर, बी० ई० (रुड़की), २३-१०-३०, बीकानेर	२३-६-५२	२३-६-५२
३१	श्री सी० एस० हुकमानो, बी० ई० (रुड़की), २५-३-३०, जयपुर	१९-२-५३	१९-२-५३
३२	श्री गणेशमल माथुर, बी० एससी० (इन्जी०), २६-७-२३, जोधपुर	२३-१-५३	२३-१-५३
३३	श्री गुरुचरणसिंह गुप्त, बी०एससी० (सिविल इन्ज.नियरिंग), १५-११-२३, गंगानगर	२८-७-५२	२८-७-५२
३४	श्री जगत ईश्वरदास ज्ञानचन्दानी, बी० ई० सिविल, पूना, १५-११-२६, सिन्ध	१०-२-५३	१०-२-५३
३५	श्री मेघराज कालरा, बी० ई० सिविल, पूना, बी० ई०, ११-१२-२८, गंगानगर	२२-५-५२	२२-५-५२
३६	श्री कलाशरूप राय, बी० ई० (सिविल), २५-४-२९, जोधपुर	७-१२-५१	७-१२-५१
३७	श्री सत्यपाल कश्यप, बी० एससी० (इन्जी०), ६-१०-३०, गंगानगर	२६-१-५२	२६-१-५२
३८	श्री श्री नालाल बी० माथुर, बी० ई० (मैट्र) ८-११-२५, जोधपुर	४-७-५०	१५-३-५३
३९	श्री सदानन्द सहगल, ओवर० (रसूल), ए० एम० आई० बी० ई० (लन्दन), १२-३-१०	२४-२-५३	२४-२-५३

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
अधिसासी अभियन्ता	३०	अस्थायी, स्थापनापन्न
करनपुर, उप-खंड, करनपुर, १२-९-५४	३५०	अस्थायी
हंडक्वार्टर्स एवं रावत भाटा उप-खंड, कोटा, १७-७-५४	३७५	"
बून्दी रोड उप-खंड, केशोराय पाटन, कोटा	३५०	"
अधिसासी अभियन्ता	..	अस्थायी स्थापनापन्न
अधिसासी अभियन्ता	..	स्थापनापन्न
बून्दी ग्रान्च एवं सब-डिवि० चम्बल प्रोजेक्ट, बून्दी, १०-११-५५	३५०	अस्थायी
शिवपुर, उप-खंड, शिवपुर, २८-७-५२	३५०	अस्थायी
सांगरिया, उप-खंड, सांगरिया, १०-२-५३	३५०	अस्थायी
कोस्ट अकाउंटिंग उप-खंड, कोटा	३५०	"
सरेरी प्रोजेक्ट, सरेरी, २०-११-५४	३५०	"
अन्डर ट्रेनिंग ऑफ रिफ्रेशर्स फोर्स, रुड़की	३५०	"
गन्भीरी प्रोजेक्ट, निम्बाहेड़ा, २७-१२-५४	३५०	"
गलवा प्रोजेक्ट, उनियारा, ३-५-५४	३५०	"

क्र. संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
४०	श्री नाहर सिंह, बी० ई० (सिविल), १८-३-२२, बीकानेर	१२-२-५३	१२-२-५३
४१	श्री सोहनलाल एम० अग्रवाल, डिप्लोमा, सी० ई० (पूना.) सेक्शन ए० एवं बी० आफ ए० एम० आई० ई० (भारत), २१-१०-२५, जोधपुर	५-३-४९	५-३-४९
४२	श्री दौलत राम गुप्ता, ड्राफ्ट्समैन कोर्स (रसूल), १०-७-०३	१८-५-३१	१८-५-३१
४३	श्री अमर चन्द सेनी, 'ए' ग्रेड ओवर० (रसूल), ५-२-२५, होशियारपुर	१-७-३६	१-७-३६
४४	श्री रामलाल छाछेरा, ओवर० (रसूल), २४-१-०७	१३-५-३२	१३-५-३२
४५	श्री देशराज भन्डारी ओवर० (रसूल), ५-११-०५, गुजरातवाला	२७-६-३४	२७-६-३४
४६	श्री वलायती राम, ओवर० (रसूल, गंगानगर	१८-६-३४	१८-६-३४
४७	श्री मंशाराम, ओवर० (रसूल), २८-१-०६, फिरोजपुर	१-८-३६	१-८-३६
४८	श्री हरशरण दास जैन, ओवर० (रूड़की), १२-५-०६, मेरठ (यू० पी०)	२६-२-३३	२६-२-३३
४९	श्री के० एस० पुरोहित, ओवर० (लखनाऊ), ५-८-०२, जयपुर	२-९-२७	८-१-५४
५०	श्री अगम प्रकाश सिंगल, बी० एससी०, ६-७-३२, जोधपुर	१-११-५४	१-११-५४
५१	श्री गुलाब चन्द, बी० एससी० (इन्जी०), २३-९-३०, कोटा	११-६-५४	११-६-५४
५२	श्री वी० पी० भटनागर, बी० ई० (आर्नर्स), २०-३-३५, झालावाड़	११-१-५३	११-१-५३

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
पूर्वी उप-खंड जयपुर, ७-१-५६	३५०	अस्थायी
एम० आई वर्क्स, कांकरोली, ३०-९-५३	३२५	"
हनुमानगढ़ उप-खंड, हनुमानगढ़, १८-१२-५४	४००	स्थानापन्न
राजस्थान केनाल उप-खंड नं० २, श्रीगंगा- नगर, १३-१२-५४	३५०	"
जोधपुर उप-खंड, जोधपुर, १-९-५४	३७५	"
पीली बंगन उप-खंड, पीली बंगन, १-१२-५१	३७५	"
झालावाड़ा उप-खंड, झालावाड़ा, २२-११-५५	३७५	"
पारवती डाम उप-खंड, अगाई, २२-२-५५	३७५	"
स्टोरेज उप-खंड, एरिनपुरा रोड़, ५-१-५१	३२५	"
पश्चिम उप-खंड, जयपुर, ७-५-५५	३२५	"
सिरोही उप-खंड, एरिनपुरा रोड़	३००	अस्थायी
स्टोर उप-खंड, चम्बल प्रोजेक्ट, कोटा, ४-४-५५	३००	"
एत० एन्ड आई० उप-खंड, जोधपुर, १४-९-५३	३२५	"

क्र.सं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
५३	श्री एन० के० कौशिक, बी० ई० ^० (सिविल), १२-२-१९३१, बीकानेर	१४-११-५३	१४-११-५३
५४	श्री अमोलक चन्द्र सींघी, बी० एससी०, बी० ई० (सिविल), १५-२-३१, जयपुर	२३-१०-५४	२३-१०-५४
५५	श्री सुरेन्द्र सिंह भन्डारी, बी० ई०, १-११-३४, जयपुर	१६-७-५४	१६-७-५४
५६	श्री श्रवणकुमार गुप्ता, बी०ई० (सिविल), (आनर्स), ९-१०-३२, कोटा	८-१-५४	८-१-५४
५७	श्री सार्धासिंह भूपाल, बी०एससी०, बी० ई० (सिविल), २-५-३२ श्रीगंगानगर	३०-६-५४	३०-६-५४
५८	श्री श्रीनारायण पंजावनी, बी०ई० (सिविल) ८-१०-३२, उदयपुर	२१-६-५४	२१-६-५४
५९	श्री ब्रजकिशोर माथुर, बी०ई० (सिविल), १९-१-३३	१-९-५३	१-९-५३
६०	श्री जगदीश गहलोत, बी०ई० (सिविल), जोधपुर, ३-६-३३	१-७-५४	१-७-५४
६१	श्री भूरचन्द्र जन, बी०एससी० (इन्जी०), १०-७-३०, धाड़मेर	२१-६-५४	२१-६-५४
६२	श्री दीलतमल सिंघवी, बी०ई०, बी०एससी० (सिविल), १३-९-३०, जोधपुर	१०-७-५३	१०-७-५३
६३	श्री नित्य बिहारी सिंह मोर्या, बी०ई० (सिविल), १४-१०-३३, बूवी	१६-५-५३	१६-५-५३
६४	श्री सोहनरूप राय, बी०ई० (सिविल), बंगलौर, २७-३-२७, जोधपुर	१४-९-५२	१४-९-५२
६५	श्री प्रकाश चन्द्र माथुर, बी०ई० (सिविल), मैसूर, १२-४-३०, जोधपुर	७-७-५२	१७-४-५३

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
मन्डर ट्रेनिंग ऑफ रिफ्रेशर कोर्स, रुड़की	३२५	अस्थायी
बारां उप-खंड, धरन, २३-१०-५४	३००	"
पारवती प्रोजेक्ट केनाल उप-खंड, अंगारई, २३-१०-५४	३००	"
उप-खंड नं० १ एकवीडकट, डिवी० कालीसिन्ध, घम्बल प्रोजेक्ट, कोटा, २७-१-५४	३००	अस्थायी
राजस्थान केनाल उप-खंड, नं० १ श्रीगंगानगर, २०-११-५४	३००	"
एम० आ० ई० वर्कस, डूंगरपुर, १९-१२-५४	३००	"
बैरज उप-खंड, कोटा, १६-६-५५	३००	"
उदयपुर उप-खंड, उदयपुर, १४-११-५४	३००	"
सब एचं इन्वेस्टिगेशन उप-खंड, जहाजपुर, उदयपुर, १२-११-५४	३००	"
सब डिवी० नं० २, एकवीडकट परधान, डिवी० कोटा, २१-६-५४	३००	"
सादूलशहर उप-खंड, सादूलशहर, ५-७-५४	२७५	"
अरवर प्रोजेक्ट, अरवर, ३-१२-५४	३२५	"
जवाई केनाल उप-खंड, सखतगढ़, ६-४-५३	३२५	"

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
६६	श्री भगवानदास गुप्ता, बी० एससी० (सिविल), पोस्ट ग्रेजुएट हाईड्रो एण्ड इरीगेशन, (रुड़की), ६-१२-३१	२८-६-५४	२८-६-५४
६७	श्री अजीत कुमार पडालिया, बी०ई० (सिविल)	२-७-५४	२-७-५४
६८	श्री राजकुमार पुरी, बी०ई० (ऑनर्स), पूना, १-६-३०	३०-११-५४	३०-११-५४
६९	श्री भूपेन्द्रसिंह राजवंशी, बी०ई० (सिविल), ३१-१-३१, बीकानेर	१-७-५४	१-७-५४
७०	श्री एच०एस०श्रीवास्तव, बी०ई० (सिविल), १-४-३१	२९-६-५४	२९-६-५४
७१	श्री शमशेरसिंह, बी०ई० (सिविल)	१-७-५४	१-७-५४
७२	श्री राजकुमार शर्मा, बी०ई० (सिविल), १५-२-३२	१८-१०-५५	१८-१०-५५
७३	श्री आर०एन०माथुर, बी०ई०, १५-१०-२४, बीकानेर	१४-११-५३	१४-११-५३
७४	श्री सोमचन्द्र राजवंशी, बी०ई० (सिविल), ६-६-३२	१-७-५४	१-७-५४
७५	श्री रविन्द्रसिंह भादवार, बी०ई० (सिविल), अलवर		
७६	श्री मंगलदेव कटारिया, बी०एससी०, १७-४-३२	२३-६-५५	२३-६-५५
७७	श्री. कुलदीपसिंह कांग, बी०ई० (सिविल), श्री गंगानगर	२१-५-५५	२१-५-५५
७८	श्री मानक चन्द जैन, बी०एससी० (इन्जी०), १०-१०-३२	७-५-५५	७-५-५५
७९	श्री देवेन्द्रनाथ दलडा, बी० ई० (सिविल), २४-२-३३	७-५-५५	७-५-५५

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
डी० ए०, टू० अधीक्षण अभियन्ता, कैनल सकिल, कोटा, २६-१२-५५	२७५	अस्थायी
कम्प्युनिटी प्रोजेक्ट, डूंगरपुर, ७-५-५५	२७५	"
राइट कैनल उप-खंड नं० ३, कोटा, २८-९-५५	२७५	"
उप-खंड नं० ३, डिस्ट्रिक्ट डिविजन, मगरोल, १७-५-५५	२७५	"
अधिशासी अभियन्ता के वरेज खंड, कोटा के टी० ए०	२७५	"
ओरा उप-खंड, ओरा, १८-५-५५	२७५	"
सर्वे एवं इन्वेस्टिगेशन, सब-डिवी०, सिरौही, १८-१०-५५	२७५	"
भादरा उप-खंड, भादरा, १७-१-५५	३००	"
पिपरेन ब्रान्च उप-खंड, कोटा, ४-११-५५	२७५	"
टौक उप-खंड, टौक, ५-१२-५५	२७५	"
एम०आई०वर्कस उप-खंड, अलवर, १२-११-५५	२७५	"
तिसर उप-खंड, जैतपुर, ८-१२-५५	२७५	"
उप-खंड नं० १, राइट मेन कैनल खंड २, कोटा, ५-११-५५	२७५	"
जवाई डोम सब-डिवी०, एरिनपुरा रोड़, २४-१-५६	२७५	"

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
८०	श्री ओम प्रकाश माथुर, बी० ई० (सिविल), १-३-३१
८१	श्री जगदीशपुरी, बी०एससी०, बी० सी०ई० (मेलबोर्न), २२-११-२८	२२-१२-५५	२२-१२-५५
८२	श्री शिवदयाल गुप्ता, बी० ई० (सिविल), ८-१-३३	७-६-५५	७-६-५५
८३	श्री कृष्णकुमार ओहरी, १६-६-१७, जालन्धर (पंजाब)	२-८-३७	२०-५-५४
८४	श्री जहलरहमान, ओवर०, सक्कर, २-४-०७	१-६-२८	१-२-५०
८५	श्री जोहरीमल, ओवर०, रुड़की, ३१-८-१३, जोधपुर	२१-१०-३२	१-७-३५
८६	श्री श्री वल्लभ शर्मा, ओवर०, रुड़की, पाली, २६-८-१६	२३-१०-३४	२३-१०-३४
८७	श्री ताराचन्द मित्तल, ओवर०, (रसूल), पानीपत, (करनाल), ५-९-०६	६-२-३७	६-२-३७
८८	श्री हंसराज शर्मा, ओवर०, (रसूल), २५-१२-०७	२५-१२-३७	२५-१२-३७
८९	श्री गुलाबसिंह, ओवर०, रसूल, २२-६-०७, रोहतक	१-२-३८	१-२-३८
९०	श्री फतेहचन्द, ओवर०, (रसूल), २०-४-०८	३-५-३९	३-५-३८
९१	श्री भगवानदास चावला, ओवर० ए ग्रेड (रसूल), ९-१०-१३	२६-८-४७	२६-८-४७
९२	श्री करमसिंह, सब इन्जीनियरिंग पी० आई० टी० सी०, सीक्कर, २६-६-१२	२८-१०-४०	२०-१-५०

वर्तमान पद तथा विनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
एम० आई० वर्कर्स उप-खंड, सवाई माधोपुर, २-३-५६	₹० २७५	अस्थाई
उप-खंड नं० ४, आर० एम० सी० नं० १, कोटा, २१-६-५६	३७५	"
अधिकासी अभियन्ता, आर० एम० सी० नं० २, कोटा के टी० ए०, २०-११-५५	२७५	"
उप-खंड नं० २, आर० एम० सी० डिवी० नं० १, कोटा		उ० प्र० से प्रति- नियुक्ति पर
उप-खंड नं० १, राइट मेन केनाल नं० १, कोटा, १-७-५४	३००	स्थानापन्न
उत्तरी उप-खंड, अजमेर, १६-७-५५	३५०	"
कम्युनिटी प्रोजेक्ट, राजसमन्द, २७-१२-५३	३२५	"
पदमपुर उप-खंड, पदमपुर, १४-१२-५४	३००	"
राजस्थान केनाल उप-खंड, नं० ३, श्रीगंगानगर, १८-१२-५४	३००	"
रायसिंहनगर उप-खंड, रायसिंहनगर, २५-१०-५५	२७५	"
उप-खंड नं० ३ राइट मेन केनाल डिवी० नं० २, मगरोल, ८-११-५५	२७५	"
खेरी प्रोजेक्ट आसिंद, १८-९-५५	₹ २७५	"
अलवर उप-खंड, अलवर, १८-९-५४	४२५	"

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
९३	श्री बी० पी० अग्रवाल, त्री० एससी०, बी० ई०, इलेक्ट्रिक, १३-९-२५, अजमेर	२८-११-५०	२४-३-५३
९४	श्री एस० एल टॉक, बी० ई०, २०-८-३३	२२-११-५४	२२-११-५४
९५	श्री यशपाल भाटिया, बी०ई० (सिविल), श्रीगंगानगर, १२-१०-३२	१६-५-५५	१६-५-५५
९६	श्री सौभाग सिंह, बी० ई० (सिविल), २०-७-३१	१६-५-५५	१६-५-५५
९७	श्री कुन्दलाल भाटिया, बी० ई० (सिविल), १०-५-३२, श्री गंगानगर	१६-५-५५	१६-५-५५
९८	श्री जे० एन० सारकण्डेय, बी० ई० (सिविल), ३१-१०-३२, वीकानेर,	१-७-५५	१-७-५५
९९	श्री हरीसिंह भाटी, बी० ई० (सिविल), ५-१२-३२	२१-५-५५	२१-५-५५
१००	श्री एच० सी० भार्गवा, बी० ई० (मेकेनिकल)	१५-१०-५५	१५-१०-५५
१०१	श्री त्रिलोकीनाथ सक्सेना, बी०ई० (सिविल), जयपुर	१०-५-५५	१०-५-५५
१०२	श्री कपूरचन्द जैन, बी०ई० (सिविल), ८-३-३४	२८-५-५५	२८-५-५५
१०३	श्री ओ०पी० मेहता, बी०ई०, (सिविल), २-४-३२	९-६-५५	९-६-५५
१०४	श्री ओमप्रकाश गुप्ता, ओव०, (सड़की) ए एन्ड बी कोर्स ऑफ ए०एम०, आई०ई० (भारत), १५-९-२५, जयपुर,	९-८-४९	९-८-४९
१०५	श्री यशपाल त्यागी, ओवर० (लखनऊ), १३-६-१७	२-१२-४०	१-४-५०
१०६	श्री बहादुरसिंह, ओवर०, (लखनऊ), १०-१-१७, श्रीगंगानगर	२४-२-४४	२४-२-४४

वर्तमान पद व दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
वर्कशोप एवं पावर हाउस उप-खंड हनुमानगढ़, २४-३-५४	४००	विद्युत एवं यांत्रिक विभाग से पुनर्नियुक्ति पर
अर्थ मूविंग मशीनरी उप-खंड कोटा,	२७५	स्थानापन्न
शाहपुरा उप-खंड, शाहपुरा, १-९-५६	२५०	"
चित्तौड़ उप-खंड, चित्तौड़, २८-१२-५६	२५०	अस्थाई
उप-खंड नं० १ डिस्ट्रीब्यूरी डिवीजन, अन्ता, २-१-५७	२५०	"
सब डिवीजन नं० २ डिस्ट्रीब्यूरी डिवी०, अन्ता, ११-१२-५७	२५०	"
उप-खंड नं० २ आर० एम० सी० डिवी० नं० २, अन्ता, ३०-१२-५६	२५०	"
वर्कशोप उप-खंड, चम्बल प्रोजेक्ट, कोटा, २३-५-५६	२५०	"
माषी प्रोजेक्ट, सब-डिवी०, वनस्थली, २७-१२-५६	२५०	"
अधिसासी अभियन्ता के टी०ए०, आर०एम० सी० डिवी० नं० १, कोटा, २९-१२-५६.	२५०	"
एस० एन्ड आई० सब-डिवी०, बून्दी, ६-१-५७	२५०	"
अधिसासी अभियन्ता के टी० ए०, एकवीडक्ट डिवी० खंड, कोटा, २२-१२-५६	२५०	"
राजसमन्द उप-खंड कांक्रोली, ११-१-५७	२५०	स्थानापन्न
घग्घर उप-खंड, हनुमानगढ़, २६-१२-५६	२५०	

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१०७	श्री भार० पी० चावला, बी०ई० (सिविल), १६-२-३३	१-६-५५	१-६-५५
१०८	श्री वी० एल० खुलर, बी०ई० (मेकेनिकल), १०-१०-३०	२९-९-५५	२९-९-५५
१०९	श्री ए०वी० हिगोरानी, बी०ई० (मेकेनिकल), कोटा, ५-११-३३	२-१-५५	२-१-५५
११०	श्री श्रीचन्द एडवानी, बी०ई० (सिविल), १-१-३४	२०-५-५५	२०-५-५५
१११	श्री स्वाधीन रिषीदत्त मेहता, बी०ई० (सिविल), २०-२-३२	१०-५-५५	१०-५-५५
११२	श्री ब्रजनारायण माथुर, बी०एससी० (इन्जी०) (सिविल) ७-७-३५	१८-५-५५	१८-५-५५
हाइड्रोलॉजी			
१	श्री हिम्मतसिंह मेहता, एम०ए० (भूगोल), ट्रेनिंग (भारत), २२-१-२१, उदयपुर	२९-१२-४९	२९-१२-४९
एकाउन्ट्स			
१	श्री ब्रजलाल, आर०ए०सी०एस०, ३-६-१९०६, जयपुर	१५-१०-२८	१-४-५०
२	श्री शालिगराम	१३-१-५६	१३-१-५६
सिविल सहायक			
१	श्री श्यामलाल कुलश्रेष्ठ, कोटा	१६-२-५६	-२-५६

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
करीली उप-खंड, करीली २१-३-५७	४० २५०	अस्थायी
पावर हाउस एवं पम्पिंग उप-खंड, कोटा, चम्बल, ४-२-५७	२५०	"
अर्थ मूविंग उप खंड नं० २ चम्बल, कोटा, ४-२-५७	२५०	"
अधिकासी अभियन्ता, एल० एम० सी० के टी० ए०, चम्बल, कोटा, १२-३-५७	२५०	"
अधिकासी अभियन्ता, डिस्ट्रीब्यूटरी के टी० ए०, चम्बल, कोटा	२५०	"
अधीक्षण अभियन्ता के टी० ए०, बरेज सर्किल, कोटा, २-२-५६	२५०	"
सहायक		
कार्यालय मुख्य अभियन्ता, जयपुर, २९-१२-४९	२७५	अस्थायी
अफसर		
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, बरेज सर्किल, कोटा	..	अस्थायी
कार्यालय मुख्य अभियन्ता, जयपुर, १३-१-५६	६२० -१७० = ४५०	पुनर्नियुक्ति पर
सर्जन		
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, बरेज सर्किल, कोटा, १६-२-५६	२७५	पुनर्नियुक्ति पर

विद्युत एवं

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१	श्री टी० जे० मीरचन्दानी, एम० ए०, एम० एससी० (इन्जिनियरिंग) (लन्दन), एम० आई० ई० ई०	१९-१२-५५	१९-१२-५५
२	श्री मोहम्मद बशीरखां, बी० एससी० (इन्जिनियरिंग), ए० एम० आई० ई०, ३-१-०४ जोधपुर	२०-८-२६	२०-८-२६
३	श्री पी० एम० चंगाप्पा, बी० ई० सी० ई०, एम० आई० ई०, २४-१-१९००, बंगलोर	रिटायर्ड ५-११-५६	५-११-५६
४	श्री अमरसिंह मेहता, बी० एससी० (इन्जिनियरिंग), ए० एम० आई० ई०, एम० एम० ई० ए०, एम० एस० पी० ई०, ४-७-१२, उदयपुर	१-१-३६	१-१-३६
५	श्री मुकन्दलाल के० राय, बी० एससी० (इन्जिनियरिंग), ७-९-१२, जोधपुर	२४-५-४१	२४-५-४१
६	श्री के० सी० सतसंगी, बी० एससी० (इन्जिनियरिंग), एस० आई० ई०, २-१-०६, जोधपुर	११-८-४१	११-८-४१
७	श्री बी० एस० दुबे, एल० एम० ई० एल० आई० ई० टी० (लन्दन), एम० ई० ए० (भारत), १०-१०-२०, मनीपुर	६-१-४९	६-१-४९
८	श्री जे० आई० भट्ट, बी० एससी० (इन्जिनियरिंग), ए० एम० आई० ई०, १-११-१६, डूंगरपुर	१५-६-४२	१५-६-४२
९	श्री पृथ्वीसिंह, बी० एससी० (इन्जिनियरिंग), एम० एस० ई० ई० (पुरडू), एम० ए० एस० आर० ई०, एम० एम० ए० आई० ई०, ई०, ए० एम० आई० ई० (भारत), २५-६-२२	२४-६-४४	२४-६-४४
१०	श्री आर० जी० चौधरी, बी० एससी० (इन्जिनियरिंग) ए० एम० आई० ई०, ई० टी० आर० जो० विध० सी० डब्ल्यू० पी० सी० एन्ड बी० ए० ए० के०, ३१-८-०८, जयपुर	४-५-२३	४-५-३३

यांत्रिक विभाग

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
मुख्याभियन्ता, राजस्थान, जयपुर, १९-१२-५५	२५००	संविदा आधार पर ३ वर्ष के लिये
उप-मुख्याभियन्ता अधीक्षण परियोजना, राजस्थान, जयपुर, ३१-१२-५५	१३००	स्थानापन्न
अधीक्षक अभियन्ता, ५-११-५६	१४००	संविदा आधार पर ३ वर्ष के लिये
अधिसासी अभियन्ता, जयपुर, १४-७-५६	६५०	
अधिसासी अभियन्ता, बीकानेर, १२-७-५६	८८०	
अधिसासी अभियन्ता, बीकानेर, १-२-५५	१५००	राजस्थान सचिवालय की सेवा में प्रति नियुक्ति पर
अधिसासी अभियन्ता, निर्माण, जयपुर, १४-७-५६	६५०	
अधिसासी अभियन्ता, उत्पादन, २०-३-५७	५००	
अधिसासी अभियन्ता, योजना अथवा प्रयोजना, २३-८-५२	५७५ १०० बि० दे०	
अधिसासी अभियन्ता, जोधपुर, २९-६-५४	५५०	

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
११	श्री इन्द्रप्रकाश वाटल, बी० ए०, बी० एससी० (टेकनिकल) (मेनचेस्टर), १-११-१९००, जोधपुर	१७-११-५५	१७-११-५५
१२	श्री बहादुरसिंह, एम० एससी०, एम० ई० यू० एस० ए०, बी० एससी० (इंजीनियरिंग), एम० एम० ई० ए० एम० ए० एस० एम० ई० ए० एम० एम० सी० ई०, ७-१०-१९२१, चूह	१८-७-४६	१८-७-४६
१३	श्री बी० एल० कौशिक, बी० एससी० (इंजीनियरिंग) ए० एम० आई० (भारत), १-७-१९१७, गंगानगर	१-८-४३	१-८-४३
१४	श्री आर० पी० शर्मा, बी० एससी० (इंजीनियरिंग), ए० एम० आई० ई० (भारत), १७-८-१९०६, कोटा	१-१२-३५	१-१२-३५
१५	श्री एस० एस० सूद, बी० एससी०, ई० ई० (एडिन बर्ग), जी० आई० (मैकेनिकल) ई० (लन्दन), ग्रेड आई० ई० ई० (लन्दन), बी० एस० ई० आई० (प्रोविन्सीयल सर्विस ऑफ इंजीनियर्स क्लास), चन्डीगढ़	१८-२-५७	१८-२-५७
१६	श्री सुमनचन्द्र एस० पुरोहित, बी० ई० (इलेक्ट्रिक), एच० टी० आई० (केल०, यू० एस० ए०), एम० एम० ई० (भारत), २३-१२-१४, राजपीपला	२४-७-४४	२४-७-४४
१७	श्री दुरगाप्रसाद, भरतपुर, १६-१०-१९२१	१०-८-४७	३०-८-५६
			सहायक
१८	श्री अविनास चन्द्र, ए० एम० आई० एस० ई० ए० एम० आई० ई० टी०, २३-९-१९०३	६-१२-२८	६-१२-२८
१९	श्री मोहम्मद अब्दुल्ला, बी० एससी० (इंजीनियरिंग), ए० एम० आई० ई० (भारत), ४-९-०६, कोटा	१-५-३६	१-५-३६

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
अधिकासी अभियन्ता, जयपुर, १७-११-५५	५००	दो वर्ष के लिये पुनर्नियुक्ति
अधिकासी अभियन्ता, चम्बल कार्य, जयपुर, १७-७-५६	५००	
अधिकासी अभियन्ता, भाखरा नांगल, गंगानगर, ३१-१२-५६	५००	
अधिकासी अभियन्ता, परियोजना, जोधपुर	५००	
अधिकासी अभियन्ता	१०००	प्रसंविधा आधार पर ३ वर्ष के लिये
अधिकासी अभियन्ता, वितरण, जयपुर, ६-२-५७	६८०	
अधिकासी अभियन्ता (सिविल), जयपुर	६८०	इस विभाग में तारीख ३०-८-५६ को इसी पद पर नियुक्त किये गये
अभियन्ता		
सहायक अभियन्ता, जोधपुर, २५-४-५१	४५०	
सहायक अभियन्ता अध्यक्ष, कोटा, १८-५-५६	४७५	

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
२०	श्री ब्रह्मानन्द कौशिक, बी० एससी० (इंजीनियरिंग), १२-२-२२, श्रीगंगानगर	१-८-४४	१-८-४४
२१	श्री एम० आर० राघवेन्द्र राव, बी० ए०, बी० ई० (मेकेनि०), ए० आई० ई० (भारत), २१-६-१०, मैसूर	२६-४-४५	२६-४-४५
२२	श्री विवेकानन्द शर्मा, बी० एससी० (इंजीनियरिंग), आनर्स, २७-९-२३, अलवर	७-६-४५	७-६-४५
२३	श्री श्यामसुन्दर सारवाल, बी० एससी० (इंजीनियरिंग), ए० एम० ए० आई० ई० ई० एम० एम० आई० बी० ई० ए० एम० एम० आई० ई० (भारत), १६-३-१९	२९-८-४५	२९-८-४५
२४	श्री रामस्वरूप शर्मा, डी० एम० ई० डी० ई० (वरोश), ई० ई० सी० सी० एन्ड जी० (लन्दन), १९-७-१५, कोटा	२०-३-४६	२०-३-४६
२५	श्री श्याम कुमार शर्मा, बी० एससी० (इंजीनियरिंग), १९-१-२१, जयपुर	१७-१०-४७	१७-१०-४७
२६	श्री हनुमन्त कुमार, बी० एससी० (इंजीनियरिंग), ६-१२-२३, बीकानेर	२०-१२-४७	२०-१२-४७
२७	श्री राधेश्याम गोयल, ए० व आई० डिप्लोमा (इंजीनियरिंग), २२-१-२७, मुजफ्फरनगर	४-११-४८	४-११-४८
२८	श्री हूनीचन्द मूलचन्द मनसारमानी, ९-१०-१४, सिन्ध
२९	श्री लक्ष्मी कान्त पान्डेय, बी० एससी०, ए० आई० डिप्लोमा (इंजीनियरिंग), १५-६-२७	१-३-४९	१-३-४९
३०	श्री पी० के० सक्सेना, बी० एससी० (इंजीनियरिंग), ८-९-२३, उदयपुर	२३-४-४९	२३-४-४९
३१	श्री ताराचन्द दूबे, बी० एससी०, ऑल इंडिया डिप्लोमा इन इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग, १०-३-२८, जयपुर	१-१०-४९	१-१०-४९

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
सहायक अभियन्ता, जोधपुर, ६-७-५०	४७५	४०
सहायक अभियन्ता, १-११-५४	५७५	
सहायक अभियन्ता, अध्यक्ष, धौलपुर, २०-८-५५	४२५	
सहायक अभियन्ता, जोधपुर, १६-१-५६	५५०	
सहायक अभियन्ता, अध्यक्ष, भीलवाड़ा	४२५	
सहायक अभियन्ता, अध्यक्ष, अलवर, २७-८-५५	४२५	
सहायक अभियन्ता, परियोजना, ज पुर, २०-१-५५	४२५	
सहायक अभियन्ता, ९-९-५५	४२५	
..		सिंचाई विभाग की सेवा में प्रतिनियुक्ति पर
सहायक अभियन्ता, जयपुर	४००	
सहायक अभियन्ता, अध्यक्ष, टोंक, १३-४-५४	४५०	
सहायक अभियन्ता, जयपुर, अप्रैल, ५०	४००	

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
३२	श्री गोपीकृष्ण गुप्ता, बी० एससी० (इंजीनियरिंग), ३१-१२-१९२०, बूंदी	१-१-५०	१-१-५०
३३	श्री छगनलाल, बी० एससी० (इंजीनियरिंग), ३-६-१९२५, बीकानेर	९-१-५०	९-१-५०
३४	श्री कैलाश चन्द्र कासलीवाल, बी० ई० (इलेक्ट्रिकल), ६-६-२९, जयपुर	२९-११-५०	२९-११-५०
३५	श्री डी० एन० शर्मा, बी० ई० (मैकेनिकल), २२-१-२७, जयपुर	२८-११-५०	२८-११-५०
३६	श्री बी०पी०अग्रवाल, बी०एससी०ई०, (इलेक्ट्रिकल), १३-९-२५, अजमेर (मेरवाड़ा)	२८-११-५०	२८-११-५०
३७	श्री राम कृष्ण शर्मा, बी० एससी० (इंजीनियरिंग), १२-११-२४, बीकानेर	२६-५-५०	२६-५-५०
३८	श्री त्रिभवन नाथ जैन, बी० एससी० (इंजीनियरिंग), १४-११-२६	२८-११-५०	२८-११-५०
३९	श्री रमेशचन्द्र दवे, बी० ई० (इलेक्ट्रिकल), १२-१२-२७, झालावाड़	२८-११-५०	२८-११-५०
४०	श्री कुलदीपसिंह बधावर, बी०एससी०, बी०एससी० (इंजी०), १४-६-२५, अलवर	२८-११-५०	२८-११-५०
४१	श्री एस० एस० व्यास, बी० एससी० (इंजी०), २५-१०-२९, बूंदी	३१-३-५२	३१-३-५२
४२	श्री शंकरलाल पंचाल, बी०ई० (मैकेनिकल), ५-१-२७, डूंगरपुर	४-२-५४	४-२-५४
४३	श्री ज्योती स्वरूप, बी०ई० (इलेक्ट्रिकल), १-१-२९, कोटा	७-४-५२	७-४-५२
४४	श्री शिवशंकर शर्मा, बी० ई० (इलेक्ट्रिकल), २९-९-२९	८-४-५२	८-४-५२

वर्तमान पद तथा दिनांक:	वेतन	विशेष.
५	६	७
सहायक अभियन्ता, अध्यक्ष, ब्रालावाड़, २२-१-५७.	४२५	
१ क अभियन्ता, बीकानेर, १९-१-५१	४२५	
सहायक अभियन्ता, अध्यक्ष, करौली, हिन्डौन, १२-११-५२	४००	
सहायक अभियन्ता, अध्यक्ष, किशनगढ़, जनवरी, १९५७	४००	
सहायक अभियन्ता, जयपुर, ४-८-५२	४००	सिंचाई विभाग की सेवा में प्रति-नियुक्ति पर २४-३-५३
सहायक अभियन्ता, बीकानेर, २८-११-५१	४००	
सहायक अभियन्ता, जयपुर, २१-३-५३	४००	
सहायक अभियन्ता, अलवर, १९-१-५१	४००	
सहायक अभियन्ता, जयपुर, अप्रैल, १९५४	३५०	
सहायक अभियन्ता, जयपुर, ४-२-५४	३२५	
सहायक अभियन्ता, अध्यक्ष, निवाई, २-६-५५	३७५	
सहायक अभियन्ता, बीकानेर, १-११-५५	४००	

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
४५	श्री मोहनसिंह, बी० ई० (इलेक्ट्रिकल), ७-१२-२७ बीकानेर	१३-३-५४	१३-३-५४
४६	श्री विश्वरदयाल, बी० एससी०, बी० ई० (विद्युत), १-१२-२८, अलवर	१२-१-५४	१२-१-५४
४७	श्री चिरंजीलाल, इजी० विद्युत एवं यान्त्रिक में स्नातक-पत्र बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, १९२६, ए० ए० आई० ई०, ६-३-०१, भरतपुर	१७-४-५६	१७-४-५६
४८	श्री जसवन्त राय, एल० ई० एम० ई०, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वायरलेस आपरेटर्स परीक्षा, १३-३-०७, बीकानेर	१-९-३३	१-९-३३
४९	श्री लाल मोहन सरकार, एल० एम० ई० ई० (बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय), १-३-०९, प० बंगाल	४-१०-३३	४-१०-३३
५०	श्री नन्द किशोर सक्सेना, स्नातक-पत्र, एल० ई० बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, २१-८-०४, कोटा	१७-१०-४७	१७-१०-४७
५१	श्री वीनदयाल माथुर, विद्युत एवं यान्त्रिक में स्नातक- पत्र, १३-१२-२४, जयपुर	२-१०-४८	२-१०-४८
५२	श्री एल० एस० पंडित, विद्युत में स्नातक-पत्र कला भवन, बड़ौदा, २८-१०-२८, बड़ौदा	१०-८-४९	१०-८-४९
५३	श्री पी० बी० शर्मा, बी० ई० (विद्युत), १९-२-३०	२५-२-५५	२५-२-५५
५४	श्री एच० सी० लोगानी, बी० ई० (विद्युत), १६-७-३१, जयपुर	२३-२-५५	२३-२-५५
५५	श्री एस० एल० तत्रवार, बी० ई० (विद्युत), १६-८-३२	२५-२-५५	२५-२-५५
५६	श्री बशीरउद्दीन, बी० एससी० (इंजी०), २६-४-२६, उदयपुर	२९-९-५५	२९-९-५५
५७	श्री एस० एन० शर्मा, बी० ई० (यान्त्रिक), १९-२-२९	२७-९-५५	२७-९-५५
५८	श्री सज्जन सिंह कोठारी, बी० ई० (यान्त्रिक), २३-९-२८	२९-९-५५	२९-९-५५

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
सहायक अभियन्ता, बीकानेर, १३-३-५४	३००	
सहायक अभियन्ता अध्यक्ष, सीकर	३२५	
सहायक अभियन्ता अध्यक्ष, भरतपुर, १७-४-५६	५००	पुनः नियुक्ति
सहायक अभियन्ता, बीकानेर, १९-१-५१	४००	
सहायक अभियन्ता, जयपुर, जई, १९५३	४९९.७५	
सहायक अभियन्ता अध्यक्ष, डूंगरपुर	४७५	
सहायक अभियन्ता, बीकानेर, १४-१२-५५	४२५	
सहायक अभियन्ता, बीकानेर, १५-११-५४	४००	
सहायक अभियन्ता, परियोजना	३००	
सहायक अभियन्ता, परियोजना, सीकर	३००	
सहायक अभियन्ता, परियोजना	३००	
सहायक अभियन्ता, चन्वल कार्य	२७५	
सहायक अभियन्ता, परियोजना, जयपुर	२७५	
सहायक अभियन्ता, केन्द्र कार्य-स्थान, जयपुर	२७५	

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
५९	श्री के० सी० बांठिया, बी०ई० (विद्युत), २१-१-३१	३-१०-५५	३-१०-५५
६०	श्री कलश लाल वाफना, बी० ई० (यान्त्रिक), १४-३-३०	२९-९-५५	२९-९-५५
६१	श्री जगदीश नारायण पुरोहित, बी०ई० (यान्त्रिक), १०-२-३१	२६-९-५५	२६-९-५५
६२	श्री पी० डी० पी० श्रीवास्तव, बी०ई० (यान्त्रिक), ३०-६-२८	२९-९-५५	२९-९-५५
६३	श्री ओम प्रकाश वन्सल, बी०ई० (इलेक्ट्रिकल), १५-१०-२९	१६-८-५६	१६-८-५६
६४	श्री उमेश चन्द्र कासलीवाल, बी०ई० (विद्युत), ९-९-२९	२३-२-५५	२३-२-५५
६५	श्री कलश नाथ माथुर, बी०ई० (विद्युत), १२-११-२५	२३-२-५५	२३-२-५५
६६	श्री आर्यर प्रीतसिंह, बी०एससी० (इंजी०) बनारस, हिन्दू विश्वविद्यालय, ६-७-२९	२६-२-५५	२६-२-५५
६७	श्री आर० एस० माथुर, बी०ई० (सिविल), १-७-२६	१३-११-५६	१३-११-५६
६८	श्री भगत राम ओवराय फाईनल ग्रेड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक्जापिनेशन, लन्दन इन्स्टीट्यूट पासड एण्ड बी० सेक्शन १९५५, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इण्डिया सोशियल कोर्स एण्ड इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, ३०-४-३१, फतेहगंज, जिला अटक	१३-३-५७	१३-३-५७
६९	श्री कल्याणसिंह शेखावत, बी०ई० (मेकेनिकल), बी०ई० इलेक्ट्रिकल, १९-७-३२	१२-३-५७	१२-३-५७
७०	श्री रमाकान्त मेहता, बी०एससी०, बी०ई०, १०-४-३४, लाहौर	१४-३-५७	१४-३-५७
७१	श्री सुरारीलाल गग, बी०एससी० (इलेक्ट्रिकल) (इंजी०), अलीगढ़, २-१-१९३१	१३-३-५७	१३-३-५७

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
सहायक अभियन्ता, थरमल कन्स्ट्रक्शन डिविजन जयपुर, ३-१०-५५, २-३-५७	६० २७५	
सहायक अभियन्ता, वाणिज्य, जयपुर	२७५	
सहायक अभियन्ता, परियोजना	२७५	
सहायक अभियन्ता अध्यक्ष, श्रीगंगानगर	२७५	
सहायक अभियन्ता, परियोजना, जोधपुर	००	
सहायक अभियन्ता, परियोजना, बीकानेर	३००	
सहायक अभियन्ता निर्माण, जयपुर	३००	
सहायक अभियन्ता, परियोजना, जयपुर	३५०	
सहायक अभियन्ता, परियोजना, जयपुर	२५०	
सहायक अभियन्ता, चम्बल, जयपुर	३५०	
सहायक अभियन्ता, निर्माण, जयपुर, १२-३-५७	२५०	
सहायक अभियन्ता, निर्माण, जयपुर, १४-३-५७	२५०	
सहायक अभियन्ता, जयपुर	२५०	

संख्या क्रम	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
७२	श्री चरनदयाल, बी० एससी० (इलेक्ट्रिकल इंजी०), २५-१२-३५	१३-३-५७	१३-३-५७
७३	श्री मोजीराम गर्ग, बी० टेक्निकल, आनर्स विद्युत में, खड्गपुर, ५-३-३२	१५-३-५७	१५-३-५७
७४	श्री सुशीलकुमार जैन, बी० (टेक्निकल) आनर्स विद्युत, खड्गपुर, १०-८-३४, स्यालकोट	१३-३-५७	१३-३-५७
७५	श्री इयोराम पुरोहित, ९-३-०६, जोधपुर	२४-५-२०	२४-५-२०
७६	श्री श्रीकृष्ण देवरा, इंजीनियरिंग, पंजाब बोर्ड, ८-१०-०४	८-१०-२६	८-१०-२६
७७	श्री मिश्रीलाल, आई०एस०सी० इंजी०, १-१०-०४	अक्टूबर, ३४	अक्टूबर, ३४
७८	श्री अल्लानर, ७-७-०५	१-१-२८	१-१-२८
७९	श्री रामलाल परिहार, ८-८-०४	२९-३-२२	२९-३-२२
८०	श्री लखपतराय, फाइनल ग्रेड इलेक्ट्रिक इंजी० एग्जामिनेशन ऑफ दी सिटी एण्ड गिल्ड्स ओफ लन्दन इन्स्टीट्यूट	१-१०-२६	१-१०-२६
८१	श्री कृष्णस्वरूप गोयल, बी० ई० (सिविल)	१६-२-५७	१६-२-५७
			कार्यवाहक
८२	श्री कुंजबिहारीलाल सक्सेना, बी० एससी० (इजी०), ए० एम० आई० ई०, १९-६-०५	१-८-२९	१-८-२९
			लेख
८३	श्री घनश्यामलाल चौधरी, बी० काम, प्रशासक अधिकारी	१-९-४२	१-९-४२
			प्रशासक
८४	श्री आत्माराम सेठी, रावलपिंडी, २१-११-८९	१२-१२-५६	१२-१२-५६

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
सहायक अभियन्ता, जयपुर, १२-३-५७	२५०	
सहायक अभियन्ता, भरतपुर	२५०	
सहायक अभियन्ता, निर्माण, जोधपुर	२५०	
सहायक अभियन्ता, बीकानेर	३००	
सहायक अभियन्ता, श्रीगंगानगर, ८-१०-५५	२७५	
सहायक अभियन्ता, बीकानेर, १-११-५१	४००	
सहायक अभियन्ता,	२५०	
सहायक अभियन्ता निर्माण, जोधपुर	२५०	
सहायक अभियन्ता, कोटा, २२-१-५७	२५०	
सहायक अभियन्ता सिविल, जयपुर	२५०	
विद्युत निरीक्षक		
विद्युत निरीक्षक, जयपुर, २-९-५५	६५०	स्थानापन्न
अधिकारी		
लेखाधिकारी, जयपुर, १२-१-५५	२७५	
अधिकारी		
प्रशासक अधिकारी, जयपुर	१,१५०	प्रति मास पेन्शन सहित

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४

८५ श्री धेनीप्रसाद चतुर्वेदी, २५-३-२७

श्रम कल्याण

८६	श्री लक्ष्मीचन्द जोशी, बी० ए०, एल० डब्ल्यू० ए० (बम्बई), ५-११-१९२४	१२-१२-५३	१२-१२-५३
८७	श्री गणेशीलाल मेहता, बी० कॉम०, एल डब्ल्यू० ए०, बीकानेर	१२-१२-५३	१२-१२-५३
८८	श्री हेमराज कल्ला, बी० ए०, एल० डब्ल्यू० ए० (बम्बई), १-७-१९२०	७-१-४२	७-१-४२

वर्तमान पद तथा दिनांक

वेतन

विशेष

५

६

७

रु०

२७५

अधिकारी

अम कल्याण अधिकारी, जयपुर, १२-१२-५३

२३०

अस्थाई

अम कल्याण अधिकारी, बीकानेर, १२-१२-५३

२३०

अम कल्याण अधिकारी, जोषपुर, ५-३-५५

२२०

खण्ड ३३

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान

अधिकारियों के वेतन

१. संचालक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, १६५०-७५-१८००-१००-२०००
२. उप-संचालक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग १००-५०-१४००
३. विशेषज्ञ प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी चिकित्सालयों में ६००-५०-१२००

विशेष वेतन प्रति मास निम्न प्रकार स्वीकृत है:—

- ए. २०० रु० प्रति मास यदि चिकित्सा विद्यालय के प्रोफेसर या ३०० रोगी शय्या से ऊपर के चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधिकारी हों ।
- बी. १५० रु० यदि चिकित्सा विद्यालय के रीडर हों ।
- सी. १०० रु० यदि चिकित्सा विद्यालय के व्याख्याता या प्रधान चिकित्सा अधिकारी द्वितीय श्रेणी चिकित्सालय या १०० रोगी शय्या से अधिक किन्तु ३०० शय्या से कम हों

अधिकारी एक से अधिक विशेष वेतन पाने के हकदार नहीं होंगे ।

४. सहायक संचालक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ४००-२५-७०० ई०बी० ३०-८५०
१०० विशेष वेतन प्रतिमास
५. जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ४००-२५-७०० ई०बी० ३०-८५०
६. सीनियर एनेस्थेटिस्ट एवं सीनियर रेडियोलोजिस्ट, सवाई मारनसिंह चिकित्सालय, जयपुर ४००-२५-७०० ई० बी० ३०-८५०
१५० रु० यदि वह चिकित्सा विद्यालय के रीडर नियुक्त हुए हों ।
७. सिविल असिस्टेन्ट सर्जन, प्रथम श्रेणी २५०-२५-४०० ई० बी० २५-७००

केवल स्नातक या समान योग्यता प्राप्त व्यक्ति नियुक्ति के अधिकारी होंगे, नियुक्ति से पूर्व हाउस सर्जन या हाउस फिजिशियन या चिकित्सालय में एक वर्ष काम किया हो। यह नियम उनके लिए लागू नहीं होगा जो कि सेवा में पहले ही हों और उनकी तरफको दो जाय।

सिविल असिस्टेंट सर्जन जो कि उच्च स्नातक या इसके समान हों और उन्हें ऐसे पद पर नियुक्ति किया जाय जहाँ ऐसी योग्यता की आवश्यकता हो तो वे निम्नलिखित विशेष वेतन के अधिकारी होंगे।

- अ. ७५ रु० यदि वे उच्च स्नातक या समान योग्यता के हों।
- ब. ५० रुपये यदि वे उच्च स्नातक प्रमाणपत्र रखते हों।
- स. ७५ रु० यदि डेंटल सर्जन सिविल असिस्टेंट सर्जन से नियुक्त किये गये हों एवं विशेष योग्यता रखते हों।
- द. १०० रुपये यदि वे चिकित्सा विद्यालय में लेक्चरर नियुक्त किए गये हों।

एक से अधिक विशेष वेतन एक समय पाने के लिये कोई भी अधिकारी नहीं होगा।

८. एंनोटोमी, फिजियोलोजी, १०००-५०-१४०० ऐसे पदवालों का कोई एक पैथोलोजी फारमेकोलोजी के प्रोफेसर विशेष वेतन नहीं मिलेगा।

९. सहायक डेंटल सर्जन, सर्वाई- २००-१०-२५० ई०बी० १५-४००-२५-४५०
मानसिंह चिकित्सालय दन्त चिकित्सा के स्नातकों को ही यह वेतन स्वीकृत है।

१०. एंनोटोमी, फिजियोलोजी, ५००-३०-७४० ई०बी० ३०-८००-५०-१०००
पैथोलोजी, फारमेकोलोजी, बायो- १५० रु० जो कि विशेषज्ञों की मिलता है
केमेस्ट्री के रीडर नहीं मिलेगा यदि वे केवल इसी पद के लिये नियुक्त हों।

१०० रु० बायोकेमेस्ट्री के रीडर को जो कि केमिकल एग्जामिनेर का भी कार्य करेगा।

१०० रु० पेथोलोजी के रीडर एवं ब्यूरेटर को बैक्टियोलॉजिस्ट एवं स्वास्थ्य का काम करने पर मिलेगा ।

११ एन टोमी, फिजियोलोजी पेथोलोजी एवं इसी प्रकार के दूसरे विषयों के लेक्चरर

४००-२५-६०० ई०बी० २५-७५०

१२. डेपॉस्ट्रेटर जो कि क्लीनिकल विषय के न हों

२५०-२५-४०० ई०बी० २५-६००.

अतिरिक्त कार्य करने के अधिकारी नहीं होंगे । चिकित्सा स्नातकों को ही यह ग्रेड मिलेगा । जो केवल चिकित्सा स्नातक होंगे उन्हें ५० रु० विशेष वेतन मिलेगा ।

१३ डेपॉस्ट्रेटर जो कि नॉन-क्लीनिकल विषय के हों

२५०-२५-४०० ई०बी० २५-६००
चिकित्सा स्नातकों को ही यह ग्रेड मिलेगा ।

१४. चीफ नर्सिंग सुपरिन्टेन्डेन्ट

५००-३०-७४०-३०-८००-५०-९००

१५ प्रान्तीय राज्य एन्टी टी० बी० अधिकारी

यह पद अतिरिक्त समय का है । इस पद वाले को १०० रु० विशेष वेतन स्वयं की ग्रेड के अलावा मिलेगा । दो विशेष वेतन नहीं मिलेंगे ।

१६. मेडन, प्रथम श्रेणी

२५०-२५-४५०-२५-५००

३५० एवं अधिक रोग शय्या वाले चिकित्सालयों की मेडन प्रथम श्रेणी में होंगी ।

१७. द्वितीय श्रेणी

२००-१०-२८० ई०बी० १५-४००

१५० एवं इससे अधिक शय्या वाले चिकित्सालयों की मेडन द्वितीय श्रेणी में होंगी ।

१८. लेडी सुपरिन्टेन्डेन्ट, हेल्थ स्कूल

२५०-२५-४०० ई०बी० २५-६००

१९. चीफ पब्लिक एनेलिस्ट

४००-२५-७०० ई०बी० ३०-८५०

१०० रु० प्रति माह विशेष वेतन ।

२०. फार्मैस्यूटिकल केमिस्ट, सर्वाईमानसिंह चिकित्सालय एवं फार्मैसी के लेक्चरर, सर्वाईमानसिंह चिकित्सा विद्यालय

४००-२५-६०० ई०बी० २५-७५०

दोनों पद पर एक साथ कार्य करने पर ही यह ग्रेड मिलेगा ।

२१. मंत्री स्टोर परचेज ओरगेनाइजेशन राजस्थान, जयपुर	२५०-२५-४०० ई०बी० २५-६००
२२. प्रशासन अधिकारी	२५०-२५-४०० ई०बी० २५-६००
२३. सिविल असिस्टेंट सर्जन, द्वितीय श्रेणी ।	२००-१०-२८० ई०बी० १५-४००
	५० रु० विशेष वेतन यदि वे उच्च स्तानक हों ।
२४. सहायक स्वास्थ्य अधिकारी	२००-१०-२८० ई०बी० १५-४००
	५० रु० अतिरिक्त कार्य न करने के लिए ।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	वर्तमान पद तथा प्रधानास्पद	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३	४
१	डा० बी० एन० शर्मा, एम० बी० बी० एस०, एफ० बी० ए० एस०, एफ० बी० ए० जी०, एफ० ए० सी० एस०, १०-९-०६	संचालक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर	२८-२-४२
२	डा० एन० ए० कवासजी, एम० बी० बी० एस०, ४-८-०५	उप-संचालक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर	१५-२-४०
३	डा० एस० डी० आर्या, एम० बी० बी० एस०, डी० पी० एच०, २६-१२-१२	उप-संचालक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर	१-११-३५
४	डा० जी० डी पारीख, एम० बी० बी० एस०, १-८-०२	सहायक संचालक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर	२८-५-२७
५	डा० बी० एल० अग्रवाल, एम० कॉम, एलएल० बी०, एल० एस० जी० डी०, ४-१-२५	संकलन अधिकारी	८-१०-४८
६	श्री एम० आर० पांड्या, आर० ए० सी० एस०, १९-११-१०	लेखाधिकारी	२७-१०-३०
७	श्री बी० एन० शर्मा, बी० ए०, एलएल० बी०	मंत्री स्टोर पर्चेज आर्गेनाइजेशन, जयपुर	-
८	श्री एच० एल० बोर्दिया, बी० ए०, १४-४ १३	प्रशासनाधिकारी	१-६-३६
			सहायक
१	डा० एल० सी० लोढा, एल० एम० पी०, डी० पी० एच०, एल० एम०, डी० टी० एम०, ९-२-१६	जयपुर	२४-४-४६

विभाग, जयपुर

वर्तमान पद पर नियुक्ति का दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
१५-४-१९५४	१,९००	स्थानापन्न विचाराधीन है
१६-६-१९५३	१,०५० १५० वि०वे०	
..	६५०	स्थानापन्न
१-२-१९५१	६२५	
१५-२-१९५१	३७०	
..	..	
१-३-१९५३	..	
२-७-१९५५	३००	
संचालक		
१-२-१९५१	६०० १०० वि०वे०	

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	वर्तमान पद तथा प्रधानास्पद	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३	४
२	डा० आर० एस० भटनागर, एम० बी० बी० एस०, डी० पी० एच०, ५-१-११	जयपुर	६-७-१९४५
३	डा० पी० एन० हांडा, एम० बी० बी० एस०, डी० पी० एच०, जयपुर, ३०-९-०२	उदयपुर	१४-२-१९४६
४	डा० जी० पी० सरौन	बीकानेर	..
५	डा० जे० पी० शर्मा, एम० बी० बी० एस०	कोटा	..
विशेषज्ञ			
१	डा० एम० एन० काटजू, एम० बी० बी० एस०, एम० एस०, १५-१-१५	बीकानेर	७-१०-१९४१
२	डा० पी० डी० मायुर, एम० बी० बी० एस०, एफ० आर० सी० एस०, एफ० ए० सी० ए०, १६-९-१५	जयपुर	१-७-१९४४
३	डा० एस०सी० मेहता, एफ० आर० सी० एस०, एल० सी० सी० एस०, एल० आर० सी० पी०, एम० आर० सी०पी०, ९-९-०९, पोरबन्द	बीकानेर	३-६-१९४६
४	डा० डी०जी० ओझा, एम० बी० एन० एस० एफ०, आई० सी० एस० १-११-१४, बीकानेर	जोधपुर	१-११-१९३९
५	डा० पी० एल० रिषि०, एम० बी० बी० एस०, एफ० आर० सी० एस०, एफ० आर० सी० पी० एण्ड एस०, १७-११-११, दस्वीया, पंजाब	कोटा	१२-१२-१९३५
६	डा० सी० एम० शर्मा, एम० बी० बी० एस०, एफ० आई० सी० एस०, १४-८-०२	अलवर	३-११-१९२७

वर्तमान पद पर नियुक्ति का दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
१-२-१९५१	६० ८०० १०० वि० वे०	
१-२-१९५१	६५० १०० वि० वे०	
..	..	
..	..	
सर्जन		
२२-१-१९५१	७५०	
१-४-१९५०	९०० २०० वि० वे०	
१-४-१९५०	१,००० २०० वि० वे०	यह पी० एम० ओ०, वीकानेर है
१-१२-१९५१	१,०००	
१५-२-१९५१	७५० १०० वि० वे०	पी० एम० ओ०, कोटा
२४-९-१९४८	१,१५० १००	पी० एम० ओ०, अलवर सवारी भत्ता

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन, तथा जन्म-स्थान	वर्तमान पद तथा प्रधानास्पद	शासकीय सेव में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३	४
७	डा० जी० एल० तलवार, एफ० आर० सी० एस०, इंग्लैण्ड व एडिन, एल० आर० सी० पी०, एम० आर० सी० एस०, १५-७-०६	जयपुर	१-२-४७
८	डा० एस० पी० वान्चू, एम० बी० बी० एस०, एफ० आर० सी० एस०	अजमेर	..
विशेषज्ञ			
१	डा० एस० एन० आसोपा, एम०बी०बी०एस०, एफ० सी० पी० एस०, १६-९-०२,	भरतपुर	१-६-३४
२	डा० डी० एन० चटर्जी, एम० बी०, ३-३-९९	जोधपुर	१८-७-३०
३	डा० जे० पी० शर्मा, एम०बी०बी०एस०, डी०टी०एम० एन्ड एच०, डी०ओ० एम०एस०, ८-८-०६ ब्यावर	अजमेर	१६-९-४५
४	डा० आर० एम० कासलीवाल, एम०बी०बी०एस०, एम०आर०सी० पी०, एम०डी० एम० बी०टी०एन्ड एच०, २०-११-०६, जयपुर	जयपुर	१२-११-४६
५	डा० बी० एम० कोठारी, एम०बी० बी०एस०, डी०टी०एम० एन्ड एच०, २-४-११, जोधपुर	अलवर	१-१०-४८
६	डा० जी०के० मुक्तर्जी, एम०बी० बी०एस०, १६-३-०४,	बीकानेर	१६-८-३२
७	डा० एल०एम० सांघवी, एम०बी० बी०एस०, एम०आर०सी०पी०, डी०टी०एम० एन्ड एच०	जयपुर	९-६-४२
८	डा० आर० एन० सच्चदेव, एम०बी० बी०एस०, २९-१२-०३	उदयपुर	२१-९-२९

वर्तमान पद पर नियुक्ति का दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
२२-१-५१	₹ १,१५०	
	२०० वि० वे०	
	१०० सवारी भत्ता	
..	₹ १,१५०	पी० एम० ओ०, अजमेर
फ़िजीशियन		
१६-६-५२	₹ ७५०	
२२-१-५१	₹ १,०००	
२८-२-५१	₹ १,०००	
१-२-५१	₹ १,४८८	आचार्य सवाई मानसिंह चिकित्सा विभाग एवं कन्ट्रोलर सम्बन्धित अस्पतालों के ।
११-२-५१	₹ ८५०	
२२-१-५१	₹ ८५०	
२२-१-५१	₹ १,४००	
१२-२-५१	₹ ७५०	

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	वर्तमान पद तथा प्रधानास्पद	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३	४
१	डा० एल०आर० सरीन, एम०बी० वी०एस०, एम०आर० सी०पी०, डी०ओ०एम०एस०, २०-९-०६, भरतपुर	जयपुर	७-६-३९
			विशेषज्ञ
१	डा० (सुश्री) एस० एम० तैलंग, एम० डी०, १-१२-०२	जयपुर	१-१०-४२
२	डा० (सुश्री) ई० पीटर्स, एम०बी०वी० एस०, एम० आर० सी० पी० जी०, डी०आर० सी०ओ०जी०, २५-९-१०	जयपुर	१-१-३९
३	डा० (सुश्री) एस०आई०जेकब, एम०बी०वी०एस०, एम०आर० सी०ओ०जी०, १०-१-१६, बम्बई	जोधपुर	१-१२-५३
			विशेषज्ञ
१	डा० बी०सी० शर्मा, एम०बी०वी० एस०, एल०ओ०, डी०ओ०.एम०एस०, डी०ओ०, २०-१२-०६, जयपुर	..	१०-१२-३६
२	डा० बी०एन० कन्सल, एम०बी०वी० एस०, डी०ओ० एम०एस०, डी०ओ०, ७-१०-१६, जयपुर	जयपुर	२०-५-४४
३	डा० हिम्मतसिंह, एम०बी०वी०एस०, एम०आर०सी०एस०, एल०आर०सी० पी०, डी०ओ०एम०एस०, ५-३-०२, बीकानेर	बीकानेर	१६-५-३७
			विशेषज्ञ
१	डा० जी० नारायणन, एम०एस०, एम० बी०वी०एस०, १८-७-१५	जयपुर	२-९-४२
			कनिष्ठ विशेषज्ञ
१	डा० जी०सी० शर्मा, एम०बी०वी०एस०, एम०एस०, १९-१२-२४, अजमेर	जयपुर	१७-४-५०

वर्तमान पद पर नियुक्ति का दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७

२०-४-५१

रु०
१,०००
१०० वि० वे०

गाइनेकोलोजिस्ट

१४-५-५१

१,१५०
२०० वि० वे०

सुप०, जनाना अस्पताल

..

१,१५०
१५० वि० वे०

१-१२-५३

५५०

सुप०, उम्मेद अस्पताल,
जोधपुर

ऑर्थोपेडोलोजिस्ट

१-३-५१

८५०
२०० वि० वे०

१०-३-५१

८५०

१६-५-३७

१,०००

पुनर्नियुक्ति

ई० एन० टी० रोगों के

२-३-५१

१,०५०
२०० वि० वे०

सर्जन्स

१९-१-५५

४५०
१५० वि० वे०

क्र. सं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	वर्तमान पद तथा प्राधान्य-पद	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३	४
२	डा० डी०जी० माथुर, एम०बी०बी० एम०, एम०एल०, २-१०-२१, जयपुर	भरतपुर	१३-११-४६
३	डा० बी०एल० मेहता, एम०बी०बी० एम०, १३-८-०३	जोधपुर	३-११-२७
४	डा० गंगाराम पुरोहित, एम०बी० बी०एल०, १२-९-१४, जोधपुर	जोधपुर	१-११-३७
५	डा० के०डी० शास्त्री, एम०बी० बी० एम०, एफ०आर०सी०एल०	अजमेर	..
६	डा० कुंजविहारी लाल माथुर, एम०बी०बी०एल०	अजमेर	..

फिजि-

१	डा० जे०वी० मेहता, एम०बी०बी०एल०, एम०डी०, एल० एण्ड सी०पी०, एम० आर०सी०एल०, डी०सी०एच०, २४-१०-१५	जयपुर	७-९-५१
२	डा० शूरवीरसिंह, एम०बी०बी०एल०, एम०आर०सी०पी०, डी०टी०एम० एण्ड एच०, २४-९-१८, बीकानेर	कोटा	२६-१२-३९
३	डा० एन०सी० खलिक, एम०बी०बी० एल०, एफ०आर०सी०पी०	बीकानेर	..

ऑपथेलमी-

१	डा० एस०डी० शर्मा, एम०बी०बी० एल०, डी०ओ०, २९-१-२२, भीलवाड़ा	उदयपुर	११-११-४३
२	डा०एच०जे० हाथी, एम०बी०बी० एल०, डी०ओ०एम०एल०, ४-९-०७, जोधपुर	जोधपुर	१-१-३८
३	डा० आर०पी० शारदा, एम०बी० बी०एल०, डी०ओ०एम०एल०, १४-३-२१, जयपुर	घोंलपुर	१-११-४५

वर्तमान पद पर नियुक्ति का दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
१८-१-५६	४००	स्थानापन्न
६-१-५६	६७५	स्थानापन्न
२५-३-५४	४५०	
..	५००	
..	..	

शियन्स

१६-१-५६	७५० १०० दि०वे०	स्थानापन्न
२०-१-५६	४२५	स्थापान्न
..	..	

लोजिस्ट

१०-१-५६	४००	स्थानापन्न
१४-१-५६	५७५	
२०-१-५६	४००	स्थानापन्न

क्र.सं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	वर्तमान पद तथा प्रधानास्पद	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३	४

रेडियो-

१	डा० बी० डी० भार्गव, एम० बी० बी० एस०, डी० एम० आर० ई०, १५-११-१५, बीकानेर	जयपुर	१-६-४९
२	डा० बी० एस० शर्मा, एल० एम० पी०, रेडियोलोजिस्ट के उच्च स्नातक, १९-१०-०७, उदयपुर	जोधपुर	१-१२-४४
३	डा० पी० एल० शर्मा, एल० एम० पी०, डी० एम० आर० ई०, ८-१-०५, उदयपुर	बीकानेर	१-११-२८

राज-

१	डा० हंसकुमार, एम० बी० बी० एस०, डी०टी०डी०, एफ०सी०सी०पी०, ५-१-२०	जयपुर	१५-५-४५
२	डा० डी० आर० नागपाल, एम० बी० बी०ए०, टी० डी०डी०, २५-८-२०, देहली		१६-१२-५२

एनेस्थे-

१	डा० के० एन० शर्मा, एम० बी० बी० एस०, डी० ए०, १९-९-२०, जयपुर	जयपुर	१८-१०-४६
२	डा० ओ० डी० भाटी, एल० एम० पी०, डी० ए०, १६-१-०६, जोधपुर	जोधपुर	१६-१०-२८
३	डा० एस० पी० कौशिक, एल० एस० एम० एफ०, डी० ए०, ७-५-१३, अजमेर	बीकानेर	१६-३-४१

पैथो-

१	डा० एस० एस० नन्दा, एम० बी० बी० एस०, २९-११-१३, खानपुर	उदयपुर	१-५-४०
---	---	--------	--------

वर्तमान पद पर नियुक्ति का दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
लोजिस्ट		
१८-१-५६	४०० १५० वि० वे०	स्थानापन्न
१०-१-५६	५००	स्थानापन्न
१९-१-५६	४००	स्थानापन्न
यत्तमा		
१९-१-५६	४००	स्थानापन्न
१६-१२-५२	५५०	फोरिन सर्विस (वैदेशिक नौकरी)
टिस्ट		
६-१-५६	४५० १५० वि० वे०	स्थानापन्न
९-१-५६	४००	स्थानापन्न
९-३-५६	४२५	स्थानापन्न
लोजिस्ट		
१-३-५६	४००	स्थानापन्न

क्र. संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	वर्तमान पद तथा प्रधातास्पद	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३	४
			दन्त शल्य
१	डा० ए० हल्लोसिङ्ग, डी० एस० सी०, १-५-०२	बीकानेर	१-१०-३८
२	डा० वी० रतन सेठ, एल०डी०एस०सी०, डी०आर०डी०, २-११-१४, लुधियाना	जयपुर	२१-८-४५
			गायनी-
१	डा०(श्रीमती)एम०एविबनो, एम० बी० वी० एस०, एम० आर० सी० एस०, एल० एम०, ३०-४-०१, जयपुर	जयपुर	२०-३-३३
२	डा०(श्रीमती) शारदा कृष्णा राव, एम० वी० वी० एस०, डी० जी० ओ०, ११-१०-०९, मद्रास	बीकानेर	४-७-३५
३	डा०(श्रीमती)मंगला तलवार, एल०आर० सी० पी०, एम० आर० सी०सी०एस०, एल० एम० एन्ड ए० पी० एच०, १८-१०-०२, फरुखाबाद	अलवर	२१-२-४९
			सिविल असिस्टेंट
१	डा०आर०पी० ओझा, एम० वी० वी० एस०, १८-१०-९९, जोधपुर	जोधपुर	१५-६-३०
२	डा० दुर्गा सहाय, एम० वी० वी० एस०, १८-११-०३, जयपुर	जयपुर	७-५-३२
३	डा० टी० एन० भार्गव, एम० वी० वी० एस०, २०-१०-११	जयपुर	१६-१-३६
४	डा० एम० पी० माथुर, एम० वी० वी० एस०, १०-७-११, जयपुर	जयपुर	२४-२-३६
५	डा० एस० डी० महोदिया, एम० वी० वी० एस०, ८-८-११, बीकानेर	गंगानगर	१-६-३६

वर्तमान पद पर नियुक्ति का दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७

चिकित्सक

१-१०-३८	८०० १५० वि० वे०	
३-७-५१	८००	

कालाजिस्ट

१-२-५१	७९६/१४/	पुनर्नियुक्ति
१-१-५०	६७५	
२१-२-४९	६७५	

सर्जन (प्रथम श्रेणी)

१५-६-३०	६७५	पुनर्नियुक्ति
७-५-३२	६६४/१/-	
१६-१-३६	४५०	
२४-२-५१	४७५	
१-६-३६	४०५	

क्र. सं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	वर्तमान पद तथा प्रधानास्पद	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३	४
६	डा० रूपनारायण माथुर, एम० बी० बी० एस०, एल० ओ०, २६-५-०८	बीकानेर	१-७-३६
७	डा० डी० पी० श्रीवास्तव, एम० बी० बी० एस०, १९-१०-०८, कोटा	झालावाड़	१-१०-३६
८	डा० बी० एम० राय, एम० बी० बी० एस०, १०-७-१४, जोधपुर	जोधपुर	१-३-३७
९	डा० श्रवणलाल पुरोहित, एम० बी० बी० एस०, डी० सी० एच०, २५-१-०९	जयपुर	१-१२-३७
१०	डा० एम० एल० मार्कण्डे, एम० बी० बी० एस०, १-१-१५, अमृतसर	बीकानेर	१४-७-३९
११	डा० आर० बी० अग्रवाल, एम० बी० बी० एस०, १५-९-१६	अलवर	२७-१-४०
१२	डा० के० सी० कल्ला, एम० बी० बी० एस०, ७-११-१३, जोधपुर	अलवर	१-११-४०
१३	डा० ए० बी० एल० शर्मा, एम० बी० बी० एस०, ५-१२-१६	चूरु	२-२-४१
१४	डा० आई० एस० माथुर, एम० बी० बी० एस०, १२-९-१९, जयपुर	टोंक	१८-२-४१
१५	डा० उमराव मल माथुर, एम० बी० बी० एस०, ७-७-१४, जोधपुर	जोधपुर	१-१२-४१
१६	डा० जी० डी० मारु, एम० बी० बी० एस०, २५-१२-१३, बीकानेर	बीकानेर	२-२-४२
१७	डा० एम० एल० ब्राह्मिणी, एम० बी० बी० एस०, २४-४-२०	जोधपुर	६-४-४२
१८	डा० एम० एल० शर्मा, एम० बी० बी० एस०, २२-१२-१५, चूरु	सुजानगढ़	७-१२-४२
१९	डा० के० डी० शर्मा, एम० बी० बी० एस०, ३०-१-१९, चूरु	बीकानेर	३०-१-४३

वर्तमान पद पर नियुक्ति का दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
१-४-५०	४००	
१-१०-३६	३७५	
१६-३-४३	३५०	
१४-२-५१	५२५	
१-४-५०	४००	
२७-१-४०	४२५	
१-११-४०	४००	
२-२-४१	३२५	
१-४-४९	३५०	
१-१२-४१	४२५	
१-५-५०	४००	
१-१-४९	३००	
१-४-५०	४००	
३०-१२-४६	४००	

क्र०	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	वर्तमान पद तथा प्रधानाल्पद	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३	४
२०	डा० (सुश्री) घर्मावती, एम० बी० बी० एस०, १८-१०-१६	जोधपुर	२४-२-४३
२१	डा० शार्कभरदीयाल, एम० बी० बी० एस०, १-८-१४	मालपुरा	४-५-४३
२२	डा० (सुश्री) शान्ति माथुर, एम० बी० बी० एस०, ३-५-१९, आगरा	जयपुर	१-६-४३
२३	डा० (सुश्री) के० सी० पनिकर, एम० बी० बी० एस०, ४-४-१७, त्रावनकोर	रतनगढ़	११-९-४२
२४	डा० पिताम्बरदयाल माथुर, एम० बी० बी० एस०, १३-१२-२०	भरतपुर	२४-२-४५
२५	डा० आर० डी० पटेल, एम० बी० बी० एस०, १४-१-१५, डि० नदिया, केरू	ढाँक	१९-६-४२
२६	डा० (सुश्री) तारा माथुर, एम० बी० बी० एस०, २२-२-२१, पटियाला	बीकानेर	१७-७-४५
२७	डा० (सुश्री) तारा भारद्वाज, एम० बी० बी० एस०, २-६-२०, जयपुर	जयपुर	१-९-४५
२८	डा० मननाथ फुलल, एम० बी० बी० एस०, १९-१-०६	जयपुर	१७-९-४५
२९	डा० आर० के० शर्मा, एम० बी० बी० एस०, २८-७-१८, जयपुर	जयपुर	४-१०-४५
३०	डा० एच० एम० रावत, एम० बी० बी० एस०, ४-८-१९, आगरा	हिन्डीन	१२-१०-४५
३१	डा० (सुश्री) पी० शारदा, एम० बी० बी० एस०, २-११-१९	जोधपुर	१९-१०-४५
३२	डा० बी० के० शर्मा, एम० बी० बी० एस०, २२-११-२५, बीकानेर	श्रीमाधोपुर	१५-५-४६
३३	डा० एस० सी० बनर्जी, एम० बी० बी० एस०, २९-९-१७, हावड़ा	जयपुर	२०-५-४६

वर्तमान पद पर नियुक्ति का दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
२४-२-४३	६० ३४०	
..	..	
१-४-५०	४००	
११-९-४२	४००	
२४-२-४५	२९६.८७	
..	५००	
१७-७-४५	३७५	
१-९-४५	४२५	
१७-९-४५	४५०	
४-१०-४५	४२५	
१२-१०-४५	४००	
१९-१०-४५	२९०	
१५-५-४६	४२५	
२०-५-४६	४००	

क्र०	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	वर्तमान पद तथा प्रधानास्पद	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३	४
३४	डा० एम० डी० महोबिया, एम० बी०, बी० एस०, १८-७-१८	बीकानेर	२-६-४६
३५	डा० के० डी० गुप्ता, एम० बी० बी० एस०, एम० डी०, १२-१०-२२	जयपुर	१८-६-४६
३६	डा० एस० एन० कक्कड़, एम० बी० बी० एस०, २९-१०-२१, जयपुर	जयपुर	३०-९-४६
३७	डा० बी० एस० मित्तल, एम० बी० बी० एस०, ३०-५-१३	जयपुर	४-१०-४६
३८	डा० जी० के० भटनागर, एम० बी० बी० एस०, ५-३-१७	वीसा	१२-१०-४६
३९	डा० बी० पी० भटनागर, एम० बी० बी० एस०, १०-४-१७	जयपुर	१८-१०-४६
४०	डा० बी० एस० सक्सेना, एम० बी० बी० एस०, १२-१२-२१	बड़ी	१८-१०-४६
४१	डा० एच० एस० राव, एम० बी० बी० एस०, १५-११-१६	झुन्झनू	२६-१०-४६
४२	डा० जे० डी० सांगवी, एम० बी० बी० एस०, ११-८-१५, गनेरा	जोधपुर	१-६-४६
४३	डा० जे० पी० शर्मा एम० बी० बी० एस०, डी० पी० एच०, १०-१०-१६	जयपुर	२-११-४६
४४	डा० के०के० सरिन, एम० बी० बी० एस०, २६-४-१७, जालन्धर	बीकानेर	११-११-४६
४५	डा० (श्रीमती) लक्ष्मी भटनागर, एम० बी० बी० एस०, २-४-२१, जयपुर	जयपुर	८-२-४६
४६	डा० एन० एल० शर्मा, एम० बी० बी० एस०, ११-९-१८	घोलपुर	२३-२-४७

वर्तमान पद पर नियुक्ति का दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
१-४-५०	४००	
२७-९-५२	४००	
३०-९-४६	४२५	
४-१०-४६	३५०	
१२-१०-४६	३२५	
१८-१०-४६	४२५	
१८-१०-४६	३७५	
२६-१०-४६	४००	
१-४-५०	३७५	
२-११-४६	३२५	ए०डी०एच०एस०,कोटा
१-४-५०	४००	
८-२-४६	३५०	
१७-८-५१	३५०	

क्र. सं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	वर्तमान पद तथा प्रधानास्पद	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३	४
४७	डा० पी० एल० जोहर, एम० बी० बी० एस०, १-२-१६, अटक	घौलपुर	८-३-४७
४८	डा० वाई० डी० भारद्वाज, एम० बी० बी० एस०, डी० सी० एच० डी० पेड०, २१-१२-२१, गंगानगर, बीकानेर	बीकानेर	२६-७-४७
४९	डा० पी० एम० भटनागर, एम० बी० बी० एस०, १०-१-२२, भरतपुर	भरतपुर	७-५-४७
५०	डा० पी० एन० माथुर, एम० बी० बी० एस०, १२-३-२२, अलवर	अलवर	३१-५-४७
५१	डा० जी० एस० प्रीवल, एम० बी० बी० एस०, २६-१-१६, श्रीगंगानगर	झालावाड़	१-८-४७
५२	डा० (सुश्री) बी० चतरे, एम० बी० बी० एस०, २९-६-०७	बीकानेर	२२-७-४७
५३	डा० एस० एन० माथुर, एम० बी० बी० एस०, २३-५-२३	जयपुर	१-११-४७
५४	डा० (श्रीमती) एस० प्रकाश, एम० बी० बी० एस०, ६-७-१४	जयपुर	१-११-४७
५५	डा० बी० के० छाया, एम० बी० बी० एस०, १९-८-१२, कच्छभुज	नागौर	११-१-४७
५६	डा० एम० एम० शर्मा, एम० बी० बी० एस०, १-९-२१	प्रतापगढ़	२३-१२-४७
५७	डा० रतनचन्द्र, एम० बी० बी० एस०, डी० टी० एम०, ११-८-१४, जालन्धर	रतनगढ़	२-५-४८
५८	डा० जे० एन० उपाध्याय, एम० बी० बी० एस०, ३१-१२-२४, बंगाल	सांभरलेक	१-३-४८
५९	डा० ए० एस० नागपाल, एम० बी० बी० एस०, १४-४-१६	उदयपुर	६-४-४८

वर्तमान पद पर नियुक्ति का दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
८-३-४७	रु० ७२५	सी० एम० ओ०, धौलपुर
२६-७-४७	३२५	
७-५-४७	३७५	
३१-५-४७	४२५	
१-४-५०	४२५	
२२-७-४७	५७५	
१-११-४७	३२५	
१-११-४७	३२५	
२१-९-५४	५००	
..	३७५	
१२-६-५४	३००	
१-३-४८	४४०	
६-४-४८	३५०	

क्र. सं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	वर्तमान पद तथा प्रधानास्पद	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३	४
६०	डा० (सुश्री) टी० के० लूटानी, एम०बी०बी०एस०, २३-३-२३	जयपुर	१८-८-४८
६१	डा० (सुश्री) वी० केसवानी, एम० बी० बी० एस०, १५-८-२५	बीकानेर	७-१२-४८
६२	डा० के० पी० शर्मा, एम० बी० बी० एस०, डी० टी० एम० एन्ड एच०, १-८-२२, मेरठ	भरतपुर	१४-१२-४८
६३	डा० एच० एस० ब्रोक, एम० बी० बी० एस०, १९-३-१९	डूंगरपुर	१६-१२-४८
६४	डा० आर० एस० डोगरा, एम० बी० बी० एस०, ३०-७-१२	सिरोही	५-९-४८
६५	डा० एस० एन० माथुर, एम० बी० बी० एस०, १६-४-०६	जयपुर	१-१२-४८
६६	डा० एम० जी० सरीन, एम० बी० बी० एस०, ३-७-२२, भरतपुर	सीकर	१६-१२-४८
६७	डा० एम० पी० गुप्ता, एम० बी० बी० एस०, २१-११-१४, मेरठ	गंगापूर	२-२-४९
६८	डा० ए० एल० वही, एम० बी० बी० एस०, २८-३-२०	जयपुर	३-२-४९
६९	डा० दर्शनसिंह सरोया, एम० बी० बी० एस०, १५-४-२५	भरतपुर	१५-२-४९
७०	डा० मूलराज सवरवाल, एम० बी० बी० एस०, ४-८-२०, कोटा	कोटा	१५-२-४९
७१	डा० डी० पी० चतुर्वेदी, एम० बी० बी० एस०, १-९-२५	जोधपुर	२८-११-४८
७२	डा० (श्रीमती) विजय आष्ट, एम० बी० बी० एस०, डी० जी० ओ०, ४-१०-१९	जयपुर	१-५-४९

वर्तमान पद पर नियुक्ति का दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
१८-८-४८	४० ३७५	
७-१२-५०	३७५	
१४-१२-४८	३७५	
१६-१२-४८	४९५	
५-९-४८	४५०	
१२-१२-४८	४२०	
१६-१२-४८	५००	
२-२-४९	४००	
१-४-५०	४००	
१५-२-४९	४००	
१५-२-४९	४००	
--	३७५	
१-५-४९	४७५	

क्र.सं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	वर्तमान पद तथा प्रधानास्पद	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक.
१	२	३	४
७३	डा० वाई० एस० माथुर, एम० बी० बी० एस०, २५-९-२६, पाली	पाली	७-५-४९
७४	डा० (सुश्री) ए० सरोजनी, एम० बी० बी० एस०, डी० जी० ओ०, १०-६-२०	जयपुर	७-४-५२
७५	डा० ए० दास गुप्ता, एम० बी० बी० एस०, एम० डी०, १-३-१९	जयपुर	९-८-५२
७६	डा० (सुश्री) पी० गहलोत, एल० एस० एम० एस०, एल० एम०, १२-३-१९०७	जोधपुर	-११-२८
७७	डा० वृद्धरूप राय, एल० एम० पी०, ४-२-०५, जोधपुर	जोधपुर	-१०-२९
७८	डा० मोहनलाल जेरठ, एल० एम० पी०, डी० ओ० एम० एस०, एल० टी० एम०, २८-८-०९, लुधियाना	कोटा	६-५-३०
७९	डा० एस० सी० दासगुप्ता, एल० एस० एम० एफ०, ३०-१०-०८, बीकानेर	बीकानेर	०-४-३५
८०	डा० बी० एस० बन्सल, एल० एफ० एम० एफ०, १-३-१०, मेरठ	कोटा	७-५-३५
८१	डा० (सुश्री) ए० बी० चाकू, एल० एम० पी०, एल० एम०, २-३-१२	बीकानेर	१-५-३७
८२	डा० (श्रीमती) आर० पी० जोहर, एम० एस०, एम० एफ०, ३-२-१५, झेलम	धीलपुर	१-३-४७
८३	डा० (सुश्री) एफ० सोहरावजी, एल० डी० एस० सी०, ८-३-०८	जयपुर	१-९-४३
८४	डा० जे० एस० हीरानन्द, एल० डी० एस० सी०, ३१-५-०६	जोधपुर	१-६-४८

वर्तमान पद पर नियुक्ति का दिनांक

वेतन

विशेष

५

६

७

७-४-५२

३६०

१९-८-५२

३७५

८-११-२८

४४०

१-३-४७

३७५

१-४-५०

४५०

१-४-५०

४२५

१-४-५०

४६०

१-४-५०

४५०

२६-१०-५३

३८०

..

३६५

दन्त-शल्य-चिकित्सक

१-६-४८

४००

क्रम सं०	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	वर्तमान पद तथा प्रधानास्पद	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३	४
८५	डा० आर० पी० बजाज, एम० बी० वी० एस०, १-४-१९, फिरोजपुर	बिलाड़ा	१३-७-४९
८६	डा० (श्रीमती) एस० गोपीनाथ, एम० बी० वी० एस०, २५-१२-२२, ट्रावनकोर	अलवर	१८-७-४९
८७	डा० (श्रीमती) एल० वी० कामठ, एम० बी० वी० एस०, ७-१०-१८, बम्बई	कोटा	१-८-४९
८८	डा० एस० सी० गुप्ता, एम० बी० वी० एस०, २३-९-२५, जयपुर	भीलवाड़	१-१२-४९
८९	डा० ए० के० शर्मा, एम० बी० वी० एस०, २१-३-२७	जयपुर	२१-१२-४९
९०	डा० डी० पी० सक्सेना, एम० बी० वी० एस०, १७-३-२३, उदयपुर	भरतपुर	३-१-५०
९१	डा० आर० एल० चौपड़ा, एम० बी० वी० एस०, ४-७-२२	बीकानेर	१५-१-५०
९२	डा० आर० सी० तोतुका, एम० बी० वी० एस०, १९-९-२५, जयपुर	राजसम	१८-१-५०
९३	डा० (सुश्री) शीलारानी माथुर, एल० एम० एस०, १६-८-२३, अलवर	अलवर	२५-५-५०
९४	डा० (श्रीमती) ओ०के० जोशी, एम० बी० वी० एस०, २९-८-२७, गुरदासपुर	बीकानेर	१-१-५१
९५	डा० बी० वी० जैन, एम० बी० वी० एस०, १६-११-२४, बीकानेर	लाहौ	२६-२-५१
९६	डा० आर० एस० अग्रवाल, एम० बी० वी० एस०, २-४-२३, सुजानगढ़	बीकानेर	१८-५-५१
९७	डा० (श्रीमती) पुष्पा मंगिया, एम० बी० वी० एस०, २६-६-२६	जयपुर	१६-१-५१

वर्तमान पद पर नियुक्ति का दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
..	₹०	०
..	₹५०	
जनवरी, ५६	₹७५	
१-४-५०	₹४०	
जनवरी, ५६	₹५०	
२१-१२-४९	₹२५	अस्थायी
..	₹७५	
..	₹७५	
जनवरी, ५६	₹७५	
जनवरी, ५६	₹५०	
जनवरी, ५६	₹२५	
जनवरी, ५६	₹५०	
जनवरी, ५६	₹७५	
१६-१-५१	₹५०	

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	वर्तमान पद तथा प्रधानास्पद	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३	४
९८	डा० (श्रीमती) शीला शर्मा, एम० बी० एस०, ७-५-२५, गुजरानवाला	जयपुर	१-७-५१
९९	डा० डी० डी० शर्मा, एम० बी० बी० एस०, ११-२-२६, जयपुर	सवाई माधोपुर	११-१-५२
१००	डा० एच० के० खन्ना, एम० बी० बी० एस०, एल० एम० पी०, १३-५-२२, जयपुर	धयाना	१६-६-५२
१०१	डा० आर० एन० माथुर, एम० बी० बी० एस०, ९-८-२७, बीकानेर	बीकानेर	१३-६-५०
१०२	डा० रामजीलाल, एम० बी० बी० एस०, ७-३-२३, अलवर	अलवर	१७-६-५२
१०३	डा० बी० एस० शर्मा, एम० बी० बी० एस०, ६-१०-२६, जयपुर	जयपुर	२६-६-५२
१०४	डा० आनन्दस्वरूप रामपाल, एम० बी० बी० एस०, १७-७-१७, होशियारपुर	बीकानेर	१४-११-३९
१०५	डा० डी० जी० एस० भन्डारी, एस० सी० पी० एस०, एम० बी० बी० एस०, १३-१२-२२, उदयपुर	निम्बाहेड़ा	१-४-४३
१०६	डा० श्यामलाल बोहरा, एम० बी० बी० एस०, २०-११-२०, जोधपुर	भीमल	९-७-४३
१०७	डा० किशनदास बोहरा, एम० बी० बी० एस०, २५-५-२५, जोधपुर	सादड़ी	१६-११-४७
१०८	डा० कैलाशनाथ भार्गव, एम० बी० बी० एस०, एम० एस०, ११-८-२८, जयपुर	जयपुर	१३-१०-५४
१०९	डा० शिवचरण लाल भटनागर, एम० बी० बी० एस०, ११-९-१६, क्षालावाड़	कोटा	२९-४-३९

वर्तमान पद पर नियुक्ति का दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
१०-६-५४	२० ३५०	
जनवरी, ५६	३५०	
१६-६-५३	३००	
११-६-५२	४००	
१७-६-५२	३२५	अस्थायी
२६-६-५२	३००	अस्थायी
१-४-५०	३००	
१४-६-५४	२५०	
१५-५-५३	३००	
जून, ५४	२५०	
३-१०-५४	३००	
८-६-५४	३००	

क्र. सं०	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	वर्तमान पद तथा प्रधानास्पद	शासकीय सेवामें प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३	४
११०	डा० जे० एस० भटनागर, एम० बी० बी० एस०, २७-५-१५, बुलन्दशहर (य० पी०)	बांसवाड़ा	२७-८-४६
१११	डा० खुशहाल सिंह चौधरी, एल० एम० पी०, २-१-०३, भीलवाड़ा	शाहपुरा	१९-५-२९
११२	डा० किशनसिंह देवरा, एल० एम० पी०, १-१-०८, जोधपुर	सोजत	१-४-३०
११३	डा० राधेमोहन गुप्ता, एम० बी० बी० एस०, १-७-१५, जोधपुर	जोधपुर	३०-११-३६
११४	डा० एस० एम० गुप्ता, एल० सी० पी० एन्ड एस०, एम० बी० बी० एस०, एम० एस०, ३-६-२२	बूंदी	११-८-५५
११५	डा० हरशिवलाल, एल० एम० पी०, १७-१-०२	जयपुर	...
११६	डा० हरनारायण हर्ष, एल० एम० एच०, एम० बी० बी० एस०, ८-१०-१०, बीकानेर	सरदारशहर	२१-३-३३
११७	डा० के० एल० झालानी, एल० एम० पी०, एम० बी० बी० एस०, ४-८-२०	जयपुर	७-८-४३
११८	डा० (सुश्री) बी० टी० जोजफ, एल० एस० एम० एफ०, एम० बी० बी० एस०, ७-९-२०	बीकानेर	७-८-४३
११९	डा० कैलाशशंकर, एल० एम० पी०, एल० पी० एच०, ८-११-०३, आगरा	जयपुर	१-१-३४
१२०	डा० अजीनचन्द कपलास, एल० एम० एन्ड एफ०, ९-१-०६, पेशू	राजगढ़	१-५-३४
१२१	डा० राधाकांत खन्ना, एम० बी० बी० एस०, १-९-२६, जोधपुर	जोधपुर	२२-२-४९

वर्तमान पद पर नियुक्ति का दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
..	४० ४७५	
१८-१-५४	२९०	
जून, ५४	२५०	
२९-६-५४	२५०	
..	२५०	
१-४-५०	४५०	
जन, ५४	३००	
१-४-५०	००	
..	००	
२९-६-५४	३००	
जून, ५४	००	
२७-४-५४	२७५	

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	वर्तमान पद तथा प्रधानारपद	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३	४
१२२	डा० नन्दलाल कोखतर, एम०बी०बी० एस०, २५-९-१९, भीलवाड़ा	उदयपुर	२६-१२-४२
१२३	डा० किशनमुरारोलाल, एल०एम० एफ०, लुधियाना, १३-११-२०	जोधपुर	२९-४-४१
१२४	डा० बी०आर०महाजन, एफ०वाई० ए०, एल०सी०पी०एन्ड एस०, ११-४-०२, अहमदाबाद	डीडवाना	३१-१२-३०
१२५	डा० वृजलाल महात्मा, एम०बी०बी० एस०, ८-२-२२, बूड़	नीमका थाना	३-८-४४
१२६	डा० पी०आर०मेहता, एल०सी०पी० एन्ड एस०, १७-१०-१२, जालन्धर	किशनगढ़	१-२-३७
१२७	डा० गनपतिलाल माथुर, एम०बी० वी०एस०, ६-५-२२, उदयपुर	चित्तौड़गढ़	१३-५-४५
१२८	डा० ओमप्रकाश मेहता, एल०एस० एम०एफ०, १-३-१०, जालन्धर	भादरा	२-५-३८
१२९	डा० सहेश नारायण, एल०एस०एम० एफ०, ३-१-०६, अलवर	बैरोड़	५-११-३२
१३०	डा० प्यारेकिशन माथुर, एल०एम०पी०, डी०टी० एम० एन्ड एच०, १३-९-१३, भीलवाड़ा	उद पुर	२९-४-३९
१३१	डा० रतनचन्द माथुर, एम०बी०बी० एस०, १३-४-२१	बाड़मेर	१-८-४७
१३२	डा० रमेशचन्द्र माथुर, एम० बी०बी० एस०, १५-८-२२, जोधपुर	जोधपुर	१५-५-४५
१३३	डा० जीवनलाल माथुर, एम०बी०बी० एस०, डी०टी०एम०, २-५-२४, उदयपुर	पावटा	१२-१२-४४
१३४	डा० जी०डी० नारिंग, एम०बी०बी० एस०, २०-१२-०६, जयपुर	निवाई	५-९-२९

वर्तमान पद पर नियुक्ति का दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
१-६-५४	२५०	
५-७-५४	२७५	
जून, ५४	३००	
मई, ५४	२७५	
जून, ५४	२५०	
१-५-५४	२५०	
जून, ५४	२५०	
जून, ५४	२५०	
२२-१-५१	३५०	
२४-९-४८	४००	
..	४००	
जून, ५४	२५०	
१-४-५०	२५०	

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	वर्तमान पद तथा प्रधानास्पद	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३	४
१३५	डा० गणेशदत्त नागर, एल०एम०पी०, एम०बी०बी०एस०, ८-४-२३, बूंदी	जोधपुर	१-११-४६
१३६	डा० सीहनलाल न्याती, एम०बी०बी०एस०, २०-१०-२५, भीलवाड़ा	उदयपुर	१-६-४७
१३७	डा० आर० बी० निगम, एम०बी०बी०एस०, ८-१२-१५	डींग	२९-११-४१
१३८	डा० नाथामल, एम०बी०बी०एस०, १२-१२-०८, अलवर	कांमा	१९-७-३४
१३९	डा०माणिकराम न्याती, एल०एम०पी०, एल०टी०एम०, ४-१-०४	फुलेरा	५-६-३९
१४०	डा० जानकी प्रसाद पुरोहित, एम०बी०बी०एस०, १६-१०-१४, बीकानेर	करीली	२६-११-४०
१४१	डा० जीवन नाथ राजदान, एम०बी०बी०एस०, टी०डी०डी०, १४-५-२३, जोधपुर	बीकानेर	५-१-४४
१४२	डा० के०एन०राय, एम०बी०बी०एस०, ४-१०-१६, बुश	बीकानेर	१३-७-४९
१४३	डा०ए०सी०सतीजा, एम०बी०बी०एस०, १०-१२-१३, बीकानेर	बीकानेर	१३-२-३५
१४४	डा० (सुश्री) चन्द्रवती सक्सेना, एम०बी०बी०एस०, २०-५-२१, कोटा	बूंदी	२१-६-४५
१४५	डा० प्रमोदकरण सेठी, एम०बी०बी०एस०, एम०एस०एफ०आर०सी०एस०, २८-११-२७, आगरा	जयपुर	२५-३-५५
१४६	डा० हंसराज शाह, एल०एन०एफ०, ४-३-१०	सांगवाड़ा	१-१०-३३
१४७	डा० शिवकुमार, एल०एस०एम०, २३-५-२३, गुरदासपुर	बीकानेर	१-११-४७

वर्तमान पद पर नियुक्ति का दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
..	२०	
..	२७५	
..	२५०	
जून, ५४	..	
जून, ५४	२५०	
जन, ५४	३२५	
१४-६-५४	३००	
..	३००	
..	२४०	अस्थायी
१-४-५०	४००	
७-६-५४	३००	
२५-३-५५	३०० १०० वि०वे०	
१२-७-५४	२७५	
१-११-४७	३२५	

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	वर्तमान पद तथा प्रधानास्पद	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने क दिनांक
१	२	३	४
१४८	डा० अभिनन्दन शर्मा, एस०एल०सी०, एल०एम०पी०, एल०ओ०, १५-३-०८, अलवर	अलवर	२३-१२-२९
१४९	डा० कान्तीचन्द्र सिंगल, एम०बी०बी० एस०, १८-२-२१, पेप्सू	फलीदी	१२-११-४५
१५०	डा० अचलमल सिंगवी, एम०बी०बी० एस०, टी०डी०डी०, १०-११-१४ जोधपुर	जोधपुर	१-१२-३८
१५१	डा० सूरज बाबू, एल०एस०एम०एफ०, १३-६-०४, जयपुर	जयपुर	७-१-२९
१५२	डा० गीरीशंकर शर्मा, एल०एम०एफ०, डी० टी० एम०, १-११-०६, जोधपुर	जोधपुर	१-१-३०
१५३	डा० वशम्पायन शर्मा, एम० बी० बी० एस०, ९-४-४८	बारां	२६-९-३९
१५४	डा० गुलाबचन्द शर्मा, एल०एम०पी०, डी०एम०आर०, १४-१०-१०	जयपुर	१-६-३५
१५५	डा० पदमचन्द वैद्य, एल०एम० पी०, १-२-०६, जोधपुर	जोधपुर	१-४-२९
१५६	डा० उदयकृष्ण व्यास, एम०बी०बी० एस०, ७-३-१२, जोधपुर	जोधपुर	४-६-३९
१५७	डा० जेठमल व्यास, एम०बी०बी०एस०, ७-३-१२, जोधपुर	बाली	..
१५८	डा० मनोहरलाल व्यास, एम०बी०बी० एस०, ५-११-२६	मेड़ता	६-११-४८
१५९	डा० बालकृष्ण व्यास, एम०बी०बी० एस०, एम०एस०	जयपुर	..
१६०	डा० के०पी० शर्मा	भरतपुर	..

वर्तमान पद पर नियुक्ति का दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
१-४-५०	३००	
नवरी, ५४	३२५	
जून, ५४		
१-१०-४२	००	
२-६-५४	४००	
१५-१-४३	३२५	
जून, ५४	२५०	
१-४-५०	२७५	
	२५०	
२६-६-५६	२७५	

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	वर्तमान पद तथा प्रधानास्पद	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३	४
१६१	डा० बी० पी० माथुर, एम० बी० बी० एस०, २०-८-२६]		१०-१२-५२
१६२	डा० डी० डी० भट्टाचार्य, एम० बी० बी० एस०, १-१२-२७		२-९-५२
१६३	डा० एच० के० जैन, एम० बी० बी० एस०, १०-१-२४, जयपुर		२२-११-५२
१६४	डा० (सुश्री) एस० के० सतीजा, एम० बी० बी० एस०, ५-१०-२९		१-४-५२
१६५	डा० एस० एल० बुन्देला, एम० बी० बी० एस०, २१-१२-२५		२१-११-५२
१६६	डा० एच० पी० रस्तोगी, एल० एस० एम० एफ०, १०-११-०३		४-६-३०
१६७	डा० पी० सी० सूद, एल० एस० एम० एफ०, ११-१२-१४		१२-२-३५
१६८	डा० आई० एस० पुरोहित, एल० सी० पी० एस०, ११-७-०९		१६-३-३१
१६९	डा० रघुवीर सिंह, एल० एम० पी०, २५-१२-११		१-९-३४
१७०	डा० जगदीश चन्द्र, एल० एम० पी०, ९-२-०७		२८-४-३१
१७१	डा० (सुश्री) आर० जुडा, एल० सी० पी० एस०, ५-२-०७		१०-११-३०
मैट्रन्स			
१	डा० (सुश्री) ए० एफ० मेनेलस, २७-९-१९००	सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर	१६-११-३२
२	डा० (सुश्री) माग्रेट फिलिप्स, ४-५-०८, वम्बई	एम० जी० अस्पताल, जोधपुर	१-१२-३३

वर्तमान पद पर नियुक्ति का दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
जनवरी, ५६	₹० २७५	
जनवरी, ५६	२५०	
जनवरी, ५६	३२५	
जनवरी, ५६	२५०	
जनवरी, ५६	२५०	
जनवरी, ५६	२५०	
जनवरी, ५६	२५०	
जनवरी, ५६	२५०	
जनवरी, ५६	२५०	
जनवरी, ५६	२५०	
जनवरी, ५६	₹००	
१-४-५०	४५०	प्रथम श्रेणी
६-७-५२	..	प्रथम श्रेणी

क्र. संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	वर्तमान पद तथा प्रधानास्पद	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३	४
३	डा० (सुश्री) बी० जाजं, १५-७-०४	पी० वी० मेन्स अस्पताल, बीकानेर	१५-८-३९
४	डा० (श्रीमती) एन० सेन	जनाना अस्पताल, जयपुर	..
५	डा० (सुश्री) एम० पी० टुकी, १६-७-१२	उम्मेद अस्पताल, जोधपुर	१-५-३९
६	डा० (श्रीमती) एस० मोहित्रा, १-७-०३	पी० वी० एम० अस्पताल, बीकानेर	८-३-४७
७	डा० (सुश्री) ए० इब्राहिम, ४-२-१७	जनरल अस्पताल, उदयपुर	२२-१२-५२
८	डा० (सुश्री) एम० थॉमस, १९-९-१४	जनरल अस्पताल, उदयपुर	५-२-४०

सिविल असिस्टेन्ट सर्जन

१	डा० अब्दुलहमीद कुरेशी, एल० एम० पी०, १२-४-२४, उदयपुर	गंगापुर	१९-५-४९
२	डा० नन्दलाल ध्रुव. एम०बी०बी०एस०, २३-९-१८, सौराष्ट्र	उनियारा	१६-६-५४
३	डा० गोविन्दस्वरूप माथुर, एल०एस० एम० एफ०, १४-२-०८, जयपुर	अलवर	९-९-३१
४	डा० रतनलाल सोलंकी, एल० एस० एम० एफ०, ४-११-०४, उदयपुर	..	१-४-५०
५	डा० कैलाशनारायण माथुर, एल० एम० पी०, ५-२-०८, जोधपुर	बालोतरा	१-१०-३२
६	डा० ज्ञानप्रकाश, एल० एम० पी०, एम० बी०बी० एस०, १८-१२-२९, भरतपुर	उदयपुर	५-५-४९
७	डा० मोहनलाल खाविया, एल० सी० पी० एन्ड एस०, दिसम्बर, १८९५, उदयपुर	सराड़ा	१-६-१८
८	डा० श्रीराम शर्मा, १३-७-१८, उदयपुर	देवगढ़	१५-८-२३

वर्तमान पद पर नियुक्ति का दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
१-४-५०	४० ३४५	प्रथम श्रेणी
..	..	द्वितीय श्रेणी, अस्थायी
१५-९-५२	..	द्वितीय श्रेणी
..	..	द्वितीय श्रेणी
२२-१२-५२	२००	द्वितीय श्रेणी
..	..	द्वितीय श्रेणी, स्थानापन्न
(द्वितीय श्रेणी)		
..	२००	
१६-६-५४	२५०	पुनः नियुक्ति
..	२२०	
..	..	
..	..	
७-३-५५	२१०	
७-८-५४	..	पुनः नियुक्ति
१-९-५४	१५०	पुनः नियुक्ति

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	वर्तमान पद तथा प्रधानास्पद	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३	४
९	डा० एच० बी० चक्रवर्ती, नवम्बर, १९३२, वर्धमान	गोगुन्दा	२-२-५४
१०	डा० (श्रीमती) कमलेश प्रकाश, एल० एम० पी०, एम० बी० बी० एस०, २९-१२-२७, भरतपुर	उदयपुर	१४-६-५४
११	डा० फतेसिंह राठीड़, १-११-१७, चित्तौड़गढ़	कानोड़	..
१२	डा० गुलजारीलाल शर्मा, एल० एस० एम० एफ०, १५-३-०३, अलवर	मन्डावर	१-२-२५
१३	डा० विमलकुमार पाटनी, एम० बी० बी० एस०, ३०-१०-३०, जयपुर	अलवर	३१-७-५४
१४	डा० सज्जनसिंह बखशी, एल० एम० पी०, २३-१२-२८, उदयपुर	कोटा	४-६-५२
१५	डा० यतीन्द्रचन्द्र बोहरा, एम० बी० बी० एस०, २५-८-२८, बीकानेर	कोटा	२२-८-५४
१६	डा० महेन्द्र नारायण माथुर, एम० बी० बी० एस०, एम० डी०, १६-२-३१, जयपुर	कोटा	१४-६-५४
१७	डा० इन्द्रमल पारलिया, एम० बी० बी० एस०, २३-२-२८, चित्तौड़	देसूरी	१२-१२-५४
१८	डा० ब्रजमोहन सक्सेना, डी० पी० बी०, एल० एम० पी०, ५-५-१५, कोटा	कोटा	५-११-४२
१९	डा० सीभाग्य नारायणसिंह पंचोली (भटनागर), ए० एस० सी० एल० सी० पी०, १६-१२-२४, उदयपुर	पाली	३१-७-५०
२०	डा० दलपतराज मेहता, एम० सी० पी० एस०, १८-४-२३, जोधपुर	जालौर	१५-१०-५०
२१	डा० आत्माराम व्यास, एल० एम० एफ०, १९-६-२८, जोधपुर	सांडेराव (पाली)	१४-२-५२

वर्तमान पद पर नियुक्ति का दिनांक

वेतन

विशेष

५

६

७

२४-२-५४

२०

अस्थायी

..

७-३-५५

२००

१६-१-५४

१५०

पुनः नियुक्ति

१-२-५५

२१२.५०

३१-७-५४

१५०

४-२-५३

१७०

२२-८-५४

१५०

१६-२-५४

२००

२५ १-४५

१५०

आन प्रोवेशन

८-१०-५१

२१०

२०-२-५३

१९०

२१-८-५४

..

..

१८०

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	वर्तमान पद तथा प्रधानाह पद	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३	४
२२	डा० मुरलीलाल, एम० बी० बी० एस०, ३०-१२-२६, जोधपुर	सुमेरपुर	७-१२-४९
२३	डा० महेन्द्र राय सक्सेना, एम० बी० बी० एस०, १५-१२-३०, कोटा	बीगोव	१-७-५४
२४	डा० (सु श्री) मुकुल रानी भट्टाचार्य, एल० एम० एफ०, ११-१-३०, त्रिपुरा	सरदार शहर	१-६-५२
२५	डा० कुन्दनलाल अरोड़ा, एल० एम० एफ०, ७-२-१६, स्यालकोट (पाकिस्तान)	काङ्गूर	१७-३-४८
२६	डा० कैलाशनारायण सक्सेना, २५-४-३०, जयपुर	टपोकरा (अलवर)	२६-५-५३
२७	डा० गिरीशचन्द्र, एफ० वाई० एस० सी०, ६-१-२२, जोधपुर	सरदारसमन्द	२९-५-४८
२८	डा० प्रीतमसिंह, एम० बी० बी० एस०, २१-१-२२	छापर	..
२९	डा० ईश्वरप्रसाद अग्रवाल, एल० एम० पी०, १९-११-१८, जयपुर	कोटरी	१-८-४५
३०	डा० ब्रजवल्लभ शर्मा, एल० एम० पी०, १-१-३०, भरतपुर	थानागाजी	१६-५-५१
३१	डा० रामचन्द्र नारंगी, एल० एम० एफ०, ४-१२-२५, डेरागाजीखाना	रामगढ़ (अलवर)	८-५-५१
३२	डा० रामदयाल बन्सल, २५-१०-२५, उदयपुर	प्रतापगढ़	११-१०-४८
३३	डा० (सुश्री) विनोदिनी अग्रवाल, एम० बी० बी० एस०, २१-९-३०, बीकानेर	बीकानेर	२८-१-५४
३४	डा० एन० यू० गुलवाड़ी, एम० बी० बी० एस०, ५-७-२९, उदयपुर	उदयपुर	२६-७-५४
३५	डा० प्रफुल्लनारायण डे एल० एम० एफ०, १-१-३२, चिदागांव	मांडलगढ़	२७-६-५३

वर्तमान पद पर नियुक्ति का दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
२३-९-५३	६० २१०	
२-७-५४	१५०	
६-६-५३	१६०	
१६-२-५५	२००	
१८-८-५३	१५०	
२५-११-५४	२००	
५-३-५५	२१०	
१०-२-५५	२००	
१६-७-५२	१८०	
२४-८-५४	१८०	
१०-७-५४	२१०	
२८-१-५४	२००	
२६-७-५४	१५०	
७-७-५३	१६०	अत्याई

क्र. संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	वर्तमान पद तथा प्रधानास्पद	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३	४
३६	डा० लक्ष्मीनारायण गुप्ता, एल० एम० पी०, ३१-१२-१३, अलवर	अलवर	१-१-३९
३७	डा० बृजलाल शर्मा, एम० बी० बी० एस०, २६-१०-१५, अलवर	अलवर	१-१०-३९
३८	डा० फतेहचन्द भार्गव, एल० एम० पी०, १३-३-०९, अलवर	अलवर	२५-१०-३७
३९	डा० मनोहरलाल भार्गव, एल० एस० एम० एस०, १२-३-१६, अलवर	अलवर	१४-१-४६
४०	डा० (सुश्री) सुदेशकुमारी सतीजा, एम० बी० बी० एस०, १५-१०-२९, बीकानेर	बीकानेर	१-१-५१
४१	डा० श्रीनिवास गौड़, एम० बी० बी० एस०, १०-१०-३०, चूरू	उदयपुर	१२-६-५४
४२	डा० लक्ष्मीनारायण बन्साल, एम० बी० बी० एस०, २-१२-२६, बीकानेर	रतनगढ़	१४-६-५४
४३	डा० अमप्रकाश गुप्ता, एल० एस० एम० एफ०, १६-९-२८, जालन्धर	तारानगर	२०-१०-३९
४४	डा० एच० एल० महेश्वरी, एम० बी० बी० एस०, ८-९-२८, जयपुर	कोटा	२८-११-५३
४५	डा० भागमल वर्मा, एल० एस० एम० एफ०, १-९-२०, भरतपुर	नागौर	७-१०-४७
४६	डा० गनपतसिंह, एम० बी० बी० एस०, १-१-२५, जयपुर	उदयपुर	२-९-५४
४७	डा० गिरवारीलाल, एल० एम० पी०, २०-१२-१४, उदयपुर	बत्सी	२३-११-४०
४८	डा० प्रेमशंकर सक्सेना, एम० बी० बी० एस०, १५-७-२८, कोटा	गोविन्दगढ़	१३-१-५३

वर्तमान पद पर नियुक्ति का दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
१-१-३९	२०० ५० वि० वे०	
१-१०-३९	२१० ५० वि० वे०	
२५-१०-३७	२००	
२६-६-५४	२००	
१-१-५१	२२०	
१२-६-५४	१५०	
..	१५०	
१९-११-५४	२००	
२९-११-५३	२००	
..	२००	
..	१५०	
१५-१-५३	२१०	
२०-१-५५	१६०	

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	वर्तमान पद तथा प्रधानास्पद	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३	४
४९	डा० (श्रीमती) प्रकाशदेवी श्रीवर, १६-९-२१, ब्यालकोट	बीदासर	७-४-१९४५
५०	डा० हरवंशलाल, ६-१-१३, ब्यालकोट	बीदासर	१-२-१९२८
५१	डा० इन्द्रगुप्ता, एम० बी० बी० एस०, १२-७-३२, बीकानेर	कोटा	२२-७-१९४४
५२	डा० प्रेमकान्त शर्मा, एम० बी० बी० एस०, १०-८-२९, जयपुर	जयपुर	१-७-१९५३
५३	डा० दिनम्मा फिलिप्स, एल० एस० एम० एफ०, २-१२-१२, ट्रावनकोर	जयपुर	१६-८-१९४५
५४	डा० (सुश्री) पद्मा टी० मीरचन्दानी, एस० सी० पी० एन्ड एच०, ११-८-१२, हैदराबाद (सिंध)	जयपुर	२०-३-१९४८
५५	डा० श्रीनारायण व्यास, एल० एम० पी०, १५-१२-२४, बीकानेर	राजगढ़	१०-११-१९४६
५६	डा० सुखदेव प्रसाद गोगना, एल० एम० पी०, एल० ओ०, १४-७-०९, धौलपुर	बैर	१-४-१९५०
५७	डा० शिवदयाल पारीख, बी० एससी०, एम० बी० बी० एस०, ९-११-२६, बीकानेर	मन्धान	२०-११-१९५३
५८	डा० केशव प्रताप खुटेडा, एम० बी० बी० एस०, १०-११-२६, जयपुर	खैरली	२-७-१९५४
५९	डा० गोपीवल्लभ गुप्ता, एल० एम० पी०, ११-७-१९००, चन्दोसी, (मुरावाबाद)	कुम्हेर	२९-११-१९२९
६०	डा० मोहनलाल पान्ड्या, १४-३-२५, उदयपुर	उदयपुर	१०-१०-१९४८
६१	डा० सन्तोषलाल बरदुआ, १७-१-२२, भीलवाड़ा	सलुम्बर	१९-१-१९४६

वर्तमान पद पर नियुक्ति का दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
७-६-१९५२	२१०	
७-६-१९५२	२००	
२२-७-१९५४	२००	
..	..	
१६-८-१९४६	२५०	
२०-३-१९४८	..	
११-३-१९५५	१८०	
५-२-१९५५	२००	
७-२-१९५५	२१०	
१८-१-१९५५	..	
२३-७-१९५४	..	
१०-१०-१९४८	२३०	
१८-८-१९५४	२५०	

क्र. संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	वर्तमान पद तथा प्रधानास्पद	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३	४
६२	डा० सैयदमहबूब अली, एल० एम० पी०, १-४-१२, जयपुर	रेलमगरा	३-९-४१
६३	डा० रामसिंह देवरा, एल० एम० पी०, २७-७-०६, पाली	कांकरोली	१-४-३१
६४	डा० श्रीदत्त शर्मा, एल० एस० एम० एफ०, १-७-११, अलवर	वागरा °	८-१-४८
६५	डा० जुजरसिंह केसवाल, एल० एम० पी०, १३-९-०७, सिरोही	जालोर	९-७-२८
६६	डा० नन्दलाल धत, एल० एम० पी०, ४-१०-०९, जोधपुर	जालोर	१-११-३२
६७	डा० रणजीतसिंह, एल० एम० पी०, २२-६-११, पाली	जालोर	१०-२-३८
६८	डा० चौथमल डी० मंधानी, २२-७-१२, जालोर	मालवारा	२२-५-४६
६९	डा० बन्शीसिंह चौहान, एम० बी० बी० एस०, ११-९-२५, जोधपुर	सिवाना	१२-१-५०
७०	डा० एच०सी०वर्द्ध, एल० एम० एस०, २५-१२-२१, पेज्ञावर	कोटा	१६-१-४६
७१	डा० सुरेन्द्रनारायण वर्मा, एम० बी० बी० एस०, १-७-१२, उदयपुर	खेरवाड़ा	२७-११-४१
७२	डा० एम० एम० पुरी, बी० एससी०, एल० एम० एस०, १०-५-१७, काश्मीर	उदयपुर	४-५-४९
७३	डा० रामकृष्ण, एल० एम० पी०, २२-९-१७, अलवर	कोटड़ा	..
७४	डा० राजेन्द्र वर्मा, एल० एम० एस०, २७-७-१८, कोटा	रामगंजमन्डी	२६-१-४९

दत्तमान पद पर नियुक्ति का दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
२३-१०-५४	२१०	
७-१०-५४	२००	
..	२००	
..	२००	
..	२००	
..	२००	
२५-८-५२	२००	
१९-८-५४	१७०	
११-१२-५०	२००	
१-१-४४	२१०	
..	२००	
१२-११-५४	१५०	पुनःनियुक्ति पर
१९-११-५३	..	

क्र.सं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	वर्तमान पद तथा प्रधानास्पद	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने की दिनांक
१	२	३	४
७५	डा० महिपालचन्द्र मेहता, एम० बी० बी० एस०, १६-१०-२८, जोधपुर	जयपुर	२३-१०-५३
७६	डा० वासुदेव, २८-२-१२, लुधियाना	बूंदी	१६-३-४९
७७	डा० बालूराम शर्मा, एल० एम० पी०, १९-१०-१७, भोलवाड़ा	वारां	मार्च, ४८
७८	डा० रतनशंकर, एल० एम० पी०, १-१-२१, कोटा	कोटा	६-१-४६
७९	डा० (सुश्री) माया चौवरी, ३-३-१८, नादिया	सादड़ी	२४-४-४६
८०	डा० जे० एस० लोहानी, एल० एम० एम० एफ०, एम० एस० एम० एफ०, ८-१ १३, नैनिताल	भीमगंज मंडी	१-६-३९
८१	डा० (श्रीमती) सुदाबाई, एल० डी० एस० सी०, २४-११-१३, कोलाबा (बम्बई)	उदयपुर	१-१२-५१
८२	डा० हमीद हुोन फारूखी, एल० एम० पी०, १४-२-५६, उदयपुर	उदयपुर	२८-११-४१
८३	डा० पोखरज ओझा, बी० एससी०, एम० बी० बी० एस०, ५-३-२७, नागौर	ऋषभदेव	१८-१२-५२
८४	डा० (सुश्री) गेस हेरिस, एम० एस० टी०, एल० एम० पी०, ७-७-१३, मद्रास	कोटा	२६-११-४१
८५	डा० (सुश्री) वी० आर० मोदक, १९-१२-०४, पूना	प्रतापगढ़	२६-१२-३८
८६	डा० सोमेश्वर सिंगल नागवाल, एल० एम० पी०, १-८-१५, सचोदा	पदमपुर	१-५-४५

वर्तमान पद पर नियुक्ति का दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
	२००	
१५-१-५५	२००	
..	२१०	
१-३-५५	२१०	
१९-१२-५३	१८०	
१४-६-५३	२५०	
..	१५०	
१-१२-५१	१८०	
२३-११-५४	२१०	
११-११-५३	२१०	
..	२००	
२६-१२-३८	२४०	
२५-१-५५	२००	

क्र.सं०	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	वर्तमान पद तथा प्रधानास्पद	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३	४
८७	डा० हर्षवर्द्धन ढोलकिया, एम० बी० बी० एस०, २६-१०-२६, कोटा	बीकानेर	५-१-५५
८८	डा० शिवकुमार जैन, एम० बी० बी० एस०, १५-१०-३०, जयपुर	कोटा	१८-६-५४
८९	डा० कुलदीप कौर, एम० बी० बी० एस०, १५-१२-१९, गंगानगर	गंगानगर	११-२-५५
९०	डा० लाजपत राय, एल० एस० एम० एफ०, १५-८-११, गंगानगर	गंगानगर	१६-३-४२
९१	डा० के० डी० साह, एल० एम० पी०, गंगानगर	गंगानगर	२०-५-३६
९२	डा० रणजीत सिंह, एल० एम० पी०, २२-६-११, गंगानगर	गंगानगर	१०-२-३८
९३	डा० आनन्दस्वरूप गुलाटी, एल० एम० पी०, ५-१२-०८, शाहपुर	रायसिंहनगर	१६-३-३८
९४	डा० बलवन्तसिंह वेदी, एल० एम० एस०, ५-६-१३, श्रीगंगानगर	सूरतगढ़	२१-११-४८
९५	डा० रामप्रकाश शर्मा, एल० एस० एम० एस०, ४-१२-२०, जालन्धर	हनुमानगढ़	१६-९-४६
९६	डा० गनपतदयाल शोयल, १४-४-१२, मेरठ	नोहर	१०-१२-३४
९७	डा० सन्तलाल, एल० एस० एम० एफ०, १०-१०-१७, झान्ग (वेस्ट पाकिस्तान)	सांगरिया	१-१०-४३
९८	डा० सुन्दरलाल, एल० एस० एम० एफ० एन्ड एल० ओ०, १-१०-१०, करनाल	हनुमानगढ़	२७-५-३७
९९	डा० योगेन्द्र सिंह दत्त, एल० सी० पी० एन्ड एस०, एम० बी० बी० एस०, १-१-१३, गंगानगर	श्री करनपुर	१५-१-३७

वर्तमान पद पर नियुक्ति का दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
	६०	
१०-१-५५	१५०	
१८-६-५४	१५०	
..	२००	
..	२००	
१०-८-५४	२१०	
२१-२-५५	२४०	
..	२३०	
१८-६-५२	१५०	
३१-१२-५४	२००	
..	२७०	
१-८-५४	२००	
१५-७-५४	२१०	
२५-१२-५४	२२०	

क्र. सं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	वर्तमान पद तथा प्रधानास्पद	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३	४
१००	डा० प्रकाशनाथ, एल० एम० पी०, २५-३-१३, जालन्धर	श्री विजयनगर	१-११-३८
१०१	डा० एन० जे० एडवानी, एल० एम० पी०, २-७-२६, हैदराबाद (सिंध)	ढोंक	१२-३-४८
१०२	डा० बिलायतीलाल बजाज, एल० सी० पी० एस०, ४-१-१२, ब्यालकोट	इन्दरगढ़	८-८-४७
१०३	डा० आर० एन० शुक्ला, एल० एम० पी०, १९-११-२०, अलवर	खेरथल	१-३-४०
१०४	डा० दुर्गाशंकर शर्मा, १६-२-१३, बूंदी	सांगोद	२५-४-१४
१०५	डा० (सुश्री) रेचल जुडा, एल० सी० पी० एस०, ५-२-०७, पूना	जोधपुर	..
१०६	डा० वी० डी० पुरोहित, एम० वी० वी० एस०, ३०-७-३०, किशनगढ़	वीकानेर	१९-१०-५४
१०७	डा० चम्पालाल, एल० एम० पी०, ४-१-१३, कोटा	अन्ता	१-८-३९
१०८	डा० शशंक शेखरदास, एल० एम० एफ०, २८-११-२३, बाचर (आसाम)	बेगूं	९-६-५४
१०९	डा० (श्रीमती) सुशीला सतीजा, एल० एस० एम० एफ०, २५-५-२१, भरतपुर	भरतपुर	७-१-४८
११०	डा० एम० पी० दीक्षित, एल० एम० एफ०, ५-७-५४, चूरू	रतनगढ़	२-११-५०
१११	डा० चन्द्रवदन बसदा, ७-११-०७, कोटा	कोटा	१-८-३५
११२	डा० लक्ष्मीचन्द वावरा, ११-५-२०, कोटा	अतरू	१-१-४५
११३	डा० प्रेमचन्द्र भाल, १३-१२-२८, कोटा,	किशनगढ़	४-६-५२

वर्तमान पद पर नियुक्ति का दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
१-२-५५	२१५	
..	२००	
१-९-५२	२००	
२६-६-५४	२१०	
८-११-५४	२१०	
१०-११-३०	..	
१९-१०-५४	..	अस्थायी
..	२१०	
२३-११-५४	१५०	अस्थायी
११-६-५४	१८५	
६-९-५४	१९०	
७-२-५२	२३०	
३-७-५२	२१०	
..	..	

क्र. सं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	वर्तमान पद तथा प्रधानास्पद	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३	४
११४	डा० नारायणदास गुप्ता, एम०बी० बी० एस०, ९-३-२४, जयपुर	अलवर	६-१-५५
११५	डा० विजयनारायण सक्सेना, एल०, एस०एम० एफ०, २१-४-१५, कोटा	कोटा	१-१२-३७
११६	डा० दलेलसिंह लोढा, एल०एम०पी०, २४-४-२०, जयपुर	जहाजपुर	४-१-४७
११७	डा० ब्रिद्धाभूषण लिखी, एल०एम० एफ०, ३०-३-१९, लुधियाना	छावरा	२८-२-४९
११८	डा० जगरूपमल लोढा, एम०बी० बी०एस०, २८-१२-३१, जोधपुर	उदयपुर	२३-११-५३
११९	डा० आर० डी० चौधरी, बी०डी० एस०, ५-२-१५, बीकानेर	कोटा	११-५-५३
१२०	डा० प्रेमनाथ सतीजा, एल०एम० एस०, १५-३-१९, भरतपुर	भरतपुर	५-३-५१
१२१	डा० रामचन्द्र राठोड़, एल०एम० पी०, १५-१२-०८, नागपुर	उदयपुर	१-७-५२
१२२	डा० एस० एल० नाहर, एल०एम० पी०, १७-१२-१९, उदयपुर	वल्लभनगर	१७-५-४४
१२३	डा० अमृतचन्द मेहता, एल०एम० एफ०, २९-९-२६, जोधपुर	जोधपुर	५-८-५०
१२४	डा० ब्रह्मदत्त जोशी, एल० एम० पी०, २७-७-१९, किशनगढ़	भीन्डर	१८-७-५४
१२५	ड० (सुश्री) वसन्तीरानी मित्रा, एल० एम० एफ०, २५-७-३२, वर्दमान	उदयपुर	२४-७-५४
१२६	डा० (सुश्री) बिमला कान्ती मित्रा, एल०एम० एफ०, १-३-२५, वर्दमान	प्रतापनगर	२५-२-५३

वर्तमान पद पर नियुक्ति का दिनांक वेतन विशेष

५

६

७

१०-१-५५

१८०

१७-२-५४

२१०

..

२१०

..

२००

२३-११-५३

२१०

२०-१०-५४

१६०

११-६-५४

१९०

१-७-५२

१७०

३०-५-५३

२१०

५-८-५०

१९०

२१-७-५४

१५०

अस्थायी

१६-९-५४

१५०

ऑन प्रोवैशन

१३-१-५५

१६०

क्र. सं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	वर्तमान पद तथा प्रधानास्पद	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३	४
१२७	डा० रमाकान्त शर्मा, एल० एम० पी०, आयुर्वेदाचार्य, काव्यतीर्थ, महामहोपाध्याय, २३-१-०८, बूंदी	नेनवां	..
१२८	डा० (श्रीमती) शान्ता शर्मा, एल० एस० एम० एफ०, १८-८-३१, देहली	कोटा	१५-१-५४
१२९	डा० सर्जनलाल माथुर, एल० एम० पी०, डी० एम० आर०, २३-७-२३, उदयपुर	बूंदी	१-५-४७
१३०	डा० कृष्णानन्द मेहता, एल० एम० पी०, १०-९-१७	बूंदी	१-७-४१
१३१	डा० रामप्रताप सिंह, १९०७	बीकानेर	४-४-२८
१३२	डा० साजद हुसेन, ५-२-०९, बूंदी	बूंदी	१-१-३४
१३३	डा० जयप्रकाश शर्मा, १०-१०-१०, कोटा	सीरोँज	४-९-३६
१३४	डा० गिरधरगोपाल सक्सेना, एल० एम० पी०, ९-७-१७, कोटा	बारां	१-१०-४२
१३५	डा० (श्रीमती) शकुन्तला देवी, एल० एम० पी०, १५-३-२९, बूंदी		२३-६-५४
१३६	डा० प्रकाशचन्द्र चतुर्वेदी, एम० बी० ए०, ९-३-१७, मेनपुरी	गंगरोल	२९-१२-५१
१३७	डा० राजनाथ वर्मा, एल० एम० पी०, २१-३-१०, जालन्धर	कानवास	१-८-३८
१३८	डा० रमेशचन्द्र सक्सेना, २५-११-२६, कोटा	चेचट	१-४-४७
१३९	डा० क्यूब अली कुरेशी, एल० एम० पी०, २४-१२-२८, झालावाड़	कोटा	१५-१-५४
१४०	डा० रेवरमल शर्मा, एल० एम० पी०, एल० टी० ए०, १०-१-२१, अजमेर	अलवर	२८-७-५०

वर्तमान पद पर नियुक्ति का दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
१-४-५२	२४०	
..	१८०	
२२-११-५२	२१०	
१-११-४९	२१०	
२५-८-५४	..	
१-८-५२	२१०	
२४-५-५१	२१०	
२८-७-५१	२१०	
..	१५०	औन प्रोवैशन
१२-८-५४	२३०	
..	२१०	
६-६-५२	२१०	
१५-१-५४	१६०	
२-६-५३	१९०	

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	वर्तमान पद तथा प्रधानारपव	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३	४
१४१	डा० भवरासिंह, ६-४-१०, कोटा	छोपाबरोड़	४-९-४०
१४२	डा० शुभदेव अग्रवाल, एल०एम०पी०, ३०-१०-१५, भरतपुर	रूपबास	२५-२-३८
१४३	डा० सी०एल० गुप्ता, एल०एम०पी०, १५-८-२३, कोटा	केशोराय पाटन	११-२-४९
१४४	डा० भगवान सहाय शर्मा, एल०एम० पी०, २०-८-२३, जयपुर	लक्ष्मणगढ़	१९-११-४५
१४५	डा० गिरधारी कनोडिया, एम०बी०बी० एस०, १८-३-१३, झुन्झुनू	भीम	जनवरी, ४१
१४६	डा० जगदीश नाथ, एम०बी०बी०एस०, ६-१-१७, अलवर	अलवर	१-३-४०
१४७	डा० जगदीशचन्द्र, एल०एम०पी०, ९-१०-०७, करनाल	नापासर	२८-५-३१
१४८	डा० आई० इशाचर, एल०एम०पी०, १९-१-०६, अलीगढ़	बीकानेर	१९-४-४७
१४९	डा० (श्रीमती) बलवन्तसिंह, एल०एस० एम०एफ०, २८-१-०४, गंगानगर	बीकानेर	१५-११-३९
१५०	डा० गौरीशंकर गहलोत, एम०बी०बी० एस०, २०-११-२६, बीकानेर	बीकानेर	२१-६-५४
१५१	डा० रघुनन्द लाल ए०गो ल, एम० बी०बी०एस०, २३-१२-२६, जोधपुर	उदयपुर	१९-७-५४
१५२	डा० बनारसी दास जैन, एल०एस० एम०एफ०, ३-१-१३, महेन्द्रगढ़	पालना	१-६-३६
१५३	डा० रतनचन्द दीवान, एल०एम०पी०, २८-८-१२, लाहौर	देशनोक	१७-५-३९
१५४	डा० एच०एल० खन्ना, ३१-३-१७, बीकानेर	लालगढ़	१४-१०-३९

वर्तमान पद पर नियुक्ति का दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
	२००	
१६-१०-४९	२१०	
१३-७-५१	२००	
..	२१०	
१२-७-५४	..	
२६-८-५४	२००	
..	२१०	
१७-११-५४	२७०	
२८-६-५४	२१५	
२७-११-५१	२३०	
२१-६-५४	२००	
१९-७-५४	२००	ओन प्रोवैशन
..	२००	
१५-८-५४	२००	
१२-३-५५	२००	

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	वर्तमान पद तथा प्रधानास्पद	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३	४
१५५	डा० श्रीनारायण शर्मा, एल०एम०पी० जून, १९०६, अलवर	तीजारा	जनवरी, २८
१५६	डा० एन०जी० भटनागर, एल०एम० पी०, २३-१०-०९, बीकानेर	मोमासर	२२-६-५०
१५७	डा० (श्रीमती) बी० शारदा, (खान्डपर), एल०एम०पी०, १३-४-१९, बम्बई	सुजानगढ़	७-५-४६
१५८	डा० के० एल०भाटी, एल०एम०पी०, १-१-०१, अजमेर	भदेसर	४-१०-४९
१५९	डा० रोशनलाल अग्रवाल, एम०बी० बी०एस०, १३-२-२७, उदयपुर	छोटी सादड़ी	२२-१-५४
१६०	डा० नरेन्द्रसिंह, एम०बी०बी०एस०, ९-९-२५, चित्तौड़गढ़	उदयपुर	२-३-५४
१६१	डा० बालकृष्ण जाज, एम०बी०बी० एस०, ११-२-२८, सांभरलेक	बीकानेर	१९-५-५१
१६२	डा० नाथीलाल गुप्ता, एल०एम०पी०, एम०बी०बी०एस०, ३-११-१९, भरतपुर	भरतपुर	५-५-४९
१६३	डा० हरिहरनाथ माथुर, एम०बी०बी० एस०, १५-७-३१, अजमेर	..	२-८-५४
१६४	डा० हरिबासरमल मलकानी, एम०बी० बी०एस०, २४-४-३१, देहली	बीजोलिया	१५-११-५४
१६५	डा० जयदेव आर० पान्डिया, एल०एम० पी०, १-११-१८, जयपुर	विन्डबरेठा	१६-५-४७
१६६	डा० एस०एम०राजदान, एल०एस० एम०एफ०, १५-८-१५, श्रीनगर	उदयपुर	१०-५-४९
१६७	डा० केसरीमल सोलंकी, १७-२-१९, पाली	शमाहपुरा	३१-५-४५

वर्तमान पद पर नियुक्ति का दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
१०-७-५४	२००	
२९-१-५५	२००	
४-१-५५	२००	
२७-५-५३	२००	
१२-८-५४	२१०	
..	२००	
१९-५-५१	२१०	
५-५-४९	२१०	
२-८-५४	२००	ओन प्रोवैशन
१७-११-५४	२००	अस्थायी
२७-१२-५४	२००	
६-१०-५१	२००	
२३-२-५५	२००	

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	वर्तमान पद तथा प्रधानास्पद	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३	४
१६८	डा० दलपतराज शाह, एम०बी०बी० एस०, ११-१०-३०, सिरोही	बेवला	२-७-५४
१६९	डा० स्वामीचरण माथुर, एल०एम० पी०, २३-८-२४, उदयपुर	गंगपुर	५-१२-४५
१७०	डा० प्रेमनारायण शर्मा, एम०बी०बी० एस०, डी०टी०डी०, २७-५-२६, जयपुर	बीकानेर	१५-१२-५४
१७१	डा० प्रवेशचन्द्र वत्त, ३१-३-३१, वर्दमान	वीयर	११-११-५३
१७२	डा० कन्हैयालाल शर्मा, एल०एम०पी०, १-८-२५, भरतपुर	भुसावर	६-६-५०
१७३	डा० श्यामसुन्दर डी० मेहता, एल०सी० पी० एन्ड एस०, १७-११-१३, गुरदासपुर	राजलवेसर	२७-१-४१
१७४	डा० जगदीश प्रसाद गौड़, एल०एम० पी०, २०-७-२५, जोधपुर	रायपुर	१७-५-५०
१७५	डा० कमलनयन ताम्बर, एल० एम० पी०, ३०-१२-१३, उदयपुर	कपासन	२-११-४०
१७६	डा० नजरसिंह भंडारी, एल० डी० एस० सी०, १७-८-१८, उदयपुर	बीकानेर	१-८-४४
१७७	डा० देवीलाल दशोरा, एल० एम० पी०, २५-२-२५, उदयपुर	उदयपुर	२१-१२-५१
१७८	डा० जयवन्तसिंह मेहता, एम० बी० बी० एस०, १८-९-२६, उदयपुर	उदयपुर	२४-१०-५३
१७९	डा० बी० ए० सन्त, एल० एम० पी०, २२-८-२३, प्रतापगढ़	उदयपुर	७-२-४९
१८०	डा० नवीनचंद उपाध्याय, एल० एम० पी०, १८-६-२२, रतलाम	बन्दा	४-९-४७

वर्तमान पद पर नियुक्ति का दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
२-७-५४	२००	ओन प्रोवेशन
१९-२-५३	२००	
..	२००	ओन प्रोवेशन
..	२००	अस्थाई
..	२००	
२५-१-५५	२००	
४-२-५३	२००	
२-७-५४	२००	
१-८-४४	२००	
२-११-५४	२००	
२४-१०-५३	२१०	
७-२-४९	२००	
१५-७-५२	२००	

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	वर्तमान पद तथा प्रधानास्पद	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का विनांक
१	२	३	४
१८१	डा० रामेश्वरलाल गोयल, एल० एम० पी०, १६-१०-०५, मुजफ्फरनगर	बीकानेर	३-२-४७
१८२	डा० मोतीसिंह छाजेर, एल० एम० पी०, १५-१२-१५, भीलवाड़ा	गुलाबपुरा	१-७-३८
१८३	डा० बी० एन० बोहरा, एल० एस० एम० एफ०, १-१-३१, जोधपुर	बन्सूर (अलवर)	१०-७-५४
१८४	डा० सुरेन्द्रनाथ चौपरा, एल० एम० पी०, डी० पी० एच० एन्ड एच० वाई०, १५-५-१३, भरतपुर	भरतपुर	५-४-३९
१८५	डा० नारायण एस० बृन्दानी, एल० सी० पी० एस०, १-२-२१, जयपुर	जयपुर	१९-५-४८
१८६	डा० बी० एल० सिंघी, एल० एम० पी०, एम० बी० बी० एस०, १-८-१७, सिरौही	गंगाशहर	२१-१-४३
१८७	डा० भगवानसहाय, एल० एम० एफ०, जून, १८९८, भरतपुर	भरतपुर	जनवरी, २५
१८८	डा० राजकुमार सट्टर, एल० डी० एस०, एस० एम० एफ०, २३-१०-३१, जयपुर	उदयपुर	१७-५-५४
१८९	डा० जयन्ती स्वरूप, एल० एस० एम० एफ०, ५-५-०५, भरतपुर	भरतपुर	१-३-३१
१९०	डा० आश्रमआचार्य, एल० एम० पी०, एम० बी० बी० एस०, २०-३-२२, बीकानेर	नीखा	१३-११-५४
१९१	डा० गनेशमल माथुर, एम० बी० बी० एस०, २४-७-३०, जोधपुर	बीकानेर	१०-७-५४
१९२	डा० सूरजनारायण शर्मा, एल० एम० पी०, २४-९-१०, जयपुर	भरतपुर	७-६-३९

वर्तमान पद पर नियुक्ति का दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
..	रु० ३३०	
८-७-५४	२२०	
२३-१-५५	२००	अस्थायी
५-४-३९	२००	
१९-८-४८	२००	
१-८-५४	२१०	
जनवरी, २५	१५०	पुनः नियुक्ति
१७-९-५४	२००	अस्थायी
१-३-३१	२०० ५०	
१३-११-५४	२१०	
१-११-५४	२००	
...	२००	

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	वर्तमान पद तथा प्रधानास्पद	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३	४
१९३	डा० (श्रीमती) के० के० अग्रवाल, एल० एम० पी०, १२-११-२७, उदयपुर	उदयपुर	२७-६-४९
१९४	डा० गिरिराज प्रसाद, एम० बी० बी० एस०, २०-३-१५, भरतपुर	भरतपुर	१-११-३९
१९५	डा० वासुदेव गर्ग, एम० बी० बी० एस०, ३-१०-३०, गंगानगर	लूनकरनसर	७-७-५४
१९६	डा० (श्रीमती) जे० बी० एन० शर्मा, एल० एम० पी०, १०-१२-१२, उदयपुर	उदयपुर	२०-५-४४
१९७	डा० कृष्णवन्द्य बोस, एल० एम० एफ० ३०-१२-०८, तीपराह (बंगाल)	भीलवाड़ा	६-११-३९
१९८	डा० जे० पी० गंगरेड, एल० एम० पी०, २९-३-२४, खोनगोर	भीलवाड़ा	१६-५-५३
१९९	डा० (सुश्री) आर० गंगरेड, एल० एम० पी०, ३-८-२४, इन्दौर	भीलवाड़ा	१६-५-५३
२००	डा० प्रभुजाल शर्मा, एम० बी० बी० एस०, २५-३-२९, कोटा	मांडल	२४-१२-५४
२०१	डा० तेजमान सरदाना, एल० एम० पी०, १७-१०-०८, मुन्तान	नदवई	१२-१०-३०
२०२	डा० विश्वनाथ वी० तारा, एल० एम० पी०, एस० एम० एफ०, २५-११-२३, जयपुर	सीकर	१-१२-५३
२०३	डा० परमानन्द मलहोत्रा, एल० सी० पी० एंड एस०, १७-१०-१६, भीलवाड़ा	आसीन	९-५-४९
२०४	डा० लक्ष्मीनारायण, एल० एम० पी०, १७-१-०७, मुन्तान	बीकानेर	..

वर्तमान पद पर नियुक्ति का दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
२७-६-४९	२००	
२-२-५४	२१०	
४-४-५५	२००	
२०-५-४४	२४०	
६-१-५३	२२०	
सितम्बर, ५३	२००	
..	२००	
२४-१२-५४	२००	सीन प्रोबेशन
२१-६-५४	२०२	
...	..	
२९-१२-५४	२००	
१-५-४९	२००	

सं क्र	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	वर्तमान पद तथा प्रधानास्पद	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३	४
२०५	डा० खेमसिंह एम० परिहार, एल० एम० पी०, एल० सी० पी० एस०, एम० बी० बी० एस०, डी० सी० एच०, ८-१-२५, जोधपुर	उदयपुर	२६-९-५१.
२०६	डा० गुणवन्तसिंह झाला, एल० एम० पी०, एल० सी० पी० एन्ड एस०, एम० बी० बी० एस०, ११-९-२६, बांसवाड़ा	उदयपुर	३-७-५२
२०७	डा० रतनलाल, एल० एस० एम० एफ०, १०-७-१८, गुरदासपुर	बीकानेर	२-९-३९
२०८	डा० माधोसिंह, एल० एस० एम० एफ०, २८-११-०९, गहवाल	भरतपुर	९-७-३५
२०९	डा० शिवलाल बुन्देला, एम० बी० बी० एस०, २१-१२-२५, बीकानेर	बीकानेर	२१-१२-५२
२१०	डा० भोलानाथ भार्गवा, एल० एस० एम० एफ०, ९-३-१३, मथुरा	बीकानेर	६-१०-३७
२११	डा० कैलाशनारायण माथुर, एल० एम० पी०, २७-१२-२८, उदयपुर	बड़ी सादड़ी	१७-५-४४
२१२	डा० प्रेमप्रकाश गुप्ता, एल० एम० सी०, १८-६-२९, बीकानेर	बीकानेर	१२-५-५१
२१३	डा० आर० के० अग्रवाल	बीकानेर	..
२१४	डा० के० ओ० उमेन, एल० एम० पी०, १०-१-११	बीकानेर	१-४-४८
२१५	डा० श्रोकेशन गुप्ता	बीकानेर	..
२१६	डा० (श्रीमती)के० ओ० उमेन, एल० एम० पी०, १७-१२-१९१५	बीकानेर	१-७-३४
२१७	डा० (मश्री) के० के० दत्त, एम० बी० बी० एस०, ५-११-१९२९	बीकानेर	५-१-५३

वर्तमान पद पर नियुक्ति का दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
१०-१-५४	२१०	
२०-६-५४	२१०	
१८-६-५२	२००	
नवम्बर, ४१	२१२-५०	
१९-७-५४	—	
११-२-५५	२००	
६-११-५१	—	
१२-५-५१	२००	
..	..	
१-४-४८	..	
..	..	
१-७-३४	..	
५-१-५३	२००	

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	वर्तमान पद तथा प्रधानास्पद	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३	४
२१८	डा० चन्द्र प्रकाश भागव	हिम्मतसर	..
२१९	डा० एस० डी० जोशी, एल०एम०पी०, १८-९-१९२२	घूरु	१५-४-४६
२२०	डा० रतवलाल ओझा, एल० एम० पी०, १३-७-१९२०	ढूंशरगढ	२४-१२-४४
२२१	डा० पी० सी० मेहरा, एल० एम० पी०, १९-१०-१९२३	सिधमुख	१-१२-४५
२२२	डा० बी० एन० कोचर, एल० एम० पी०, १-९-१९१८	घूरु	२०-२-४३
२२३	डा० मदन मोहन बाफना, एम० बी० बी० एस०, ५-२-१९३०	घूरु	११-७-५५
२२४	डा० ओम प्रकाश खट्टर, एल० एम० एफ०, १३-७-१९२५	१ करनपुरा	१-११-४७
२२५	डा० बी० सी० सिंगल, एल० एस० एम० एफ०, २५-९-१९१८	हनूमानगढ	२१-६-४७
२२६	डा० सिद्धनारायण शर्मा, एल० एम०, जून, १९०६	अलवर	जनवरी, २८
२२७	डा० (श्रीमती) ललित चौपड़ा, एम० बी०बी०एस०, २६-४-१९२६	अलवर	१२-१२-५४
२२८	डा० (श्रीमती) के० देशमुख, एल०सी० पी० एस०, १८-३-१९१५	अलवर	१३-१२-४७
२२९	डा० (श्रीमती) शान्ता भारद्वाज, एम० बी०बी० एस०, ७-६-१९२६	अलवर	२६-३-५४
२३०	डा० (सुश्री) एल० कोलियोनियस, एल० एम० पी०, ८-८-१९०९	अलवर	१६-१२-५३
२३१	डा० मनोराम दादू, एम० बी० बी० एस०, २२-११-१९२९	कोट कासम	१७-८-५४

वर्तमान पद पर नियुक्ति का दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
	६०	
१५-४-४६	..	
२४-१२-४४	..	
१-१२-४५	..	
२०-२-४३	..	
११-७-५५	१५०	
१-११-४७	..	
२१-६-४७	..	
जनवरी, २८	..	
१२-११-५४	२१०	
१३-१२-४७	..	
२६-३-५४	१८०	
१६-१२-५३	१७०	
१७-८-५४	२००	

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	वर्तमान पद तथा प्रधानांस्पद	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३	४
२३२	डा० एम० एल० भार्गव, एल० एस० एम० एफ०, १२-३-१९१६	मन्डावर	१४-१-४६
२३३	डा० टी० पी० जैन, एम० बी० बी०, एस०, १८-४-१९२८	रामगढ़	६-६-५३
२३४	डा० (श्रीमती) सरला देवी, एल० एम० पी०, १४-१०-१९२३	राजगढ़	३०-४-४९
२३५	डा० भगवत प्रसाद माथुर, एम० बी० बी० एस०, २९-३-१९२७	भरतपुर	१-७-५४
२३६	डा० एच० एल० गुप्ता, एम० बी० बी० एस०, ३-११-१९१९	भरतपुर	५-५-४९
२३७	डा० जी० एन० याजनिक, एल० डी० एस० सी०, २०-१२-१९०९	भरतपुर	१२-८-४६
२३८	डा० प्रीतम सिंह विजन, एम० एस० एम० एफ०, ११-९-२२	भरतपुर	८-१२-४८
२३९	डा० काक्कुमल बों चन्द्रमणि, एल० सी० पी० एस०, ५-११-१२	किशनगढ़	४-१-४८
२४०	डा० कैलाश नाथ हलदिया, एम० बी० बी० एस०	भरतपुर	८-११-५५
२४१	डा० पी० के० मजुमदार, एम० बी० बी० एस०, २२-३-३०	धौलपुर	१९-७-५५
२४२	डा० दलीप सिंह, एल० एम० पी०, ११-८-११	धौलपुर	दिसम्बर, ३६
२४३	डा० जे० एम० मखेजा, एम० बी० बी० एस०, डी० ओ० एम० एस०, १-९-२०	धौलपुर	२२-३-४८
२४४	डा० के० एस० राठी, एल० एम० पी०, ७-६-०८	धौलपुर	१-४-५०

वर्तमान पद पर नियुक्ति का दिनांक	वेतन	विवरण
५	६	७
१४-१-४६	६०	..
६-६-५३	२२०	
३०-४-४९	..	
१-७-५४	२००	
५-५-४९	..	
१२-८-४६	..	
८-१२-४८	..	
४-१-४८	..	
८-११-५५	१५०	
१९-७-५५	१५०	
दिसम्बर, ३६	..	
२२-३-४८	..	
१-४-५०	१९०	

क्र.सं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	वर्तमान पद तथा प्रधानास्पद	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३	४
२४५	डा० एल० डी० माथुर, एल० एम० पी० २५-५-२५	राजाखेड़ा	२८-११-५०
२४६	डा० एन० एस० काटारो, एल० एस० एम० पी०, १५-५-०२	साहपुरा	१५-४-३२
२४७	डा० आर० डी० पन्चोली, एल० एस० एम० एफ०, ४-१५-०१	सरमथुरा	१-७-२७
२४८	डा० आर० एन० गोस्वामी	धीलपुर	—
२४९	डा० के० सी० कोटिया, एम० बी० बी० एस०, २८-६-२८	जयपुर	१८-६-५४
२५०	डा० एस० आर० मेहता, एम० बी० बी० एस०	जयपुर	..
२५१	डा० एच० के० वेदी,	जयपुर	..
२५२	डा० एच० के० गुप्ता	जयपुर	..
२५३	डा० एस० डी० डांडिया	जयपुर	..
२५४	डा० बी० एन० भार्गव	जयपुर	..
२५५	डा० एस० एस० रावत, एम० बी० डी० एस०, ५-३-२८	जयपुर	१-७-५४
२५६	डा० (श्रीमती) पृष्ठा गुप्ता	जयपुर	..
२५७	डा० (सुश्री) रमेश्वरी विश्वाकर्षी	जयपुर	..
२५८	डा० (सुश्री) सुशीला अग्रवाल	जयपुर	..
२५९	डा० एस० आर० सोनी, एम० बी० बी० एस०	जयपुर	४-१२-५४
२६०	डा० पी० सी० जैन, एल० एम० पी०, २-१२-१४	जयपुर	१-१२-५१

वर्तमान पद पर नियुक्ति का दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
२८-११-५०	२००	
१५-४-३२	..	
१-७-२७	..	
..	..	
१८-६-५४	१७०	
..	..	
..	..	
..	..	
..	..	
..	..	
१-७-५४	२००	
..	..	
..	..	
..	..	
४-१२-५४	१५०	
१-१२-५१	..	

क्र. संख्या	नाम, जन्म दिन तथा जन्म-स्थान	वर्तमान पद तथा प्रधानास्पद	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३	४
२६१	डा० कालीवरन माथुर, एम० बी० बी० एस०, १-७-२७	जयपुर	१५-६-५४
२६२	डा० एस० बी० माथुर	अरेन	१३-५-४६
२६३	डा० (बी० पी०) गार्ग, एल० एम० पी०, १३-६-१३	आमेर	..
२६४	डा० छेलबिहारी, एल० एम० पी०, १२-८-२०	वस्ती	१-६-४५
२६५	डा० धर्मपाल दत्त, एल० एम० पी०, ११-१०-१८	वसवा	१६-२-४६
२६६	डा० एन० डी० सहेस्वरी	वसवा	..
२६७	डा० सी० आर० सोनी, एल० एस० एम० एफ०, २३-५-२७	वैराठ	२३-१०-४८
२६८	डा० आर० एस० अग्रवाल, एल० सी० पी० एस०, ४-९-१८	भंसलाना	१-१०-४३
२६९	डा० दाऊदखां, एम० बी० बी० एस, १२-६-२७	चोसू	१५-११-५२
२७०	डा० डी० एस० अवस्थी, एल० एस० एम० एफ०, २०-११-०५	गोनेर	२३-२-३३
२७१	डा० भैरोंप्रसाद नाग, एल० एम० एफ०, ८-९-११	जमुवा रामगढ़	२०-४-३३
२७२	डा० निहालसिंह राजावत, एम० एस० बी० एस०, २७-१-१३	लालसोट	१९-१२-४१
२७३	डा० रामबहादुर सक्सेना, एम० एस० एम० एफ०, १६-१०-०६	भोजमाबाद	१३-१-२९
२७४	डा० (सुश्री) तारा शर्मा, एम० बी० बी० एस०, २६-१०-२६	जयपुर	२२-१-५४

वर्तमान पद पर नियुक्ति का दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
१५-६-५४	६० १७०	
१३-५-४६		
१-६-४५		
१६-२-४६		
२३-१०-४८		
१-१०-४३		
१५-११-५२	२२०	
२३-२-३३		
२०-४-३३		
१९-१२-४१		
१३-१-२९		
२२-१-५४	१६०	

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	वर्तमान पद तथा प्रधानास्पद	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३	४
२७५	डा० (श्रीमती) चन्द्रकान्ता, एम० बी० बी० एस०, २५-१-२५	जयपुर	२०-६-५३
२७६	डा० एस० सी० मुकर्जी	जयपुर	
२७७	डा० मुनीलाल शर्मा, एल० एस० एम० एफ०, १३-१-२२	फागी	१८-२-५०
२७८	डा० आर० एन० टंडन	रूपनगढ़	..
२७९	डा० देवीप्रसाद माथुर, एल० एस० एम० एफ०, १६-३-१७	सायपुरा	३०-१-४४
२८०	डा० वांकेविहारीलाल, एल० एस० एम० एफ०, १७-५-१९	सामोद	१९-६-४२
२८१	डा० आत्मप्रकाश, एल० एम० पी०, १२-२-०७	सोकरी	१-८-३३
२८२	डा० ब्रह्मस्वरूप, एल० एस० एम० एफ०, २०-१०-१९	शाहपुरा	नवम्बर, ४३
२८३	डा० बनारसीलाल मदन, एम० बी० बी० एस०, १४-९-१२	कोटपुतली	१६-६-५४
२८४	डा० (श्रीमती) शान्तीबाई, एल० एस० एम० एफ०, २१-९-१८	कोटपुतली	१६-६-५४
२८५	डा० गोपालदास, एम० बी० बी० एस०, २१-९-१७	किशनगढ़	३-१२-४८
२८६	डा० (श्रीमती) के० टीकू, एल० एस० एम० एफ०, १४-९-१५	किशनगढ़	२-५-४९
२८७	डा० (श्रीमती) पी० भटनागर, एल० एस० एम० एफ०, १५-४-१५	जयपुर	९-७-१५
२८८	डा० मदनलाल भाटिया	जयपुर	..
२८९	डा० दरबारीलाल कंवर	जयपुर	..

वर्तमान पद पर नियुक्ति का दिनांक

वेतन

विशेष

५

६

७

२०-६-५३

२००

१८-२-५०

..

३०-१-४४

१९-६-४३

१-८-३३

नवम्बर, ४३

१६-६-५४

१६०

१६-६-५४

१६०

३-१२-४८

२-५-४९

९-७-१५

..

..

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	वर्तमान पद तथा प्रधानास्पद	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३	४
२९०	डा० (श्रीमती) पद्मा रावत, एम० बी० बी० एस०, डी० जी० ओ०	जयपुर	..
२९१	डा० (सुश्री) ब्रह्मादेवी कौशिक	जयपुर	..
२९२	डा० श्यामस्वरूप शर्मा, एल० एम० पी०, २४-८-२५	अजीतगढ़	२५-६-४८
२९३	डा० श्रीमोहन माथुर, एम० बी० बी० एस०, २-९-२६	दांतारामगढ़	३०-५-५३
२९४	डा० आर० पी० माथुर, एम० बी० बी० एस०, १८-२-२४	बगर	२१-३-५१
२९५	डा० एच० पी० गुप्ता, एल० एम० पी०, २५-९-०२	चिरावा	२१-५-५१
२९६	डा० जी० एस० शर्मा, एम० बी० बी० एस०	झुझुनु	१०-८-५५
२९७	डा० छोगालाल धावई, एम० बी० बी० एस०, ८-४-१६	खेतराई	१-५-३८
२९८	डा० एस० आर० भटनागर, एल० एस० एम० एफ०, २२-९-१३	कामठ	१५-७-३६
२९९	डा० द्वारकानाथ शर्मा, एल० एम० पी०, १३-९-१९	खंडेला	१-२-४५
३००	डा० रवीशंकर भटनागर, एम० बी० बी० एस०, २५-३-१४	लोसल	२०-८-५१
३०१	डा० जगदीश शरन सहाय, एम० बी० बी० एस०, ५-१०-२४	मुकुन्दगढ़	१-२-५४
३०२	डा० ओमप्रकाश कुलश्रेष्ठ	नीम का थाना	..
३०३	डा० एस० सी० मुकर्जी, एल० एस० एम० एफ०, १३-१०-१३	सिंधाना	१-५-३९

वर्तमान पद पर नियुक्ति का दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
..	४०	
..		
२५-६-४८		
३०-५-५३	२२०	
२१-३-५१	२२०	
२१-५-५१	१९०	
१०-८-५५	१५०	
१-५-३८		
१५-७-३६		
१-२-४५		
२०-८-५१	२२०	
१-२-५४	१७०	
..		
१-५-३९		

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	वर्तमान पद तथा प्रधानास्पद	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३	४
३०४	डा० गोपीकृष्ण पुरोहित, एम० बी० बी० एस०, डी० ओ० एम० एस०, १६-७-२७	सीकर	६-११-४८
३०५	डा० अमृत्य रतनदास, एल० एम० एफ०, सार्च, ३२	रींगस	२-५-५४
३०६	डा० ए० एन० टिक्कू, एम० बी० बी० एस०, १२-२-२८	थोई	२९-१२-५३
३०७	डा० आर० के० शर्मा, एल० एम० पी०, २३-१-०८	झुझुनू	१-६-५५
३०८	डा० सतीन्द्र प्रकाश	झुझुनू	..
३०९	डा० किशनस्वरूप, शर्मा, एल० एस० एम० एफ०, १-२-२०	बोनली	२५-९-४५
३१०	डा० कनैयालाल नारायणजी, एल० एस० एम० एफ०, ५-५-०५	बामनवास	५-५-३४
३११	डा० राधामोहनलाल माथुर, एल० एम० पी०, ५-१०-२१	दरबारा	७-११-४५
३१२	डा० (श्रीमती) आर० सोनी, एम० बी० बी० एस०, ८-१-२४	गंगापुर्	११-११-५३
३१३	डा० ए० के० विश्वास, एम० बी०, १२-१०-१४	खंडार	११-२-५२
३१४	डा० उमरार्वांसिंह जैन, एल० एम० पी०, ११-२-१३	करौली	१९-१२-३६
३१५	डा० चिरंजीलाल, एल० एम० पी०, १२-८-१०	करौली	१-९-३९
३१६	डा० सूरजलाल गुप्ता, एल० एम० पी०, १५-११-२९	करौली	२-५-५०
३१७	डा० बलराज, एल० एस० एम० एफ०, १५-४-१५	महुवा	जून, ४४

वर्तमान पद पर नियुक्ति का दिनांक	वेतन	मिशेष
५	६	७
६-११-४८	६०	
२-५-५४		
२९-१२-५३		
१-६-५५		
२५-९-४५		
५-५-३४		
७-११-४५		
११-११-५३		
११-२-५२		
१९-१२-३६		
१-९-३९		
२-५-५०		
जून, ४४.		

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	वर्तमान पद तथा प्रवृत्ततास्पद	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३	४
३१८	डा० एस० के० शर्मा, एल० एम० एल०, १-९-२०	महराना	१-९-४९
३१९	डा० के० श्री० जैन	सपोतरा	..
३२०	डा० एच० आर० मेहता, एल० एस० एम० एफ०, २६-१-०९	ढोडाभीम	२६-२-५२
३२१	डा० नन्दकिशोर माथुर	सवाई माधोपुर	..
३२२	डा० अदनमोहन पारीख, एम० बी० बी० एस०	सवाई माधोपुर	..
३२३	डा० बी० बी० चतुर्वेदी, एल० एम० पी०, १४-३-२४	ढोंक	२९-११-५०
३२४	डा० राजेन्द्रकुमार, एम०बी०बी०एस०, १५-१-२९	ढोंक	१५-६-५४
३२५	डा० (श्रीमती) एस०सी० मांगी, एल०एस०एम०एफ०, ८-२-२१	ढोंक	१९-९-५१
३२६	डा० जे०सी० मांगी, एल०एम०एफ०, १३-९-२२	अमीरगंज	१-९-४६
३२७	डा० पी०जे० ठाकुर, एल०सी०पी० एस०, ७-१२-१२	अलीगढ़	५-७-४८
३२८	डा० रूपसिंह, एम०बी०बी०एस०, १४-७-२७	लूनकरनसर	५-४-५४
३२९	डा० एन०एल०एम० सिमलौत	उन्धारा	..
३३०	डा० ताराचन्द जैन	ढोंक	..
३३१	डा० कल्याणमल लोढा, एल०एम०पी०, डी०ओ०एम०एस०, ४-१०-१४	जोधपुर	१-४-४१
३३२	डा० दाऊलाल माथुर,	जोधपुर	..

वर्तमान पद पर नियुक्ति का दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
१-९-४९	६०	
..		
२६-२-५२		
..		
..		
२९-११-५०		
१५-६-५४		
१९-९-५१		
५-७-४८		
५-७-५४		
५-७-५४		
१-४-४१		

क्र.संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	वर्तमान पद तथा प्रधानास्पद	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३	४
३३३	डा० लक्ष्मणसिंह,	जोधपुर	..
३३४	डा० शम्भूदत्त व्यास,	जोधपुर	..
३३५	डा० जगमोहन शर्मा,	जोधपुर	..
३३६	डा० तोहन सांखला, एम०बी० वी०एस०, १-१-२५	जोधपुर	७-२-५४
३३७	डा० बंगलसिंह,	जोधपुर	..
३३८	डा० मंगल सांखला, एम०बी०वी०एस, ९-१२-२५	जोधपुर	१८-७-५४
३३९	डा० जे० एन० वासनेव, एल०एम०पी०, एस० डी० सी० एच०, १२-१०-२३	जोधपुर	६-६-४६
३४०	डा० वी०एस० देव, एम०बी०वी०एस०, एम०एल०	जोधपुर	२२-७-५४
३४१	डा० रघुवीरसिंह, एल०एम०पी०, डी०एस०आर०, १७-८-१७	जोधपुर	१७-५-४४
३४२	डा० भीमपुरी गौस्वामी, एम०बी० वी०एस०, १७-१२-२६	जोधपुर	१५-११-५२
३४३	डा० दाऊलाल छंगाणी, एम०बी० वी०एस०, २०-२-३१	जोधपुर	१-७-५४
३४४	डा० एस० मालविया, एम०बी० वी०एस०, १५-७-२५	जोधपुर	६-५-४९
३४५	डा० रामजीवन	जोधपुर	..
३४६	डा० (सुश्री) शान्ता मेहता, एम०बी०वी०एस०, २१-१०-३०	जोधपुर	१-७-५४
३४७	डा० (सुश्री) एस० राव, एल०एस० एम०एफ०, २५-१-११	जोधपुर	९-१-३६

वर्तमान पद पर नियुक्ति का दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
..	६०	
..		
..		
७-२-५४		
..		
१८-७-५४		
६-६-४६		
२२-७-५४		
१७-५-४४		
१५-११-५२	२२०	
१-७-५४	२१०	
६-५-४९		
..		
१-७-५४	१९०	
९-१-३६		

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	वर्तमान पद तथा प्रबन्धास्पद	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३	४
३४८	डा० (सुश्री) चार्ल्स, एल०एम०पी०, १-६-०२	जोधपुर	१८-७-४३
३४९	डा० (सुश्री) पी० पंथ, एल०एस० एम०एफ०, ३-१०-१०	जोधपुर	२३-१२-४६
३५०	डा० (श्रीमती) एस० गुप्ता	जोधपुर	
३५१	डा० (सुश्री) चन्द्रकंवर सोलंकी, एल० एम० पी०, २४-३-१९२८	जोधपुर	१५-५-५३
३५२	डा० (सुश्री) एम० पटवर्धन, एल० एम० पी०, २३-१२-१९२५	जोधपुर	५-१०-४
३५३	डा० (श्रीमती) एस० भट्टाचार्य, एम०बी०बी०एस०, ११ १-१९२९	जोधपुर	१३-१-५४
३५४	डा० (सुश्री) ए० कश्यप, एम० बी० बी० एस०, २६-८-१९२६	जोधपुर	१३-७-५०
३५५	डा० (सुश्री) एल०सहानी, एम०बी०बी० एस०, २८-७-१९२९	जोधपुर	५-३-५४
३५६	डा० (श्रीमती) एस० शर्मा, एल० एम० पी०, ५-२-१९१६	जोधपुर	२३-७-४७
३५७	डा० एस० एल० मोहता	जोधपुर	
३५८	डा० लखराज पुरोहित, एल० एम० पी०, १७-६-१९२६	जोधपुर	६-११-४८
३५९	डा० एम० एल० भाटिया,	वाप	
३६०	डा० पी० एल० वाफना, एम० बी० बी० एस०, १५-८-१९२७	बोयासनी	१७-८-५२
३६१	डा० जुगराज अरोड़ा, एल० एम० पी०, ८-८-१९२१	जोधपुर	१९-९-५४
३६२	डा० (सुश्री) फूलकंवर सोलंकी, एल० एम० पी०, १३-९-१९२७	जोधपुर	१५-५-५३

वर्तमान पद पर नियुक्ति का दिनांक	वेतन	चिह्न
५	६	७
१८-७-४४	१०	
२३-१२-४६		
१५-५-५३	१७०	
५-१०-४८		
१३-१-५४	१६०	
१३-७-५०		
५-३-५४	१७०	
२३-७-४७		
६-११-४८		
१७-८-५२	१८०	
१९-९-५४	१६०	
१५-५-५३	१७०	

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	वर्तमान पद तथा प्रधानास्पद	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३	४
३६३	डा० ओ० एन० शर्मा, एल० एम० पी०, २-५-१९२२	जेल डिस्पेन्सरी, जोधपुर	३-११-४५
३६४	डा० भभूतचन्द मेहता, एल० एम० पी०, ३१-५-१९१४	"	अप्रैल, ४१
३६५	डा० रामसिंह, एल० एम० पी०, २५-२-१९२६	जंसलमेर	१६-५-५३
३६६	डा० एम० शर्मा, एल० एम० एफ०, ३०-८-१९२७	लोहावट	४-८-५०
३६७	डा० बी० के० लोहारा	"	२५-११-५३
३६८	डा० दलपतसिंह भंडारी, एम० बी० बी० एस०, ४-८-१९२९	लेपर एसाइलम, जोधपुर	२०-८-५३
३६९	डा० (श्रीमती) आर० के० सेनी	जोधपुर	
३७०	डा० ओ० पी० जोशी, एल० एम० पी०, डी० ओ० एम० एस०, २५-९-१९१६	जोधपुर	१०-४-४५
३७१	डा० बी० एस० राय, एल० एम० एफ०, ३-२-१९२३	पीपाड़	२६-१-४६
३७२	डा० जगदीश नारयाण शर्मा, एल० एम० एफ०, १९-५-१९२१	क्षेत्रगढ़	१३-२-१५
३७३	डा० बी० एन० पुरोहित	जोधपुर	
३७४	डा० राजनारायण कल्ला	जोधपुर	
३७५	डा० आर० एस० भाटी	जोधपुर	
३७६	डा० परशुराम जोशी, एल० एम० एफ०, ७-८-१९२४	जोधपुर	४-८-५०
३७७	डा० एन० बी० पुरोहित, एम० बी० बी० एस०, १४-८-१९२७	जोधपुर	२२-७-५२

वर्तमान पद पर नियुक्ति का दिनांक

वेतन

विशेष

५

६

७

३-११-४५

४०

अप्रैल, ४१

१६-५-५३

१७०

४-८-५०

१५-११-५३

१७०

२०-८-५३

२२०

१०-४-४५

२६-१-४६

१३-२-१५

४-८-५०

२२-७-५२

क्र. संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	वर्तमान पद तथा प्रधानास्पद	शासकीय सेवा म प्रविष्ट-होने का दिनांक
१	२	३	४
३७८	डा० मदनलाल	जोधपुर	
३७९	डा० सुरजराज कल्ला	छुनी	
३८०	डा० एस० एस० अग्रवाल	भेड़ता	
३८१	डा० रावण वर्मा	जालोर	
३८२	डा० डी० एस० चौहान, एल० सी० पी० एस०, १२-११-१९१८	वाड़मेर	२०-८-४६
३८३	डा० बी० बी० श्रीवास्तव	शिव	
३८४	डा० बन्शीलाल, एल० एम० पी०, ३०-८-१९१८	चाकसु	१-५-४४
३८५	डा० आर० एन० परिहार, एम० बी० बी० एस०, १९-४-१९२५	नागौर	१५-५-४८
३८६	डा० बी० के० व्यास, एल० एम० पी०, ७-७-१९०८	कुचामन	जुलाई, २८
३८७	डा० बी० के० गांगाली, एल० एम० एफ०, ३-२-१९३४	सकराना	११-८-५३
३८८	डा० पूसाराम, एल० एम० पी०, १५-७-१९११	मुंडवा	१५-११-३९
३८९	डा० बी० के० माथुर, एल० एम० पी०, ९-११-१९२४	नावा	११-११-४७
३९०	डा० विजय राज माथुर, एल० एस० एम० एफ०, २३-१२-१९२५	परबतसर	१-१-४९
३९१	डा० टी० एन० राय, एल० एम० एफ०, एल० टी० एम०, ४-४-१८	सारोठ	१८-१०-४४
३९२	डा० जी० डी० कुमार, एल० एम० पी० ५-११-०५	कुचेरा	३०-१-५१

वर्तमान पद पर नियुक्ति का दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७

२०-८-४०

१-५-४४

१५-५-४८

जुलाई, २८

११-८-५३

१६०

१५-११-३९

११-११-४७

१-१-४९

१८-१०-४४

१३-१-५१

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	वर्तमान पद तथा प्रधानास्पद	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३	४
३९३	डा० स्वरूपचन्द्र मोदी, एल० एम० एफ०, १२-१२-२८	नागौर	८-२-५४
३९४	डा० ए० एन० माथुर, एल० एम० एस०, ११-११-२५	पाली	९-८-४८
३९५	डा० सोहनलाल टाक, एल० एम० पी०, २१-१२-१४	वेसूरी	१-१०-४२
३९६	डा० एस० एन० व्यास, एम० बी० बी० एस०, ७-३-२८	वेसूरी	१४-१०-५३
३९७	डा० हरखराज माथुर, एल० एम० एफ०, ७-६-२५	जैतारन	११-२-५०
३९८	डा० एस० ए० सरूपिया, एल० एम० पी०, १९-३-२५	अंधारा	१४-५-५३
३९९	डा० जी० पी० बनर्जी, एल० एस० एम० एफ०, १३-११-१०	सिरोही	१८-८-३८
४००	डा० बी० आर० वर्मा	सिरोही	
४०१	डा० (श्रीमती) कें० एस० मलहोत्रा, एल० एस० एम० एफ०, १९-११-१९	सिरोही	१७-३-४५
४०२	डा० रोशनलाल चावला, एल० एम० एस०, १५-१२-२०	जावल	१२-११-४५
४०३	डा० एस० एम० जैन, एम० बी० बी० एस०, ५-२-२६	सन्डार	१४-१०-४९
४०४	डा० सुजानसिंह	पिन्डवाड़ा	
४०५	डा० यज्ञदत्त	रोहिड़ा	
४०६	डा० मालूमसिंह, एल० एम० पी०, १८-३-०७	शिवगंज	१६-१०-२८
४०७	डा० (सुश्री) एन० यू० एम० लेड़ी	शिवगंज	

वर्तमान पद पर नियुक्ति का दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
८-२-५४	६०	
	१६०	
९-८-४८		
१-१०-४२		
१४-१०-५३		
११-२-५०		
१४-५-५३		
१८-८-३८		
१७-३-४५		
१२-११-४५		
१४-१०-४९		
१६-१०-२८		

क्र. संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	वर्तमान पद तथा प्रधानास्पद	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३	४
४०८	डा० गौवर्धनलाल पारीख	सिरोही	
४०९	डा० इयाममनोहर तिवाड़ी, एल० एम० पी०, १-३-१५	झालावाड़	७-११-३५
४१०	डा० आनन्दी प्रसाद माथुर, एल० एस० एम० एफ०, १-१-०५	झालावाड़	१-१०-३१
४११	डा० महेशपाल, एल० एम० पी०, १५-३-०१	झालावाड़	१-६-४९
४१२	डा० (श्रीमती) एस० एन० पालकवंर, एल० एम० पी०, २२-३-१८	झालावाड़	३-४-४३
४१३	डा० गोविन्दसिंह, एल० एम०, पी०, २०-९-२०	अकलेरा	१-१-४५
४१४	डा० आर० सी० सक्सेना, एल० एस० एम० एफ०, २५-११-२६	घांकिनी	१-४-४७
४१५	डा० एन० के० गम्भीर, एम० बी० बी० एस०, २५-८-२३	भवानी मंडी	१५-१२-४७
४१६	डा० एम० एल० सूदन, एल० एस० एम० एफ०, १-१-२४	बालचन्द	१५-५-४९
४१७	डा० मधुकान्त, एल० एम० पी०, ३-११-०६	बर	१-११-२८
४१८	डा० कल्याणसिंह	गंगधर	
४१९	डा० के० के० सक्सेना, एल० एम० पी०, ४-२-२४	खानपुर	१-७-४९
४२०	डा० एस० सी० शुक्ला	लटेरी	
४२१	डा० तेजवहादुर मल	मनोहरथाना	
४२२	डा० एम० सी० मित्तल, एल० एम० पी०, १-१-१०	इटावा	१-५-४०

वर्तमान पद पर नियुक्ति का दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
	रु०	•
७-११-३५		
१-१०-३१		
१-६-४९		
३-४-४३		
१-१-४५		
१-४-४७		
१५-१२-४७		
१५-५-४९		
१-११-२८		
१-७-४९		
१-५-४०		

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	वर्तमान पद तथा प्रधानास्पद	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३	४
४२३	डा० जयसिंह कपूर	सिरोंज	
४२४	डा० आर० के० गुप्ता, एम० बी० बी० एस०, १५-१२-२४	झालावाड़	९-३-५३
४२५	डा० एस० एस० बक्षी, एल० एम० पी०, २३-१२-२८	कोटा	४-६-५२
४२६	डा० रामअवतार शर्मा, एम० बी० बी० एस०, १०-७-२८	कोटा	१४-७-५४
४२७	डा० (श्रीमती) सुमित्रा शर्मा	कोटा	
४२८	डा० मंगतराम, एल० एम० पी०, १-९-१५	भीमगंज मंडी	२७-९-३७
४२९	डा० भवानी प्रसाद माथुर, एल० एम० पी०, ९-३-२२	चेन्नै	१-९-४८
४३०	डा० आर० के० वर्मा, एल० एम० एस०, २१-३-१०	छबड़ा	१-८-३८
४३१	डा० बी० के० गुप्ता, एल० एम० पी०, २१-१२-०९	बूंदी	१-११-३३
४३२	डा० ए० सी० चोरड़िया	हरनोदा	
४३३	डा० नवल किशोर	पलाइया	
४३४	डा० आर० एन० शर्मा, एम० बी० बी० एस०, ६-२-०८	सुलतानपुर	२०-६-५२
४३५	डा० आनन्दस्वरूप गुप्ता, एम० बी० बी० एस०, २४-९-२६	सारथल	१-७-५४
४३६	डा० डी० आर० शर्मा,	कोटा	
४३७	डा० के० एन० महता, एल० एम० पी०, १०-९-१७	कोटा	१-७-४१

वर्तमान पद पर नियुक्ति का दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
	४०	
९-३-५३		
४-६-५२		
१४-७-५४	१९०	
२७-९-३७		
१-९-४८		
१-८-३८		
१-११-३३		
२०-६-५२		
१-७-५४	१९०	
१-७-४१		

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	वर्तमान पद तथा प्रधानास्पद	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३	४
४३८	डा० एम० एल० माथुर, एल० एम० पी०, २१-१२-१३	वांसवाड़ा	१-१०-४०
४३९	डा० (श्रीमती) एस० जाकरिया, एल० एम० पी०, १२-७-१४	वांसवाड़ा	२०-३-४८
४४०	डा० आई० बी० भट्ट, एल० एम० पी०, २७-१२-०६	वांसवाड़ा	१०-४-४८
४४१	डा० के० सी० सोगानी,	घाटोल	
४४२	डा० आर० एन० पान्डिया, एम० बी० बी० एस०, ३-१-२७	बड़ी	२२-८-१३
४४३	डा० प्राणशंकर द्विवेदी, एम० बी० बी० एस०, १३-३-२२	कुशलगढ़	१-२-४९
४४४	डा० बी० एल० सहेस्वरी	करेडा भीपालसागर	
४४५	डा० स्वामी शरण भार्गव	भीलवाड़ा	
४४६	डा० सी० पी० शर्मा, एल० एम० पी०, ७-७-२१	राहमी	१३-७-४८
४४७	डा० अब्दुल वहीद, एल० एम० पी०, ६-२-२२	चित्तौड़गढ़	७-७-५४
४४८	डा० दीवानचन्द, एल० एम० पी०, १८-३-२५	डूंगरपुर	१-१-४८
४४९	डा० (श्रीमती) ब्रौका, एम० बी० बी० एस०, १३-१२-२२	डूंगरपुर	३०-१०-५२
४५०	डा० राधाकिशन पान्डिया,	बांकोरा	
४५१	डा० मदनलाल अग्रवाल, एम० बी० बी० एस०, १-१०-३०	डूंगरपुर	१-७-५४
४५२	डा० जी० एस० लोढा, एम० बी० बी० एस०, ५-१२-२६	उदयपुर	१२-६-५४

वर्तमान पद पर नियुक्ति का दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
१-१०-४०	४०	
२०-३-४८		
१०-४-४८		
..		
२२-८-१३		
१-२-४९		
..		
..		
१३-७-४८		
७-७-५४		
१-१-४८		
१०-१०-५२	२२०	
..		
१-७-५४	१९०	
१२-६-५४	१५०	

क्र. संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	वर्तमान पद तथा प्रधानास्पद	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३	४
४५३	डा० रिपुदमन सिंह, एम० बी० बी० एस०, टी० डी० पी०	उदयपुर	
४५४	डा० जे० डी० खंडपुरी, एल० सी० पी० एस०, ५-१-२१	उदयपुर	अक्टूबर, १९५४
४५५	डा० सी० एल० दधीची, एम० बी० बी० एस०, १५-५-२१	देवगढ़	२६-१२-४२
४५६	डा० बी० एल० लोढ़ा, एल० एम० पी०, एम० बी० बी० एस०, १६-८-२१	राजसमन्द	११-११-४३
४५७	डा० (सुश्री) के० थनकामा, एल० एस० एम० एफ०, २४-८-१५	प्रतापनगर	२३-५-३९
४५८	डा० जी० एस०, चापलोट	उदयपुर	
४५९	डा० के० सी० मोतियानी, एल० सी० पी० एस०, १-११-१९	रायसहनगर	१३-४-४९
४६०	डा० बालचन्द महेश्वरी	हिन्डीन	..
४६१	डा० के० एल० थाडानी	नगरपहाड़ी	..
४६२	डा० किशन सिंह इन्डा, एल० एम० पी०, १-६-१६	सुमेरपुर	..
४६३	डा० एस० एल० सिंघी, एल० सी० पी० एस०, २२-८-२१	सुमेरपुर	६-९-४९
४६४	डा० देवीसिंह राठौड़, एल० एम० पी०, २०-७-१७	मौलासर	१-४-३१
४६५	डा० एस० आर० दत्त, एल० एम० एच०, १-२-२८	डूंगरपुर	१७-४-५३
४६६	डा० बी० एन० जुत्सी, एल० एम० एफ०, २७-१०-१८	छतरपुरा	११-१-४७

वर्तमान पद पर नियुक्ति का दिनांक

वेतन

विशेष

५

६

७

४०

अक्टूबर, ५४

२६-१२-४२

११-११-४३

२३-५-३९

१३-४-४९

..

..

..

६-९-४९

१-४-३१

१७-४-५३

११-१-४७

सहायक स्वास्थ्य अधिकारी

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	वर्तमान पद तथा प्रधानास्पद	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३	४
४६७	डा० ए० बी० एन० दीक्षित, एल० एस० एम० एफ०, डी० पी० एच० एन्ड एच० आई०, ७-४-१३	छतरपुरा	७-११-४३
४६८	डा०बी० एन० मजुमदार, एल० एम० पी०, १-१-२७	शिवागंज	२४-४-३१
४६९	डा० रायबहादुर	बीकानेर	..
४७०	डा० एम० एल० माथुर, एल० एम० पी०, १०-९-१३	अलवर	२१-१०-४९
४७१	डा० सादीराम	..	

वर्तमान पद पर नियुक्ति का दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
७-११-४३	र०	
२४-४-३१		
..		
२१-१०-४९		सहायक स्वास्थ्य अधिकारी
..		

सवाई मानसिंह

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	वर्तमान पद	कासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३	४
१	डा० राजमल कासलीवाल, एम० पी०, एम० आर० सी० पी०, डी० टी० एम० एन्ड एच०, जयपुर २०-११-१९०६	प्रिन्सिपल, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज एवं नियन्त्रक संलग्न चिकित्सालय, जयपुर	
प्ररूलालय कर्मचारी-			
२	डा० आर० पी० कोपीकर, एम० बी० बी०एस०, एम० एस०, एफ० सी० पी० एस०	प्राध्यापक	१-९-१९५१
३	डा० एच० सी० श्रीवास्तव, एम० बी० बी०एस०, एम० एस०, ७-४-१९२५	व्याख्याता	७-८-१९५३
४	डा० इन्द्रजीत जैरथ, एम० बी० बी०एस०, होशियारपुर, ९-१२-१९१३	डिमेंस्ट्रेटर	१९-१-१९४४
५	डा० आर० के० पाठक एम० बी०बी०एस०, भरतपुर, १५-६-१९२८	लेक्चरर	१३-१२-१९५०
६	डा० एच० एस० लोहाल, एम० बी० बी०एस०, जालन्धर, ६-६-१९२२	डिमेंस्ट्रेटर	१५-१०-१९५१
७	डा० जेड० एस० उज्ज्वल, एल०एम० पी०, एल० सी० पी० एस०, एम० बी० बी०एस०, १२-६-१९२६	लेक्चरर	८-९-१९५१
८	डा० आर० पी० चतुर्वेदी	रीडर	
दैहिक विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ			
९	डा० बी० एस० कहाली, एम० बी० (आनर्स), एम०डी (आनर्स), पी० एच० वाई०, कलकत्ता, १-१०-१८९९	प्राध्यापक	१-७-१९४८
१०	डा० मोहनलाल गुप्ता, एल० टी०, एम० बी० बी०एस०, एम० डी०, जयपुर, ८-१२-१९२४	रीडर	१५-८-१९४९

मेडिकल कॉलेज, जयपुर

वर्तमान पद पर नियमित का दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
	₹०	
	₹४८७५०	दवाइयों के प्राध्यापक भी।

नर्स शारीर विज्ञान विभाग

१-९-१९५१	१००० -५०-१२५०	ओन फान्टेकट सर्विस तथा वार्डन एण्ड प्रेसीडेन्ट ऑफ दी स्टुडेन्ट्स यूनियन।
७-८-१९५३	४००	
१९-९-१९४९	५०० ५० दि०दे०	
१३-१२-१९५०	४५०	
१५-१०-१९५१	४००	
८-९-१९५१	४००	

५६०

फिजियोलोजी सय त्रायोकेमिस्ट्री)

३-१०-१९४८	१२००	
३-१०-१९५१	५६०	

क्र. सं०	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	वर्तमान पद	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३	४
११	डा० सी०एल० पाठक, एम० बी० बी० एस०, एम० डी०, कानपुर, १५-४-२५	डिप्टी स्ट्रेटर	२८-१-१९५२
१२	डा० आर० पी० भार्गव, एम० बी० बी०एस०, एम० डी०, १-६-१९२५	"	५-१०-१९५१
१३	डा० सोमनाथ गुप्ता, एम० बी० बी० एस०, एम० एससी०, १६-७-१९२५, लुधियाना	"	२४-९-१९५१
वायोकेमिस्ट्री			
१४	डा० पी० डी० दालवी, एम० एससी०, ए० आई० आई० एस० सी०, एफ० आर० आई० एस० सी०, पी० एच० डी०, २३-१०-१९०३, रतमगिरि	रीडर इन वायोकेमिस्ट्री	१४-७-१९३२
१५	डा० एस० पी० मूंगीया, बी० एससी०, एम० बी० बी० एस०, ३-६-१९२५	डीप्टी स्ट्रेटर वायोकेमिस्ट्री	१६-११-१९५१
फार्माकॉलॉजी			
१६	डा० आर०बी० अरोडा, एम०बी० बी०एस०, एम०डी०(मेड); एम०डी० (फार्म०), ३१-३-१७, फरुखाबाद	अध्यापक	१-८-४९
१७	डा० एस०एल० अग्रवाल, एम०बी० बी०एस०, एम०डी० (फार्म०) १-५-२४, इन्दौर	रीडर	१६-१०-५१
१८	डा० पी०सी० डांडिया, डी० (फार्म०) एम० (फार्म०), ५-६-२६, जयपुर	लेक्चरर इन फार्मसी	२१-१-४९
१९	डा० बी०एन० शर्मा, एम०बी०बी० एस०, एम०एससी०, १-७-२४, कोटा	डीप्टी स्ट्रेटर	११-१२-५०
२०	डा० पी०के० दास, एम०बी०बी०एस०, एम०डी०, १३-९-२७	प्रोफेसर	१७-९-५२

वर्तमान पद पर नियुक्ति का दिनांक ५	वेतन ६	विशेष ७
२८-१-१९५२	६० ४५०	
५-१०-१९५१		
२४-९-१९५१	४००	
२१-८-१९५१	८००	केमिकल एग्जामिनेर
१६-११-१९५१	४००	
विभाग		
१-८-४९	१,३५०	
१६-१०-५१	६३०	
१-९-५१	४५०	
११-१२-५०	४२५	
१७-९-५२	३७५	

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	वर्तमान पद	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३	४

पैथोलॉजी

२१	डा० आर०के०गोयल, एम०बी०बी० एस०, एल०आर०सी०पी०, एम०आर०सी०एस०, एम०आर०सी०पी०, पीएच०डी०, बी०एससी०, एम०आर०एस, जयपुर	प्राध्यापक	३-९-४९
२२	डा० एच०एस० एन्डले, एम०बी०बी० एस०, डी०टी०एम०, डी० बेक्ट०, आगरा, १९-७-१४	रीडर-कम-न्यूरेटर	१८-८-४९
२३	डा० पी० सुब्रह्मण्यम बी०ए०, बी० एससी०, एम०बी०बी०एस०, मालावार, १२-२-१३	व्याख्याता	१२-६-४६
२४	डा० जे०सी० सरिन, एम०बी०बी० एस०, डी०टी०एम०, जयपुर, १८-२-५१	व्याख्याता	१०-१-४९
२५	डा० के० सी० सैमुअल, एम० बी० बी० एस०, एम० डी०	"	३०-११-५१
२६	डा० डी०पी० गुप्ता, एम०बी०बी० एस०, लाहौर, १५-१०-२६	डीमोन्स्ट्रेटर	१-१२-५०
२७	डा० बलदेवराज, एम०बी०बी०एस०, जयपुर	"	७-१०-५१
२८	डा० ओ०पी०गुप्ता, एम०बी०बी०एस०, बीकानेर, १३-१०-२८	"	११-९-५१
२९	डा० एम० एस० डूंगर, एम०बी०बी० एस०, डी० टी० एस०, ४-१०-२०	"	३०-१०-५०

क्लिनिकल स्टाफ

३०	डा० एल० आर० सरिन, एम० बी० बी० एस०, डी० ओ० एम० एस०, एम० आर० सी० पी०, भरतपुर, २०-९-०६	आफिशियेटिंग एडिशनल प्रोफेसर	७-६-३९
----	---	-----------------------------	--------

वर्तमान पद पर नियुक्ति का दिनांक

वेतन

विशेष

५

६

७

विभाग

रु०

३-९-४९

१,३५०

१८-८-४९

८००

१-३-५१

६७५

२७-१०-५१

५५०

३०-११-५१

४२५

१-१२-५०

४२५

७-१०-५१

४००

११-२-५१

४००

३०-१०-५०

४००

मेडिसीन विभाग

११-९-५१

८५०

फिजिशियन एस०एम०
अस्पताल, जयपुर

क्र. संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	वर्तमान पद	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३	४
३१	डा० एल० एम० सांगवी, एम० बी० बी०एस०, एम० आर० सी० पी०, डी० टी०एम०ए०ए०एच०, २९-११-१४	आफिशियेटिंग रोडर	१९४३
३२	डा० जे०बी० मेहता, एल०आर०सी०, पी०, एम०आर०सी०एस०, एम०बी० बी०एस०, डी०सी०एच० एन्ड एम०, बम्बई, २४-१०-१७	व्याख्याता	७-९-५१
३३	डा० के०डी०गुप्ता, एम०बी०बी०एस०, एन०डी०, १२-१०-२२	व्याख्याता	१८-६-४६
३४	डा० ए० दास गुप्ता, एम०बी०बी०एस०, एम०डी०, डी०टी०एम० एन्ड एच०, १-३-१९	,,	१९-८-५२
३५	डा० ए०एल०पुरोहित, एम०बी० बी०एस०, डी०सी०एच०, २५-१-०९	रोडर इन पेट्रियाट्रिक्स	१-१२-३७
३६	डा० एम०पी० माथुर, एम०बी० बी०एस०, एफ०डी०एस०, १८-७-११	व्याख्याता स्किन एन्ड वेनेरियल डिजिजेज	२४-२-३६
३७	डा० डी०आर० नागपाल, एम०बी० बी०एस०, टी०डी०डी०, २८-८-२०	व्याख्याता ट्यूबर कुलोसिस	१६-१२-५२
३८	डा० टी०एन० भार्गवा, एम० बी० बी०एस०, २०-१०-११	व्याख्याता मेन्टल डिजिजेज	२६-१-३६
			सर्जरी
३९	डा० जी० एल० तलवार, एम०बी० बी०एस०, एल०आर०सी०पी०, एफ०आर०सी०एस० (एडिन), एफ०, आर०सी०एस०, (इंग्लैन्ड), १५-७-०६	आफिशियेटिंग प्रोफेसर	१-२-४७
४०	डा० पी०डी० माथुर, एम०बी०बी० एस०, एम०एस०भिन्न, एफ०आर० सी०एस०, एफ०ए०सी०एस, जयपुर, १६-९-१५	अतिरिक्त प्राध्यापक	१-७-४४

वर्तमान पद पर नियुक्ति का दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
२८-५-५१	१२५० १५० वि०वे०	फी.सि.सि.एन., एन० एम० अस्पताल, जयपुर
७-९-५१	४७५ १०० वि०वे०	
२७-९-५२	३५० १०० वि०वे०	
१९-८-५२	३०० १०० वि०वे०	
१४-९-५१	४५० १०० वि०वे०	
२४-२-५१	४०० १०० वि०वे०	
१६-१२-५२	४०० १०० वि०वे०	
१-७-५१	४०० १०० वि०वे०	
विभाग		
१४-५-५३	११०० २०० वि०वे० १०० सी०ए०	सर्जन, सवाई मानासिंह अस्पताल, जयपुर
	७०० १०० वि०वे०	सर्जन, सवाई मानासिंह अस्पताल, जयपुर

क्र. सं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	वर्तमान पद	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३	४
४१	डा० के०एन० भार्गव, एम०बी०बी० एस०, एम०एस, ११-८-२८, जयपुर	ध्याख्याता	—
४२	डा० जी०सी० शर्मा, एम०बी०बी० एस०, एम०एस०, २९-१२-२४	रीडर	१७-४-५०
४३	डा० पी० के०सेठी, एम०बी०बी०एस०, एम०एस०, एफ०आर०सी०एस०, २८-११-३७, आगरा	ध्याख्याता	—
४४	डा० के०एन० शर्मा, एम०बी०बी०एस०, डी०ए०, १९-४-२०	ध्याख्याता एनेस्थेसियस	१८-१०-४६

वर्तमान पद पर नियुक्ति का दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
..	४० २५० १०० वि०वे०	
२७-१०-५२	३२५ १०० वि०वे०	
..	२५० १०० वि०वे०	
२८-२-५३	३२५ १०० वि०वे०	

खण्ड

जन सम्पर्क

क्र. सं.	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१	श्री राजेन्द्रशंकर भट्ट, ११-६-२१, अजमेर	२८-९-१९४६	२८-९-१९४६
२	श्री चन्द्रगुप्त वाष्णेय, बी० एससी०, सी० टी०, २१-७-१९०४, अलीगढ़ (उ० प्र०)	१४-५-१९५२	१४-५-१९५२
३	श्री मकलनलाल सहल, एम० ए० (अंग्रेजी), १३-९-१९१५, नवलगढ़	५-८-१९४२	९-३-१९५७
४	श्री सी० बी० बी० राघवन, बी० ए० (आनर्स), ४-४-१९१८, मद्रास	१-७-१९४६	१-७-१९४६
५	श्री अमरनाथ चंचल, एम० ए०, एलएल० बी०, २३-११-१९२४, जोधपुर	२२-८-१९४७	१-११-१९५०
६	श्री महावीर दास जैन, बी० ए०, एलएल० बी०, न्यायतीर्थ, प्रभाकर, १०-३-१९२६, ऐटा (उ० प्र०)	९-७-१९५४	८-११-१९५६
७	श्री गणेशीलाल व्यास, पौष व० १, सं० १९७२, २३-११-१९४८ जोधपुर		२३-११-१९४८
८	श्री केसरीमल पुरोहित, पौष व० १, सं० १९७२ जं सलमेर	१-३-१९३७	१-३-१९३७

३४

कार्यालय

वर्तमान पद तथा विनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
संचालक, सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय, राजस्थान, जयपुर, ५-१-१९५५	६० ५६० (५००-३०-७४० ई० बी० ३०-८००-५०-१०००)	
उप-संचालक, सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय, राजस्थान, जयपुर, ६-११-१९५६	५६० (५००-३०-६५०)	
उप-संचालक, सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय, राजस्थान, जयपुर, ९-३-१९५७	४५० (३३०-२५-५५० ई० बी० ३०-७००)	इस पद पर श्री कजरराज कुमार भटनागर का लियन है जो इस समय भारत सरकार के सूचना एवं प्रचार विभाग में कार्य कर रहे हैं।
सहायक संचालक, सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय, राजस्थान, जयपुर, २७-१-१९५१	३७५ (२५०-२५-४०० ई० बी० २५-६००)	
सहायक संचालक, सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय, राजस्थान, जयपुर	३५० (२५०-२५-४०० ई० बी० २५-६००)	
सहायक संचालक, सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय, राजस्थान, जयपुर, ८-११-१९५६	४२० (४००-२०-६००)	
स्क्रिप्टिनी आफिसर, सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय, राजस्थान, जयपुर, ४-११-५४	४०० (२५०-२५-४०० ई० बी० २५-६००)	अस्थायी
सीनियर फोटोग्राफर, जयपुर	३५० (२५०-२५-४०० ई० बी० २५-६००)	

क्र. सं०	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्त का दिनांक
१	२	३	४
९	श्री युगराज बोहरा, बी० ए०, एल एल० बी०, १९-५-१९२३, अहमदाबाद	१-४-१९४९	२४-६-१९५०
१०	श्री सुन्दर मोहन स्वरूप भटनागर, बी० ए०, एलएल० बी०, १०-४-१९४९, उदयपुर	१-४-१९४९	२४-६-१९५०
११	श्री श्रीनारायण वर्मा, बी० ए०, ८-७-१९१०, कोटा	१-११-१९३९	१-४-१९५५
१२	श्री फतेहलाल पंडित, २५-१२-१९०८, किशनगढ़	२८-३-१९५५	२८-३-१९५५
१३	श्री अम्बिका प्रसाद शर्मा, बी० ए०, जयपुर	१०-९-१९४२	१०-९-१९४२
१४	श्री गणेश केवलिया, बी० ए०, विशारद, १५-८-१९२२, जैसलमेर	३०-१२-१९४३	३०-१२-१९४३
१५	श्री कृष्ण कुमार द्विवेदी, एम० ए०, २३-८-१९२४, अलवर	२१-१२-१९५१	१२-३-१२-१९५४
१६	श्री छत्रपतिसिंह, बी० ए०, प्रभाकर, ६-५-१९२३	२८-६-१९४६	२८-६-१९४६
१७	श्री गुरुप्रसाद माथुर, एम० ए० (हिन्दी), एल एल० बी०, एल० एस० जी० डी० (इलाहाबाद), ७-८-१९१३, मथुरा (उ० प्र०)	४-१०-१९३४	१८-१-१९४९
१८	श्री आइदान सिंह, एम० ए०, २२-८-२७, पाली	२५-२-४९	२४-६-१९५०

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
जन सम्पर्क अधिकारी, सिरोही, २५-१०-१९५६	₹० (१७५-१०-२४५ ई० बी० १०-२७५-१२ १/२-४००)	कार्यवाहक
जन सम्पर्क अधिकारी, जोधपुर, ७-२-१९५५	(१७५-१०-२४५ ई० बी० १०-२७५-१२ १/२-४००)	कार्यवाहक
जन सम्पर्क अधिकारी, कोटा, २-४-१९५५	(१७५-१०-२४५ ई० बी० १०-२७५-१२ १/२-४००)	कार्यवाहक इस पद पर श्री श्रीगोपाल पुरोहित जी इस समय भारत सरकार के सूचना एवं प्रसार विभाग में कार्य कर रहे हैं का लियन हैं।
जन सम्पर्क अधिकारी, भरतपुर, २५-१०-१९५६	(१७५-१०-२४५ ई० बी० १०-२७५-१२ १/२-४००)	कार्यवाहक
जन सम्पर्क अधिकारी, भीलवाड़ा (जयपुर), १२-११-१९५६	(१७५-१०-२४५ ई० बी० १०-२७५-१२ १/२-४००)	कार्यवाहक
सम्पर्क अधिकारी, जयपुर, ४-११-१९५४	(१७५-१०-२४५ ई० बी० १०-२७५-१२ १/२-४००)	कार्यवाहक
जन सम्पर्क अधिकारी, अजमेर, १-११-१९५६	(१७५-१०-२४५ ई० बी० १०-२७५-१२ १/२-४००)	कार्यवाहक
जन सम्पर्क अधिकारी, झालावाड़, १-१०-१९५६	(१७५-१०-२४५ ई० बी० १०-२७५-१२ १/२-४००)	कार्यवाहक
सहायक सम्पादक सार्वजनिक, सम्पर्क कार्यालय, राजस्थान, जयपुर, ४-११-५४	२१५ (१७५-१०-२४५ ई० बी० १०-२७५-१२ १/२-४००)	कार्यवाहक
सहायक सम्पादक, सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय, राजस्थान, जयपुर, ४-११-१९५४	(१७५-१०-२४५ ई० बी० १०-२६५-१२ १/२-४००)	कार्यवाहक

सं क्र०	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१९	श्री सरस वियोगी, ए. म० ए० (हिन्दी), ३-१-२०, खेरवाड़ा (उदयपुर)	१३-१-१९५६	१३-१-१९५६
२०	श्री प्रहलाद चन्द्र जोशी, २-९-२१	१६-३-१९४९	१०-९-१९५२
२१	श्री अभयकुमार वैराठी, आई० कॉम०, १५-२-१८, जयपुर	१०-९-१९४०	२४-११-१९५६

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
सम्पर्क अधिकारी, जयपुर, ६-११-१९५६	२००	प्रोवीजनल
पूछ-ताछ अधिकारी, जयपुर, १२-६-१९५४	२२५ (१७५-१०-२४५ ई० बी० १०-२७५-१२ १/२-४००)	कार्यवाहक
संग्रह एवं वितरण अधिकारी, सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय, राजस्थान, जयपुर, २४-११-५६	२६५.६२ (२००-१०-२८० ई० बी० १५-४००-२५-४५०)	

खंड

भू-अभिलेख

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३
१	श्री केसरीसिंह मेहता, आर०ए०एस०, ६-११-०२, उदयपुर	२३-११-३०
२	श्री मान्धाता सिंह, आर०ए०एस०, ३०-३-१९२२, जयपुर	५-९-४४
३	श्री वहीबुल्ला खां, आर०ए०एस०, १५-११-०३, जोधपुर	४-९-३०
४	श्री रामसिंह, आर०ए०एस०, २-१-१९०६, जोधपुर	१-१०-१९३८

३५

विभाग

वर्तमान पद तथा विभाग	वेतन	विशेष
४	५	६
सचिव, राजस्व मंडल, भू-अभिलेख, जयपुर, २८-४-५५	६२५ १०० वि० वे०	
सहायक संचालक, भू-अभिलेख, जयपुर, ६-१२-५६	५०० १०० वि० वे०	
अतिरिक्त संचालक, भू-अभिलेख, जोधपुर, ९-११-५६	९०० १०० वि० वे०	
सहायक संचालक, भू-अभिलेख, भाखरा एरिया, हनुमानगढ़, १४-९-१९५६	५०० १०० वि० वे०	

खंड

विविध

पुरातत्व व

क्र. संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१	डा० सत्य प्रकाश श्रीवास्तव, बी०ए० (ऑनर्स), एम०ए०, पीएच०डी०, साहित्य-रत्न, २-१-१४, लखनऊ	१०-२-१९४८	१०-२-१९४८
२	श्री अक्षयकीर्ति ठास, एम०ए०, बी०ए० (ऑनर्स), १४-११-०७, उदयपुर	२४-८-१९३२	२४-८-१९३२
३	श्री रत्नचन्द्र अग्रवाल, एम०ए०, बी०ए० (ऑनर्स), २-१-२६, अम्बाला (पूर्वी पंजाब)	१३-५-१९५३	१३-५-१९५३
४	श्री जगदीशसिंह गहलोत, १४-१-०३, जोधपुर	१-२-१९२७	१४-१०-१९५०
५	श्री सगतसिंह, जी०डी० आर्ट्स (बम्बई), २५-१२-१५, बीकानेर	२३-२-१९३९	२३-२-१९३९
६	श्री चतुर्भुजदास चतुर्वेदी, १५-११-०३, भरतपुर	११-११-१९४४	११-११-१९४४
७	श्री दुर्गालाल, एम०ए०, एलएल०बी०, डिप्लोमा इन आर्काइव्ज, २५-८-१६, जोधपुर	२५-११-१९४८	२५-११-१९४४
८	श्री मोहनलाल गुप्ता, एम०ए०, ६-११-२४, जयपुर		

३६

विभाग

संग्रहालय विभाग

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
निर्देशक, पुरातत्व व संग्रहालय विभाग, राजस्थान, जयपुर २७-४-१९५०	४२५ ५० वि० वे०	
अध्यक्ष, पुरातत्व व संग्रहालय, जोधपुर, २७-४-१९५०	४०० (२५०-२५-४०० नि० वं० २५-५००)	
ध्यक्ष, पुरातत्व व संग्रहालय, उदयपुर, १३-५-१९५३	३०० (२५०-२५-४०० नि० वं० २५-५००)	
क्वैरेटर, सेन्ट्रल म्यूजियम, जयपुर, १६-७-१९५१	२१५ (१७५-१०-२२५ नि० वं० १०-२७५-१२ १/२-३००)	
क्वैरेटर, गंगा गोल्डन जुविली म्यूजियम, बीकानेर, २५-५-१९५०	२६५ (१७५-१०-२२५ नि० वं० १०-२७५-१२ १/२-३००)	
क्वैरेटर, म्यूजियम, भरतपुर, २५-५-१९५०	२२५ (१७५-१०-२२५ नि० वं० १०-२७५-१२ १/२-३००)	
क्वैरेटर, मरदार म्यूजियम, जोधपुर, २५-५-१९५०	२२५ (१७५-१०-२२५ नि० वं० १०-२७५-१२ १/२-३००)	
क्वैरेटर म्यूजियम, अलवर	१७५ (१७५-१०-२२५ नि० वं० १०-२७५-१२ १/२-३००)	स्थानापन्त

सं क्र	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
९	श्री शिवशरणलाल, २०-१-११		
१०	श्री यू०सी० भट्टाचार्या, एम०ए०, ३०-११-०२	२-१-१९२९	१-११-१९५६

वर्तमान पद और दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
क्यूरेटर, सरदार म्यूजियम, जोधपुर	१८५ (१७५-१०-२२५ नि० वं० १०-२७५-१२ १/२-३००)	स्थानापन्न
क्यूरेटर, म्यूजियम, अजमेर	(१७५-१०-२७५ नि० वं० १२ १/२-३५०)	

आंकड़ा

क्र. संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३
१	श्री लक्ष्मीकुमार वर्मा, एम० ए०, एल० एल० बी०, बी० ए० (ऑनर्स), १६-४-१९२३, अलवर	भारत सरकार, राजस्थान सरकार, ६-५-४६ ११-२-५६
२	श्री कृष्ण कुमार सहगल, एम०, ए०, बी० ए० (ऑनर्स), १६-६-१९२३, अलवर	६-९-१९५६
३	डा० उमराव बहादुर माथुर, एम० कॉम०, डी० फिल०, एफ० एस० एत०, ११-११-१९२०, झालावाड़	४-१०-४८
४	श्री रामनारायण शर्मा, एम० एतसी०, २७-१०-१९२९, कोटा	२-१-१९५१
५	श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, एम० ए०, पीएच० डी०, १४-१२-१९२४, सादुलपुर (चूरू)	२५-१-१९५१
६	श्री भगवानदास अग्रवाल, एम० एमसी०, ६-६-१९२५	१२-५-१९५२
७	श्री मनोहरसिंह सोगरा, एम० ए०, बी०एस सी०, २०-११-१९२७ उदयपुर	५-६-१९५६
८	श्री अमरसिंह मेहता, बी० कॉम, आर्थिक प्रशासन का डिप्लोमा, विशारद ७-६-१९३१, उदयपुर	६-६-१९५६

विभाग

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
४	५	६
संचालक जयपुर, ११-२-५६	६० ७५०	
सहायक संचालक, १०-११-५६	३००	शिक्षा विभाग के स्थायी अधिकारी
सांख्यिकी अधिकारी, जयपुर, १-२-५०	४२०	जनवरी '५७ से अस्थायी रूप से चुनाव कार्यालय में स्थानान्तरित
सांख्यिकी अधिकारी, जयपुर, १५-३-५१	२६५	
सांख्यिकी अधिकारी, जयपुर, २५-१-५१	३७०	
सांख्यिकी अधिकारी, जयपुर, १२-५-५२	२६५	
सांख्यिकी अधिकारी	२५०	
सांख्यिकी अधिकारी	२५०	

इवेक्यू इन्ट्रैस्ट

क्रम संख्या	नाम, जन्म दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक
१	२	३
१	श्री त्रिलोकीनाथ शर्मा, आर० जे० एस०, १६-१२-०३, विजनौर (उ० प्र०)	२१-७-२८ अवन
२	श्री रतन नारायण शिवपुरी, वी०एससी०, २-२-०८, अलवर	१२-३-२५ अष्टाचार
३	श्री जगन्नाथ प्रसाद माथुर, वी०ए०, एलएल०बी, आर० एच० जे० एस०, २२-११-०४, जयपुर	१-९-४२

सेपरेशन विभाग

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
४	५	६
स्टेट कम्पाटेन्ट ऑफिसर फोर राजस्थान, अलवर, १२-५-५५	रु० ७५०	आर० जे० एस० से प्रतिनियुक्ति पर
इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड		
सचिव, जयपुर	४२५ ७५ वि०वे०	
निरोधक विभाग		
अष्टाचार निरोधक अधिकारी, राजस्थान जयपुर, २६-४-५५	९०० २०० वि०वे०	आर० जे० एस० से प्रतिनियुक्ति पर

निर्वाचन

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१	श्री चन्द्रशेखर गुप्ता, आई० ए० एस०, २१-५-१८, अलवर	३१-८-३८	२६-४-५५
२	श्री नन्दलाल सिंह, आर० ए० एस०, २३-४-१३, झुझुनू	१-९-४२	२९-२-५६
३	श्री निरंजननाथ माथुर, रा० अ० स० १०-१-१६, उदयपुर	२३-११-४३	१७-११-५५

स्थानीय निधि परीक्षा

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१	श्री रामकृष्ण घावन, रा० अ० स०, २५-१२-०७, जयपुर	२५-६-३२	१५-११-५३
२	श्री वल्लभचन्द जन, बी० ए०, २७-१०-१६, जोधपुर	२७-८-३६	१३-६-५५

विभाग

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
मुख्य निर्वाचनाधिकारी एवं चुनाव सचिव, राजस्थान, जयपुर	१,०६० २५० वि०वे०	
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सहायक चुनाव सचिव, जयपुर	३७५ ७५ वि०वे०	
लेखाधिकारी, निर्वाचन विभाग, जयपुर	४००	

विभाग, जयपुर

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
परीक्षक, १५-११-५३	७०० १०० वि० वे० (५००-३०-७४० नि० वं० ३०-८०० ५०-९००)	
सहायक परीक्षक, १३-६-५५	४०० (२५०-२५-५०० नि० वं० २५-७५०)	

एमप्लॉयमेन्ट एक्सचेन्ज

क्र.संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय-सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१	श्री चन्द्रधर ईसर, एम० ए०, एलएल० बी० आर० ए० एस०, २१-११-०५, बनारस	२२-४-४४	२५-७-५५
२	श्री ए० सेन०, बी० कॉम०, एफ० सी० आई० (बरमिघम), १-१२-०१, जयपुर	९-७-४२	१३-३-५१
३	श्री जवारलाल गुप्ता, बी० एससी०, एलएल०बी०, १-३-१३, यू० पी०	१०-८-४५	२४-२-५४
४	श्री सुन्दरलाल गौड़, बी० ए०, २१-५-११, बीकानेर	८-७-३३	२३-१-५१
५	श्री चरनदास मोतीलाल अग्रवाल, बी० एससी०, १४-१०-१७, जोधपुर	२७-११-४१	१-७-४३
६	श्री आनन्द स्वरूप, ६-८-०९, भरतपुर	२८-४-२८	७-५-४६
७	श्री शंकरसिंह, एम० ए०, ६-४-१५, जयपुर	२०-३-५१	२०-३-५१
८	श्री रणजीतमल सिधवी, ६-४-१५, जोधपुर	९-२-४६	१-३-५१
९	श्री एस० एस० सभरवाल, १५-१-२६	२२-११-५०	२२-११-५०
१०	श्री श्रीकृष्ण माथुर, एम० कॉम०, १७-८-३१	३१-३-५५	३१-३-५५
११	श्री ज्योतिस्वरूप बाजपेई, बी० एससी० एलएल० बी०, ४-६-३२	१०-७-५६	१०-१०-५६
१२	श्री आर० एन० भंडारी, ४-६-३२, जोधपुर	७-१०-४२	१०-११-५६
१३	श्री सुन्दरलाल औदित्य, बी० ए०, १२-४-२६, जयपुर	२४-७-५०	७-१०-५६
१४	श्री तेजसिंह मेहता, ७-१०-२४, बीकानेर	२७-१२-४८	२६-१०-५६
१५	सुश्री ऊमा जेतली, एम० ए०, २८-२-३५, बनारस	६-१०-५६	६-१०-५६
१६	श्री जै० एन० शर्मा, बी० एससी० (ब्रिस्टल), (इलेक्ट्रिक इंजीनियर), १५-८-०६	..	१०-१०-५६

आर्गेनाइजेशन

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
संचालक, एम्प्लायमेन्ट एक्सचेंज व ट्रेनिंग सर्विसेज, राजस्थान, जयपुर, १-४-५७	१००	भत्ता
नियोजन अधिकारी, एम्प्लायमेन्ट एक्सचेंज, जयपुर, १३-३-५१	३५०	
नियोजन अधिकारी, अजमेर	५२५	
सहायक नियोजक अधिकारी, २३-१-५१	३२०	
सहायक नियोजन अधिकारी, अजमेर, १-७-४३	३५०	
जिला अधिकारी, अलवर	२७०	
जिला अधिकारी, बीकानेर	२००	
जिला अधिकारी, उदयपुर, १-३-५१	२००	
सहायक नियोजन अधिकारी, अजमेर	२६०	
सहायक नियोजन अधिकारी	२००	
सहायक नियोजन अधिकारी	२००	
सहायक नियोजन अधिकारी, भरतपुर	२००	
सहायक नियोजन अधिकारी, सवाई माधोपुर, ७-१०-५६	२००	
सहायक नियोजन अधिकारी, श्री गंगानगर	२००	
सहायक नियोजन (महिला) अधिकारी, जयपुर	२००	
प्रिन्सिपल ट्रेनिंग सेन्टर, जयपुर	४२५	

राजस्थान सीलजर्स

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१	श्री रामनिवास हावा, आई०ए०एस०	—	२७-४-५६
२	लेफ्टिनेन्ट कर्नल गुलाबसिंह, १८-२-१२ (री)	१-३-५६	१-३-५६
३	श्री राधाकिशन व्यास, बी० ए०, एलएल० बी०	..	१०-८-५३
४	लेफ्टिनेन्ट छोगसिंह, १-११-१५ (री)	२१-४-५२	२१-४-५२
५	केप्टन बहादुरसिंह, ४-१-०४ (री)	१६-१-४८	१६-१-४८
६	लेफ्टिनेन्ट बृजरार्जसिंह, १२-३-२५(री)	३०-४-५२	३०-४-५२
७	मेजर परबत सिंह, २४-४-०७ (री)	३-५-५२	३-५-५५
८	केप्टन धर्जसिंह भातल, १०-१०-०२ (री)	२०-४-४८	२०-४-४८
९	लेफ्टिनेन्ट सवाईसिंह, बी० ए०, एलएल० बी०, २५-२-२६ (री)	६-१०-५२	६-१०-५२

विभाग

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
डायरेक्टर ऑफ इन्ड्योरिन्स, राजस्थान, जयपुर, १२-४-१९४६	९०० ८५०-५०-१,१५०	₹०
डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इन्ड्योरिन्स, राजस्थान, जयपुर, १-१०-१९५३	५३० ५००-३०-७४० ई० बी० ३०-८००-५०-९००	
असिस्टेन्ट डायरेक्टर ऑफ इन्ड्योरिन्स, राजस्थान, जयपुर, १-१०-१९५३	३२५ २५०-२५-५०० ई० बी० २५-७५०	
असिस्टेन्ट डायरेक्टर ऑफ इन्ड्योरिन्स, राजस्थान, जयपुर २२-५-१९५४	४०० २५०-२५-५०० ई० बी० २५-७५०	
असिस्टेन्ट डायरेक्टर ऑफ इन्ड्योरिन्स, राजस्थान, जयपुर, २२-५-१९५४	३०० २५०-२५-५०० ई० बी० २५-७५०	
असिस्टेन्ट डायरेक्टर ऑफ इन्ड्योरिन्स, राजस्थान, जयपुर, १९-११-१९५५	२७५ २५०-२५-५०० ई० बी० २५-७५०	

पुनर्वास

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	शासकीय सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक	विभाग में नियुक्ति का दिनांक
१	२	३	४
१	श्री राधाचरण सिन्हा, एम० एससी०, एलएल० बी०, १६-७-१९११, बनारस	मई, १९३६	५-९-५५
२	श्री विरेन्द्र कुमार भटनागर, एम० कॉम०, एलएल० बी०, १-१०-१९२३, कोटा	१४-४-४८	१४-४-४८
३	श्री जतनमल, रा० अ० स०, १-१२-१९१४, जयपुर	१-११-३३	१-९-५५
४	श्री महेशचन्द्र, बी० ए०, एलएल० बी०, २८-६-०८, जोधपुर	१-६-४६	११-५-५३

सेन्सस

१	श्री गोप गुरवक्श, पीएच० डी०, एलएल० बी० (युनाइटेड, नेशनल्स फैलो, यू० एस० ए०)	..	१-१-५७
---	---	----	--------

विभाग

वर्तमान पद तथा दिनांक	वेतन	विशेष
५	६	७
संचालक, पुनर्वास विभाग, जयपुर, १९-११-५५	६५० १५० वि० वे० ५००-३०-७४० ई० बी० ३०-८००-५०-९००	अस्थायी
ऋण ऑफिसर, जयपुर, २२-४-५३	२५० २००-१०-२८०-१५-४००	अस्थायी
लेखाधिकारी, जयपुर, १-९-५५	४५० २५०-२५-५००-२५-६५०	अस्थायी
विशेष कार्याधिकारी, पुनर्वास विभाग, जयपुर, ११-५-५३	५०० ५० वि० वे० २५०-२५-४०० ई० बी० २५-५००	अस्थायी

(गजेटियर्स) विभाग

विशेषाधिकारी, गजेटियर्स	२५० ७५ वि० वे०
-------------------------	-------------------

केन्द्रीय सरकार के विभाग

खंड ३७

कार्यालय महालेखापाल

क्रम संख्या	नाम	वर्तमान पद तथा हंडवार्टर	वेतन	विशेष
१	२	३	४	५
			६०	
१	श्री आर० के० खन्ना	महालेखापाल, राजस्थान, जयपुर	२,०००	वास्तवीय
२	श्री सी० वी० रामाचन्द्रन	उप-महालेखापाल एडमिनिस्ट्रेशन, जयपुर	७६० ७५	वास्तवीय वि० वे०
३	श्री टी० सी० गुरी	उप-महालेखापाल, ओ० ए० डी०, जयपुर	८५० २०० १००	वास्तवीय स्थानापन्न वि० वे०
४	श्री ए० के० श्रीवास्तव	उप-महालेखापाल, कार्य, जयपुर	४७० १७०	वास्तवीय स्थानापन्न
५	श्री आर० रू० माउन्दर	उप-महालेखापाल, राजस्थान, जोधपुर	६०० १९०	वास्तवीय स्थानापन्न
६	श्री मनजीतसिंह	सहायक महालेखापाल, जयपुर	४१० १९०	वास्तवीय स्थानापन्न
७	श्री एस० पी० जोशी	सहायक महालेखापाल, जयपुर	४१०	वास्तवीय
८	श्री वाई० पी० पासी	सहायक महालेखापाल, जयपुर	४१०	"
९	श्री वी० नटराजन	सहायक महालेखापाल, जयपुर	४१०	"
१०	श्री जी० एन० माथुर	सहायक लेखाधिकारी, जयपुर	७१०	"
११	श्री के० सी० महाजन	सहायक लेखाधिकारी, जयपुर	८५०	"

क्रम संख्या	नाम	वर्तमान पद तथा हैडक्वार्टर	वेतन	विशेष
१	२	३	४	५
			६०	
१२	श्री एच० एल० तलवार	सहायक लेखाधिकारी, जयपुर	८५०	वास्तवीय
१३	श्री एम० एम० वशिष्ठ	सहायक लेखाधिकारी, जयपुर	८५०	"
१४	श्री पी० आर० प्रोतरा	सहायक लेखाधिकारी, जयपुर	७८०	"
१५	श्री जी० पी० अग्रवाल	सहायक लेखाधिकारी, जयपुर	६५०	
१६	श्री एल० एम० साभरवाल	सहायक लेखाधिकारी, जयपुर	७४५	राजस्थान सरकार की सेवा में प्रति नियुक्ति पर
१७	श्री आर० के० अनेजा	सहायक लेखाधिकारी, जयपुर	७१०	वास्तवीय
१८	श्री आई० एन० सक्सेना	सहायक लेखाधिकारी, जयपुर	६४०	"
१९	श्री वी० पी० शर्मा	सहायक लेखाधिकारी, जयपुर	५९०	"
२०	श्री आर० सी० महारा	सहायक लेखाधिकारी, जोधपुर	८५० १००	वास्तवीय वि० व०
२१	श्री ई० एच० लोवो	सहायक लेखाधिकारी, जोधपुर	८००	वास्तवीय
२२	श्री आर० कस्तूरी रंगन	सहायक लेखाधिकारी, जोधपुर	७७०	"
२३	श्री यू० रामाचन्द्र राव	सहायक लेखाधिकारी, जयपुर	५३०	स्थानापन्न
२४	श्री वी० कुमार	सहायक लेखाधिकारी, जयपुर	५००	"
२५	श्री एस० एल० भाटिया	सहायक लेखाधिकारी, जयपुर	६२०	"

क्रम संख्या	नाम	वर्तमान पद तथा हंड क्वार्टर	वेतन	विशेष
१	२	३	४	५
२६	श्री वी० डी० संकसेना	सहायक लेखाधिकारी, जयपुर	६० ५६०	स्थानापन्न
२७	श्री ई० वी० चन्द्रशेखरन	सहायक लेखाधिकारी, जयपुर	५६०	"
२८	श्री आर० एन० वर्मा	सहायक लेखाधिकारी, जयपुर	५६०	"
२९	श्री रिछपाल सिंह	सहायक लेखाधिकारी, जयपुर	५७० १००	वास्तवीय वि० वे०
३०	श्री मदन लाल	सहायक लेखाधिकारी, जोधपुर	५७०	स्थानापन्न
३१	श्री स्वामीचरण	सहायक लेखाधिकारी, जोधपुर	५००	"

अल्प वचत योजना

खंड ३८

वित्त मंत्रालय

क्रम संख्या	नाम	वर्तमान पद तथा हंड क्वार्टर	वेतन	विशेष
१	२	३	४	५
१	श्री एस० एम० माथुर, बी०ए०, एल० एल०बी,	रीजनल नेशनल सेविंग्स ऑफिसर, राजस्थान, जयपुर	६० ३५० ८५०	

खंड ३६

केन्द्रीय आबकारी विभाग

क्रम सं०	नाम	वर्तमान पद तथा हंडक्वार्टर	वेतन	विशेष
१	२	३	४	५
			६०	
१	श्री भारत दास, बी० एससी०, एलएल०बी०,	असिस्टेन्ट क्लेकटर, अजमेर	६५०	
२	श्री सुखदेव वर्मा	सुपरिन्टेन्डेन्ट, जोधपुर	३५०	
३	श्री सी० एम० बालचन्दानी, बी० ए०	सुपरिन्टेन्डेन्ट, अजमेर	४७५	
४	श्री हीरा राम	सुपरिन्टेन्डेन्ट, उदयपुर	३५०	
५	श्री वाई० आर० कवर, बी० ए०, डी० पी० ई०	सुपरिन्टेन्डेन्ट, उदयपुर	४२५	
६	श्री के० जी० सूजी, बी० ए० (आनर्स)	सुपरिन्टेन्डेन्ट, बाड़मेर	३५०	

खंड ४०

नेशनल सैम्पल सर्वे विभाग, जयपुर

क्रम संख्या	नाम	वर्तमान पद तथा हंडक्वार्टर	वेतन	विशेष
१	२	३	४	५
			६०	
१	श्री एस० एन० श्रीवास्तव, एम० ए०,	सुपरिन्टेन्डेन्ट, नेशनल सैम्पल सर्वे राजस्थान एवं अजमेर ब्लॉक, जयपुर	२७५	

खंड ४१

आयकर विभाग

क्रम सं०	नाम	वर्तमान पद तथा हंडक्वार्टर	वेतन	विशेष
१	२	३	४	५
			रु०	
१	श्री इ० सी० बहरो	इन्सपेक्टिंग सहायक कमिश्नर आफ इन्कम टैक्स, राजस्थान और मध्य- भारत, जयपुर	१,३००	
२	श्री पी० एल० मलहोत्रा	अपीलान्ट सहायक कमिश्नर आफ इन्कम टैक्स, जयपुर, रेन्ज, जयपुर	१,०००	
३	श्री ए० जी० एम० बसन्ती	अपीलान्ट सहायक कमिश्नर आफ इन्कम टैक्स, जोधपुर रेन्ज, जोधपुर	१,०००	
४	श्री ताजुद्दीन अहमद	इन्कम टैक्स ऑफिसर, ए वार्ड, जयपुर	७२०	
५	श्री आर० आर० गुप्ता	इन्कम टैक्स ऑफिसर, एस्टेट ड्यूटी कम आई० टी० सिविल, जयपुर	६४०	
६	श्री सी० के० टिक्कू	इन्कम टैक्स ऑफिसर, अजमेर	४१०	
७	श्री राजेन्द्र सिंह	इन्कम टैक्स ऑफिसर, ए वार्ड, कोटा	३५०	
८	श्री आर० एम० मलहोत्रा	इन्कम टैक्स ऑफिसर, बी वार्ड, जयपुर	३५०	
९	श्री ज्ञानचन्द बाहल	इन्कम टैक्स ऑफिसर, सी वार्ड, जयपुर	४७५	
१०	श्री एन० पी० वशिष्ठ	इन्कम टैक्स ऑफिसर, डी वार्ड, जयपुर	३५०	
११	श्री डी० चेतनराम	इन्कम टैक्स ऑफिसर, ई वार्ड, जोधपुर	३५०	
१२	श्री बहादुर चंद	इन्कम टैक्स ऑफिसर, एफ वार्ड, जयपुर	२७५	

क्र. सं.	नाम	वर्तमान पद	वेतन	विशेष
१	२	३	४	५
			६०	
१३	श्री एच० आर० लोढा	इन्कम टैक्स ऑफिसर, जी वार्ड, जयपुर	३२५	
१४	श्री आर० के० भल्ला	इन्कम टैक्स ऑफिसर, ए वार्ड, जोधपुर	४५०	
१५	श्री सी० वी० गोविल	इन्कम टैक्स ऑफिसर, बी वार्ड, जोधपुर	४५०	
१६	श्री पी० सी० बी० एल० गुप्ता	इन्कम टैक्स ऑफिसर, सी वार्ड, जोधपुर	३७५	
१७	श्री वी० आर० कुम्भट	इन्कम टैक्स ऑफिसर, डी वार्ड, जोधपुर	३५०	
१८	श्री ओ० पी० बन्सल	इन्कम टैक्स ऑफिसर, ए वार्ड, उदयपुर	४००	
१९	श्री एस० आर० जत्था	इन्कम टैक्स ऑफिसर, बी वार्ड, उदयपुर	२७५	
२०	श्री गोविन्दराम	इन्कम टैक्स ऑफिसर, सी वार्ड, उदयपुर	३२५	
२१	श्री एल० आर० व्यास	इन्कम टैक्स ऑफिसर, ए वार्ड, बीकानेर	४५०	
२२	श्री बी० के० उज्वल	इन्कम टैक्स ऑफिसर, बी वार्ड, बीकानेर	४००	
२३	श्री आर० सी० खेवानी	इन्कम टैक्स ऑफिसर, ए वार्ड, श्रीगंगानगर	३५०	
२४	श्री जीवनलाल	इन्कम टैक्स ऑफिसर, बी वार्ड, श्री गंगानगर	३००	
२५	श्री एन० एल० जैन	इन्कम टैक्स ऑफिसर, बी वार्ड, कोटा	३५०	
२६	श्री आर० के० पुरी	इन्कम टैक्स ऑफिसर, प्रोजेक्ट सिकिल कोटा	२७५	
२७	श्री आनन्द सलूष	इन्कम टैक्स ऑफिसर, अलवर	४००	
२८	श्री एल० सी० गुप्ता	इन्कम टैक्स ऑफिसर, भरतपुर	३७५	
२९	श्री जी० एम० सिधवी	इन्कम टैक्स ऑफिसर, व्यावर	४७५	

खंड ४२

पोस्ट एवं टेलीग्राफ विभाग

क्रम संख्या	नाम	वर्तमान पद तथा हंडवार्टर	वेतन
१	२	३	४

र०

प्रथम श्रेणी

१	मेजर जी० एन० रीवेलो, बी० ए०	डाईरेक्टर, पोस्ट एवं टेलीग्राफ, राजस्थान सर्कल, जयपुर	१३००-६०-१६००
२	श्री० एस० एल० राजन	डिप्टी डाईरेक्टर, पोस्ट एवं, टेलीग्राफ, राजस्थान सर्कल, जयपुर (प्रथम)	६००-११५०
३	श्री चन्नसिंह	डिप्टी डाईरेक्टर, पोस्ट एवं, टेलीग्राफ, राजस्थान सर्कल, जयपुर (द्वितीय)	६००-११५०
४	श्री पी० डी० गंगुली	मीनियर, सुपरिन्टेन्डेन्ट, पोस्ट ऑफिस, अजमेर	६००-११५०
५	श्री एस० सुब्रह्मण्यम	डी० ई० टी, अजमेर	६००-११५०
६	श्री एम० एम० मिश्रा,	डी० ई० टी० जयपुर	६००-११५०
७	श्री सरदारसिंह	सुपरिन्टेन्डेन्ट, आर० एम० एस०, जे० डिवीजन, अजमेर	३५०-८५०
८	श्री पी० एस० राघवाचारी	सुपरिन्टेन्डेन्ट, पोस्ट आफिस, जयपुर	३५०-८५०

द्वितीय श्रेणी

९	श्री दिलशाद राय	सर्किल, कम्प्लेन्ट्स ऑफिसर, पोस्ट एवं टेलीग्राफ, राजस्थान सर्किल, जयपुर	२७५-८०० १०० वि० वे०
१०	श्री ए० एस० पावले	सहायक डाईरेक्टर (मेल), पोस्ट एवं टेलीग्राफ, राजस्थान सर्किल, जयपुर	२७५-८०० १०० वि० वे०
११	श्री एम० एल० जर्मा	सहायक डाईरेक्टर (एस्टेब्लिशमेन्ट) 'पोस्ट एवं टेलीग्राफ', राजस्थान सर्किल, जयपुर	२७५-८०० १०० वि० वे०

क्र०सं०	नाम	वर्तमान पद तथा हंडक्वार्टर	वेतन
	२	३	४
			रु०
१२	श्री श्रीलाल	पर्सनल असिस्टेन्ट (ट्रेफिक), पोस्ट एवं टेलीग्राफ, राजस्थान सर्किल, जयपुर	२७५-८०० १०० वि० वे०
१३	श्री एस० बी० खारचे	सहायक इन्जीनियर (बिल्डिंग्स), पोस्ट एवं टेलीग्राफ, राजस्थान सर्किल, जयपुर	२७५-८००
१४	श्री एस० एल० चड्डा	सहायक इन्जीनियर (एस्टीमेट्स), पोस्ट एवं टेलीग्राफ, राजस्थान सर्किल, जयपुर	२७५-८००
१५	श्री एन० पी० अरुणाचलम	सहायक इन्जीनियर (वायरलेस), जोधपुर	२७५-८००
१६	श्री एन० पी० भटनागर	सुपरिन्टेन्डेन्ट, पोस्ट ऑफिस, भरतपुर	२७५-८००
१७	श्री आर० आर० सोनाकिया	सुपरिन्टेन्डेन्ट, पोस्ट ऑफिस, जोधपुर	२७५-८००
१८	श्री जी० एल० नारुला	सुपरिन्टेन्डेन्ट, पोस्ट आफिस, बीकानेर	२७५-८००
१९	श्री बी० एस० भटनागर	पोस्ट मास्टर, अजमेर	२७५-८००
२०	श्री बी० एम० मुरवाहा	एस० डी० ओ० टी०, जोधपुर	२७५-८००
२१	श्री ओ० एन० भोला	एस० डी० ओ० टी०, अजमेर	२७५-८००
२२	श्री ओ० एन० काकरिया	एस० डी० ओ० टी०, बीकानेर	२७५-८००
२३	श्री के० सी० गुप्ता	एस० डी० ओ० टी०, कोटा	२७५-८००
२४	श्री आर० आर० भटनागर	एस० डी० ओ० टी०, जयपुर	२७५-८००
२५	श्री ओ० पी० चौपड़ा	एस० डी० ओ० पी०, जयपुर	२७५-८००
२६	श्री एस० डी० शर्मा	एस० डी० ओ० पी०, जोधपुर	२७५-८००
२७	श्री जे० के० सेन	सुपरिन्टेन्डेन्ट, सी० टी० ओ०, अजमेर	२७५-८००
२८	श्री एच० बी० क्लैस	सुपरिन्टेन्डेन्ट, सी० टी० ओ०, जयपुर	२७५-८००
२९	श्री एच० एच० पी० सक्सेना	सी० ओ० टी०, अजमेर	२७५-८००

खंड ४३

रेल्वे के अधिकारी

(पश्चिमी रेल्वे के अधिकारी)

संख्या क्रम	नाम	वर्तमान पद	हेडक्वार्टर
१	२	३	४
१	श्री ए० सी० रोबर्ट्स	सहायक इन्जीनियर	वांदीकुई
२	डा०के०एन०एल०एन० आयंगर	सहायक मेडिकल ऑफिसर	वांदीकुई
३	श्री के० आर० आर० आयंगर	रीजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट	जयपुर
४	श्री ए० एच० खान	रीजनल परसोनल ऑफिसर	जयपुर
५	श्री वी० एन० बनजी	सहायक परसोनल ऑफिसर	जयपुर
६	श्री कपूर चन्द	रीजनल अकाउन्ट्स ऑफिसर	जयपुर
७	श्री जी० एल० धमीजा	रीजनल ओपरेटिंग सुपरिन्टेन्डेन्ट	जयपुर
८	श्री एल० एस० पिन्टो	सहायक ओपरेटिंग सुपरिन्टेन्डेन्ट	जयपुर
९	श्री एस० वी० गुप्ता	रीजनल कॉमर्शियल सुपरिन्टेन्डेन्ट	जयपुर
१०	श्री एस० आर० बनजी	सहायक कॉमर्शियल सुपरिन्टेन्डेन्ट	जयपुर
११	श्री एम०जी०एस०आयंगर	रीजनल इन्जीनियर (प्रथम)	जयपुर
१२	श्री के० पी० खैर	रीजनल इन्जीनियर (द्वितीय)	जयपुर
१३	श्री पी० डी० गुप्ता	सहायक इन्जीनियर (उत्तर)	जयपुर
१४	श्री ए० आर० मन्दीजा	सहायक इन्जीनियर(दक्षिण)	जयपुर
१५	श्री ई० लेवोचार्डेरी	सहायक सिगनल एवं टेलीकम्युनिकेशन इन्जीनियर	जयपुर
१६	श्री के० श्रीनिवासन	सहायक इलेक्ट्रिकल इन्जीनियर	जयपुर

क्र.सं.	नाम	वर्तमान पद	हैडक्वार्टर
१	२	३	४
१७	श्री एन० जी० जोशी	रीजनल मेकेनिकल इन्जीनियर	जयपुर
१८	श्री ए०एन० वान्चू	सहायक मेकेनिकल इन्जीनियर	जयपुर
१९	श्री पी० एन० टिक्कू	सहायक वर्कस मैनेजर	जयपुर
२०	श्री डब्ल्यू० एच० ए० ग्रैनि	सुपरिन्टेन्डन्ट, रेल्वे ट्रेनिंग स्कूल	उदयपुर
२१	श्री आर० पी० शर्मा	सहायक इन्जीनियर	उदयपुर
२२	श्री एस० के वोन्ट्रा	सहायक मेडिकल ऑफिसर	उदयपुर
२३	श्री० आई० सी० वाहरी	रीजनल सुपरिन्टेन्डन्ट	अजमेर
२४	श्री कुलान द्वालू	रीजनल परसोनल ऑफिसर	अजमेर
२५	श्री के० बी० एल० कपूर	सहायक परसोनल ऑफिसर	अजमेर
२६	श्री जे० एस० हाजला	सहायक परसोनल ऑफिसर	अजमेर
२७	श्री यू० एल० कोठारी	रीजनल अकाउन्ट्स ऑफिसर	अजमेर
२८	श्री आर० जे० मेहता	रीजनल ओपरेटिंग सुपरिन्टेन्डेन्ट	अजमेर
२९	श्री एम० बी० मेवावाला	सहायक ओपरेटिंग सुपरिन्टेन्डेन्ट	अजमेर
३०	श्री ए० आर० अमवानी	रीजनल कॉर्माशियल सुपरिन्टेन्डेन्ट	अजमेर
३१	श्री एम० सी० कुदारी	रीजनल इन्जीनियर (प्रथम)	अजमेर
३२	श्री बी० एन० दत्त	रीजनल इन्जीनियर (द्वितीय)	अजमेर
३३	श्री एल० एस० डेविड	सहायक इन्जीनियर	अजमेर
३४	श्री टी० सी० जैन	रीजनल सिगनल एवं टेलीकम्युनिकेशन इन्जीनियर (वर्क शॉप)	अजमेर
३५	श्री ई० ए० चटराटन	सहायक सिगनल एवं टेलीकम्युनिकेशन इन्जीनियर (वर्क शॉप)	अजमेर
३६	श्री आर० जे० वाटलीवाला	रीजनल इलेक्ट्रिकल इन्जीनियर (वर्क शॉप)	अजमेर

क्र.सं.	नाम	वर्तमान पद	हैंडक्वार्टर
१	२	३	४
३७	श्री नारायण सिंह	सहायक इलेक्ट्रिकल इन्जीनियर (वर्क शॉप)	अजमेर
३८	श्री आर० एम० पटेल	डिप्टी चीफ मेकेनिकल इन्जीनियर (वर्क शाप)	अजमेर
३९	श्री एल० एम० माथुर	रीजनल मेकनिकल इन्जीनियर	अजमेर
४०	श्री पी० एन० झा	सहायक मेकेनिकल इन्जीनियर	अजमेर
४१	श्री श्याम करण कौशिक	सहायक सिक्यूरिटी ऑफिसर	अजमेर
४२	डा० अमर चंद	रीजनल मेडिकल ऑफिसर	अजमेर
४३	श्री वी० एन० अगरका	डिस्ट्रिक्ट कन्ट्रोलर ऑफ स्टोर्स	अजमेर
४४	श्री पी० भाला	वर्कस मैनेजर	अजमेर
४५	श्री के० रंगाराव	वर्कस मैनेजर	अजमेर
४६	श्री० जी० एस० कांग	सहायक वर्कस मैनेजर	अजमेर
४७	श्री जे० एस० गुप्ता	सहायक वर्कस मैनेजर	अजमेर
४८	श्री एफ० मेकविलसन	सहायक वर्कस मैनेजर	अजमेर
४९	श्री वी० एन० कोठारी	सहायक वर्कस मैनेजर	अजमेर
५०	श्री आर० टी० त्रिवेदी	सीनियर परसोनल आफिसर (वर्क शॉप)	अजमेर
५१	श्री आनन्द प्रकाश	सहायक परसोनल ऑफिसर (वर्क शॉप)	अजमेर
५२	श्री वी० डी० अग्रवाल	सहायक केमिस्ट एवं मेटेलेरजिस्ट	अजमेर
५३	श्री एच० ई० वोजाल्ट	पी० ए०, डिप्टी सी० एम० ई० (डब्ल्यू)	अजमेर
५४	श्री अधिशेष झआइर	डिप्टी सी० ए० ओ० (टी० ए०)	अजमेर
५५	श्री वृजलाल ग्रोवर	एस० ए० ओ० (वर्क शॉप एवं स्टोर)	अजमेर
५६	श्री एन० पी० पुरी	सहायक एकाउन्ट्स ऑफिसर (टी० ए०)	अजमेर
५७	श्री औंकार सील	ए० ए० ओ० (गुड्स)	अजमेर
५८	श्री पी० एन० गुप्ता	ए० ए० ओ० कोचिंग	अजमेर
५९	श्री ए० अरनजी	कम्पाइलेशन ऑफिसर	अजमेर

(उत्तर रेल्वे के अधिकारी)

क्र. सं०	नाम	वर्तमान पद तथा हैडक्वार्टर	वेतन
१	२	३	४
			रु०
१	श्री बी० डी० मेहरा	डिविजनल सुपरिन्टेंडेंट, बीकानेर	१,३६०
२	श्री हरनामसिंह	डिविजनल परसनल ओफिसर, बीकानेर	९२०
३	श्री मेहतावासिंह	सहायक परसनल ओफिसर, बीकानेर	६७०
४	श्री डी०एल०माथुर	सहायक एकाउन्ट्स ओफिसर, जोधपुर	४४०
५	श्री एल०एल० संचेती	सहायक एकाउन्ट्स ओफिसर, बीकानेर	५००
६	डा० डी०डी० अग्रवाल	सहायक मेडिकल ऑफिसर, बीकानेर	४२५
७	डा० एच०एस०अलुवालिया	सहायक मेडिकल ऑफिसर, जोधपुर	४५०
८	श्री एच०डी० भट्टा	डिविजनल मेकेनिकल इंजीनियर, बीकानेर	५३०
९	श्री के०एल० कवरुड	सहायक एकाउन्ट्स ऑफिसर, बीकानेर	५३०
१०	श्री वी०पी० सोनी	वर्क्स मनेजर, बीकानेर	७२०
११	श्री जे० एन० काटजू	सहायक मेकेनिकल इंजीनियर, बीकानेर	५६०
१२	श्री गुरचरणसिंह	सहायक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, बीकानेर	४००
१३	श्री एम० स्वरूप	सहायक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जोधपुर	६५०
१४	श्री टी०एन० जोशी	डिविजनल इंजीनियर, बीकानेर	८४०
१५	श्री के०आर० जूरमलानी	डिविजनल इंजीनियर, बीकानेर	७४०
१६	श्री के०एस०गिल	सहायक इंजीनियर, बीकानेर	४७५
१७	श्री कुन्दनलाल	सहायक इंजीनियर, हनुमानगढ़	३८०

क्र.सं०	नाम	वर्तमान पद तथा हैड क्वार्टर	वेतन
१	२	३	४
१८	श्री टी०आर० सूरी	सहायक इंजीनियर, रतनगढ़	६५०
१९	श्री कर्तारसिंह	सहायक इंजीनियर, हनुमानगढ़	००
२०	श्री गोपीनाथ पुरोहित	सहायक सिवयोरिडि ओफिसर, बीकानेर	४५०
२१	श्री लालचन्द भसीन	डिविजनल कमर्शियल सुपरिन्टेन्डेन्ट, जोधपुर	७२०
२२	श्री मानसिंह	डिविजनल कमर्शियल सुपरिन्टेन्डेन्ट, बीकानेर	९२०
२३	श्री के० बी० माथुर	डिविजनल ओपरेटिंग सुपरिन्टेन्डेन्ट, बीकानेर	९६०
२४	श्री प्रोमिन्द्रसिंह	डिविजनल ओपरेटिंग सुपरिन्टेन्डेन्ट, जोधपुर	८००
२५	श्री आर० के० सहगल	सहायक ट्रेफिक सुपरिन्टेन्डेन्ट, बीकानेर	५००
२६	श्री गुजरसिंह	सहायक ट्रेफिक सुपरिन्टेन्डेन्ट, डिविजन दिल्ली	५६०
२७	श्री ब्रह्मानन्द	सहायक ट्रेफिक सुपरिन्टेन्डेन्ट, बीकानेर	५००
२८	श्री दीनदयाल शर्मा	सहायक ट्रेफिक सुपरिन्टेन्डेन्ट, जोधपुर	५६०
२९	श्री लालसिंह उज्वल	सहायक ट्रेफिक सुपरिन्टेन्डेन्ट, जोधपुर	५००
३०	श्री एल०सी माथुर	सहायक कमर्शियल ओफिसर (क्लेम्स) बीकानेर	
३१	श्री भीमसिंह	सहायक ट्रेफिक सुपरिन्टेन्डेन्ट, बीकानेर	४५०
३२	श्री एच०एन० मिश्र	सहायक ट्रेफिक सुपरिन्टेन्डेन्ट, जोधपुर	४००
३३	श्री सी० एन० लफरे	सहायक सिगनल टेली कम्युनिकेशन इंजीनियर, बीकानेर	५६०
३४	श्री बी० डी० गौड़	डिविजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट, जोधपुर	१,३६०
३५	श्री एम० वी० वसरुवर	डिविजनल इंजीनियर, जोधपुर	५९०

क्र.सं.	नाम	वर्तमान पद तथा हेडक्वार्टर	वेतन
१	२	३	४
३६	श्री जे० के० माथुर	डिविजनल इंजीनियर, जोधपुर	५९०
३७	श्री एस० आर जैन	सहायक इंजीनियर, जोधपुर	३५०
३८	श्री सी० एल० खन्ना	सहायक इंजीनियर, जोधपुर	..
३९	श्री अमरनाथ	सहायक इंजीनियर, जोधपुर	४२५
४०	श्री बी० एस० गुप्ता	सहायक इंजीनियर (फ्लेड्स), जोधपुर	३०५
४१	श्री जी० सी० लोधा	डिविजनल परसनल ओफिसर, जोधपुर	८७५.०६
४२	श्री ओमप्रकाश	सहायक परसनल ओफिसर, जोधपुर	८७५
४३	श्री पी०बी० लाल	डिविजनल सिगनल टेली कम्युनिकेशन इंजीनियर, जोधपुर	..
४४	श्री सी० परमुरामन	डिस्ट्रिक्ट कन्ट्रोलर ओफ स्टोर्स, जोधपुर	६४०
४५	श्री झूमरलाल आसोपा	सहायक कन्ट्रोलर ओफ स्टोर्स, जोधपुर	६५०
४६	श्री अमरजीतसिंह	वर्कस मैनेजर, जोधपुर	६८०
४७	श्री पी० एन० हाण्डा	सहायक वर्कस मैनेजर, बीकानेर	५५०
४८	श्री बी० डी० शर्मा	सहायक वर्कस मैनेजर, जोधपुर	४२०
४९	श्री एल० एस० गुप्ता	डिविजनल मेकेनिकल इंजीनियर, जोधपुर	६८०
५०	श्री एफ० डब्ल्यू० किन्देला	सहायक मेकेनिकल इंजीनियर, जोधपुर	५३०
५१	श्री पी० एल० रावल	सहायक मेकेनिकल इंजीनियर, बीकानेर	३९०
५२	श्री रूपलाल	सहायक परसनल ओफिसर (वर्क शोप) बीकानेर	४७५
५३	श्री किशोरचन्द	सहायक परसनल ओफिसर (वर्कस शोप) जोधपुर	३५०

खण्ड ४४

सैटिलमेन्ट विभाग (वलेम्स)

(भारत सरकार)

संख्या क्रम	नाम	वर्तमान पद तथा हेडक्वार्टर	वेतन
१	२	३	४
			रु०
१	डा० ताराचन्द, आई० ए० एस०	रीजनल सैटिलमेन्ट कमिश्नर जयपुर,	१,१००
२	श्री झंडासिंह	सहायक सैटिलमेन्ट कमिश्नर, जयपुर	४२०
३	श्री डी० के० किशनाती	सैटिलमेन्ट, आफिसर (रीजनल), जयपुर	५००-३०-७१०
४	श्री के० एल० खन्ना	अकाउन्टस् ऑफिसर	५००-३०-८००
५	श्री बी० एस० महारा	असिस्टेन्ट सैटिलमेन्ट ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेशन, जयपुर	२७५-२५-५००
६	श्री एम० एम० एल० माथुर	सैटिलमेन्ट ऑफिसर सेल्स, जयपुर	५००-३०-७१०
७	श्री० एच० के० लाल	असिस्टेन्ट सैटिलमेन्ट ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेशन, जयपुर	२७५-२५-५००
८	श्री जी० एल० मसानन्द	असिस्टेन्ट सैटिलमेन्ट ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेशन, जयपुर	२७५-२५-५००
९	श्री उमाशंकर श्रीवास्तव	असिस्टेन्ट सैटिलमेन्ट ऑफिसर	२७५-२५-५००
१०	श्री नवलसिंह	असिस्टेन्ट सैटिलमेन्ट ऑफिसर, गंगानगर	२७५-२५-५००
११	श्री हरिश्चन्द्र	असिस्टेन्ट सैटिलमेन्ट, ऑफिसर, रीजनल (आर)	२७५-२५-५००
१२	श्री प्रेमनारायण	असिस्टेन्ट सैटिलमेन्ट ऑफिसर, रीजनल, जयपुर	२७५-२५-५००
१३	श्री एन० बी० गोरवानी	असिस्टेन्ट सैटिलमेन्ट ऑफिसर, रीजनल, जयपुर	२७५-२५-५००
१४	श्री एन० पी० पाण्डे	असिस्टेन्ट सैटिलमेन्ट ऑफिसर, गंगानगर	२७५-२५-५००
१५	श्री रत्नसिंह	सैटिलमेन्ट ऑफिसर, गंगानगर	५००-३०-७१०

क्रम सं०	नाम	वर्तमान पद और हैडक्वार्टर	वेतन
१	२	३	४
१६	ड० के० के० वर्मा	असिस्टेन्ट सेंटिलमैन्ट ऑफिसर, रीजनल, जयपुर	२७५-२५-५००
१७	ड० टीकमदास गंहीमल	सेंटिलमैन्ट ऑफिसर, जयपुर	५००-३०-७१०
१८	श्री जी० पी० माथुर	असिस्टेन्ट सेंटिलमैन्ट ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेशन, जयपुर	२७५-२५-५००
१९	श्री घनश्यामसिंह	असिस्टेन्ट सेंटिलमैन्ट ऑफिसर, अलवर	२७५-२५-५००
२०	श्री जी० सी० महारा	असिस्टेन्ट सेंटिलमैन्ट ऑफिसर, जयपुर	२७५-२५-५००
२१	श्री प्रभुशंकर माथुर	असिस्टेन्ट सेंटिलमैन्ट ऑफिसर, अजमेर	२७५-२५-५००
२२	श्री एम० जी० तोसनीवाल	सेंटिलमैन्ट ऑफिसर, अजमेर	५००-३०-७१०
२३	श्री जयप्रकाश	असिस्टेन्ट सेंटिलमैन्ट ऑफिसर, अजमेर	२७५-२५-५००
२४	श्री आर० के० गुप्ता	असिस्टेन्ट सेंटिलमैन्ट ऑफिसर, अजमेर	२७५-२५-५००

खंड ४५

सिविल एव्रियेशन डिपार्टमेन्ट

क्रम संख्या	नाम, जन्म-दिन तथा जन्म-स्थान	वर्तमान पद	वेतन	विशेष
१	२	३	४	५
१	श्री आर० एल नंयर	कम्युनिकेशन ऑफिसर इन्चार्ज, एरोनाटिकल कम्युनिकेशन स्टेशन, एरोड्रोम, जोधपुर	६५०	
२	श्री बी० जी० शाह	ऑफिसर इन्चार्ज, एरोनाटिकल कम्युनिकेशन स्टेशन, एरोड्रोम, जयपुर	४७५	
३	श्री ए० के० मुकर्जी	सीनियर एरोड्रोम ऑफिसर, जयपुर	९६०	लेफ्टिनेन्ट कमाण्डर आई० एन० वी० आर०

खंड ४६

मेट्रोलोजिकल विभाग

क्रम संख्या	नाम	वर्तमान पद	वेतन
१	२	३	४
१	श्री डी० वी० राव	मेट्रोलोजिस्ट, जोधपुर	६० ६४०
२	श्री ए० के० मुकजी	सहायक मेट्रोलोजिस्ट, जोधपुर	३७५

खंड ४७

कार्यालय सहायक कलेक्टर अफ्रीम

क्रम संख्या	नाम	वर्तमान पद	वेतन
१	२	३	४
१	श्री एस० पी० अस्थाना, बी० एससी०, एल० एल० वी०	डिस्ट्रिक्ट ओपियम आफिसर झालावाड़	६० ४७५
२	श्री के० एल० बशीना, एम० ए०	डिस्ट्रिक्ट ओपियम आफिसर, कोटा	४२५
३	श्री एन० के० हांडू, बी० ए०	डिस्ट्रिक्ट ओपियम ऑफिसर चित्तौ डगढ़	४७५

खंड ४८

राजस्थान में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के एजेंट

क्र. सं.	नाम	कार्य स्थान
१	२	३
१	श्री एस० सी० वोडात	जयपुर
२	श्री एस० बी० तालगोरी	जोधपुर
३	श्री आर० डी० भार्गव	..
४	श्री एस० एन० मुकर्जी	अलवर
५	श्री एम० डब्ल्यू सूले	अजमेर
६	श्री आर० जी० वद्य	व्यावर
७	श्री सी० एन० मूर्ती	सांभर

बैंकिंग ट्रेजरी व सब-ट्रेजरी की सूची

- १ दी बैंक ऑफ बीकानेर लि० बीकानेर, भादरा, बाड़मेर, चूरु, डूंगरगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, (सादुलगढ़), जैसलमेर, जालोर, जालोरीगढ़, (जोधपुर), करनपुर, खेड़तासिटी, नागौर, नीहर, पाली, रायसिंहनगर, रतनगढ़, साडुलपुर (राजगढ़), सरदारशहर, सुजानगढ़, लाडनू ।
- २ दी बैंक ऑफ जयपुर लि० जयपुर, सेक्टोरियट, ब्रांच (जयपुर), भरतपुर, दीसा, गंगापुर, हिन्डीन, झुन्झुनू, सीकर, सवाईमाधोपुर ।
- ३ दी बैंक ऑफ राजस्थान लि० उदयपुर, भीलवाड़ा, वारां, चित्तौड़गढ़, रामगंज मंडी, परताबगढ़, टोंक, कोटा, किशनगढ़, (मदनगंज), भवानीमंडी (पंचपहार), बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर ।
- ४ दी पंजाब नेशनल बैंक लि० सिरोही, ह्योगंज, धोलपुर
- ५ दी स्टेट बँक ऑफ इण्डिया रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के लिए जोधपुर, अलवर, अजमेर, व्यावर ।

खंड ४६

जिला की स्वीकृत कार्यकारिणी संख्या

जिलों का नाम	जिलाधीश एवं जिला मजिस्ट्रेट	अतिरिक्त		सब-डिविजनल आफिसर	मजिस्ट्रेट, सिटी मजिस्ट्रेट, स्पेशल मजिस्ट्रेट, रेल्वे मजिस्ट्रेट आदि
		जिलाधीश एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट			
१	२	३	४	५	
बीकानेर	१	..	२	१	
बूंदेलखण्ड	१	..	३	..	
गंगानगर	१	१	५	३	
कुल बीकानेर खंड	३	१	१०	४	
अलवर	१	१	४	५	
भरतपुर	१	१	४	४	
जयपुर	१	२	५	१३	
झुंझुनू	१	..	३	२	
सवाई माधोपुर	१	१	४	२	
सीकर	१	१	३	४	
टोंक	१	..	२	२	
अजमेर	१	१	४	१	
कुल जयपुर खंड	८	७	२९	४१	
बाड़मेर	१	..	२	१	
जैसलमेर	१	..	२	..	
जालौर	१	..	२	२	
जोधपुर	१	१	२	४	
नागौर	१	१	४	३	
पाली	१	१	४	३	
सिरोही	१	..	१	..	
कुल जोधपुर खंड	७	३	१७	१३	

जिलों का नाम	जिलाधीश एवं जिला मजिस्ट्रेट	अतिरिक्त जिलाधीश	सब-डिविजनल ऑफिसर	मजिस्ट्रेट, सिटी मजिस्ट्रेट, स्पेशल मजिस्ट्रेट, रेल्वे मजिस्ट्रेट आदि
१	२	३	४	५
भूंदी	१	०	२	२
मालावाड़	१	०	२	१
कोटा	१	१	५	५
कुल कोटा खंड	३	१	९	८
बांसवाड़ा	१	०	२	०
भीलवाड़ा	१	१	४	३
चित्तौड़गढ़	१	०	५	४
ढूंगरपुर	१	०	१	१
उदयपुर	१	१	६	६
कुल उदयपुर खंड	५	२	१८	१४
कुल योग	१२६	१४	८३	८०

परिशिष्ट

राजस्थान के

क्र. संख्या	राज्य का नाम	गन सेल्यूट			वर्तमान राजा का नाम
		डाइनेस्टिक	पर्सनल	लोकल	
१	२	३	४	५	६
१	अलवर	१५	..	१७	कर्नल हिज हाइनेस महाराजा श्री सवाई सर तेजसिंहजी, अलवरेन्द्रदेव बहादुर, के० सी एस०आई०, महाराजा, अलव
२	बांसवाड़ा	१५	हिज हाइनेस श्री राये रयन महाराजाधिराज महारावल चन्द्रवीरसिंहजी बहादुर, महारावल, बांसवाड़ा
३	भरतपुर	१७	..	१९	लफ्टिनेन्ट कर्नल हिज हाइनेस महाराजा सर त्रिजेन्द्र सवाई त्रिजेन्द्रसिंहजी बहादुर जंग, महाराजा, भरतपुर
४	बीकानेर	१७	..	१९	हिज हाइनेस महाराजाधिराज राज-राजेश्वर नरेन्द्र शिरोमणी महाराजा श्री करनीसिंहजी बहादुर, महाराजा, बीकानेर
५	बूँदी	१७	मेजर हिज हाइनेस महाराजा धिराज महाराव राजा बहादुर सिंहजी बहादुर, एम० सी० महाराव राजा, बूँदी
६	घौलपुर	१५	१७	..	हिज हाइनेस महाराज रान श्री हेमन्तसिंहजी, महाराज राना, घौलपुर (माइनर)
७	डूंगरपुर	१५	हिज हाइनेस राये-रयन महारावल श्री सर लक्ष्मणसिंहजी बहादुर, जी०सी० आई० ई० के० सी० एस० आई०, महारावल, डूंगरपुर

'क'

अनुबन्धनकर्त्ता राज्य

*क्षेत्रफल	*राजस्व	*जनसंख्या	विशेष
७	८	९	१०
३,२१७	७०,००,०००	९,००,०००	
१,६०६	१६,३४,२५६	२,९९,९१३	
१,९७२	६४,९८,०२०	५,०५,६२५	
२३,३१७	२,३९,५१,३३३	१२,९२,९३८	
२,२२०	३३,००,०००	२,४९,३७४	
१,२९३	१५,५३,०००	२,८६,९०१	
१,४६०	२२,००,०००	२,७४,२८२	

क्रम संख्या	राज्य का नाम	गन सेल्यूट			वर्तमान राजा का नाम
		डाइनेस्टिक	पर्सनल	लोकल	
१	२	३	४	५	६
८	जयपुर	१७	..	१९	लेफ्टनेन्ट जनरल हिज हाइनेस राज-राजेन्द्र श्री महाराजा-धिराज सवाई सरमानसिंहजी बहादुर, जी० सी० एस० आई०, जी० सी० आई० ई०, महाराजा, जयपुर
९	जैसलमेर	१५	हिज हाइनेस महाराजाधिराज महारावलजी श्री रघुनार्थसिंहजी बहादुर, महारावल, जैसलमेर
१०	झालावाड़	१३	हिज हाइनेस महाराज-राना महाराजाधिराज श्री हरिश्चन्द्र बहादुर, महाराज-राना झालावाड़
११	जोधपुर	१७	..	१९	हिज हाइनेस राज-राजेश्वर महाराजाधिराज महाराज श्री गजसिंहजी बहादुर महाराजा, जोधपुर (माइनर)
१२	करोली	१७	हिज हाइनेस महाराजा श्री सर गणेशपालदेव बहादुर, यदुकुल चन्द्रभाल, के० सी० एस० आई०, महाराजा, करोली
१३	किसनगढ़	१५	हिज हाइनेस महाराजाधिराज महाराजा श्री सुमेरसिंहजी बहादुर, महाराजा, किसनगढ़
१४	कोटा	१७	ब्रिगेडियर हिज हाइनेस महाराव श्री सर भीमसिंहजी बहादुर, के० सी० एस० आई०, महाराव, कोटा
१५	प्रतापगढ़	१५	हिज हाइनेस महारावल श्री अम्बिकाप्रतापसिंहजी बहादुर, महारावल, प्रतापगढ़
१६	शाहपुरा	९	हिज हाइनेस राजाधिराज शुवर्शनदेवजी, राजा, शाहपुरा

*क्षेत्रफल	*राजस्व	*जनसंख्या	विशेष
७	८	९	१०
१५,६०१	२,८०,५०,०००	३०,४०,८७६	
१६,०६२	५,४०,०००	९३,२४६	
८१३	१०,००,०००	१,२२,२९९	
१६,०७१	२,१६,१०,०००	२५,५५,९०४	
१,२२७	७,००,०००	१,५२,४१३	
८५८	१४,५४,६९०	१,०४,१५५	
५,७२५	५३,००,०००	७,७७,३९८	
८८९	९,८०,०००	९१,९६७	
४०५	४,१८,४००	६१,१७६	

क्रम संख्या	राज्य का नाम	गन सेल्यूट			वर्तमान राजा का नाम
		डाइनेस्टिक	पर्सनल	लोकल	
१	२	३	४	५	६
१७	सिरोही	१५	हिज हाइनेस महाराव श्री अभयसिंहजी, महाराव, सिरोही
१८	ढोंक	१७	हिज हाइनेस अजीज-उद-दौला वजीर-उल-मुल्क मोहम्मद इस्माइल अलीखां बहादुर नवाब, ढोंक
१९	उदयपुर	१९	हिज हाइनेस महाराजाधिराज महाराना श्री भगवतसिंहजी, महाराना, उदयपुर चीफ
१	कुशलगढ़	राव हरेन्द्रकुमारसिंहजी राव, कुशलगढ़
२	लावा	ठाकुर बंसप्रदीपसिंह, चीफ, लावा
३	निमराना	राजा राजेन्द्रसिंह, चीफ निमराना

*क्षेत्रफल	*राजस्व	*जनसंख्या	विशेष
७	८	९	१०
१,९९४	१५,४४,६००	२,३३,८७०	(*) यह सूचना भूतपूर्व चेम्बर ऑफ प्रिन्सेज के सचिवालय द्वारा प्रेषित १९४५-४६ के राजस्व पर आधारित है। जनसंख्या का आधार १९४१ की जनगणना है।
२,५५३	३४,४९,४३२	३,५९,९३३	
१२,९४१	१,३०,००,०००	१९,२६,६९८	
शिप्स			
..	
..	
..	

परिशिष्ट 'ख'

आनुपूर्वी (वारंट ऑफ प्रिसिडेन्स)

- १ भारत के राष्ट्रपति (प्रेसिडेन्ट) ।
- २ भारत के उप-राष्ट्रपति (वाइस प्रेसिडेन्ट) ।
- ३ भारत के प्रधान मंत्री (प्राइम मिनिस्टर) ।
- ४ राज्यपाल (गवर्नर) तथा जम्मू और काश्मीर के सदर-ए-रियासत अपनी अपनी सीमाओं के भीतर ।
- ५ भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति (प्रेसिडेन्ट) और भूतपूर्व गवर्नर जनरल ।
- ६ उप-राज्यपाल (लेफ्टिनेन्ट गवर्नर), अपनी अपनी सीमाओं के भीतर ।
- ७ भारत के मुख्य न्यायाधिपति (चीफ जस्टिस) लोक सभा के अध्यक्ष (स्पीकर) ।
- ८ भारत संघ के मंत्रिमंडल के मंत्री ।
- ९ भारत-रत्न विभूषित महानुभाव (होल्डर्स आफ भारत-रत्न) ।
- १० भारत में साधिकार भेजे गए (अक्रेडिटेड) राजदूत भारत में राष्ट्रकुल (कॉमनवेल्थ) की सरकारों के उच्चायुक्त (हार्ड कश्चनर) ।
- ११ १७ या अधिक बन्दूकों की सलामी वाले भारतीय राज्यों के शासक (रूलर) अपने अपने राज्यों के भीतर ।
- १२ राज्यपाल (गवर्नर) जम्मू और काश्मीर के सदर-ए-रियासत, अपनी अपनी सीमाओं के बाहर ।
- १३ उप-राज्यपाल (लेफ्टिनेन्ट गवर्नर), अपनी अपनी सीमाओं के बाहर ।
- १४ १७ या अधिक बन्दूकों की सलामी वाले भारतीय राज्यों के शासक (रूलर), अपने अपने राज्यों के बाहर ।
- १५ राज्यों के मुख्य मंत्री अपने अपने राज्यों के भीतर ।
- १६ भारत संघ के मंत्री (मंत्रिमंडल के मंत्रियों को छोड़ कर) आयोजन (प्लानिंग) कमिशन के सदस्य, चैयरमेन फाइनेन्स कमिशन ।
- १७ १५, या १३, बन्दूकों की सलामी वाले भारतीय राज्यों के शासक (रूलर) ।
- १८ पूर्वाधिकारी (प्लेनिपोटेन्शियरी) मंत्री और असाधारण दूत (इनवॉय) ।

- १९ केन्द्र प्रशासित राज्यों के मुख्य आयुक्त (चीफ कमिश्नर), अपनी अपनी सीमाओं के भीतर ।
- २० केन्द्र प्रशासित राज्यों के मुख्य मंत्री अपनी अपनी सीमाओं के भीतर ।
- २१ भारत के उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) के न्यायाधीश ।
- २२ भारत के प्रथम श्रेणी के राजदूत (एम्बेसेडर) और आने वाले भारत के प्रथम श्रेणी के राजदूत । भारत में आने वाले विदेशी राजदूत ।
आने वाले भारत के उच्चायुक्त (हाई कमिश्नर) और भारत में आने वाले राष्ट्रजुल (कौन्सिलर) के अन्य देशों के उच्चायुक्त ।
- २३ प्रभारी राजदूत (शार्जडफेयर) और स्थानापन्न उच्चायुक्त (हाई कमिश्नर) एपाएड और अन्तरिम ।
- २४ चीफ ऑफ स्टाफ और महासेनापति (कमान्डर-इन-चीफ) यदि वे पूर्ण जनरल का पद या तुल्य पद धारण करते हों ।
- २५ उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधिपति (चीफ जस्टिस), राज्यों की विधान परिषदों के सभापति, राज्यों की विधान सभाओं के अध्यक्ष ।
- २६ राज्यों के मुख्य मंत्री अपने राज्यों के बाहर ।
भारत संघ के उप-मंत्री ।
भारत के महाप्राधिकर्ता (एटार्नी जनरल) ।
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक (कम्प्ट्रोलर एन्ड ऑडिटर जनरल) ।
राज्य परिषद (कौन्सिल ऑफ स्टेट्स) के उप-सभापति ।
लोक सभा के उपाध्यक्ष (डिप्टी स्पीकर) ।
संसद फाइनेंस कमिशन ।
- २७ चीफ ऑफ स्टाफ और महासेनापति (कमान्डर-इन-चीफ), यदि वे लेफ्टिनेन्ट जनरल का पद या तुल्य पद धारण करते हों ।
- २८ ११ या ९ बन्दूकों की सलासी वाले भारतीय राज्यों के शासक (डलर) ।
- २९ राज्यों के मंत्री ।
- ३० अध्यक्ष, मंच लोक सेवा आयोग (यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन) । मुख्य निर्वाचन आयुक्त (चीफ इलेक्शन कमिश्नर) ।
- ३१ उच्च न्यायालयों के अपर (जूनी) न्यायाधीश ।
- ३२ राज्यों के उपमंत्री ।
राज्यों के विधान परिषदों के उप-सभापति व उपाध्यक्ष ।
- ३३ संसद के सदस्य ।

- ३४ पूर्ण जनरल की पंक्ति या तुल्य पंक्ति के पदाधिकारी ।
 राष्ट्रपति के मंत्री ।
 भारत सरकार के मंत्री और प्रधान मंत्री के प्रमुख निजी सचिव ।
 दूसरी व तीसरी श्रेणी के भारत के राजदूत, व
 दूसरी व तीसरी श्रेणी के आने वाले भारत के राजदूत ।
 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के आयुक्त ।
 मेजर जनरल का पद या तुल्य पद धारण करने वाले स्थानापन्न चीफ ऑफ
 स्टाफ और महासेनापति (कमाण्डर-इन-चीफ)
 केन्द्र प्रशासित राज्यों के मुख्य आयुक्त, अपनी अपनी सीमाओं के बाहर ।
 आने वाले भारत के पूर्णाधिकारी मंत्री (विजिटिंग मिनिस्टर्स प्लेनिपोटेन्शियरी)
 और भारत में आने वाले विदेशी पूर्णाधिकारी मंत्री (मिनिस्टर प्लेनिपोटेन्शियरी) ।
 रेल बोर्ड के अध्यक्ष ।
 रेल के वित्त आयुक्त (फाइनेन्शियल कमिश्नर ।)
 भारत के सोलिसिटर जनरल ।
 सिविकम स्थित राजनीति-पदाधिकारी (पोलिटिकल अफसर) ।
 सचिव राज्य सभा, सचिव मुख्य मंत्री, लोक सभा सचिवालय ।
- ३५ केन्द्र प्रशासित राज्यों के मुख्य मंत्री, अपने अपने राज्यों के बाहर ।
- ३६ केन्द्र प्रशासित राज्यों के अध्यक्ष, अपने राज्यों के भीतर और बाहर ।
- ३७ केन्द्र प्रशासित राज्यों के मंत्री, अपने राज्यों के भीतर और बाहर ।
- ३८ रेल बोर्ड के सदस्य ।
 पूर्णाधिकारी मंत्रियों (मिनिस्टर्स प्लेनिपोटेन्शियरी) से भिन्न विदेशी और
 राष्ट्र कुल (कॉमनवेल्थ) मिशनो के मंत्री ।
 लेफ्टिनेन्ट जनरल की पंक्ति या तुल्य पंक्ति के पदाधिकारी ।
- ३९ अंडमान और निकोबार द्वीपों, त्रिपुरा और मणिपुर के मुख्य आयुक्त, अपनी-अपनी
 सीमाओं के भीतर ।
 भारत सरकार के अपर सचिव ।
 अध्यक्ष, परियात आयोग (टेरिफ कमिशन) ।
 अध्यक्ष, केन्द्रीय जल और विद्युत् शक्ति आयोग (सेन्ट्रल वाटर एन्ड पावर
 कमिशन) ।
 भारतीय कृषिशोध परिषद् के उपाध्यक्ष ।
 वित्त परामर्शदाता, वित्त मंत्रणालय (प्रतिरक्षा) ।
 अध्यक्ष, केन्द्रीय राजस्व बोर्ड ।
 मेजर जनरल की पंक्ति या तुल्य पंक्ति में सशस्त्र सेना के पी० एस० ओ० ।
- ४० राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ।
 राज्यों की सरकारों के मुख्य सचिव ।
 वित्त आयुक्त ।
 संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य ।
 भारतीय जहाजी बड़े के रीयर एडमिरल कमांडिंग ।
 राजस्व बोर्ड के सदस्य ।

४१ महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा ।

महानिदेशक, डाक तार ।

निदेशक, गुप्त वार्ता विभाग (इंटेलिजेन्स व्यूरो) ।

रेलों के महाप्रबन्धक ।

भारत सरकार के स्थापना पदाधिकारी ।

भारत सरकार के संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल के संयुक्त सचिव सहित ।

चौथी श्रेणी के भारत के राजदूत व चौथी श्रेणी के आने वाले भारत के राजदूत,

मेजर जनरल की पंक्ति या तुल्य पंक्ति के पदाधिकारी ।

भारत के महापरिनापक (सर्वेयर जनरल) ।

परिचाल आयोग (टेरिफ कमिशन) के सदस्य ।

राज्यों के पुलिस महानिरीक्षक ।

प्रमंडलों (डिविजनों) के आयुक्त ।

भारत के असेनिक विमान सिविल (एवियेशन) महानिदेशक ।

आपूर्ति और विक्रय (सप्लाइज एन्ड डिस्पोजल्स) के महानिदेशक ।

शास्त्रास्त्र (आर्डनेन्स) फैक्ट्रियों के महानिदेशक ।

भारतीय वायु सेना के सेनापति (कमांडर) ।

वायु सेना के कमांडोर की पंक्ति के कमान पदाधिकारी ।

* कमांडोर और वायु सेना कमांडोर की पंक्तियों के नौ सेना और वायु सेना मुख्यालयों के पी० एस० ओ० ।

अण्डमान और निकोबार द्वीपों, त्रिपुरा और मणिपुर के मुख्य आयुक्त, अपनी अपनी सीमाओं के बाहर ।

महानिदेशक अखिल भारतीय आकाशवाणी ।

राष्ट्रपति के सैन्य सचिव, जब तक वे सरकारी आतिथ्य संस्था (हास्पिटैलिटी ऑर्गेनाइजेशन) के महानिदेशक का पद भी धारण करते हैं ।

भारत के विदेशी और राष्ट्रकुल (कामनवेल्थ) मिशनों के सलाहकार ।

चीफ इन्डस्ट्रियल परामर्शदाता ।

कमाण्डेन्ट, सेंट्रल पुलिस ट्रेनिंग कालेज, आवू ।

चेयरमेन पोर्ट ट्रस्ट (बम्बई) ।

चेयरमेन कलकत्ता पोर्ट आयुक्त ।

चेयरमेन मद्रास पोर्ट ट्रस्ट ।

डेवलपमेन्ट कमिश्नर, काण्डला ।

डाइरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग ।

परामर्शदाता राज्यपाल आसाम (नेफा) ।

प्रिंसिपल, इन्डियन एडमिनिस्ट्रिटिव ट्रेनिंग स्कूल ।

डाइरेक्टर जनरल ऑफ रीसैटलमेन्ट एन्ड एम्प्लायमेन्ट (इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, देहली) एडमिनिस्ट्रेशन मलाया के फेडरेशन के भारत में आयुक्त ।

* यदि कोई पी० एस० ओ० लेफ्टिनेन्ट जनरल का पद धारण करती आनुपूर्वी में उसकी अग्रता वही बनी रहेगी, जो कि आनुपूर्वी के अनुच्छेद ३७ में लेफ्टिनेन्ट जनरल की पंक्ति या तुल्य पंक्ति के पदाधिकारियों के लिए दी गई है ।

टिप्पणी १—आनुपूर्वी में दिया गया क्रम, राज्य और आचारिक अफसरों के लिए है और अधिक साधारण अफसरों पर इसका पालन कड़ाई से नहीं भी किया जा सकता है ।

- टिप्पणी २—यह आनुपूर्वी न तो स्थानीय प्रथा और रूढ़ि के आधार पर भारतीय राज्यों के भीतर शासकों आदि को मिली हुई पूर्वता पर कोई प्रभाव डालेगा और न १५ अगस्त, १९४७, के ठीक पहले लागू शासकों को पारस्परिक स्थानीय पूर्वता पर प्रभाव डालेगा।
- टिप्पणी ३—आनुपूर्वी से उल्लिखित पदाधिकारियों की पंक्ति या क्रम प्रविष्टियों की संख्या के अनुसार होगा जो एक ही संस्था में सम्मिलित किए गए हैं। उनकी परस्पर पूर्वता उक्त संख्या में प्रविष्टि की तारीख के अनुसार होगी।
- टिप्पणी ४—जब संसद के सदस्य प्रमुख राजकीय उत्सवों पर एक साथ आमंत्रित हों तो उनके लिए रक्षित स्थान राजदूत, भारत के मुख्य व्यायाधिपति संसद के अध्यक्ष और राज्यपालों आदि के बाद रखा जायगा।
- टिप्पणी ५—गुप्त वार्ता विभाग (इंटेलिजेन्स ब्यूरो) का निदेशक पुलिस महानिरीक्षक के पहले रहेगा, चाहे अनुच्छेद ४० में उसकी प्रविष्टि की तारीख कोई भी हो।
- टिप्पणी ६—मेजर जनरल, चाहे अनुच्छेद ४० में उनकी प्रविष्टि की तारीख कोई हो, भारतीय नौ सेना के प्रभारी कमीडोरों और भारतीय वायु सेना के कमीडोरों के ऊपर रहेंगे।
- टिप्पणी ७—राज्यों के मुख्य सचिव, राजस्व बोर्ड के सदस्यों से पहले रहेंगे चाहे अनुच्छेद ३९ में प्रविष्टि की तारीख कोई भी हो।
- टिप्पणी ८—आनुपूर्वी के प्रयोजनों के लिए नई दिल्ली, लाल किला (रेड फोर्ट) दिल्ली राज्यों से बाहर समझे जाने चाहिए।
- टिप्पणी ९—राज्य विधान परिषदों के सभापति, विधान सभाओं के अध्यक्षों से ऊपर रहेंगे, यदि वे एक ही तारीख को निर्वाचित हुए हों।
- टिप्पणी १०—अधिक बन्दूकों की सलामी वाले शासक, कम बन्दूकों की सलामी वाले शासकों से पहले रहेंगे। एक ही सलामी वाले शासकों की परस्पर पूर्वता उत्तराधिकार की तारीख के अनुसार होगी।
- टिप्पणी ११—जब तक कोई खास अनुदेश नहीं निकलता, मंत्रिमंडल सचिव (केबिनेट सेक्रेटरी) का स्थान भारत सरकार के सचिवों (सेक्रेटरीज) से पहले होगा, चाहे उक्त पद पर उसकी नियुक्ति की तारीख कोई भी हो।
- टिप्पणी १२—राज्य परिषदों के सदस्य, जो देहली में हो, राजकीय उत्सवों में आमंत्रित हों तो उनका स्थान संसद सदस्यों के बाद में होगा।

परिशिष्ट 'ग'

राजस्थान में १९५७ की साल में होने वाली सार्वजनिक छुट्टियों की सूची

क्रम संख्या	छुट्टियों का नाम	मास तथा दिनांक	वार	छुट्टियों की संख्या
१	नूतन वर्ष दिवस	१-१-५७	संगलवार	१
२	श्री गुरु गोविन्दसिंह का जन्म दिवस	८-१-५७	गुरुवार	१
३	मकर संक्रान्ति	१४-१-५७	सोमवार	१
४	गणराज्य दिवस	२६-१-५७	शनिवार	१
५	महाशिव रात्री	२७-२-५७	बुधवार	१
६	होली	१५-३-५७ १६-३-५७ १७-३-५७	शुक्रवार शनिवार रविवार	३
७	स्थापन नवरात्रा	१-४-५७	सोमवार	१
८	रामनवमी	८-४-५७	सोमवार	१
९	महावीर जयन्ती	१२-४-५७	शुक्रवार	१
१०	ईद-उल-फितर	} २-५-५७	गुरुवार	१
११	अक्षय तृतीया			
१२	बुद्ध जयन्ती	१३-५-५७	सोमवार	१
१३	प्रताप जयन्ती	१-६-५७	शनिवार	१
१४	ईद-उल जुहा	९-७-५७	संगलवार	१
१५	सुहर्षम	७-८-५७	बुधवार	१
१६	रक्षावन्धन	१०-८-५७	शनिवार	१
१७	स्वतंत्रता दिवस	१५-८-५७	गुरुवार	१
१८	"	१६-८-५७	शुक्रवार	१

क्र.सं. संख्या	छुट्टियों का नाम	मास तथा दिनांक	वार	संख्या छुट्टियों की
१९	जन्माष्टमी	१९-८-५७	सोमवार	१
२०	गणेश चतुर्थी	२८-८-५७	बुधवार	१
२१	सम्बतसरी	२९-८-५७	गुरुवार	१
२२	अन्नत चतुर्दशी	७-९-५७	शनिवार	१
२३	सर्व-पितृ-श्राद्ध	२३-९-५७	सोमवार	१
२४	स्थापन नवरात्रा	२४-९-५७	मंगलवार	१
२५	दशहरा	१-१०-५७ २-१०-५७ ३-१०-५७	मंगलवार बुधवार गुरुवार	३
२६	गांधी जयन्ती	२-१०-५७	बुधवार	१
२७	बारावफात	७-१०-५७	सोमवार	१
२८	दीपमालिका	२२-१०-५७ २३-१०-५७ २४-१०-५७	मंगलवार बुधवार गुरुवार	३
२९	राजस्थान दिवस	१-११-५७	शुक्रवार	१
३०	श्री गुरु नानक देव का जन्म दिवस	७-११-५७	गुरुवार	१
३१	क्रिसमस	२५-१२-५७	बुधवार	१
३२	श्री गुरु गोविन्दसिंह का जन्म दिवस	२८-१२-५७	शनिवार	१
३३	सूर्य-ग्रहण			

टिप्पणी:— १. साल के समस्त रविवार सार्वजनिक छुट्टियां हैं ।

२. ईद-उल-फितर, ईद-उल-जुहा, मुहर्रम और बारावफात की छुट्टियां चन्द्रमा के दिखाई देने पर निर्भर होंगी ।

यदि खंड में जन्माष्टमी की छुट्टी को बजाय जन्माष्टमी के दूसरे दिन छुट्टी होगी ।

परिशिष्ट 'घ'

जयपुर में स्थित मुख्य मंत्री एवं विभिन्न विभागों तथा कार्यालयों के तार के सूत्रम पते

१	मुख्य मंत्री	चीफमिन
२	मुख्य सचिव	चीफसेक
३	सचिव, गृह विभाग	होमराज
४	सचिव, वित्त विभाग	फिनराज
५	सचिव, स्वायत्त शासन	स्वराज
६	सचिव, शिक्षा-विभाग	एडयूराज
७	सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	कामराज
८	कस्टोडियन ऑफ इवेक्यू प्रोपर्टी, राजस्थान अलवर	चिपराज
९	सचिव, सिविल सप्लाइज विभाग	सेकसुपराज
१०	राजस्व सचिव	रेचराज
११	इन्स्पेक्टर जनरल पुलिस, राजस्थान, जयपुर	जै पोल
१२	पास पोर्ट विभाग	पासपोर्ट
१३	सचिव, जन-सेवा आयोग, राजस्थान	पबसरकाम
१४	डाइरेक्टर, लोकल बोडीज, जयपुर	दिलवो
१५	मुख्य अभियन्ता, भवन व पथ, राजस्थान, जयपुर	चीफइंजर, जयपुर
१६	अधीक्षण अभियन्ता, भवन व पथ, डिस्ट्रिक्ट डिविजन, जोधपुर	एक्सटोनडिस्ट, जोधपुर
१७	अधीक्षण अभियन्ता, भवन व पथ, सिटी डिविजन, जोधपुर	एक्सएन सिटी, जोधपुर
१८	अधीक्षण अभियन्ता, भवन व पथ, भरतपुर	एक्सइमजा भरतपुर
१९	प्लानिंग एवं विकास विभाग, सेक्रेटेरियट	प्लानिंग

चिन्हों तथा संकेताक्षरों का इप्टीकरण

१	आर० एच० जे० एस०	राजस्थान हायर जुडिशियल सर्विस
२	आर० जे० एस०	राजस्थान जुडिशियल सर्विस
३	आर० ए० एस०	राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस
४	आई० ए० एस०	इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस
५	आई० पी० एस०	इंडियन पुलिस सेवा
६	आर० एस० एस०	राजस्थान सेक्रेटेरियट सर्विस
७	आर० टी० एस०	राजस्थान तहसीलदार सेवा
८	आव०	आवकारी
९	बी० ए०	बैचलर ऑफ आर्ट्स
१०	बी० एजो०	बैचलर ऑफ एग्रिकल्चर
११	बी० काम०	बैचलर ऑफ कामर्स
१२	बी० ई०	बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग
१३	एग्रि०	एग्रिकल्चर
१४	उ० प्र०	उत्तर प्रदेश
१५	बी० एल०	बैचलर ऑफ ला
१६	बी० एससी०	बैचलर ऑफ साइन्स
१७	बी० टी०	बैचलर ऑफ ट्रेनिंग
१८	बी० बी० एससी०	बैचलर ऑफ वेटरिनरी साइन्स
१९	एलएल० बी०	बैचलर ऑफ लॉ
२०	एलएल० एम०	मास्टर ऑफ लॉ
२१	एम० ए०	मास्टर ऑफ आर्ट्स
२२	एम० कॉम०	मास्टर ऑफ कॉमर्स
२३	एम० बी० बी० एस	बैचलर ऑफ मैडिसिन एण्ड बैचलर ऑफ सर्जरी
२४	एम० एससी०	मास्टर ऑफ साइन्स
२५	एम० एस०	मास्टर ऑफ सर्जरी
२६	पीएच० डी०	डाक्टर ऑफ फिलास्फी
२७	वि० वे०	विशेष वेतन
२८	नि० बं०	निर्पुणता बंध
२९	रा० ए० स०	राजस्थान एकाउण्ट सर्विस

शब्द-सूची (इन्डेक्स)

	पृष्ठ		पृष्ठ
अ		अजीतसिंह	१५८
अकबर अली	३१४	अजीतसिंह	५०
अकबर मोहम्मद	७०	अजीतसिंह रणधावा	४४६
अकबर हुसैन	२९९	अडवानी एन० जे० (डा०)	५७२
अगम सिंह	९८	अढावी अप्पा एस०	५३०
अगम प्रकाश सिंगल	५६०	अतरसिंह	३१२
अगरका बी० एन०	७५०	अतुलचन्द्र दास गुप्ता	२९२
अगरवाला ए० सी० (लेफ्टिनेन्ट कर्नल)	३७०	अफलेजी० आर०	५२४
अग्रवाल के० क० (डा०) (श्रीमती)	६६२	अविशेषज्ञ आई	७५०
अग्रवाल बी० एल०	४००	अनराज	१४४
अग्रवाल बी० एल० (डा०)	५९२	अनन्तराम	२९६
अग्रवाल पी० एल०	२३४	अनाथ जे० ओ०	५२४
अग्रवाल जे० सी०	३६०	अनाथ बन्धु मुकर्जी	३३०
अग्रवाल जे० पी०	७४१	अनोपसिंह	२२०
अग्रवाल बी० पी०	५६८	अन्न राज	३४२
अग्रवाल आर० बी० (डा०)	६०६	अनराज जोशी	५०४
अग्रवाल आर० आर०	४३०	अनोपसिंह	१०
अग्रवाल आर० एन०	४३२	अनुपमा भण्डारी (श्रीमती)	३६६
अग्रवाल आर० एम० (डा०)	६१६	अनूपसिंह पंवार	४७२
अग्रवाल एस० आर०	४४२	अनेजा आर० के०	७४१
अग्रवाल बी० डी०	७५०	अब्दुल जलील काजी	५६
अग्रवाल डी० डी० (डा०)	७५१	अब्दुल रजाकखां	११२
अग्रवाल आर० के० (डा०)	६६४	अब्दुल हाफिज बेग	१५२
अग्रवाल आर० एस० (डा०)	६७२	अब्दुल लतीफ	१५०
अग्रवाल एस० एल० (डा०)	७०४	अब्दुल कयामखां	२५८
अग्रवाल एस० एस० (डा०)	६८८	अब्दुल गफारखां	५
अचलदास बोहरा	४७६	अब्दुल हमीद कुरेशी (डा०)	६७२
अचलपाल सिंह शर्मा	१०२	अब्दुल वहीद (डा०)	६९६
अचलसिंह	६४	अब्दुल गफार	३६
अचलसिंह अरहा	२६०	अब्दुल सतारखां	३८२
अचलमल सिधवा (डा०)	६२८	अब्दुल सकूर मौलाना	१२
अजमेरा बी० एल०	४००	अब्दुल रऊफ	९८
अजीतकुमार पठालिया	५६४	अब्दुल रहमान	१३४
अजीतसिंह	१३८	अब्दुल रहमान खां	३१६
		अभय सिंह	५२, ३०२
		अभय कुमार वंराठी	७१६

	पृष्ठ
आत्मदेव गुप्ता	४२०
आदित्येन्द्र	१२
आदित्यनाथ	२०
आनन्द जी०	४५०
आनन्द किशोर जौहरी	२९६
आनन्द बिहारी	२६८
आनन्द प्रकाश	७५०
आनन्दनारायण कौल	२१४
आनन्द शंकर माथुर	५१०
आनन्द स्वरूप	७४५
आनन्द मोहनलाल	४२
आनन्दी प्रसाद माथुर (डा०)	६९२
आनन्द स्वरूप	७३०
आनन्दस्वरूप गुप्ता (डा०)	६९४
आनन्द स्वरूप गुलाठी (डा०)	६४६
आनन्दस्वरूप रामपाल (डा०)	६२०
आनन्द सिंह	१०,९०
आनन्द सिंह	९०,३०६
आनन्दी देवी (श्रीमती)	७
आनन्दीसिंह नेगी	२५४
आनन्दीलाल	१२२
आनन्दीलाल पारीक	९८
आनन्दीलाल माथुर	१५८
आफताव अली	१८४,३४०
आविद अलि	७
आविदुल्ला खां	१९२
आयंगर के० एल० एल० एन०	६४८
आयंगर के० आर० आर०	७५८
आयंगर एम० जी० एस०	७४८
आरथर प्रीतम सिंह	५८२
आर्या एस० डी०	५९२
आलम सिंह	४७८
आसोपा एस० एन० (डा०)	५९६
आसोपा ए० पी०	३७०
आसोपा जे० एन०	४५०
आशा कोष (सुश्री)	४०८
आशु करण गोस्वामी	५४
आश्रम आचार्य (डा०)	६६०

इ

इकवाल चन्द गौड़	४२०
इकवाल नाथ कौल	६६,३३६

	पृष्ठ
इकवाल बहादुर	५१०
इकवाल सिंह	११८
इकरामुलहक	२१८
इन्द्रजीत जारेट (डा०)	७०२
इन्द्रदत्त पालीवाल	२१८
इन्द्रदत्त भागव	५३०
इन्द्रनाथ गुप्ता	१७८
इन्द्रनाथ मोदी	१६,२०२
इन्द्रनारायण पान्डे	२८६
इन्द्रप्रकाश पाटल	५७४
इन्द्रमल पहालिया (डा०)	६३४
इन्द्रराज	२६१
इन्द्रराज	३८८
इन्द्रलाल गोविल	२०८
इन्द्रनाथ	२०८
इन्द्रजीत सिंह	२८०
इन्द्रसिंह मेहता	५४,१६०
इन्द्रसिंह शेख अवत	७४
इन्दु शेखर	२४८
इन्दु माथुर (सुश्री)	४५८
इन्दिरा अग्रवाल (सुश्री)	४५८
इन्द्रागुप्ता (डा०)	६४०
इफतखार अली	३४४
इब्राहिम ए० (डा०) (सुश्री)	६३२
इमामद्दीन रिजवी	४१२
इसाचर आई०	६५४

ई

ईश्वर दत्त पंथ	१८४
ईश्वर दयाल गर्ग	३२२
ईश्वर प्रकाश	३९६
ईश्वर प्रसाद अग्रवाल (डा०)	६३६
ईश्वरसिंह	२७४
ईश्वरसिंह	३१६

उ

उगमराज	२३२
उज्जवल जैड० एस० (डा०)	७०२
उज्जवल वी० के०	७४५
उजागरसिंह	१८४
उत्सवलाल शर्मा	३६६

	पृष्ठ		पृष्ठ
उत्तमचन्द्र टो० ठाकर	८६	ए	
उत्तम सिंह	१३४		
उदयकृष्ण व्यास (डा०)	६२८	एकिकनी एम० (डा०) (श्रीमती)	६०४
उदयलाल घाभाई	१३०	एन्डले एच० एल० (डा०)	७०६
उदयलाल मेहरवाल	५१८	एडवानी बी० बी०	२१८
उदय प्रकाश	५१०	एडवानी एन० जे० (डा०)	६४८
उदय किशन बोहरा	३८०		
उदय सिंह	२८०	ओ	
उदयसिंह गहलोत	१६८, २००	ओंकार सिंह	७५०
उदयशंकर शर्मा	४८०	ओझा डा० जी० (डा०)	५९४
उदावत जी० पी०	३५०	ओझा आर० पी० (डा०)	६०४
उपदेश नारायण	२२६	ओझा एस० एल०	३२
उपाध्याय जे० एन० (डा०)	६१२	ओझा जे० सी०	४४२
उपाध्याय डी० डी०	९२, १५८	ओवेश नारायण सक्सेना	३९६
उपाध्याय एस० बी०	४०२	ओमप्रकाश	१६७, २०१
उपाध्याय डी० एन०	४३२	ओमप्रकाश	१८८, ७५३
उपाध्याय एल० एन०	४४०	ओमप्रकाश बन्सल	५८२
उमराव चन्द्र	२३०	ओमप्रकाश भागव	४०६
उमराव बहादुर माथुर	७२४	ओमप्रकाश कुलश्रेष्ठ (डा०)	६७६
उमरावमल पाटनी	३२०	ओमप्रकाश खटर (डा०)	६६६
उमरावलाल गुप्ता	४६८	ओमप्रकाश चावला	४४८
उमरावसिंह जैन (डा०)	६७८	ओमप्रकाश गुप्ता (डा०)	६३८
उमरावसिंह भटनागर	४१०	ओमप्रकाश गुप्ता	५६२
उमरावसिंह भटनागर	३६४, ३२२	ओमप्रकाश कालिया	६६२, २७२
उमाचरण	११८	ओमप्रकाश पारीक	३१४
उमादेवी टो० मेनन (सुश्री)	२७८	ओमप्रकाश मलहोत्रा	३५६
उमाशंकर गौर	३८२	ओमप्रकाश सिंगल	३८६
उमाशंकर देव	३८४	ओमप्रकाश माथुर	३१२, ५६६
उमाशंकर पाठक	३१२	ओमप्रकाश मेहता (डा०)	६२४
उमाशंकर बादल	२५०	ओमकार प्रसाद	१०८
उमाशंकर श्रीवास्तव	७५४	ओमकार लाल	१३, ३८६
उमेशचन्द्र कासलीवाल	५८२	ओमकार लाल जोशी	३२८
उम्मेदमल लोढा	२५६	ओमकारसिंह	५६, १६०
उम्मेद	७	ओमकारसिंह	१८२
उम्मेदसिंह	६६	ओठमल मरडिया	२९६
उम्मेदसिंह	१८४		
		क	
ऊ		कक्कड़ के० एल०	७५१
ऊमेन के० ओ० (डा०)	६६४	कक्कड़ एस० एल०	३४, १५९
ऊमेन के० ओ० (डा०) (श्रीमती)	६६४	कक्कड़ एच० एल०	४५२
ऊमा जेतनी (सुश्री)	७३०	कक्कड़ एस० एन० (डा०)	६१०

	पृष्ठ		पृष्ठ
कदकमल जे० चन्द्रमाली (डा०)	६६८	कमलाबाई श्रोत्रिया	९
कन्हाल बी० एन० (डा०)	५९८	करकरे ए० (सुश्री)	४९८
कन्हैयालाल शर्मा	१४, ८८	कृपाकिशन व्यास	३७०
कन्हैयालाल बड़ाया	५८, ३५०	कृपाशंकर	५२४
कन्हैयालाल पुरोहित	७४	कृष्णलाल धाभाई	८२
कन्हैयालाल गोयल	८४	कृष्णबिहारीलाल निगम	२
कन्हैयालाल पांडलिया	१२८	कृष्णबिहारीलाल माथुर	३१४
कन्हैयालाल कोचर	२, १३८, १६१	कृष्णबिहारीलाल शर्मा	४३८
कन्हैयालाल उपाध्याय	१४६	कृष्णगोपाल	१२४
कनकमल मेहता	१८४	कृष्णगोपाल	१८६
कनकराज	२३८	कृष्णदत्त भार्गव	२४०
कन्हैयालाल बोहरा	१७, २०३, २२२	कृष्णदास	७०
कन्हैयालाल सुराना	२२४	कृष्णस्वरूप	२९८
कन्हैयालाल सेनी	१३८	कृष्णस्वरूप गोयल	५८४
कन्हैयालाल शारदा	१५४	कृष्णवीरसिंह	३३०
कन्हैयालाल शर्मा	४२८, ६५८	कृष्णचन्द्र शर्मा	४१६
कन्हैयालाल गोस्वामी	४८८	कृष्णचन्द्र श्रोत्रिया	४१०
कन्हैयालाल	२७०	कृष्णकिशोर महारिशी	४६०
कन्हैयालाल तिवड़ी	५००	कृष्ण लाल भटनागर	४६०
कन्हैयालाल गुप्ता	५०२	कृष्णलाल गोदरा	१९०
कन्हैयालाल	४८४	कृष्णकुमारसिंह	१८८
कन्हैयालाल	५१४	कृष्णदत्त रामदेव	४८८
कन्हैयालाल व्यास	५१५	कृष्णमूर्ती डी०	४३२, ४३६
कन्हैयालाल नारायणजी (डा०)	६७८	कृष्णमूर्ती एम० के०	२७२
कपूर के० बी० एल०	७४९	कृष्णकान्त	४२०
कपूरचन्द्र	२३२, ७४८	कृष्णकान्त अवस्थी	४३४
कपूरचन्द्र जैन	४७८, ५६८	कृष्णकुमार ओझा	४७०
कपूरचन्द्र लुहाड़िया	२०	कृष्णबिहारीलाल	५१०
कपूर आर० एन०	४०४	कृष्णकुमार ओहरी	५६६
कमलाकान्त दुबे	२५६	कृष्णचन्द्र बोस (डा०)	६६२
कमला माथुर (सुश्री)	४९०	कृष्णकुमार द्विवेदी	७१४
कमला जुत्सा (सुश्री)	४५६	कृष्णकुमार शर्मा	४८६
कमला भंडारी (श्रीमती)	४५६	कृष्णकुमार जुत्सा	४२२
कमलाकान्त	५४०	कृष्णकुमार सहगल	७२४
कमला नंगवाल (श्रीमती)	४९४	कृष्ण दुबे (सुश्री)	४९०
कमला मोहन शर्मा	४९८	कृष्ण	१०
कमलाल दशोरा	५१८	कृष्णानन्द शर्मा	२१८
कमलाकान्त शर्मा	४८८	कृष्णानन्द मेहता (डा०)	६५२
कमलेश प्रकाश (श्रीमती) (डा०)	६३४	कृष्णाकुमार गुप्ता	३१०
कमल नयन ताम्बर (डा०)	६५८	कृष्णा वल्लभ	३३२
कमेश्वर श्रवास्तव (श्रीमती)	४९४	कृष्णास्वरूप (सुश्री)	४५८
कमल पटवर्धन (श्रीमती)	३८४		

	पृष्ठ		पृष्ठ
करनसिंह ..	७४	काटजू जे० एन० ..	७५१
करतारसिंह ..	६०	काटजू एम० एन० (डा०)	५९४
करतारसिंह ..	१६४, १९९	कानसिंह ..	१३८
करणसिंह झाला ..	२५४	कान्हिसिंह ..	१२६
करतारसिंह ..	२५८	कानमल मलगा ..	१४२
करतार नारायण माथुर ..	२९२	कानसिंह ..	२०४
करणराज ..	३३४	कानमल मलगा ..	३४०
करणराज बापना ..	४१८	कान्तीलाल ..	५१४
करणसिंह सेवरिया ..	४०८	कान्तीचन्द्र सिंगल (डा०)	६२८
करणदेव शर्मा ..	५०८	कानसिंह ..	५०४, ५०६
करतारसिंह ..	७५२	काना ..	९
करतारसिंह ..	३३४	कान्तकुमार शुक्ला ..	८२
करनीसिंह ..	१३	कान्ता सूद (सुश्री) ..	४९४
करमसिंह ..	५६६	कान्ता ओझा (श्रीमती)	४०८
कहूणाशंकर एस० दवे ..	२६०	कान्तीलाल ओझा ..	३०४
कल्यानचन्द्र खूंटेटा ..	८४	कान्तीकुमार जन ..	२५८
कल्यान नारायण ..	९६	कान्तीलाल पाडलिया ..	२१०
कल्यान सिंह ..	१२२	कान्तीचन्द्र सत्संगी ..	२४
कल्यान सिंह ..	१२२, ३५८	कानेटकर वी० जी० ..	१९८, १९९
कल्यान सिंह ..	१३६	कामता प्रसाद गुप्ता ..	३२, १५८
कल्यान सिंह ..	१३८	कामता प्रताद ..	११४
कल्यान सिंह ..	१८०, ३५६	कामठ एज़० वी० (सुश्री) (डा०)	६१८
कल्यान प्रसाद ..	२०६	कामेश्वर दयाल ..	५१६
कल्यान प्रसाद शर्मा ..	३४८	कालीचरण माथुर (डा०)	६७२
कल्याणसिंह कुशवाहा ..	३७४	कालीचरण किशोर ..	१००, ३५६
कल्यानसिंह सेखावट ..	५८२	कालू ..	९
कल्ला. एम० पी० ..	३६६	कालूलाल ..	३०८
कल्यान भारती ..	४६४	कालूराम चौधरी ..	१०८
कल्यानसहाय ..	५०६	कालूराम ..	१२
कल्याणदान चारण ..	२७०	काशीराम गोयल ..	८६
कल्यानवक्स माथर ..	५३६	काशीप्रसाद ..	१८४
कल्ला के० सी० (डा०)	६०६	काशीप्रसाद ..	३९०
कल्यानमल लोढा (डा०)	६८०	काशी प्रसाद जैन ..	२४२
कल्यान सिंह (डा०) ..	६९२	कासलीवाल आर० एम० (डा०)	५९२
क्यूबअली कुरेशी (डा०)	६५२	कासलीवाल आर० आर०	३९०
कवासजी एन० ए० (डा०)	५९२		
कश्यप ए० (सुश्री) (डा०)	६८४		
कंवरबाई आर० ..	७४६		
कस्तूरी रंगन ..	७४१		
कहाली वी० एस० (डा०)	७०२	किन्दैला एफ० डब्लू० ..	७५३
कांकरिया ओ० एन० ..	७४८	किरनबाबू ..	८०, ३५२
काका आलू ई० (सुश्री)	४०८	किरनबिहारी माथुर ..	४१८
कांग जी० एस० ..	७५०	किरोड़ीलाल चतुर्वदी ..	५२०

कि

	पृष्ठ		पृष्ठ
किरण जैन (श्रीमती) (डा०)	४९८	कुन्दनलाल जैन	२९६, ५१६
किशनलाल शाह	११	कुन्दनलाल	५७१
किशनसिंह झाला	१३०	कुन्दनलाल	१७६, २००
किशन करण	१९२	कुन्दनलाल भाटिया	५६८
किशनसिंह	५, १३०	कुन्दनलाल गुप्ता	१०८
किशनलाल	८	कुन्दनलाल कपूर	२८६
किशनलाल धाभाई	३५८	कुन्दनराज भंसाळी	१६, २०२
किशनचन्द	२१४, ३८४	कुन्दनलाल ढाढ	५४४
किशनसिंह	१८६, ५३२	कुबेरदान	१९४
किशनदास वोहरा (डा०)	६२०	कुम्भाराम चौधरी	८
किशनसिंह देवरां (डा०)	६२२	कुम्बट बी० आर०	७४५
किशनमुरारीलाल (डा०)	६२४	कुमार जी० डी० (डा०)	६८८
किशनमुरारीलाल सक्सेना	३८४	कुमार कृष्ण शर्मा	१७, २०३
किशनमोहन सहाय	४८८	कुमार कृष्ण शर्मा	१७
किशनस्वरूप (डा०)	६७८	कुमार बी०	७४१
किशनसिंह इंडा (डा०)	६९८	कुरियन ए० बी०	४१८
किशनानी डा० के०	७५४	कुरूप पी० के० वी०	१९, ५८
किशोरचन्द	७५३	कुलश्रेष्ठ बी० पी०	२७६
किशोरसिंह	२६८	कुलदीप कुमेदान (सुश्री)	४५८
किशोरसिंह हाडा	२६८	कुलदीपसिंह कौंग	५६४
किशोरीलाल माथुर	५२८	कुलदीपसिंह भदावर	५७८
किशोरी रमन भार्गव	२५२	कुलदीप कौर (डा०)	६४६
किशनमल जौहरी	११६	कुलान द्याल	७४९
किशनगोपाल शर्मा	११६	कुशकुमार सैरीन	५३८
किशनमल मेहता	२४८	कुशलसिंह लाशानी	१२८
किस्तूरचन्द	१३०, ५१०	कुसुम राठौड़ (श्रीमती)	३७४
की		के	
कीरती सक्सेना (सुश्री)	२०	केदाररूप राय	१
		केदारनारायण नाग	३७४
कु		केदारमल गुप्ता	४१८
कुदारी एम० सी०	७४९	केदारनाथ	१३२
कुन्जबिहारीलाल भार्गव	२०	केदारनाथ गुप्ता	४८८
कुन्जबिहारीलाल माथुर (डा०)	६००	केदारनाथ दुबे	४०६
कुन्जबिहारी सक्सेना	५८४	केदारनाथ भार्गव	४९८
कुन्जरू जे० एन०	३२, १५८	केदारनाथ सुदगल	४५२
कुन्जबिहारी डंगायच	२९२	केशोराम	१९६
कुन्जबिहारीलाल गुप्ता	४६२	केवलिया एम० एल०	४६८
कुन्दनलाल अरोड़ा (डा०)	६३६	केशवानन्द	१२
कुन्दनलाल चतुर्वेदी	८२, ३५४	केशवपुरी	५६, ३३
		केशोराम	१९६

	पृष्ठ		पृष्ठ
केशवलाल नरसिंहपुरा ..	२४२	कौ	
केशवदेव शर्मा ..	२९२	कोचर बी० एन० (डा०)	६६६
केशवानन्द शर्मा ..	५२८	कोचर जे० डी० ..	८६
केशवप्रताप खूंटेटा (डा०)	६४०	कोटिया के० सी० (डा०)	६७०
केसरीसिंह ..	१०	कोठयारी एच० सी० ..	२५८
केसरीसिंह ..	१५२	कोठारी बी० एस० ..	७५०
केसरीसिंह मेहता ..	५२	कोठारी एम० एस० (डा०)	६७०
केसरीसिंह डरडा ..	२४२, ३६२	कोठारी यू० एल० ..	७४९
केसरीसिंह सिसोदिया ..	२५४	कोठयारी एल० एस० ..	३९४
केसरीलाल तिवाड़ी ..	५१२	कोठयारी बी० एम० (डा०)	५९२
केसरीसिंह मेहता ..	५३८	कोपीकार आर० पी० (डा०)	७०२
केसवानी बी० (सुश्री) (डा०)	६१४	कोल बी० के० ..	१७२, ३७८
केसरीमल सोलंको (डा०)	६५६	कोलियोनियस एल० (डा०) (सुश्री)	६६६
केसरीमल पुरोहित ..	७१२	कोशिक बी० एल० ..	५७४
केसरीसिंह मेहता ..	७१८	कौ	
कैस एच० बी० ..	७४७	कोल जे० एन० ..	४५०
कै		कोल आर० के० ..	५२४
कैलाशचन्द्र जैन ..	६८, ४८६	कोल के० एन० ..	४०६
कैलाशचन्द्र मित्तल ..	५३२	कोल आर० एन० ..	२३४
कैलाशचन्द्र ..	२७६, ५५६	कौशलसिंह ..	१५६
कैलाशचन्द्र कासलीवाल ..	५७८	कौशलकुमार नरुला ..	८६
कैलाशदान ..	२०६	कौशला तेजपाल (श्रीमती)	५०४
कैलाशनाथ वान्चु ..	१६, २०२	कौशिक ए० पी० ..	६०, १५९
कैलाशनाथ भार्गव ..	१९, ५२८	कौशिक एस० पी० (डा०)	६०२
कैलाश नारायण निगम ..	१२८	कौशिक एन० के० ..	५६२
कैलाशनाथ सोरल ..	१६६	कं	
कैलाश नारायण पुरोहित	२७०	कंवरबहादुर माथुर	३२, १५८, २९८
कैलाशनाथ माथुर ..	५८२	कंवरलाल ..	१९२
कैलाशनाथ भार्गव (डा०)	६२०	कंवरलाल वापना ..	१७, २०३
कैलाश नारायण माथुर (डा०)	६६४		
कैलाश नारायण सक्सेना (डा०)	६३६	ख	
कैलाश नारायण माथुर (डा०)	६३२	खट्टर आर० बी० ..	५२४
कैलाशनाथ हल्दिया (डा०)	६६८	खड्केवावत एन० आर० ..	३९८
कैलाश प्रसाद भार्गव ..	४३६	खन्ना के० एल० ..	७५४
कैलाशबहादुर माथुर ..	३६६	खन्ना एच० के० (डा०)	६२०
कैलाशरूप राय ..	५५८		
कैलाशलाल वापना ..	५८२		
कैलाश शंकर (डा०) ..	६२२		

	पृष्ठ		पृष्ठ
खन्ना एच० एल० (डा०)	६५४	खं	
खन्ना एम० एल० ..	६६८		
खन्ना पी० डी० ..	१८३०६	खंगारसिंह	१८२
खन्ना आर० के० ..	७४०	खंडपुरी ज० डी० (डा०)	६९८
खन्ना आर० डी० ..	१४४	खंडनाथ मिश्रा	४७४
खन्ना सी० एल० ..	७५३	खंडेलवाल बी० एन० ..	४४०
खरे के० पी० ..	६६८		
खसौरिया ए० एस० ..	४४०	ग	
खां		गजरार्जसिंह	४४,१५९
खां ए० एच० ..	३५८	गजराज ओझा	५८
खान एम० ए० ..	२६६	गजरार्जसिंह कोठयारी	१५०
खान ए० एच० ..	७४८	गज्जा	६
खान मिरजा	३८२	गजाधर सोमानी	१३
खारचे एस० बी० ..	७४७	गजाधरसिंह (डा०)	३७८
		गजानन्द	२८,८०,३३८
		गजानन्द झा	३८६
खी		गजेन्द्रनारायण	४९८
खीवराज सांखला	५४६	गजेन्द्रसिंह	३४
		गनपतसिंह	२२,३८६
		गणपतराय	७८,३५२
खु		गणपतसिंह	१९६
खुराना एस० एल० ..	३६	गणपतसिंह भण्डारी	४७८
खुलर बी० एल० ..	५७०	गणपतसिंह (डा०)	६३८
खुशहालसिंह चौधरी	६२२	गणपतदयाल गोयल (डा०)	६४६
		गणेशसिंह	१६६,१९९
खे		गणेशशंकर द्विवेदी	७६
खेतपालसिंह	८६	गणेशदत्त आचार्य	८८
खेमचन्द	३४,१५९	गणेशदत्त छंगानी	९२
खेमचन्द गुप्ता	२१४	गणेशसिंह	६२
खेमसिंह एम० परिहार (डा०)	६६४	गणेशदत्त	४८२
खेर आर० आर० जी० ..	४६६	गणेशनारायण	२०६
खेर के० पी० ..	७४८	गणेशनारायण माथुर	४१६
खेवानी आर० सी० ..	७४५	गणेशनारायण व्यास	४४८
खेत्रकुमार सैन	८४	गणेशपुरी	५१८
		गणेशविश्वनाथ वकोरे	४२०
खै		गणेशीलाल	५२०
खैरो ए० ए० ..	२४	गणेशमल माथुर	५५८
		गणेशीलाल मेहता	५८६
		गणेशचन्द्र चतुर्वेदी	३८४
		गणपति	९
		गणपतिलाल माथुर (डा०)	६२४

	पृष्ठ		पृष्ठ
गणेश नागर (डा०) ..	६२६	गु	
गणेशलाल नागर ..	१३४		
गणेशमल माथुर (डा०) ..	६६०	गुणवन्त शाम राव कडू ..	४७८
गणेश केवलिया ..	७१४	गुणवन्तसिंह झाला (डा०) ..	६६४
गणेशीलाल व्यास ..	७१२	गुप्ता के० एन० ..	१८०, १९९, ७३६
गम्भीर एन० के० (डा०) ..	६९२	गुप्ता के० दास० ..	२५६
ग्यासीराम ..	२६, २४०	गुप्ता आर० जी० ..	३३०, ३८२
ग्यानसिंह ..	२७०	गुप्ता के० सी० ..	७४७
ग्यान चन्द ..	५१०	गुप्ता बी० एस० ..	७५३
गर्ग एम० पी० ..	३९०	गुप्ता एम० एम० ..	४००
गर्ग बी० पी० (डा०) ..	६७२	गुप्ता जी० एल० ..	३९४
गर्ग आर० डी० ..	१९९	गुप्ता जे० एस० ..	७५०
गर्ग आर० एल० ..	२३४	गुप्ता पी० एन० ..	७५०
गहलोत, पी० (सुश्री) (डा०) ..	६१६	गुप्ता एस० एन० ..	४६२
		गुप्ता एम० एल० ..	४५०
		गुप्ता बी० डी० ..	५७३
		गुप्ता बी० के० ..	५५८
		गुप्ता के० डी० (डा०) ..	६१०
		गुप्ता एम० पी० (डा०) ..	६१२
		गुप्ता एस० सी० (डा०) ..	६१८
		गुप्ता एस० एन० (डा०) ..	६२२
		गुप्ता सी० एल० (डा०) ..	६५४
		गुप्ता के० एल० ..	२९६, ४४४
		गुप्ता एम० सी० ..	३९४
		गुप्ता एम० बी० ..	४०२
		गुप्ता एच० सी० ..	४४२
		गुप्ता एच० एल० (डा०) ..	६६८
		गुप्ता एच० के० (डा०) ..	६७०
		गुप्ता एच० पी० (डा०) ..	६७६
		गुप्ता एस० (सुश्री) (डा०) ..	६८४
		गुप्ता आर० के० (डा०) ..	६९४
		गुप्ता बी० के० (डा०) ..	६९४
		गुप्ता डी० पी० (डा०) ..	७०६
		गुप्ता ओ० पी० (डा०) ..	७०६
		गुप्ता के० डी० (डा०) ..	७०८
		गुप्ता एम० पी० सी० ..	७३६
		गुप्ता पी० एन० ..	४६८
		गुप्ता आर० आर० ..	७४४
		गुप्ता डी० पी० ..	२०१, ४००, ४५२
		गुप्ता सी० बी० एल० ..	७४५
		गुप्ता एल० सी० ..	७४५
		गुप्ता एस० बी० ..	७४८
गिरधारीलाल ..	१०		
गिरधारी लाल गुप्ता ..	१२२		
गिरधारी लाल गौड़ ..	१२४		
गिरधारीसिंह ..	२२६		
गिरधारीलाल ..	२३२		
गिरधारीलाल ..	३८४		
गिरधर गुप्ता ..	५०४		
गिरधरसिंह ..	१४२, ३४०		
गिरधारीलाल (डा०) ..	६३६		
गिरधर गोपाल सक्सेना ..	६५२		
गिरधारी कनोडिया (डा०) ..	६५४		
गिरिराजसिंह ..	१९०, ५५२, ५५६		
गिरिराज प्रसाद ..	५१४		
गिरिराजप्रसाद (डा०) ..	६६२		
गिरिराज प्रसाद गुप्ता ..	४४६		
गिरिराज किशोरदत्त ..	४८२		
गिरीशचन्द्र ..	२२४		
गिरीशचन्द्र मिसरा ..	४७६		
गिरीशचन्द्र (डा०) ..	६३६		
गिल के० एस० ..	७५१		

	पृष्ठ
गुप्ता आर० के० ..	७५५
गुमानसिंह ..	१६८
गुरु प्रसाद ..	२७६
गुरुचरणदास ..	१६६
गुरुचरणसिंह १०४, १३८, ७५१	
गुरुदत्त प्रसाद ..	१५४
गुरुवक्षराय ..	११०
गुरुवक्ष सक्सेना ..	१३२
गुरुप्रकाश ..	२२२
गुरुदयालसिंह खेयरा ..	२६२
गुरुदत्त ..	२९२
गुरुवक्ष सक्सेना ..	३५६
गुरुदत्तसिंह ..	४६०
गुरुमुखसिंह चावला ..	५१०
गुरुमुखनिहाल सिंह ..	१
गुरुमुखसिंह ..	५३२
गुरुप्रसाद माथुर ..	७१४
गुरुचरणसिंह गुरम ..	५५८
गुरुचरणसिंह ..	७५१
गुलजारीलाल माथुर ..	५०, ३०२
गुलजारीलाल ..	४९८
गुलजारीलाल शर्मा ..	५४४
गुलवाड़ी शिव राव उमेश ..	३४४
गुलजारीलाल शर्मा (डा०) ..	६३४
गुलवाड़ी एम० यू० (डा०) ..	६३६
गुलाबसिंह ..	८, ६४, ४८४
गुलाबसिंह मेहता ..	७२
गुलाबराय सक्सेना ..	९८
गुलाबसिंह लौढा ..	२८४
गुलाबदास वैजल ..	२३४
गुलाब चन्द्र शर्मा (डा०) ..	६२८
गुलाबचन्द मालू ..	५१८
गुलाबसिंह (लेफ्टिनेन्ट कर्नल) ..	७३२
गुलाबचन्द ..	५६०
गुलाबसिंह ..	५६६
गुलाबचन्द कासलीवाल ..	२०४
गुलाम मेहबूबखां ..	१४८

गे

गेमावत डी० सी० ..	७८, ३६२
गेस हेरिस (डा०) (सुश्री) ..	६४४

	पृष्ठ
गेहरालाल ..	६४
गेवाल एम० के० (श्रीमती) ..	५१०
गेनी डब्ल्यू० एच० ए० ..	७४९
गो	
गोकुलचन्द ..	६
गोकुलचन्द सिद्ध ..	३८८
गोकुलचन्द ..	२८०
गोकुल प्रकाश शर्मा ..	४६२, ४७२
गोकुलसिंह ..	२२८
गोकुलसिंह शेखावत ..	२७८
गोकुलप्रसाद रामप्रसाद निगम ..	४२४
गोकुल प्रसाद शर्मा ..	८८
गोकुलराम शर्मा ..	५२२
गोडवोले एन० एन० (डा०) ..	२४
गोप गुरवक्त ..	७३८
गोपाल चन्द्र सेन ..	६६, १५८
गोपालनारायण भावन ..	७०, ३६४
गोपाललाल कापड़दार ..	७०
गोपालदास केवलिया ..	८४
गोपाल कृष्ण गोयल ..	४०८
गोपाल कृष्ण गुप्ता ..	४०८
गोपाल लाल ..	५२४
गोपाललाल शर्मा ..	१००
गोपाललाल नारायण ..	२१८
गोपालसिंह ..	३१८, ३५८
गोपालसिंह मेहता ..	१३०
गोपालमल मेहता ..	३२८
गोपाल सहाय ..	२२८
गोपाल राव शाहने ..	२७०
गोपाल सहाय शर्मा ..	२८
गोपालसिंह चौधरी ..	३१०
गोपालसिंह ..	१३६
गोपालमल मेहता ..	२१६
गोपाललाल माथुर ..	४४६
गोपालदास भार्गव ..	४७०
गोपाललाल शर्मा ..	५२०
गोपाललाल नाग ..	५४२
गोपाल बिहारी माथुर ..	४३६
गोपालदास (डा०) ..	६७४
गोपीलाल आचार्य ..	१८६
गोपीनाथ गुप्ता ..	८२

	पृष्ठ		पृष्ठ
गोपीनाथ ..	८२	गोविन्दनारायण शर्मा ..	८२
गोपीनाथ एस० राय ..	३०६	गोविन्द माधव यागनिक ..	५२०
गोपीचन्द्र काला ..	२८६	गोविन्द नारायण ..	११४, ५०४
गोपीकिशन बोहरा ..	३१०	गोविन्दलाल माथुर ..	४२२
गोपीनाथ पिल्लाई ..	३१२	गोविन्दप्रसाद महर्षि ..	५५०, ५५४
गोपीनाथ पुरोहित ..	७५१	गोविन्दस्वरूप माथुर (डा०) ..	६३२
गोपीचन्द्र लोगानी ..	३४६	गोविन्द सिंह (डा०) ..	६९२
गोपीचन्द्र वर्मा ..	४६२	गोविल वी० वी० ..	७४५
गोपीनाथ शर्मा ..	४१२	गोविन्दराम ..	७४५
गोपीनाथ के० राय ..	५३०	गोस्वामी आर० एन० (डा०) ..	६७०
गोपीकृष्ण गुप्ता ..	५७८		
गोपीनाथ एस० (श्रीमती) (डा०) ..	६१८	गौ	
गोपीवल्लभ गुप्ता (डा०) ..	६४०	गौड़ वी० एल० ..	४३२
गोपीकिशन पुरोहित (डा०) ..	६७८	गौड़ जे० एन० ..	३९६
गोपी सहाय ..	७	गौड़ वी० डी० ..	७५२
गोपेन्द्रवर भट्ट ..	९०	गौतम आर० एन० ..	२७२
गोयल एन० के० ..	१८०	गौतम पाल ..	३०८
गोयल आर० के० (डा०) ..	७०६	गौरी के० डी० ..	१८२
गोयल एम० आर० ..	२४२	गौरीवल्लभ ..	११४
गोयल वी० वी० ..	४५०	गौरी पूनिया (श्रीमती) ..	११
गोयल आर० डी० ..	४०८	गौरीश प्रसाद ..	८८
गोयल एस० एस० ..	४५२	गौरीशंकर ..	५५६
गोवरधन ..	१६४, १९९	गौरीशंकर गहलोत (डा०) ..	६५४
गोरधनसिंह ..	७, १३०	गौरीशंकर शर्मा (डा०) ..	६२८
गोर्धनलाल चौबीसा ..	१३०, ३५६	गौरीशंकर झा ..	१५०
गोरधनलाल शर्मा ..	३२४	गौरीशंकर आचार्य ..	९६
गोरधनलाल पण्डया ..	१५२		
गोरधनसिंह ..	३८, ३६२	गं	
गोरधनसिंह मेहता ..	३८, १५८	गंगस्वरूप सांख्य ..	२६०
गोरवानी एन० वी० ..	७५४	गंगरेड जे० पी० (डा०) ..	६६२
गोवरधनसिंह चौधरी ..	३८, १५९	गंगरेड आर० (श्रीमती) (डा०) ..	६६२
गोवरधन दास ..	१३८	गंगाराम पुरोहित ..	२६, ५६
गोवरधन ..	१२२	गंगासहाय पुरोहित ..	१९, ३४
गोवरधनलाल पारीक ..	६९२	गंगाप्रसाद वीसा ..	५८
गोविन्दनारायण शर्मा ..	४७४	गंगालहरी ..	६६
गोविन्द शरण ..	८४	गंगाधर मोदी ..	९०
गोविन्दसिंह ..	११२	गंगासिंह ..	९८
गोविन्दनारायण माथुर ..	३५२	गंगाप्रसाद अग्रवाल ..	११०, १६१
गोविन्दसिंह ..	१७०, २०१	गंगाशंकर ..	२०८
गोविन्द प्रसाद नाग ..	१८६	गंगाशरण ..	२२०
गोविन्दकान्त शर्मा ..	२८६		
गोविन्दलाल गहलोत ..	४२४		
गोविन्दलाल माथुर ..	५३८		

	पृष्ठ
गंगादेवी (श्रीमती)	६
गंगाप्रसाद शर्मा	३१८
गंगास्वरूप माथुर	३२८
गंगाधर द्राविड़	४१०
गंगाधर भट्ट	४६२
गंगासिंह नाथावत	४६२
गंगाप्रसाद शर्मा	५०४
गंगाराम पुरोहित (डा०)	६००
गंगोली पी० डी०	७४३
गंगोली पी० के०	२७४
घ	
घनश्याम गोस्वामी	२९८
घनश्याम दत्त	४२२
घनश्याम दास	१२४
घनश्याम दास	२३०
घनश्यामदास शर्मा	४७२
घनश्याम स्वरूप शर्मा	५०२
घनश्यामलाल चौधरी	२४०, ५८४
घनश्यामसिंह	११८, ७५५
घा	
घासीलाल	२८०
घासीलाल शर्मा	५१२
घासीराम	७
घासीराम परिहार	४१२, ४३४
घासीराम यादव	६
घि	
घिनायल राधाकृष्ण	४२०
घी	
घीसालाल वरायां	४७८
घीसीलाल	१४२, ३४०
घु	
घु रा एन० सी०	२६, २४४

	पृष्ठ
घी	
घीशाल एम०एल०	२६४
घीश ए० एन०	४०६
च	
चक्रदेव बाई एस०	३७८
चक्रवर्ती एच० वी० (डा०)	६३८
चक्रवर्ती डी० के०	२७४
चक्रवर्ती एन०	५२२
चटर्जी डी० एन० (डा०)	५९६
चटर्जी वी० सी०	२०४, ५२२
चटर्जी एस० एल०	७४७
चड्ढा जी० डी०	२००
चड्ढा के० एल०	२९८
चन्डी टी० के० (सुश्री)	५१६
चन्डीदान	१२०
चत्तरतन ई० ए०	७४९
चत्तरसिंह	७२, १५०
चत्तरे वी० (सुश्री) (डा०)	६१२
चतुर्भुज	११८
चतुर्भुज दास चत्तवदी	७२०
चतुराबिहारीलाल	७२
चतुर्वेदी के० के०	४९४
चतुर्वेदी टी० एन०	४०२, ४५४
चतुर्वेदी डी० पी० (डा०)	६१४
चतुर्वेदी आर० के०	३६
चतुर्वेदी आर० पी० (डा०)	७०२
चतुर्वेदी आर० एन०	२५०
चतुर्वेदी वी० वी० (डा०)	६८०
चन्द्र कला (श्रीमती)	५
चन्द्रकान्ता (श्रीमती)	६७४
चन्द्रगुप्त अग्रवाल	११०
चन्द्र गुप्त वाष्णेय	७१२
चन्द्रदेव शर्मा	४३४
चन्द्रधर ईसर	५०, ३२०, ७३०
चन्दनमल बुरलिया	५२०
चन्द्रप्रकाश अग्रवाल	४४८
चन्द्रप्रकाश सोरल	५३२
चन्द्रप्रकाश भागवत (डा०)	६६६
चन्द्रप्रकाश त्रिवेदी	३७४, ४८०

	पृष्ठ
चोपड़ा ओ० पी० ..	७४७
चोथल पी० एन० ..	४३२
चोपड़ा आर० एल० (डा०) ..	६१८
चोरडिया ए० सी० (डा०) ..	६९४

चौ

चौथमल ..	२७६
चौथमल जैन ..	१२४, ३५४
चौधरी आर० (श्रीमती) ..	३८८
चौधरी पी० के० ..	६
चौधरी आर० जो० ..	५७२
चौधरी आर० डी० (डा०) ..	६५०
चौधरी आर० एन० ..	४६४
चौधरी आर० एन० ..	५४८
चौधरी एस० एन० ..	२३४
चौहान डी० एस० (डा०) ..	६८८
चौहान पी० एस० ..	३९०

चं

चंपा पी० एम० ..	५७२
चन्द्रकंवर सोलंकी (सुश्री) (डा०) ..	६८४
चन्द्रकान्ता (श्रीमती) (डा०) ..	६७४
चन्द्रवदन वस्वदा (डा०) ..	६४८
चन्द्रावती सक्सेना (सुश्री) (डा०) ..	६२६
चन्दनमल वैद्य ..	१०

छ

छगनमल ..	१३८
छगनलाल ..	५७८
छगनलाल सोनी ..	४४६
छज्जलाल शर्मा ..	४९८
छतरसिंह भटनागर ..	२५४
छतरसिंह सिंधु ..	२५२
छत्रपतिसिंह ..	७१४

छ्री

छाया बी० के० (डा०) ..	६१२
-----------------------	-----

छी

छीतरमल ..	१०६
-----------	-----

छू

छैलबिहारी (डा०) ..	६७२
छैलबिहारी लाल ..	५१२
छैलबिहारीलाल माथुर ..	४३६
छैलबिहारीलाल माथुर ..	५३०
छैलबिहारीलाल माथुर ..	५४२

छो

छोगालाल धामाई (डा०) ..	६७६
छोगासिंह (लेफ्टिनेन्ट) ..	७३०
छोट सिंह ..	६

ज

जगजीवनलाल ..	३०८
जगजीतसिंह ..	५४२
जगतईश्वरदास ज्ञानचं दानी ..	५५८
जगतप्रसाद ..	८०
जगदम्बालाल माथुर ..	५२८
जगदीशना रायण टिक्कू ..	१२४
जगदीश गहलोत ..	५६२
जगदीश चन्द्र ..	२२०
जगदीश चन्द्र (डा०) ..	६३०
जगदीश चन्द्र (डा०) ..	६५४
जगदीश चन्द्र मंगल ..	११८
जगदीशप्रसाद गौड़ (डा०) ..	६५८
जगदीश प्रसाद ..	५, १५२, ३६८, ५०२
जगदीशप्रसाद शर्मा ..	१७६, २०१
जगदीश मल ..	२३०
जगमन्दिरदास जैन ..	४२२
जगदीश मित्रा लूथरा ..	४२२
जगदीशनाय (डा०) ..	६५४
जगदीशनारायण पुरोहित ..	५८२
जगदीशनारायण माथुर ..	७४, ७८, ३३८
जगदीशनारायण माथुर ..	२४०
जगदीशनारायण माथुर ..	३१४
जगदीशनारायण कपूर ..	४३६

जगदीशनारायण (डा०) ..	६८६	जफर मोहम्मदखां ..	२१४
जगदीशपुरी ..	५६६	जम्बूनाथन एस० ..	४७६
जगदीशपुरी ..	५६६	जमना प्रसाद ठड्डा ..	५१२
जगदीशराज ..	७४	जमनालाल लड्डा ..	७०
जगदीशसिंह गहलोत ..	७२०	जमनालाल माथुर ..	२२०
जगदीश शरण सहाय (डा०)	६७६	जयकुमार जैन ..	१०२,३५९
जगन्नाथ ..	१३	जयकृष्ण खेमचन्द ..	१७०
जगदीश शर्मा ..	४७४	जयचन्द ..	८
जगदेवसिंह सिंह ..	३०८	जयलाल माथुर ..	३२२
जगदेवसिंह धारोवाल ..	३७८	जयदेव आर० पांडय ..	६५४
जगदीश्वरदयाल नैश्य ..	३८४	जयन्ती प्रसाद ..	८०
जगन्नाथ प्रसाद माथुर ..	७२६	जयन्ती प्रसाद भटनागर ..	४४६
जगन्नाथ प्रसाद ..	२१४	जयन्ती स्वरूप (डा०) ..	६६०
जगन्नाथ पुरीहित ..	१५९	जयनारायण ..	२३२,५५०,५५४
जगन्नाथलाल पंचोली ..	१२८	जयनारायण सिंह ..	२७६
जगन्नाथान डी० ..	१६६,२०१	जयनारायण गौड़ ..	३०८
जगन्नाथ सिंह ..	१४२	जयनारायण शर्मा ..	१२२
जगन्नाथ सिंह ..	३४०,२६८	जयनारायण व्यास ..	१२
जगन्नाथसिंह मेहता ..	४२,१५९	जयप्रकाश ..	१७०,७५५
जगनारायण सिंह ..	१४२,३४०	जयप्रकाश शर्मा (डा०) ..	६५२
जगन्नाथ शर्मा ..	१२८,३५४	जयराम डब्ल्यू० जी० ..	१७२
जगन्नाथ ए० वी० ..	४४०	जयरामदास स्वामी ..	३८४
जगपत सिंह ..	१०२	जयसिंघानी ए० जे० ..	३६०
जगपाल सिंह ..	६८	जयसिंह ..	६८,९८
जगमोहनलाल ..	२६६	जयसिंह ..	९
जगमोहन मलहोत्रा ..	५३८	जयसिंह ..	२७०
जगमोहन माथुर ..	२५०	जयसिंह कपूर (डा०) ..	६९४
जगमोहन मिश्र ..	४२८	जयसिंह नीरज ..	४२४
जगमोहन शर्मा (डा०) ..	६८२	जयशंकर ..	७२,३६४
जगराज अरोड़ा (डा०)	६८४	जयशंकर राजोरा ..	१७८
जगरूपमल लोढा (डा०)	६५०	जयेंद्र सिंह ..	७
जगरूपसहाय माथुर ..	७४	जलालुद्दीनखां ..	१२२
जच्चरिया वी० सी० ..	२७२	जवानसिंह ..	३६०
जतनमल ..	७३८	जवानसिंह रानावत ..	१७,२०३
जतनराज कुमार ..	४८४	जवाहर सिंह ..	९२
जतनमल लूनावत ..	२३६	जवाहरसिंह राव ..	३५२
जतसी एम० एम० ..	५००	जवारलाल गुप्ता ..	७३०
जत्था एन० आर० ..	७४५	जसरराज जोशी ..	८८,३६२
जंदीद हुसैन रिजवी ..	२२२	जसरराज चौपड़ा ..	९२
जनकासिंह ..	१८४	जसकरणासिंह ..	२६०
जनार्दन ..	८	जसवन्त कुमार वासदेव ..	२५२
जनारायण ..	५०६	जसवन्त राज ..	१३
जनार्दनप्रसाद शर्मा ..	४१६,४८८	जसवन्त राज मेहता ..	४६८
		जसवन्त राय ..	५८०

	पृष्ठ
जसवंत सिंह	१२
जसवंत सिंह खीची	४३४
जसवंत सिंह	१३८
जसवंत सिंह	१६४, १९२
जसवंत सिंह	१९६
जसवंत सिंह सिधवी	५२
जसवंत सिन्हा	६६
जसवंत सिंह	२०१
जसवंत सिंह मेहता (डा०)	६५८
जहुल रहमान	५६६

जा

जाकरिया एस० (श्रीमती) (डा०)	६९६
जागीरसिंह	१३४, २५८
जानकीनन्दन	२२४
जानकीप्रसाद पुरोहित (डा०)	६२६
जाफरी ए० एच० एस०	४४, १५९
ज्वालाप्रसाद	९, ५०८
ज्वाला प्रसाद माथुर	४०६
ज्वालाप्रसाद	२०६
ज्वालाप्रसाद शर्मा	३४४
ज्वालास्वरूप माथुर	३१०
ज्यान मोहम्मदखां	२४२
जार्ज टी० जी०	३२८
जार्ज बी० (सुश्री)	६३२
जाहीन एम० बी०	४२४

जि

जितेन्द्र कुमार जैन	२९६
जियाउद्दीन अहमद	५३४
जिज्ञासु एम० एल०	४६४

जी

जीवननाथ राजदान (डा०)	६२६
जीवनमल बुधराजा	२०६
जीवर्नासिंह च. धरी	१६१
जीवर्नासिंह मेहता	४३६
जीवनलाल	७४५
जीवनलाल माथुर (डा०)	६२४

जीवैराज सिंह	५०
जीवैराज सिंह	३०१

जु

जुगल किशोर	६
जुगल किशोर	५०६
जुगल किशोर एम० त्रिवेदी	५३४
जुगलकिशोर शर्मा	३८४
जुगलविहारी	२३८
जुगलविहारो श्रीवास्तव	८०
जुगलविहारोलाल श्रीवास्तव	३३८
जुगलसिंह	१३८
जुजरसिंह केसवाल (डा०)	६४२
जुतसी बी० एन० (डा०)	६९८
जुडा आर० (सुश्री) (डा०)	६३०
जूनारकर एन० आर०	४७६
जूरमलानी के० आर०	७५१

जे

जेकब (सुश्री)	४९२
जेकब एस० आई० (सुश्री) (डा०)	५९८
जेकब (सुश्री) (डा०)	५९८
जेठमल	११, २२०
जेठमल व्यास	१४२, १४६, ३४०
जेठमल	५०६
जेठमल व्यास (डा०)	६३८
जेठानन्द	७८
जेमन जे० एस०	४६४

जै

जैकब सी०	२१६
जैकब एल० एम० (सुश्री)	४५८
जैकिशन	४६८
जैमन पी० सी०	४५०
जैन के० सी०	३९८, ४००
जैन डी० एम०	५२२
जैन जी० एल०	४५२
जैन के० सी० (डा०)	६८०
जैन एच० के० (डा०)	६३०

	पृष्ठ
जैन एच० एल० ..	४००
जैन टी० पी० (डा०) ..	६६८
जैन एन० एल० ..	७५४
जैन टी० सी० ..	७४९
जैन पी० सी० (डा०) ..	६७०
जैन डी० आर० ..	२४४, २९२
जैन वी० वी० (डा०) ..	६१८
जैन एम० एल० ..	५२४
जैन एम० एम० ..	२५२
जैन पी० सी० ..	४५०
जैन पी० के० ..	४३२
जैन सी० एम० ..	३९२
जैन एस० एम० (डा०) ..	६९०
जैन एस० आर० ..	७५३
जनारायण गंड	९०
जनारायण सिंह	९२

जो

जोगेन्द्रपाल सिंह ..	२५२
जोगेन्द्र नाथ ..	१२२
जोजेफ वी० डी० (सुश्री) (डा०) ..	६२२
जोधसिंह ..	१८८
जोधसिंह ..	२५०
जोध सिन्हा मेहंता ..	६८, ३६४
जोधसिंह हांडा ..	१२२
ज्योतिस्वरूप ..	५७८
ज्योतिस्वरूप वाजपेई ..	७३०
ज्योति स्वरूप गुता ..	४०६
ज्योति स्वरूप माथुर ..	४८०
जोरावरमल पाटनी ..	१०२
जोरावरमल ..	५८
जोरावरासिंह ..	१८०
जोरावरासिंह झाला ..	१८, ३४
जोरावरासिंह एन० सांडू ..	८६, ३३८
जोशी ओ० (श्रीमती) ..	५००
जोशी ओ० पी० ..	७३६
जोशी ओ० पी० (डा०) ..	६८६
जोशी ओ० के० (श्रीमती) (डा०) ..	६१८
जोशी जी० एल० ..	३९०
जोशा टी० के० ..	३०२
जोशी टी० एन० ..	७५१

	पृष्ठ
जोशी एन० सी० ..	४६८
जोशी बी० एम० ..	२७६
जोशी एम० सी० ..	२७६
जोशी ए० एन० ..	७४९
जोशी एस० डी० (डा०) ..	६६६
जोशी एस० पी० ..	७४०
जोहर पी० एल० (डा०) ..	६१२
जोहर आर० पी० (श्रीमती) (डा०) ..	६१६
जोहन एस० वी० ..	५२२
जोहरीमल ..	५६६
जोहरी जे० एम० ..	२७८

भा

भावरमल ..	१८६, ५०४
भालानी के० एल० (डा०) ..	६२२
पी० एन० ..	७५०

भू

भूमर लाल आसोपा ..	७५३
-------------------	-----

भं

भंडा सिंह ..	७५४
--------------	-----

टा

टालटी जे० एच० ..	६६९
टांक एस० एल० ..	५६८

टि

टिक्कू सी० के० ..	७४४
टिक्कू पी० एन० ..	७४९
टिक्कू के० (श्रीमती) (डा०) ..	६७४
टिक्कू ए० एन० (डा०) ..	६७८

टी

टीकम चन्द जैन ..	३२०
टीकम दादलानी ..	२६२

	पृष्ठ		पृष्ठ
टीकम दास गेहीमल (डा०)	७५५	डी	
भीकमसिंह गुता ..	२०२	डीडवानिया एस० एम० ..	२३४
टीकमसिंह गुता ..	१६		
टोकाराम पालीवाल ..	७	डू	
		डुंगर एस० एम० (डा०)	७०६
टू		डुंगरसिंह मेहता ..	५४
टूकी एम० पी० (डा०) (सुश्री)	६३२	डुंगरसिंह मेहता ..	१६०
		डुंगरसीदास ..	६
टै		डे	
टेमानी सी० बी० ..	७३६	डेविड ए० एम० ..	१४
टैलेटी एन० आर० ..	२७८	डेविड एन० पी० ..	४०४
		डेविड एल० एस० ..	७४९
टो		डं	
टोसनीवाल एम० जी० ..	७५५	डंडिया एस० डी० (डा०)	६७०
टं		डा	
टंका एस० (श्रीमती) ..	३८८	डांढा एन० एम० ..	५००
टंडन आर० एन० (डा०)	६७४	डं	
टंडन बी० के० (डा०) ..	४०४	डंगायच आर० एस० ..	४००
ट्र		त	
ट्रहान के० बी० ..	२७८	तस्तसिंह ..	१२२, १८४
ठा		तस्तसिंह ..	२८, ३५८
ठाकुर पी० जं० (डा०)	६८०	तस्तसिंह भटनागर ..	५१८
ठाकुर तनवरदास ..	२०८	तनकम्पा पी० (सुश्री) ..	४९०
ड		तपेश्वरनाथ टिक्कू ..	३१८
डन्गयच आर० एस० ..	४००	तलवार एच० एल० ..	७४१
डा		तलवार जी० एल० (डा०)	५९६, ७०८
डामले जी० बी० ..	४१६	तलवार एस० एल० ..	५८०
डांडिया पी० सी० (डा०)	७०४	तरवे के० के० (सुश्री) ..	४५६

	पृष्ठ
थापर आर० डी०	३६
थामस ए० एच०	११६
थामस एम० (सुश्री) (डा०)	६३२
थाटे वार्डे बी०	२७४

द

दत्त एस० आर० (डा०)	६८९
दत्त के० के० (सुश्री) (डा०)	६६४
दत्त बी० एन०	७४९
दत्त एस० के०	४४०
दत्ता एन० सी०	२००
दत्ता डी० के०	३९०
दत्तेशकुमार दत्ता	१७०
दधीचि सी० एल० (डा०)	६९८
दयाकृष्ण	७
दयाकृष्ण माथुर	४१८
दयाचन्द	२२६
दयाभान श्रीवास्तव	४८२
दयाल पी०	३९०
दयालचन्द	१४८
दयालसिंह	१६
दयालसिंह	२०२
दयालसिंह डूंगरपुरिया	४७२
दयालसिंह पवार	४२२
दयाशंकर चौबीसा	२५०
दयाशंकर	९२
दयाशंकर चौबीसा	५४६
दर्शनसिंह	४१६
दर्शनसिंह सरोया (डा०)	६१४
दरबारीलाल कंवर (डा०)	६७४
दराश्री एस० डी०	४६४
दलपतसिंह	९,७८
दलपतसिंह चौधरी	२०८
दलपतराज महारा (डा०)	६३४
दलपतराज शाह (डा०)	६५८
दलपतसिंह भंडारी (डा०)	६८६
दलीपसिंह	७
दलीपसिंह (डा०)	६६८
दलेल सिन्हा लोढा (डा०)	६५०
दलेल सिंह राठीड़	२९८
दवे बी० एन०	४८४

	पृष्ठ
दशरथसिंह	१०८
दशोरा टी० एल०	३९६
दशोरा बी० एल०	४५०

दा

दाऊबयाल गोस्वामी	१९
दाऊदखान (डा०)	६७२
दाऊदास हृष	४२०
दाऊलाल	५०८
दाऊलाल माथुर (डा०)	६८०
दाऊलाल छंगानी (डा०)	६८२
दानसिंह	९६
दानसिंह	३०४
दानी आर० के०	४४२
दामोदर प्रसाद	५२२
दामोदरलाल व्यास	२,७
दामोदरलाल खंडेलवाल	६०
दामोदरलाल माथुर	११४
दामोदरलाल	५०२
द्वारकादास गुप्ता	२२८, २३८
द्वारकादास बजाज	२३२
द्वारकानाथ पुरोहित	१६६, १९९
द्वारकानाथ महारा	२२
द्वारकानाथ शर्मा (डा०)	६७६
दालवी पी० डी० (डा०)	७०४
दास ए० सी० (डा०)	६१६
दास जी० सी० (डा०)	४९२
दास पी० के० (डा०)	६०४
दास गुप्ता ए० (डा०)	६१०, ७०८

दि

दिग्विजय सिंह	१२६
दिनम्मा फिलिप्त (डा०)	६४०
दिनेशचन्द्र दवे	२९४
दिनेशकुमार जैन	४२४

	पृष्ठ		पृष्ठ
दिनेशचन्द्र शर्मा	४७२, ४८४	दुर्गाप्रसाद	२२४, ५३०, ५७४
दिनेश नारायण	३६६	दुर्गाप्रसाद जोशी	५२२
दिनेशचन्द्र भारद्वाज	४२०	दुर्गालाल	७२०
दिलशाद राय	७४६	दुर्गाशंकर शर्मा (डा०)	६४८
दिवान ए० पी०	१२, ३५०	दुर्गासहाय (डा०)	६०४
दक्षित सी० एल०	१९२	दुर्गाशंकर	२२२
		दुर्गाशंकर दवे	१६, २०२
		दुर्गाशंकर आचार्या	२४
दी		दुर्हसिंह कोठयारी	४१६
		दुर्हसिंह	१९८, ७३४
		दुर्हसिंह	१८०
दीनदयाल	१२८, १९४	दुर्बे ए० सी०	२९८
दीनदयाल भटनागर	९१४	दुर्बे एस० एन०	४३०
दीनदयाल माथुर	५८०	दुर्बे बी० एम०	५७२
दीनदयाल शर्मा	७५२		
दीनबन्धु	१३		
दीनानाथ शर्मा	१५२	दुर्लीचन्द जैन	१५२
दीपचन्द कृष्णानी	४८४	दुर्नोचन्द मूलचन्द मन्सारमानी	५७५
दीपचन्द गुप्ता	५४०		
दीपचन्द जैन	१३०		
दीप सिंह	१३४		
दीवानचन्द्र (डा०)	६९६		
दीवानचन्द शर्मा	२१४	देव शर्मा	४५०
दीवानचन्द जैन	४६२	देव बी० एस० (डा०)	६८२
दीया एम० एल०	१५४	देवकीनन्दन	१३४, १५२
दीक्षित एम० पी० (डा०)	६४८	देवकीनन्दन	२२२, ५१०
दीक्षित ए० एल० (डा०)	७००	देवदत्त शर्मा	३५२
		देवदत्त आर्य	३१४
		देवदासन पी० डी०	३७८
		देवकीनन्दन चतुर्वेदी	४१६
		देवराज मेहता	४६८
		देवराज बजाज	२६४
		देवे द्रसिंह साहो	१६४
दुर्गपालसिंह	१९२	देवीचरण गोयल	९८
दुर्गाप्रसाद शर्मा	४२	देवोप्रसाद चतुर्वेदी	१००
दुर्गाप्रसाद	१९	देवोप्रसाद गुप्ता	३८८, ५०२
दुर्गाप्रसाद शर्मा	२०६	देवोप्रसाद माथुर (डा०)	६७४
दुर्गादान	२६४	देवीलाल दशोरा (डा०)	६५८
दुर्गादत्त किसरू		देवीराम गुप्ता	९८
दुर्गाचन्द	११२, ३६३	देवीसिंह यादव	४४६
दुर्गादत्त	५०८	देवा	९
दुर्गादत्त शर्मा	४७४	देवाराम गुप्ता	५१६
दुर्गाप्रसाद रस्तोगी	५२८		

	पृष्ठ
नारिग जी० डी० (डा०) ..	६२४
नारुला जी० एल० ..	७४७
नाहर एस० एल० (डा०) ..	६५०
नाहरसिंह ..	३३२
नाहरसिंह ..	५६०

नि

निगम आर० बी० ..	४३०
निगम आर० बी० (डा०) ..	६२६
निजामुद्दीन ..	१४४, ३४२
नित्यबिहारीसिंह मोरिया ..	५६२
नियाजअहमद ..	४१२
निरन्जननाथ माथुर ..	७२८
निरन्जननाथ ..	८
निरन्जन लीलाराम हिगोराणी ..	४१४
निरंजनसिंह ..	१९, ४४
निरंजन स्वरूप माथुर ..	२९४
निरवाण बी० एस० ..	२६८
निहालसिंह चौधरी ..	२५६
निहालसिंह राजावत (डा०) ..	६७२
निहालानो एच० सी० ..	५२४

नी

नीरेशचन्द्र ..	४२
नीरकचन्द्र ..	२३६

ने

नेमीचन्द्र ..	१३
नेमीचन्द्र ..	२२८
नेमीचन्द्र भूरट ..	३५०
नेमीचन्द्र जैन ..	३२२
नेमीचन्द्र ..	४१६
नेमीनारायण जोशी ..	४८६
नेपालसिंह तंवर ..	५०२

नै

नैयर आर० एल० ..	७५५
नयर ई० एन० बी० के० ..	१८४

नो

नोटरा डी० एस० ..	५५०, ५५४
नोटानी डी० के० (सुश्री) (डा०) ..	५३८
नोरतनमल ..	१०६
नोरतनमल अजमेरा ..	२४४

नौ

नौरत्नमल अजमेरा ..	३८२
--------------------	-----

प

पटवरधन एम० (सुश्री) (डा०) ..	६८४
पट्टा सेशाद्री ..	४०४
पटेल आर० (डा०) ..	६०८
पटेल एफ० जे० ..	२९८
पटेल आर० एम० ..	७५०
पदमचन्द्र वैद्य (डा०) ..	६२८
पदमपाल चन्द्र भंडारी ..	४७२
पद्मनी आर० (सुश्री) ..	४५६, ४९२
पदमा टी० मीरचंदानी (डा०) ..	६४०
पदमा रावत (डा०) (श्रीमती) ..	६७६
पन्नालाल ..	१३
पन्नालाल मेसानी ..	११२
पन्नालाल ..	२९२
पन्नालाल नाग ..	४४६
पन्नालाल अग्रवाल ..	७३४
पन्नीकर के० सी० (डा०) (सुश्री) ..	६०८
पन्नेसिंह ..	१६८
पन्नेसिंह ..	१९९
परमानन्द शर्मा ..	५१४
परमानन्द चौधल ..	४१२
परमानन्द एन० गाजरिया ..	५४६
परमानन्द मलहोत्रा (डा०) ..	६६२
परमानन्द ..	५४, ३६२
परमात्मा सहाय सक्सेना ..	६२
परमेश्वरसिंह ..	२५४
परबतसिंह ..	१३०, ३५८
परबतसिंह मेजर ..	७३२
परषोत्तमलाल मित्तल ..	४२६

	पृष्ठ		पृष्ठ
परशोत्तमलाल चतुर्वेदी ..	४८०	प्रमोदबिहारीलाल माथुर ..	३७४
परसराम ..	१०	प्रमोदराय ज० हाथी ..	५०४
परसुराम जोशी (डा०) ..	६८६	प्रवीनचन्द्र जैन ..	४२८
परिहार आर० एन० (डा०) ..	६८८	प्रसाद बी० ..	३९६
पवार वाई० जी० ..	६७६	प्रह्लाद चन्द्र जोशी ..	७१६
पशुपतिनाथ कौल ..	५०, ३३६	प्रह्लादराय चौधरी ..	५३६
पहपसिंह ..	६०		
प्र		प्रे	
प्रकाशचन्द्र गुप्ता ..	४७८	प्रभूलाल पुरोहित ..	६
प्रकाशचन्द्र जोशी ..	४७०	प्रिथोराम पृथ्वीराज ..	७
प्रकाशचन्द्र जैन ..	४८२	प्रभा (श्रीमती) ..	९
प्रकाशचन्द्र माथुर ..	३०६	प्रभूदयाल लोईवाल ..	१९
प्रकाशचन्द्र त्रिपाठी ..	४१४	प्रकाशचन्द्र गुप्ता ..	२०
प्रकाशमल माथुर ..	४२४	प्रेमसिंह ..	२२
प्रकाशचन्द्र माथुर ..	५६२	प्रतापनारायण सिंगल ..	७८
प्रकाश एस० (डा०) (श्रीमती) ..	६१२	प्रभूशरण ..	८८
प्रकाशदेवी ग्रोवर (डा०) (श्रीमती) ..	६४०	प्रेमसुख महेश्वरी ..	९०
प्रकाशनाथ (डा०) ..	६४८	प्रवीणचन्द्र ..	९२
प्रकाशचन्द्र चतुर्वेदी (डा०) ..	६५२	प्रतापसिंह ..	५४, १६०
प्रतापसिंह ..	४२४	प्रेमदास अग्रवाल ..	६४
प्रताप माथुर ..	४८६	प्रह्लादराय शर्मा ..	७८
प्रतापचन्द्र घुरी ..	५१४	प्रेमसिंह ..	८४
परतापा मोबली ..	४७६	प्रफुलचन्द्र ..	११८
प्रतीभा माथुर (सुश्री) ..	४५८	प्रकाशनाथ ..	१३०
प्रधान पी० एन० ..	३५६	प्रेमनारायण पन्डिया ..	१३४
प्रफुल्लचन्द्र ..	३५०	प्रकाशनारायण ..	१३८
प्रफुल्लनारायण डे० (डा०) ..	६३६	प्रयोजनसिंह ..	१५०
प्रमेश चन्द्र दत्त (डा०) ..	६५८	प्रभागराज माथुर ..	१५४
प्रभाशंकर त्रिवेदी ..	५२२	प्रेमनाथ माथुर ..	२२४
प्रभाकरदेव डंडिया ..	३२०	प्रकाशनारायण ..	२२६
प्रभातचन्द्र दास ..	४२२	प्रतापसिंह सुराना ..	२४०
प्रभातकुमार माजमदार ..	४६०		
प्रभूदत्त शर्मा ..	३४८	पृ	
प्रभूदयाल लोईवाल ..	१९	पृथ्वीगिरी गोस्वामी ..	१८८
प्रभूशंकर माथुर ..	७५५	पृथ्वीसिंह ..	१०४
प्रभूनारायण शर्मा ..	४७४	पृथ्वीसिंह ..	१२८
प्रभूदयाल ..	५०४	पृथ्वीसिंह ..	३५२, ५७२
प्रभूलाल शर्मा (डा०) ..	६६२	पृथ्वीसिंह राठौड़ ..	३५४
प्रमोदप्रकाश श्रीवास्तव ..	४२०	पृथ्वीनाथ भागव ..	३२२
प्रमोदकृष्ण ..	५४२	पृथ्वीनाथ हुक्कू ..	५०६
प्रमोदकरण सेठी (डा०) ..	६२६		

	पृष्ठ		पृष्ठ
पूनमचन्द ..	१०	पं	
पूनमचन्द विशनोई ..	३		
पूर्णचन्द मिश्रा ..	१७०	पंचोली सी० एस० ..	३३४
पूर्णसिंह ..	३०६	पंचोली आर० डी० (डा०) ..	६७०
पूसाराम (डा०) ..	६८८	पंजाबसिंह मेहता ..	२४
		पंडित एल० एस० ..	५८०
		पंडित जी० एस० ..	४७८
		पंत टी० ..	५२४
		पंत पी० (सुश्री) (डा०) ..	६८४
		पंत बी० बी० ..	५२४
पेहपसिंह ..	३३६	फ	
प्रेमकिशन गोबिल ..	५४२		
प्रेमकान्त शर्मा (डा०) ..	६४०	फतेहचन्द ..	५६६
प्रेमचन्द सिधौ ..	५३६	फतेहलाल पांडलिया ..	१२८
प्रेमचन्द भाल (डा०) ..	६४८	फतेहचन्द भार्गव (डा०) ..	६३८
प्रेमदास अग्रवाल ..	३६४	फतेहसिंह ..	९
प्रेमनाथ माथुर ..	४०६	फतेहसिंह ..	११८
प्रेमनाथ लंगर ..	४१४	फतेहचन्द गुप्ता ..	४२८
प्रेमनाथ सतीजा (डा०) ..	६५०	फतेहराज मधराज व्यास ..	५३२
प्रेमनारायण ..	७४५	फतेहरूप राय ..	५३६
प्रेमनारायण संवसेना ..	४८८	फतेहलाल पांडया ..	३५४
प्रेमनारायण माथुर ..	४८४	फतेहलाल गुप्ता ..	२४२
प्रेमनारायण शर्मा (डा०) ..	६५८	फतेहलाल पंडित ..	७१४
प्रेमनिधि शास्त्री ..	४३४	फतेहसिंह (डा०) ..	४७०
प्रेमप्रकाश गुप्ता ..	६६४	फतेहसिंह राठी (डा०) ..	६३४
प्रेमराज ..	३१८	फतेहसिंह (प्रथम) ..	६२
प्रेमशरण सिन्हा ..	४८४	फतेहसिंह (द्वितीय) ..	८८, ३३८
प्रेमशंकर भार्गव ..	४०८	फतेहसिंह (तृतीय) ..	८०, ३०४
प्रेमशंकर शर्मा ..	३८४	फनीभूषण (डा०) ..	१५०
प्रेमशंकर संवसेना (डा०) ..	६३८		
प्रेमसिंह कुमार ..	५१४	फु	
प्रेमसिंह ..	३०२		
प्रेमसुख महेश्वरी ..	३०६	फुमनसिंह ..	४७०
		फू	
		फूलकंवर सोलंकी (सुश्री) (डा०) ..	६८४
पोखराज ओजा ..	६४४	फूलचन्द ..	१०८
पोरवाल एल० एस० ..	४००	फूलचन्द जैन ..	३०२
प्रोमेन्द्रसिंह ..	७५२	फूला ..	८

	पृष्ठ		पृष्ठ
		वरकतराम	१९२
		वलजीतसिंह	२७८
		वलभसिंह	११४
फौजराज जोशी	६२	वलवन्तसिंह (सरदार)	१८, ३४
फौजराज	३६४	वलदेवकृष्ण बिन्ज	७४, ३५६
		वलवीर प्रसाद	२३४
		वलवीरसिंह	१२४
		वलवन्तसिंह मेहता	३६०
		वलवन्तसिंह स्याल	३८४
वक्सी एस० एस० (डा०)	६९४	वलदेव कृष्ण	२६०
वक्सी एन० एन०	५४८	वलवीरकृष्ण सोनी	३७०
वकोरे पी० बी०	३९४	वलभद्रसिंह	४३२
वख्तावरलाल	१६८	वलवीरचन्द्र शर्मा	५५६
वख्तावरलाल	२०१	वलवन्तसिंह स्वरूपया	५५६
वख्तावरसिंह कुट्टर	२७६	वलवन्तसिंह (डा०)	६४६
वख्शीसिंह	१३२	वलवन्तसिंह (श्रीमती) (डा०)	६५४
वजरंगलाल	१८०	वलराज (डा०)	६७८
वजाज जी० आर०	२७६	वलदेवराज (डा०)	१०७
वजाज आर० के०	४४२	वजेजा के० डी० (डा०)	३७८
वजाज आर० पी० (डा०)	२६, ६१८	वसन्तीलाल माथुर	६२
वंदरीप्रसाद गुप्ता	२९२	वसन्तीलाल छावड़ा	२६६
वंदरीदास	६४, ३६४	वसन्तीलाल सरूपरिया	२०८, ४१०
वद्रीनारायण व्यास	२१८	वसन्तलाल जैन	४६०
वद्रीनारायण मोहता	३४६	वशीरुद्दीन	३८६
वद्रीप्रसाद जोशी	५१८	वसन्तलाल	५३२
वद्रीप्रसाद भार्गव	४८६	वशीरुद्दीन	५८०
वद्रीनारायण शर्मा	५००, ५३२	वसन्ती ए० जी० एस०	७४४
वनर्जी एस० के०	३३४	वसन्तीरानो मित्रा (सुश्री) (डा०)	६५०
वनर्जी एम० एन०	१५६	वसोत के० एल०	७५६
वनर्जी पी० एल०	१७६, १९९	वड्डसिंह नयावल	२७४
वनर्जी जे० एल०	३९०	वहादुरचन्द्र	७४४
वनर्जी एस० सी०	६०८	वहादुरसिंह	७, १६८
वनर्जी जी० पी० (डा०)	६९०	वहरी एच० सी०	७४४
वनवारीलाल	१८८	वहादुरसिंह	२००, ५६८, ५७४
वनारसीदास गोयल	५४४	वक्षी पी० एन०	२३०
वनारसीदास जैन (डा०)	६५४	वृजेन्द्र पाल	७
वनारसीलाल मदन (डा०)	६८४	वृजमोहननाथ तनखा	३४४
वर्नेसिंह (द्वितीय)	६६, ३६४	वृजराज वहादुर	४०, ३३६
वर्नेसिंह (तृतीय)	६६, ३०६	वृजेन्द्रप्रसाद अदीव	२२, ६८
वर्नेसिंह धाभाई	५६	वृजमोहन पुरोहित	७६, ३६६
वम्ब ओ० पी०	२६४	वृजवल्लभ मेहता	७६, ३३८
वरकत उल्ला खां	१०	वृजकिशोर	१०२, ३५६

	पृष्ठ		पृष्ठ
बृजलाल सक्सेना ..	५१४	ब्रह्मस्वरूप श्रीवास्तव ..	४६०
बृजनाथ ..	१२४	ब्रह्मप्रकाश भार्गव ..	३८०
बृजलाल ..	१८०, ५७०	ब्रह्मदेव शर्मा ..	३८६
बृजमोहनलाल ..	९, २१६	ब्रह्म भट्ट एस० एन० ..	३८२
बृजबिहारीलाल ..	२२८, ५१२	ब्रह्मदत्त ..	२०, २४२
बृजनन्दनलाल ..	२२८		
बृजबहादुर श्रीवास्तव ..	२३६		
बृजनारायण ..	२३८		
बृजलाल ..	२४०		
बृजमोहन त्रिवेदी ..	२५२		
बृजबिहारी वर्मा ..	२५२	वांके ए० ..	३८४
बृजवल्लभ लोढ़ा ..	३५८	वांकैलाल गुप्ता ..	५१४
बृजवासी बी० डी० ..	३४८	वांकैबिहारीलाल (डा०) ..	५९८
बृजराम चौहान ..	४१२	वागची आर० एन० (डा०) ..	४४०
बृजमोहन शर्मा ..	४८२	वाटलीवाला आर० एम० ..	४४२
बृजबिहारी निगम ..	४८४	वांग आर० सी० ..	२७४
बृजवल्लभ माथुर ..	४९८	वांठिया के० सी० ..	५८२
बृजनारायण माथुर ..	५७०	वापना पी० एल० (डा०) ..	६८४
बृजगोपाल शर्मा ..	५४४	वाबूलाल निगम ..	४८८
बृजबिहारीसिंह ..	१३४, ३५६	वालकृष्ण शर्मा ..	६००
बृजनाथ पंचोली ..	१५६	वालकृष्ण बोहरा ..	११२, ३५२
बृज भूषण ..	१९६	वालचन्द त्यागी ..	१२४
बृजलाल मिरधा ..	२६८	वालकृष्ण राव ..	१५२
बृजकिशोर पुरोहित ..	४७६	वालकृष्ण मेहता ..	२९४
बृजलाल गोवर ..	७५०	वालकिशन पुरी ..	३१२
बृजकिशोर माथुर ..	५६२	वालमुकुन्द ..	८
बृजमोहन शर्मा ..	४४८	वालकराम गंगवाड़ ..	४२२
बृजलाल महात्मा (डा०) ..	६४२	वाल गंगाधर ..	४२८
बृजमोहन सक्सेना (डा०) ..	६३४	वाल गोविन्द तिवारी ..	३८२
बृजवल्लभ शर्मा (डा०) ..	६३६	वालमुकुन्द गुप्ता ..	७६, ३३६, ४८२
बृजलाल शर्मा (डा०) ..	६३८	वालमुकुन्द त्रिवेदी ..	५१४
बृजराम सिंह (लोफ्टनेन्ट) ..	७३२	वालचन्द्र पांड्या ..	५३०
बहुरन सिन्हा ..	५०	वालकृष्ण व्यास (डा०) ..	६२८
बहीडुल्लाखां ..	५०	वालकृष्ण जाज (डा०) ..	६५६
ब्रह्मानन्द ..	७५२	वालचन्द्र महेश्वरी (डा०) ..	६९८
ब्रह्मदेवी कौशिक (सुश्री) (डा०) ..	६७६	वालचन्दानी सी० एम० ..	७४३
ब्रह्मस्वरूप (डा०) ..	६७६	वालचन्द्र शास्त्री ..	४७०
ब्रह्मदत्त जोशी (डा०) ..	६५०	वाला देव शर्मा ..	६२
ब्रह्मदत्त शर्मा ..	४८०	वाला सहाय शर्मा ..	६४, ३५६
ब्रह्मानन्द शर्मा ..	४६०	वालानी एस० के० (श्रीमती) ..	३८८
ब्रह्मानन्द कौशिक ..	५७६	वाबूलाल ..	२७८
ब्रह्मानन्द गोस्वामी ..	४९६	वालस्वरूप भटनागर ..	३५४
		वालूलाल पानगड़िया ..	२०

	पृष्ठ		पृष्ठ
बालूसिंह	१८४	अ	
बालूराम शर्मा (डा०)	६४४		
बालेश्वर प्रसाद त्यागी	५१०	बैकुण्ठ नाथ	२५२
बालेन्द शर्मा	३५०	वैशाखसिंह	१८४
बाहेती एम० एल० (डा०)	६०६	बैजनाथ अग्रवाल	२०६
		वैजल बी० के० डी०	२३४
बि		बैजनाथ शर्मा	१३८
बिअन्तसिंह	१४०	बो	
बिलायतीलाल वजाज (डा०)	६४८	बोका (डा०) श्रीमती	६९६
बिद्याभूषण लिखी	६५०	बोका एच० एस० (डा०)	६१४
बिन्ध्याचल प्रसाद शर्मा	४७४	बोरडिया एच० एल०	५९२
बिमला कान्ती मिसरा (डा०)	६५०	बोला प्रागडा वैक्कटारमनम्	४१८
बिशनलाल माथुर	४६०	बोहतलाल कावडिया	७२
बिशनस्वरूप	२२२	बोहरा बी० एन० (डा०)	६६०
बिशनकुमार भटनागर	९८	बोगावत सी० एल०	५२२
बिशनगोपाल शर्मा	५०८	बोडास एस० सी०	७५७
बिहारीलाल	२८	बं	
बिहारीलाल बोरडिया	२४०, ३०२	बंसल पी० के०	४३०
बिहारीलाल माथुर	२५८	बंसल बी० एस० (डा०)	६१६
बिहारीलाल सानाट्य	५२२	बंसल ओ० पी०	२८, ७४५
बिहारीलाल	१२६	बंसीधर शर्मा	३५२
		बंसीबिहारालाल (डा०)	६७४
बी		बंसीलाल (डा०)	६८८
बीरका	९	बंसीलाल	७४, ३०६
		बंसीसिंह चौहान (डा०)	६४२
बु		भ	
बुन्देला एस० एल० (डा०)	६३०	भगतराम सित्तल	४२०
बुद्धसिंह	२६६	भगतराम	५८२
बे		भगत जी० के०	९४, ३६२
बेनर्जी बी० एन०	७४८	भगत्सिंह मालिक	२६८
बेनर्जी एम० आर०	७४८	भगत्सिंह मेहता	३२, ३५०
बेनीप्रसाद चतुर्वेदी	५८६	भगवतदत्त ठाकुर	५०, १५८
बेनी गुप्ता (श्रीमती)	४९२	भगवत स्वरूप	४६४
बेरीसाल सिंह	३०८	भगवत सिंह मुरडिया	४१०, ४६२
बेरीसाल सिंह	३८८		
बेरीसाल सिंह	६८		

	पृष्ठ		
भगवती प्रसाद ..	५१२	भट्टाचार्य एस० (श्रीमती) (डा०)	६८४
भगवत प्रसाद माथुर (डा०)	६६८	भभूतराज मेहता ..	२४
भगवती प्रसाद ..	३८४	भभूतमल सिन्धी ..	२०६
भगवती लाल माथुर ..	५४४	भभूतचन्द्र मेहता (डा०)	६८६
भगवान दास ..	५४८	भभूति सेन ..	५२२
भगवान सहाय जोशी ..	६८, ३२४	भरत भूषण गुप्ता ..	५०६
भगवानलाल सुखवाल ..	२९२	भल्ला एच० डी० ..	७५२
भगवान लाल व्यास ..	५१०	भल्ला पी० ..	७५०
भगवान शरण सहाय ..	३२८	भल्ला आर० के० ..	७४५
भगवान दास गुप्ता ..	५६४	भल्ला एस० आर० ..	४३०
भगवान दास चवला ..	५६६	भवनेश्वरदयाल उपाध्याय ..	२५२
भगवान सहाय शर्मा (डा०)	६५४	भवदीश प्रसाद जैन ..	५४४
भगवान सहाय (डा०) ..	६६०	भवानी प्रसाद माथुर (डा०)	६९४
भगवान दास अग्रवाल ..	७२४	भवानी शंकर ..	८
भगवानी लाल नागर ..	५००	भवानीशंकर शर्मा ..	८०
भटनागर एन० सी० ..	४०, १६०	भवानीपुरी गोस्वामी ..	४२०
भटनागर एच० पी० ..	१७२	भवानी शंकर पालीवाल ..	३०४
भटनागर एम० पी० ..	२४८	भवानी सल ..	१६८, २००
भटनागर एम० एस० ..	२७०	भवानी सिंह ..	११४
भटनागर सी० एस० ..	४३२	भवानी सिंह देवड़ा ..	३५८
भटनागर आर० एस० ..	४३०	भवानी सिंह ..	३९२
भटनागर बी० एस० ..	३९२	भवानी सिंह यादव ..	१४६
भटनागर बी० एम० एल०	४३०		
भटनागर बी० पी० ..	५६०		
भटनागर आर० एस० (डा०)	५९४		
भटनागर जी० के० (डा०)	६१०		
भटनागर बी० पी० (डा०)	६१०		
भटनागर पी० एम० (डा०)	६१२		
भटनागर जे० एस० (डा०)	६२२		
भटनागर पी० (श्रीमती) (डा०)	६७४		
भटनागर एस० आर० (डा०)	६७६		
भटनागर बी० एस० ..	७४७		
भटनागर एन० जी० (डा०)	६५६		
भटनागर एन० पी० ..	७४३		
भगवानीलाल नागर ..	१२८		
भट्ट के० एन० ..	३९४		
भट्ट जे० आई० ..	५७२		
भट्ट आई० बी० (डा०)	७९६		
भट्टाचार्य एस० के० ..	२७२		
भट्टाचार्य यू० सी० ..	७२२		
भट्टाचार्य एम० सी० ..	३८४		
भट्टाचार्य डी० डी० (डा०)	६३०		
		भा	
		भागचन्द्र सोनी ..	२२०
		भागमल वर्मा (डा०) ..	६३८
		भागीरथराय बिशनोई ..	१८०
		भाटावढेकर एम० जी० ..	३९४
		भाटिया आर० सी० ..	१७६, २०१
		भाटी ओ० डी० (डा०)	६०२
		भाटी के० एल० (डा०)	६५६
		भाटिया बी० एन० ..	२३४
		भाटिया एम० एल० (डा०)	६८४
		भाटी आर० एस० (डा०)	६८६
		भाटिया एस० एल० ..	७४१
		भानुकुमार ..	२३२
		भानु प्रकाश ..	२२४
		भावे पी० बी० ..	२७२
		भानू प्रताप सिंह ..	५

	पृष्ठ
भानीत जी० के०	१९,४०
भार्गव एस० सी०	४०६
भार्गव एस० पी०	२००,४३२
भार्गव आर० पी०	३८
भार्गव आर० सी०	२४४
भार्गव ओ० पी०	४३०
भार्गव आर० सी०	७५७
भार्गव ए० पी०	३९८
भार्गव जी० पी०	४००
भार्गव के० एल०	३९४
भार्गव पी० एल०	३९२
भार्गव बी० पी०	४५२
भार्गव आर० डी०	४५०
भार्गव बी० डी०	४००
भार्गव बी० डी० (डा०)	६०२
भार्गव टी० एन० (डा०)	६०४
भार्गव एम० एल० (डा०)	६६८
भार्गव वी० एन० (डा०)	६७०
भार्गव आर० पी० (डा०)	७०४
भार्गव टी० एन० (डा०)	७०८
भार्गव के० न० (डा०)	७१०
भार्गव आर० सी०	५४६
भार्गव आर० के०	४४२
भारद्वाज सी० जे०	४९०
भारद्वाज सी० एल०	४९४
भारद्वाज वाई० डी० (डा०)	६१२
भारत भूषण गुप्ता	५०६
भारत दास	७४३
भारत सिंह	३१२
भारतीय एच० सी०	४६६,५३८

भी

भीकम चन्द जोशी	२०८
भीखा भाई	३
भीखमसिंह	१५६
भीमपुरी गोस्वामी (डा०)	६८२
भीमसेन	१०,४०४
भीमसेन	२४०,३६२
भीम सिंह	७५२
भीम सिंह	५३६
भीम सिंह	१९,४०

	पृष्ठ
भीमरेडी जी०	२७०

भु

भुट्टानी एच० जी०	३५६
भुवनेश्वर दयाल उपाध्याय	२५२
भुवनेश्वरी दयाल माथुर	५२८

भू

भूटानी ए च० जी०	३५६
भूपति राव	४०४
भूपाल सिंह वक्षी	७२
भूरेन्द्र सिंह राजवंशी	५६४
भूरचन्द जैन	५६२
भूरसिंह	१९२
भूरामल एन० जैन	१८८
भूरामल व्यास	९०
भूरालाल पन्चोली	१४४,३४२

भै

भैरवलाल	७
भैरवलाल धांकड	४१०
भैरूदान खत्री	५१६
भैरू प्रसाद नाग (डा०)	६७२
भैरू रत्न व्यास	२८६
भैरूलाल	२२६
भैरूलाल वर्मा	२६२
भैरूसिंह	५,१९२
भैरूसिंह	१०,१४०

भो

भोगाजी	१३
भोगीलाल पंड्या	८
भोजराज सिंह	२७६
भोतराम	१०८
भोदूलाल	७
भोपालसिंह भटनागर	२५०
भोपालसिंह वक्षी	३०६

	पृष्ठ		पृष्ठ
भोपाल चन्द भंडारी ..	२७६	भंवरलाल दशोरा ..	६६
भोर्मासह ..	१०६	भंवरलाल मेहता ..	५४, ३०४
भोमपाल सिंह ..	११०	भंवरलाल भटनागर ..	५४
भोला ओ० एन० ..	७४७	भंवरलाल रावत ..	३२
भोलानाथ भार्गव (डा०) ..	६६४	भंवरलाल कुरावत ..	५१८
भोलानाथ ..	६	भंवरलाल कुमावत ..	५३२
भौ		म	
भौतराम ..	३५६	मकखनलाल सहल ..	७१२
भौरीलाल वैद्य ..	२२	मकखनसिंह ..	३८६
भौरीलाल गुप्ता ..	१०६	मकखी जानी टी० पी० ..	५५२
भौरीलाल पाटनी ..	१५२	मथुरादास ..	१३
भं		मुखजा जे० एन० (डा०) ..	६६८
भंडारी एस० पी० सिंह ..	३६	मगनलाल ..	१९४
भंडारी जी० डी० ..	१७६, २०१	मगनसिंह ..	१९२
भंडारी के० आर० सी० ..	१७८	मगनलाल नोनावटी ..	५६, ३६२
भंडारी एम० आर० ..	३९८	मघराज उज्जवल ..	११६
भंडारी आर० एम० ..	३९८	मजुमदार वी० सी० ..	३९६
भंडारी जी० सी० ..	४६४	मजुमदार वी० एन० (डा०) ..	७००
भंडारी एस० पी० सी० ..	४६८	मजुमदार वी० के० (डा०) ..	६६८
भंडारी जी० एम० (डा०) ..	६२०	मजुमदार के० सी० ..	५५२
भंडार आर० एन० ..	७३०	मणिशंकरलाल गुप्ता ..	३६६
भंडारी सी० एस० ..	३९८	मतई एम० सी० ..	५२२
भंडारी एस० सी० ..	२४४	मथुराप्रसाद ..	१४०
भंवरलाल ..	१०६	मथुरानाथ पन्चोली ..	५६
भंवरलाल श्रीवास्तव ..	५५६	मथुरालाल बाहेती ..	२२
भंवरलाल कुम्भावत ..	५३२	मदनमोहन वर्मा ..	१८
भंवरलाल ..	४९६, ५२०	मदनगोपाल दल्लेला ..	१९, ५२
भंवरलाल शर्मा ..	४८६	मदनमोहन किरानवाली ..	४०, १६०
भंवरलाल माथुर ..	४७८	मदनमोहन माथुर ..	६८
भंवरलाल दशोरा ..	३५४	मदनमोहनलाल त्रिवेदी ..	१४४, ३४०
भंवरलाल खंडेलवाल ..	१४२, ३४०	मदनमोहन लाल शर्मा, ..	१३४, १६६, १९९
भंवरलाल मांडावत ..	१३०	मदनमोहन महारिषि ..	१८६
भंवरलाल कचेरा ..	७०	मदनमोहन शर्मा ..	३६६, ४०८
भंवरलाल कोठयारी ..	२७६	मदनमोहन भगत ..	२०६
भंवरलाल निगम ..	२९४	मदनमोहन बापना (डा०) ..	६६६
भंवरलाल कच्छहरा ..	३०२	मदनमोहन पारीक (डा०) ..	६८०
भंवरलाल लाखेरी ..	७	मदभप्रताप खूटेटा ..	९६
भंवरसिंह (डा०) ..	७५४	मदन गोपाल ..	१००
		मदन गोपाल शर्मा ..	४८६
		मदन गोपाल व्यास ..	७३४

	पृष्ठ		पृष्ठ
मदन गोपाल कपूर	४१२	मनोदलाल जे० पारीक	७४, ३०४
मदनलाल बावेजा	८४	मनोहर	८
मदनलाल व्यास	३३८	मनी आर० पी०	४७०
मदनलाल कव्यप	१७६, २००	मनी एस० पी०	७४
मदनलाल पारीक	१८८	मनीशंकर शुक्ला	४८८
मदन लाल	२२८, २६८, ७४२	मनोहरलाल	१२४
मदनलाल गुप्ता	३३४, ५१०	मनोहरलाल जैन	२३८, ३५०
मदनलाल सोनी	४१६	मनोहरलाल शर्मा	३५२
मदनलाल भंडारी	४१८	मनोहर लाल	५१६, ४६६
मदनलाल शर्मा	७३४, ३१६	मनोहरलाल माथुर	५५४, ५५८
मदनलाल व्यास	११४, ५०४	मनोहरलाल व्यास (डा०)	६२८
मदनलाल श्रीवास्तव	३८८	मनोहरलाल भार्गव (डा०)	६३८
मदनलाल झंवर	४१६	मनोहरसिंह	५२, १६०
मदनलाल भाटिया (डा०)	६७४	मनोहरसिंह मेहता	१३२, १६१
मदनलाल (डा०)	६८८	मनोहरसिंह हिरन	१६८
मदनलाल अग्रवाल (डा०)	६९६	मनोहर सिंह मोगरा	७२४
मदनलाल गर्ग	५१६	मलिक एन० सी० (डा०)	६००
मदनलाल डोलिया	४७४	मल्हान बी० एन०	१९, ४०
मदनराज मेहता	१४८	मल्होत्रा के० एस० (श्रीमती) (डा०)	६९०
मदनसिंह कोठयारी	२८	मल्होत्रा आर० एम०	७४४
मदनसिंह राठौड़	६४	मल्होत्रा एम० एल०	४०४
मदनसिंह सवतावत	७६	मल्होत्रा पी० एल०	७४४
मदनसिंह	५, २३०	मसानंद जी० एस०	७५४
मदनसिंह देवपुरा	४०८	महतावचन्द मेहता	२६
मदनसिंह यादव	३१२	महमूद	१२२
मदनसिंह बघेला	५१४	महरा बी० एस०	७५४
मदनसिंह भटनागर	५१८	महरा जी० सी०	७५५
मधुकान्त (डा०)	६९२	महरा आर० पी०	७४१
मनडानी के० पी०	५२४	महरा जे० एन०	४०६
मनजीतसिंह	७४०	महादेव प्रसाद	५
मनरूप	९	महादेव टी० (श्रीमती)	३८८
मननाथ फुल्ला (डा०)	६०८	महाराज नारायण कक्कड़	४०८
मनफूल सिंह	१४८	महाजन जी० सी०	२७०
मन्सारमानी डी० एम०	५५४	महाजन जी० एल०	३५०
मन्सारमानी डी० एस०	५२२	महाजन बी० आर० (डा०)	६२४
मनशाराम पुरोहित	१४	महाजन के० सी०	७४०
मनमोहन कौहली	४०, १६०	महारतन परिहार	२३६
मन मोहन अग्रवाल	४६६	महावीर चन्द भंडारी	४२४
मन मोहन कौशिक	१८६	महावीर राज गेलरा	४६२
मन मोहन स्वरूप	५३८	महावीर सहाय	२६८
मन मोहन लाल शर्मा	४८६	महावीर सहाय बैराठी	१५२
मनसुख राम पान्डे	२५२	महावीर प्रसाद त्रिपाठी	१६६, २००
मनीराम दादू (डा०)	६६६	महावीर सिंह सोलंकी	४८६

	पृष्ठ
माथुर जे० बी० (डा०)	६००
माथुर वाई० एस० (डा०)	६१६
माथुर आर० एन० (डा०)	६२०
माथुर बी० पी० (डा०)	६३०
माथुर एस० बी० (डा०)	६७२
माथुर आर० पी० (डा०)	६७६
माथुर बी० के० (डा०)	६८८
माथुर ए० एच० (डा०)	६९०
माथुर एम० एल० (डा०)	७००
माथुर एम० एल० (डा०)	६९६
माथुर एम० पी० (डा०)	६०४, ७०८
माथुर पी० डी० (डा०)	७०८
माथुर जी० एन०	७४०
माथुर एल० एम०	७५०
माथुर डी० पी०	२६८
माथुर जे० के०	७५३
माथुर के० जी०	२४४
माथुर एल० सी०	७५२
माथुर आर० के०	४५०
माथुर एस० एम० एल०	७५४
माथुर पी० डी०	३७२
माथुर एम० विहारी	३९६
माथुर पी० वी० एल०	४३२
माथुर वा० के०	२६६
माथुर के० बी०	७५२
माथुर आर० एस०	५८२
माथुर एस० पी०	४५०
माधुरी डूबे (सुश्री)	४९०
माधोदास व्यास	४३४
माधोराम	५५८
माधोसिंह (डा०)	६६४
माधोसिंह	१०, ६४
माधोसिंह	१८४, ३७६
माधोसिंह राठीड	३१६
माधोनारायण तिगल	३४६
मानकचन्द	११
मानकचन्द मेहता	२३६
मानकचन्द जैन	५२०, ५६४
मानदातासिंह	५८
मानसिंह	६
मानसिंह	६०
मालसिंह	५१८
मानसिंह	३३८

	पृष्ठ
मानसिंह	१८०
मानसिंह	१८४
मारकण्डे जे० एन०	५३८
मारकण्डे एम० एल० (डा०)	६०६
मारुजी जी० डी० (डा०)	६०६
माया चौधरी (डा०) (सुश्री)	६८०
मायाराम	६०
मालविया एस० (डा०)	६८२
मालतीदेवी रायजादा (सुश्री)	४९४

मि

मिटठनलाल	१९२
मिटठनलाल शर्मा	४००
मिटठनलाल गर्ग	४०४
मिटठलाल के० शर्मा	५४२
मित्तल आर० एल०	३९८
मित्तल बी० एम० (डा०)	६१०
मित्तल एम० सी० (डा०)	६९२
मित्तल ओ० एन०	४३२
मिलापचन्द मरडिया	१६, २०२, २२२
मिलापचन्द जैन	६४, ३३८
मिलापचन्द छावडा	२०८
मिलापचन्द सोनी	४७२
मिश्रा एच० एन०	७५२
मिश्रा एम० एम०	७४६
मिश्रा पी० (सुश्री)	४९०
मिश्रा ए० एन०	१६८
मिश्रा जी० पी०	३९४
मिश्रीलाल	५८४
मिश्रीलाल जैन	२८६

मी

मीठालाल के० शर्मा	४७२
मीरचन्दानी टी० जे०	५७२
मीरचन्दानी एम० वी०	८६
मीरा गुप्ता	४३०

मु

मुकटविहारीलाल	१३
मुकटविहारी	१९२, २५४

	पृष्ठ
मैनन के० पी० यू०	३४, १५८
मैनन एम० यू०	३२, २९२
मैनन यू० एल०	२८
मैनेलस ए० एफ० (डा०) (सुश्री)	३३०
मेवावाला एम० बी०	७४९
मेहता बी० एम०	१८
मेहता आर० जे०	७४९
मेहता के० सी०	४६६
मेहता ओ० पी०	५६८
मेहता जी० एल०	३६
मेहता जे० एम०	४३
मेहता एच० एस०	४४
मेहता आर० सी०	२६२
मेहता जी० एस०	२६६
मेहता आर० आर०	२७४
मेहता बी० बी०	५५६
मेहता एस० सी०	५९४
मेहता वी० एल० (डा०)	६००
मेहता पी० आर० (डा०)	६२४
मेहता एस० आर० (डा०)	६७०
मेहता एच० आर० (डा०)	६८०
मेहता के० एन० (डा०)	६९४
मेहता जे० बी० (डा०)	७०८
मेहताबसिंह	७५१
मेहताबचन्द मेहता	२३६
मेहरा पी० सी० (डा०) (सुश्री)	६३०
मेहरा के० एन०	३९४
मेहरा जे० एन०	५४८
मेहरा वी० के०	५५२, ५५४
मेहरा एच० जी०	९४, ३०४
मेहरा वी० डी०	७५१
मेहरोत्रा पी० एन०	३७०
मैथ्यू जेकब स्के	३१८
मैथ्यू टी० सी०	४३४
मैनन एम० यू०	३२
मैनन के० पी० यू०	३४, १४९
मैनन पी० यू०	१४९
मैनी एस० पी०	७६

मै

	पृष्ठ
मोगाजी	८
मोगे डी० जी०	४०४
मौजीराम गर्ग	५८४
मोडसिंह	११८
मोती	९
मोती	६९८
मोतीलाल कक्कड	८०, ३५४
मोतीसिंह शंखला	८६
मोतीलाल गुप्ता	१५२
मोतीलाल भारद्वाज	१०६
मोतीसिंह	१७८
मोतीलाल	६, ११, १९२
मोतीलाल गुप्ता	३९२
मोतीलाल मनोरिया	४९६
मोतीराम	५४८
मोतीसिंह छाजेड़ (डा०)	६६०
मोदक आर० एन०	३४
मोदक बी० आर० (सुश्री) (डा०)	६४०
मोवली पी० प्रतापा	४१८
मोहनलाल सुखाड़िया	२, ८
मोहनलाल राजदान	१६, २०३, २१४
मोहन मुकर्जी	१९
मोहनसिंह भंडारी	६८
मोहनसिंह माहियारिया	७२
मोहनसिंह	१०, ७८, ९८
मोहनसिंह	३५६
मोहनलाल ओसवाल	४८२
मोहनलाल मेहता	४९०
मोहनलाल गुप्ता	४८०, ७२०
मोहनलाल माथुर	२४०
मोहनलाल पंसांरी	२४२, ३५०
मोहनलाल शर्मा	२४४
मोहनलाल माथुर	२५४, ३१०
मोहनसिंह गोदरा	२५६
मोहनसिंह	२६०
मोहनलाल माथुर	३८८, ५१८
मोहनसिंह सक्तावत	३१६
मोहनसिंह	५८०
मोहनसिंह पुरोहित (डा०)	३७०
मोहनलाल जोशी	४१४
मोहनलाल शर्मा	४१४

	पृष्ठ		पृष्ठ
मोहनसिंह राठौड़ ..	४१८	मोहता एस० एल (डा०)	६८४
मोहनबल्लभ पन्त ..	४३४	मोहित्रा एस० (डा०) (श्रीमती)	६३२
मोहनलाल (डा०) ..	४६६		
मोहनलाल शर्मा ..	५२०	मं	
मोहनलाल बाहेती ..	५१८		
मोहनलाल व्यास ..	२३२	मंगतराम (डा०) ..	६९४
मोहनलाल शर्मा ..	५०२	मंगतराय ..	४६२
मोहनलाल सेठिया ..	२७०	मंगल टो० एन० ..	४४२
मोहनलाल भागवत ..	३४८	मंगलचन्द्र कीचर ..	१३८
मोहनलाल पालिवाल ..	३८६	मंगलसिंह भारद्वाज ..	१४६
मोहनलाल माथुर ..	५४४	मंगलसिंह (डा०) ..	६१२
मोहनलाल मज्ज ..	५१४	मंगलसिंह वर्मा ..	५१२
मोहनसिंह भंडारी ..	३५२	मंगलदेव कटारिया ..	५६४
मोहनसिंह बी० जैन ..	५४०	मंगलसिंह ए० ..	९,१४०
मोहनलाल जारठ (डा०) ..	६१६	मंगलसिंह ..	१४८
मोहनलाल पान्ड्या (डा०) ..	६४०	मंगलसिंह ..	५३६
मोहन माथुर (डा०) ..	६००	मंगल सांखला (डा०) ..	६८२
मोहनलाल गुप्ता (डा०) ..	७०२	मंगला तलवार (डा०) (श्रीमती)	६०४
मोहनलाल खाविषा (डा०) ..	६३२	मंडोजा ए० आर० ..	७४८
मोहनराम ..	१३४	मंसाराम ..	५६०
मोहब्बतसिंह ..	९,२३०	मंसाराम पुरोहित ..	२१६
मोहब्बत अली ..	५२४,५७४		
मोहम्मद गनी ..	७०	य	
मोहम्मद इस्माइल ..	७२,३०२		
मोहम्मद जामनखां ..	१०६	यतीन्द्रचन्द्र बोहरा (डा०)	६३४
मोहम्मद आबीद ..	१२२	यशवन्तसिंह झाला ..	२६०,३६०
मोहम्मद रफीक ..	२१८	यसवन्तजी त्रिवेदी ..	२६२
मोहम्मद हुसैन ..	१२८	यशवन्त लाल नागर ..	५१८
मोहम्मद अब्दुर रहमान ..	२३०	यशपाल त्यागी ..	५६८
मोहम्मद हुसेन फारुकी ..	२२०	यशपाल भाटिया ..	५६८
मोहम्मद बक्स जदीन ..	४८६	यशोदा वर्मा (सुश्री) ..	४५८
मोहम्मद नजीरुदीन ..	४४८	यशोदेव शर्मा ..	७४,३५०
मोहम्मद सैयद ..	१३४	यशदत्त (डा०) ..	६९०
मोहम्मद उमर ..	१९६		
मोहम्मद खां ..	११८	या	
मोहम्मद याकूब ..	२३०		
मोहम्मद अजीज खां ..	५०८	याजनिक जी० एन० (डा०)	६६८
मोहम्मद अलि ..	५२४	यादवेन्द्र प्रशाद शर्मा ..	१९०
मोहम्मद अली जईदी ..	४८०	यासीनअलोखां ..	६०,३६४
मोहम्मद बशीरखां ..	५७२	यु	
मोहनी अडवानी ..	४९२		
मोहिन्द्रसिंह ..	४०	युगराज बोहरा ..	७१४

	पृष्ठ		पृष्ठ
राधा कृष्ण कौशिक	४१४	रामचन्द्र हरित	७६
राधा कान्त खन्ना (डा०)	६२२	रामचन्द्र	८
राधा किशन त्रिपाठी	३५२	रामचन्द्र कल्ला	३८४
राधा किशन दत्त शर्मा	५०८	रामचन्द्र भार्गव	२३८
राधा किशन पांड्या (डा०)	६९६	रामचन्द्र पुरोहित	२९६
राधाकिशन व्यास	७३२	रामकरण गुप्ता	२२, ८२
राधा गोपाल शर्मा	५००	रामचन्द्र शर्मा	८६, ३०६
राधा वल्लभ चौधरी	६८	रामचन्द्र मीना	९०
राधाचरण सिन्हा	७३८	रामचन्द्रसिंह	९८
राधा मोहन भार्गव	२७२	रामजीलाल कपासिया	१०२
राधा मोहनलाल माथुर (डा०)	६७८	रामदास गर्ग	२४४
राधेश्याम अग्रवाल	२६	रामनारायण शर्मा	७२४
राधेश्याम दास अग्रवाल	७६	रामनारायण	७, १९, १२२, १४०
राधेप्रसाद	२२४	रामप्रताप शर्मा	१५०
राधेश्याम शर्मा	२४०, ३३०	राम मूरतसिंह	३७४
राधेकान्त शर्मा	३३४	रामदत्त शर्मा	२४
राधेश्याम	३८६	रामसिंह बारेठ	१८०
राधेश्याम रामकुमार मुरारका	१३	रामसिंह कौशिक	१८२
राधेश्याम त्रिपाठी	४०६	रामसिंह भाटी	१९४
राधेश्याम गोयल	५७६	रामकिशन सिरोलिया	१८८
राधेश्याम श्याम	४६६	रामकिशोर सक्सेना	४२२
राधे मोहन	२८०	रामकुमार आचार्य	४०८
राधेमोहन गुप्ता (डा०)	६२२	रामकुवर जोशी	४१६
राजेश्वरप्रसाद भार्गव	४८६	रामदेवसिंह	५
राम अहजा	४४२	रामसिंह (सरदार)	१९२
राम अवतार	२०४	रामअवतार गुप्ता (डा०)	६९४
राम करन सिंह	६	रामकृष्ण धावन	२३६, ७२८
रम्भी आर० एन०	२७८	रामलाल	६
रामकिशोर व्यास	२५	रामलाल खुराना	५५२, ५५६
रामकिशोर केशोट	२९२	रामलाल छाछेरा	५६०
रामनिवास मिरधा	११	रामलाल सागल	४५२
रामजीलाल मित्तल	४४६	रामलाल माथुर	२३८
रामजीलाल	२२८, २६४, ३५४	रामलाल परिहार	५४
रामनिवास हावा	१८, ७३२	रामकृष्ण गुप्ता	२४०, ३३६
रामसिंह	१९, ३८, ५६	रामस्वरूप नागर	२४२
रामदत्त	५०	रामस्वरूप विजय	२५४
रामदत्त शर्मा	२९६	रामजीलाल	२८८
रामसिंह	१८८, ४६०	रामशरण शर्मा	२५८
रामकुमार	१८८	रामनाथ कौल	२८४
रामकुमार शर्मा (द्वितीय)	५८	रामप्यारी शास्त्री (सूत्री) (डा०)	४९०
रामसिंह चौहान	६०, ३३६	रामप्रतापसिंह	४२८
रामरतन अग्रवाल	६४, ३३६	रामप्रताप शर्मा	३१०
रामचन्द्र ओझा	६६	रामसिंह	३१८

	पृष्ठ		पृष्ठ
रामसिंह जैन ..	३३४	रामसिंह व्यास ..	५५४
रामरतन अग्रवाल ..	६४, ३३६	रामलाल राजपाल ..	५०४
रामनिवास माथुर ..	८४, ३०६	रामस्वरूप शर्मा ..	४८२
रामबाबू कोठ्यारी ..	८६, ३३८	रामकृष्ण शर्मा ..	५७८
रामनारायण झालानी ..	४९८	रामजीलाल (डा०) ..	६२०
रामनारायण सक्सेना ..	३५४	रामजीवन (डा०) ..	६८२
रामधर कै० गुरालिया ..	३७६	रामचन्द्र नारंगी (डा०) ..	६३६
रामनारायण शर्मा ..	३२२, ३८२	रामदयाल बंसल (डा०) ..	६३६
रामशरण शर्मा ..	२५२, २८४	रामसिंह देवरा (डा०) ..	६४२
रामप्रसाद कश्यप ..	१०८	रामकृष्ण ..	१०
रामप्रसाद दुसाद ..	४१४	रामकृष्ण (डा०) ..	६४२
रामराजलाल ..	२३२	रामप्रकाश शर्मा (डा०) ..	६४६
राममूर्ति ..	२७८	रामसिंह देवरा (डा०) ..	६४२
रामसहाय सक्सेना (डा०) ..	४२८	रामबहादुर सक्सेना (डा०) ..	६७२
रामचन्द्र जैन ..	४६०	रामदेव ..	१८२
रामस्वरूप गोयल ..	१८	रामसिंह (डा०) ..	६८६
रामबली उपाध्याय ..	४४६	राम नरेशचन्द्र ..	४७०
रामरघुनाथ ..	४५०	रामनारायण शर्मा ..	१२४
रामचन्द्र व्यास ..	४२२	रामकृष्ण मेहता ..	४२०
रामप्रताप सिंह (डा०) ..	६५२	रामनिवास ..	५०४, ५१२
रामसिंह ..	७१८	रामाकान्त तिवारी ..	५०२
रामधन ..	६, १०	रामानन्द ..	१०६
रामचन्द्र मित्तल ..	४८०	रामानन्द तिवारी ..	४६०
रामचन्द्र गौड़ ..	४७६	रामानन्द गोयल ..	४६०
रामचन्द्र राठौड़ (डा०) ..	६५०	रामाणी बी० एस० ..	४२
रामस्वरूप भागव ..	४८२	रमाशंकर त्रिपाठी ..	४८०
रामस्वरूप शर्मा ..	५७६	रामचन्द्र ईसवाल ..	५०४
रामस्वरूप गुप्ता ..	१९०, ४४६	रामाचन्द्रन ..	७४०
रामस्वरूप सक्सेना ..	५०६	रामचन्द्र राव ..	७४१
रामस्वरूप त्रिवेदी ..	४८८	रामावतार खेमाणी ..	५४२
रामनारायण महेश्वरी ..	४९८	रामेश्वर ओझा ..	४०४
रामगोपाल सक्सेना ..	५००	रामेश्वरसिंह ..	१०८
रामप्रसाद ..	९, ५१८, ५३६	रामेश्वरदयाल गुप्ता ..	८८
रामधर शर्मा ..	५०३	रामेश्वरदयाल ..	८०, १००, १४१
रामकृष्ण दास गुप्ता ..	५१६	रामेश्वरप्रसाद गुप्ता ..	१५०
रामस्वरूप ..	२७८	रामेश्वरलाल ..	१५२
रामशरणदास शर्मा ..	५०८	रामेश्वरदयाल ..	७
रामनारायण गुप्ता ..	५१०	रामेश्वर खंटेटा ..	१८८
राम प्रसाद भाणू ..	१२६	रामेश्वर टोटिया ..	१३
रामस्नेही कुलश्रेष्ठ ..	५१२	रामेश्वरलाल बोहरा ..	१९२
रामजीलाल गुप्ता ..	५१२	रामेश्वरदयाल सक्सेना ..	४१४
रामसरनसिंह ..	४६२	रामेश्वर जिन्दल ..	४१४
रामसिंह व्यास ..	५५०	रामेश्वरप्रसाद शर्मा ..	१०८

	पृष्ठ
रामेश्वरलाल गोयल (डा०)	६६०
रायधर्मधीर थापर	३८२
राय ए० के०	३६
राय बी० एन०	३९४
राय डी० बी०	७५६
राय टी० एम० (डा०)	६८८
राय बी० एम०	६०६
राय के० एन० (डा०)	६२६
राय एम० बी०	४४०
राय एस० (डा०) (सुश्री)	६८२
राय बी० एस० (डा०)	६८६
रायना वी० एम०	२७८
रायबहादुर (डा०)	७००
रावत	१०
रावत एच० एम०	६०८
रावत एस० एस० (डा०)	६७०
रावत तेजसिंह	९६
रावतसिंह	११२
रावत बी० एल०	१५८
राव एन० एम०	३८४
राव रामचन्द्र ए०	२६८
राव प्रकाश के०	२७०
राव एच० एस० (डा०)	६१०
रारा एच० सी०	४०२
रावता	१०
राव देव सी० बी०	२६८
रावल पी० एल०	७५३
राशबिहारीलाल	१९४

रि

रिखबचन्द सिधवी	४२२
रिखबचन्द धारीवाल	३,७
रिखब राज मेहता	२९६
रिछपालसिंह	२६,२४०
रिछपाल सिंह	२३६,२५८
रिधीचन्द्र	७
रिपुदमनसिंह (डा०)	६९८
रिषी पी० एल० (डा०)	५९४

री

रीबेलो जी० एन० (मंजर)	७४६
-----------------------	-----

	पृष्ठ
रूपकिशोर गोयल	४८२
रूपचन्द	३५८
रूपचन्द माथुर	२०
रूपचन्द मेहता	१७६,२०१
रूपचन्द लुहाड़िया	२८६
रूपचन्द मानसिंह	४७६
रूपनारायण	१००
रूपनारायण	१०६
रूपनारायण	३५८
रूपनारायण माथुर (डा०)	६०६
रूपराज कल्ला	२७२
रूपराज पुरोहित	२७२
रूपराज पुरोहित (डा०)	६८४
रूपरानी माथुर (श्रीमती)	३२२
रूपलाल	७५३
रूपलाल गांधी	६२,३६४
रूपलाल भटनागर	४३४
रूपसिंह (डा०)	६८०
रूपशंकर शर्मा	३४८
रूपसिंह	१३४,२२०
रूपसिंह (मेजर)	१००
रूपसिंह भील	३६६
रूपसिंह सोलंकी	१५२
रूपाराम	१०,१२८
रुद्रदत्त शुक्ला	४१४
रुंगटा ए० एल०	४२

रे

रे आर० एच०	१६४,१९९
रेचल जुडा (डा०) (सुश्री)	६४८
रेवरमल शर्मा (डा०)	६५२
रेवतमल सिधवी	८२
रेवती रमण	३०१
रेवती रमण शर्मा	८४
रेवल चन्द्र सूरी	५३४
रेंगा-राव के०	७५०

री

रीवर्टस ए० सी०	७४८
----------------	-----

	पृष्ठ
रात्रट सी० (सुश्री)	३८८
रोशनलाल माथुर	५४, १५८
रोशन मल	१४८
रोशनलाल मेहता	२१६
रोशनलाल शर्मा	२२८
रोशनलाल मःहोत्रा	५५०
रोशनलाल अग्रवाल (डा०)	६५६
रोशनलाल चावला (डा०)	६९०
रोनका मालवीय (कुमारी)	४५६

रं

रंगराव कलकनी	२७२
--------------	-----

ल

लखपत राज शाह	४८८
लखपतराय	५८४
लकरे सी० एन०	७५२
लच्छुराम कोडेंसर	५
ललित कृष्ण शर्मा	२९४
ललित मोहन	१६६, २०१
ललित नारायण	१७०, १९९
ललितबिहारी बक्षी	५४०
ललित चौपड़ा (श्रीमती) डा०	६६६
ललितप्रसाद	२०६
लल्लराम	७
लवानीयावी० पी०	३९८
लहरसिंह मेहता	२४, २१४
लक्षमण	८
लक्षमणसिंह डूंगर	१२
लक्षमणसिंह	१७६
लक्षमणसिंह	१९६, २६८
लक्षमणसिंह (द्वितीय)	१७८
लक्षमणस्वरूप माथुर	२४८
लक्षमणसिंह घाभ ई	९२
लक्षमणसिंह तोमर	५१२
लक्षमण सिंह (डा०)	६८२
लक्षमणपुरी	२६८
लक्ष्मीलाल	१९४
लक्ष्मीलाल जोशी	१८
लक्ष्मी शंकर दशोरा	१६८, २०१

	पृष्ठ
लक्ष्मी नारायण	४७०, ५०४
लक्ष्मी नारायण	२७८
लक्ष्मीनारायण चौधरी	२०८
लक्ष्मी नारायण माथुर	७६, ३६०
लक्ष्मी नारायण मूथा	२१०
लक्ष्मी नारायण माथर	२१०
लक्ष्मी नारायण पुरोहित	२२२
लक्ष्मी नारायण शर्मा	५१४
लक्ष्मी नारायण व्यास	४८२
लक्ष्मी चन्द गुप्ता	८८
लक्ष्मी चन्द	९, ३५२
लक्ष्मी चन्द्र	१२२
लक्ष्मी नारायण सांडिल्य	२४२
लक्ष्मी नारायण व्यास	४८२
लक्ष्मी नारायण श्रोवस्तव	२९६
लक्ष्मी नारायण गुप्ता (डा०)	६३८
लक्ष्मी नारायण बंसल (डा०)	६३८
लक्ष्मी नारायण (डा०)	६६२
लक्ष्मी नारायण चितलंगी	४८४
लक्ष्मी नारायण छंगाणी	२०४, ४२४
लक्ष्मी कान्त पान्डे	५७६
लक्ष्मी कान्त वर्मा	२९६
लक्ष्मी चन्द जोशी	५८६
लक्ष्मी चन्द बावरा (डा०)	६४८
लक्ष्मी कुमार वर्मा	७२४
लक्ष्मी भटनागर (डा०) (श्रीमती)	६१०
लक्ष्मी वजाज (सुश्री)	४४२
लक्ष्मी शरण	१०२

ला

लाजपतराय वर्मनी	३५०
लाजपतराय (डा०)	६४६
लाडली लाल शर्मा	४३०
लाडली शरण शर्मा	५०२
लाद	६
लादूसिंह	१७८
लायक अहमद	११८
लाल सी० वी०	२६
लाल वी०	३९४
लाल एच० के०	७५४
लाल ई० वी०	७५३

	पृष्ठ
विश्वेन्द्रपाल सिंह	१०८
विश्वेन्द्रनाथ गुप्ता	३६८
विश्वेश्वर स्वरूप भार्गव	४९०, ५२४
विश्वेश्वरलाल पान्डिया	१२८
विश्वेश्वर दयाल	३८६
विष्णुदत्त शर्मा (प्र०)	३८
विष्णुदत्त शर्मा (द्वि०)	३८
विष्णुदत्त शर्मा	१५९, १८५
विष्णुदत्त	३५८
विष्णुदत्त त्रिपाठी	४९८
विष्णुमिश्र सक्सेना	२३६
विष्णु चन्द्र पंडित	२६०
विष्णु चन्द्र	४४८
विष्णुराम नागर	४१०
विष्णु माया कौल (श्रीमती)	३८४
विष्णु अम्बालाल जोशी	४०६
विसरामपुरी	५३२

वी

वीरसिंह	३१८
वीरानसिन्हा	४३६
वीरेन्द्रसिंह	१८४
वीरेन्द्र वीर बज	८४, ३३८
वीरेन्द्र सिन्हा	१९०
वीरेन्द्रकुमार कन्जोलिया	४८२

वे

वेंकटाचार्य एस० (डा०)	४१४
वेंकट शर्मा	४४८
वेंकटेश्वर आईयर	४८०
वेदकुमारी (श्रीमती)	५१४
वेदान्त रामानुजम	४७८
वेदी एच० के० (डा०)	६७०
वेनी	९
वेनीप्रसाद भार्गव	२३८

वै

वैशम्पायन शर्मा (डा०)	६२८
वैद्य आर० बी०	७५७

वी

व्योतरा पी० आर०	७४१
वोन्डा एस० के०	७४९
वोजाहर एच० आई०	७५०
वोका एच० एस० (डा०)	६१४

श

शक्तिदान	३५८
शकुन्तला गुप्ता (श्रीमती)	४९२
शकुन्तला शर्मा (श्रीमती)	४९०
शकुन्तला पी० के० (सुश्री)	४९०
शकुन्तला मेहरा (सुश्री)	४९४
शचिन्द्रकुमार	४२८
शमशेर सिंह	५६८
शमशेर सिंह	९८
शमशुद्दीन अहमद	२३८
शन्नोदेवी (श्रीमती)	११
शरफ अली	५८
शरणलाल बिहा रीलाल	२५६
शर्मा एम० एम०	२०६
शर्मा के० एम० के०	३८४
शर्मा आर० एल०	४३८
शर्मा एल० आर०	३९०
शर्मा के० एल०	३९०, ५२४
शर्मा जी० आर०	४५४
शर्मा एस० एस०	४४२
शर्मा आई० सी०	३९२
शर्मा डी० एल०	३९२
शर्मा पी० डी०	३९२
शर्मा एम० एल०	४०२
शर्मा वी० एन०	९४, १०४, ३६४
शर्मा जी० आर० के०	४६४
शर्मा आर० के०	४६८
शर्मा एम० एल०	४५४
शर्मा एम० के०	४३०
शर्मा एम० पी०	४६६
शर्मा डी० एस०	४५४
शर्मा एस० एन०	५८०
शर्मा जी० के०	२३४, ४५४

	पृष्ठ
शर्मा एच० के० ..	२७०
शर्मा डी० डी० ..	६२०
शर्मा जे० एन० ..	७३०
शर्मा डी० एन० ..	५७८
शर्मा बी० सी० ..	५८०
शर्मा वी० एन० ..	५९२, ४५४
शर्मा सी० एम० ..	५९४
शर्मा बी० डी० ..	७५३
शर्मा एन० के० ..	४४२
शर्मा वी० एस० ..	४०२
शर्मा एम० सी० ..	४९४
शर्मा जे० पी० (डा०) ..	५९४, ५९६
शर्मा बी० एन० (डा०) ..	५९२
शर्मा बी० सी० (डा०) ..	५९८
शर्मा जी० सी० (डा०) ..	५९८
शर्मा पी० एल० (डा०) ..	६०२
शर्मा के० एन० (डा०) ..	६०२
शर्मा ए० बी० एल० (डा०) ..	६०६
शर्मा के० डी० (डा०) ..	६०६
शर्मा आर० के० (डा०) ..	६०८, ६७८
शर्मा बी० के० (डा०) ..	६०२
शर्मा जे० पी० (डा०) ..	६१०
शर्मा एन० एल० (डा०) ..	६१०
शर्मा एम० एम० (डा०) ..	६१२
शर्मा के० पी० (डा०) ..	६१४
शर्मा बी० एस० (डा०) ..	६०२, ६२०
शर्मा के० पी० (डा०) ..	६२८
शर्मा ए० के० (डा०) ..	६१८
शर्मा जी० एस० (डा०) ..	६७६
शर्मा एस० के० (डा०) ..	६८०
शर्मा ओ० एन० (डा०) ..	६८६
शर्मा एम० (डा०) ..	६८६
शर्मा आर० एन० (डा०) ..	६९४
शर्मा डी० आर० (डा०) ..	६९४
शर्मा सी० पी० (डा०) ..	६९६
शर्मा बी० एन० (डा०) ..	७०४
शर्मा जी० सी० (डा०) ..	७१०
शर्मा के० एन० (डा०) ..	७१०
शर्मा जे० वी० एन० (श्रीमती) (डा०) ..	६६२
शर्मा एस० (डा०) (श्रीमती) ..	६८४
शर्मा ओ० पी० ..	४४२
शर्मा वी० पी० ..	७४१
शर्मा एम० एल० ..	६०६, ७४६

	पृष्ठ
शर्मा एस० डी० ..	६००, ७४७
शर्मा आर० पी० ..	५७४, ७४९
शा	
शालिगराम ..	५७०
शान्तीलाल गुप्ता ..	३६६
शान्तिदेवी भटनागर (श्रीमती) ..	४९२
शान्तिप्रसाद भार्गव ..	१६४
शान्तिबाई (डा०) (श्रीमती) ..	६७४
शान्ति मायुर (डा०) (सुश्री) ..	६०८
शान्ति भंडारी (श्रीमती) ..	३८८
शान्ति शर्मा (सुश्री) ..	४५८, ४९२
शान्तीलाल अहुजा ..	१५८
शान्तिस्वरूप ..	१२६
शान्तिस्वरूप शर्मा ..	४१२, ४३६
शान्ति शर्मा (डा०) ..	६५२
शान्ति मेहता (डा०) (सुश्री) ..	६८२
शान्ता वंसल (सुश्री) ..	४९४
शान्ता भारद्वाज (डा०) (श्रीमती) ..	६६६
शारदा आर० पी० (डा०) ..	६००
शारदा कृष्ण राव (डा०) ..	६०४
शारदा पी० (डा०) (सुश्री) ..	६०८
शारदा वी० (डा०) (श्रीमती) ..	६५६
शारदाप्रसाद कोशिक (डा०) ..	४६०
शारदा भार्गव (श्रीमती) ..	१२
शारदा एस० एल० ..	१५४
शास्त्री आर० के० ..	४०
शास्त्री डी० ..	४५४
शास्त्री के० डी० (डा०) ..	६००
शास्त्री जी० एस० ..	५५२
शाह सी० वी० ..	३८२
शाह के० जी० ..	५३६
शाह वी० जी० ..	७५५
शाह वी० वी० ..	५५०, ५५४
श्यामकरण ..	५४
श्यामकरण कोशिक ..	७५०
श्यामकुमारी वली ..	४५६
श्यामकुमार शर्मा ..	५७६
शाकम्बरी दयाल (डा०) ..	६०८
श्यामचन्द्र शर्मा ..	४१६, ४१८
श्यामदास माथुर ..	४०४

	पृष्ठ		पृष्ठ
श्यामनारायण भागवत	६६	शिवकुमार जैन (डा०)	६४६
श्यामप्रकाश टीकीवाल	५१२	शिवगोपाल कमठान	९८
श्यामबिहारी चन्द	११२	शिवचरण	९
श्यामबिहारी चन्द भंडारी	३५८	शिवचरण दास	१८२
श्यामबिहारी चन्द	११२	शिवचन्द दूबे	४१४
श्यामबिहारी लाल	२२०	शिवचरण लाल	५०८
श्यामबिहारी लाल शर्मा	४२४	शिवचरणलाल भटनागर (डा०)	६२०
श्यामबिहारी लाल माथुर	५००	शिवजी लाल	२३०
श्याममनोहर तिवारी (डा०)	६९२	शिवदयाल गुप्ता	५६६
श्यामदास बोहरा	२१०	शिवदत्त शर्मा	८२, ३३८
श्यामलाल	३२	शिवदत्त पुरी	१८२
श्यामलाल	७२	शिवदयाल पारिक (डा०)	६४०
श्यामलाल	१४८, १५८	शिवदयाल माथुर	३४१
श्यामलाल	२३०	शिवनाथ सिंह	१८०, ४३४
श्यामलाल माथुर	४४४	शिवनार्थसिंह धामोरा	५
श्यामलाल पुजारी	२६०	शिवनारायण तिवारी	३६०
श्यामलाल भटनागर	५१४, ५२०	शिवनारायणसिंह	५२०
श्यामलाल गुप्ता	५४८, ५५०	शिवपाल सिंह	८४, ३०४
श्यामलाल बोहरा (डा०)	६२०	शिवपुरी बी० एस०	३९६
श्यामशंकर	२८	शिवप्रसाद शास्त्री	३८८
श्यामस्वरूप शर्मा (डा०)	६७६	शिवप्रताप शर्मा	४७०
श्यामसिंह	१९४	शिवप्रताप वर्मा	४७८
श्यामसिंह	२२४	शिवप्रसाद जोशी	५३६
श्यामसुन्दर शर्मा	१८, ५४, ३४८	शिवराम जैन	६८
श्यामसुन्दर जोशी	९०, ५४०	शिवरामनी सिंह	८६
श्याम सुन्दर शंखधर	३८४	शिवराज नारायण	१८२
श्यामसुन्दर शर्मा	५१०	शिवराज बहादुर	४१८
श्यामसुन्दर श्रीवास्तव	१३०	शिवराज पुरोहित	५८४
श्यामसुन्दर लाल	१९४, ४२२	शिवलहरी	३५८
श्यामसुन्दर नाथ	१९६	शिवलहरी शर्मा	२५६
श्यामसुन्दर माथुर	५४४	शिवलाल बुन्देला (डा०)	६६४
श्यामस्वरूप कुलश्रेष्ठ	४१२, ५७०	शिवशंकर	३८, १६०
श्यामसुन्दर व्यास	५३८	शिवशंकर	४५०
श्यामसुन्दर सारवाल	५७६	शिवशंकर शर्मा	५७८
श्यामसुन्दर डी० मेहता (डा०)	६५८	शिवसिंह	१९४
श्यामसुन्दर	१०	शिवहरे जी० सी०	३९६
		शिवहरे के०	५१०
		शिवशरण लाल	७२२
शि		शी	
शिखरचन्द कोचर	२२२	शीतलाप्रसाद पुरोहित	९०
शितर प्रसाद वेराठी	४८६	शीलवती गुप्ता (श्रीमती)	४५६
शिवकुमार शर्मा	१८८		
शिवकुमार	५०२		
शिवकुमार (डा०)	६२६		

	पृष्ठ		पृष्ठ
शीलारानी माथुर (डा०) (सुश्री)	६१८	शंकरनारायण एच० एस०	२७८
शीला शर्मा (डा०) (श्रीमती)	६२०	शंकरलाल	१, ६२
शीशराम	५	शंकरलाल द्वे	५०८
शीशराम शर्मा	१७६, २००	शंकरलाल पंचाल	५७८
		शंकरसहाय सक्सेना	४१०
शु		शंभूदत्त व्यास (डा०)	६८२
शुक्ला एम० के०	४४०	शंभूदयाल भार्गव	२३८, ३८२
शुक्ला डी० पी०	२६६	शंभूलाल शर्मा	३८२
शुक्ला जी० एस०	२९२	शंभूदयाल गुप्ता	६२
शुक्ला आर० एन० (डा०)	६४८	शंभू सहाय	२३२
शुक्ला एस० सी० (डा०)	६९२	शंभूदत्त शास्त्री	४७४
शुक्ला एस० डी०	३६०	शंभूलाल तिवारी	७३४
शुभकरण	८२, ३१६	शंभूसिंह	१५४
शुभकरण काविया	६४	शंभूसिंह वेवरा	८८
शुभदेव अग्रवाल (डा०)	६५४	शंभूसिंह	४८२
		स	
शू		सक्सेना बी० एन०	२७८
शूरवी रसिंह	६००	सक्सेना आर० आर० (सुश्री)	४५६
		सक्सेना जी० एस०	३७८
शे		सक्सेना एम० के०	२०९, ३७८
शेखावत जी० एस०	३९२	सक्सेना बी० एस०	४६६
शेखरवास शर्माक (डा०)	६४२	सक्सेना पी० के०	५७६
शेरसिंह	४०, ३३६	सक्सेना एच० एन०	२६
शेरसिंह कोठयारी	२५४	सक्सेना ए० बी० एल०	४६६
		सक्सेना जे० एस०	४३०
शो		सक्सेना के० एस०	४८६
शोभना बेनर्जी (सुश्री)	४५६	सक्सेना जे० एस०	२७०
शोभालाल बी० माथुर	५५८	सक्सेना डी० के०	४२
शोभागमल श्रीमाल	५२०	सक्सेना आर० बी०	४२
शोभागनारायण माथुर	४२२	सक्सेना जे० पी० (डा०)	४२८
शोभालाल दाबी	३०८	सक्सेना एम० एल० (डा०)	६९२
शोभाराम	१३	सक्सेना बी० एस० (डा०)	६१०
		सक्सेना डी० पी० (डा०)	६१८
शं		सक्सेना आर० सी० (डा०)	६९२
शंकरमल माथुर	३०४, ३३४	सक्सेना आई० एन०	७४१
शंकररूप राय	१४४, ३४२	सक्सेना वी० डी०	७४२
		सक्सेना जी० एम०	५२२
		सक्सेना एच० एच० पी०	७४७
		सगर्तासह	७२०
		संगवी एल० एम०	७०८

	पृष्ठ		पृष्ठ
सचदेव आर० एन० (डा०)	५९६	सम्पतमल भंडारी	१९,३८
सचानन्द	८६	समरथराज	५०
सचेती डी० सी०	४६८	सम्पतराय माथुर	२१८
सचिदानन्द शर्मा	३२०	समर्थराज	२४८
सज्जनसिंह	३९६	समलोट पी० एस०	४६८
सज्जननाथ मोदी	७८	समशेर अली	५०६
सज्जनसिंह राणावत	९२	समशेरसिंह	२४८
सज्जनसिंह कौठ्यारी	५८०	समर्थसिंह बक्षी	५४०
सज्जनसिंह बक्षी (डा०)	६३४	सम्पतमल माथुर	५४२
सत्यवृत्त शर्मा	३५४	समुद्रसिंह	७३४
सतबन्धकौर (श्रीमती)	१०	सरकार एस० न्यू (श्रीमती)	५०२
सत्यदेव आर्य	११२,३६०	सरजनलाल माथुर	६५२
सत्यगुरुधरण माथुर	१२८	सरदारसिंह	७,८२
सत्यप्रकाश रघागी	१९४	सरदारसिंह	१२४,१८४
सत्यकीर्ती शर्मा	२९४	सरदारसिंह	३०८,३३८
सत्यनारायणसिंह	५३०	सरदारसिंह	३९०
सत्यनारायण खंडेलवाल	९२	सरदारसिंह	७४६
सत्यवानी कौसल (सुश्री)	४५६	सरदारसिंह	२२०
सतीशचन्द्र	५	सरदारसिंह मेहता	५५६
सतीशचन्द्र गोयल	४७६	सरदारसिंह गेहलोत	२४०
सत्यनारायण त्रिवेदी	५१६	सरदारमल धारीवाल	२४२
सत्यपाल	१४६	सरवेश्वरदयाल माथुर	२५६
सत्यपाल कश्यप	५५८	सरवेश्वरनारायण माथुर	४८२
सतसंगी के० सी०	५७२	सरलादेवी (डा०) (श्रीमती)	६६८
सतीजा ए० सी० (डा०)	६२६	सरला माथुर (सुश्री)	४५८
सतीजा एस० के० (डा०) (सुश्री)	६३०	सरला मोदर (श्रीमती)	४५८
सतीन्द्र प्रकाश (डा०)	६७८	सरस द्वियोगी	७१६
सत्यप्रकाश गुप्ता	४३८	सरस्वती ओझा (श्रीमती)	५२२
सत्य चन्द्र (श्रीमती)	५२४	सरनाथसिंह शर्मा	३९२
सत्य भानू	४३२	सरन आर० एल० (डा०)	५९८
सत्यप्रकाश श्रीवास्तव (डा०)	७२०	सरन के० के० (डा०)	६१०
सत्यप्रकाश अग्रवाल	७२४	सरन जे० सी० (डा०)	७०६
सवाशंकर झा	३८६	सरन एल० अर० (डा०)	७०६
सवानन्द सहगल	५५८	सरन आर० जी०	४४४
सवन एम० एल० (डा०)	६९२	सरन जी० पी०	५९४
सबलसिंह कछवा	२६०	सरोवन एम० जी० (डा०)	६१४
सबरवाल बी० बी०	२६०	सरोज कुमार	५१०
सबरवाल एल० एम०	२६	सरोविया एस० ए० (डा०)	६९०
सबरवाल एस० एस०	७३०	स्वर्णलता अग्रवाल (श्रीमती)	४९२
सयनिस एम० बी०	३९६	स्वरूपचन्द्र मोदी (डा०)	६९०
सम्पतराज	७	स्वरूप एम०	७५१
सम्पतरास	३,६	स्वाधीन रिपीदत्त मेहता	५७०
सम्पतराज जैन	२८८		

	पृष्ठ		पृष्ठ
सीताराम हल्दिया ..	२९४	सुन्दरलाल औदिक्य ..	७३०
सीतासहाय पारीक ..	३८८	सुन्दरलाल गौड़ ..	२६,७३०
सीता हांडा (श्रीमती) ..	४५६	सुन्दरलाल चतुर्वेदी ..	७३४
		सुन्दर मोहन स्वरूप भटनागर ..	७१४
		सुन्दरलाल सोगानी ..	४०६
		सुनील कुमार बनर्जी ..	४०८
		सुनीता सेन (सुश्री) ..	४५८
		सुनीलकुमार मुकर्जी ..	५४२
		सुब्रह्मण्यन के० एन० ..	१८
		सुब्रह्मण्यन पी० (डा०) ..	७०६
		सुवाराव जी० बी० ..	५५४
		सुबारासयम ..	७४६
		सुबेदारीसह ..	७
		सुभराज लारोइया ..	२३८
		सुभाषचन्द्र टंडन ..	१७०
		सुमनचन्द्र एस० पुरोहित ..	५७४
		सुमित्रा शर्मा (डा०) (श्रीमती) ..	६९४
		सुमित्रा (श्रीमती) ..	५
		सुनेरमल मेहता ..	११८
		सुमेरनाथ गुरदू ..	२१६
		सुमेरवान ..	२३०
		सुरजमल ..	१०
		सुराना एस० एम० ..	२००
		सुमेरीसह ..	१
		सुरेन्द्रसिंह ..	२७२, ३३३
		सुरेन्द्रसिंह पगारिया ..	९२
		सुरेन्द्रसिंह चावला ..	२७२
		सुरेन्द्रसिंह निरवान ..	३८, १६०
		सुरेन्द्रनाथ मिसरा ..	५६, ३२४
		सुरेन्द्रप्रसाद गर्ग ..	९०
		सुरेन्द्र कुमार शर्मा ..	२५८
		सुरेन्द्रदत्त बहुगना ..	४१४
		सुरेन्द्रनाथ पुरोहित ..	४२४
		सुरेन्द्रनाथ सक्सेना ..	५३८
		सुरेन्द्रनाथ सेठी ..	५५४
		सुरेन्द्रसिंह भंडारी ..	५६२
		सुरेन्द्रनारायण वर्मा (डा०) ..	६४२
		सुरेन्द्रनाथ चौपड़ा (डा०) ..	६६०
		सुरेशचन्द्र माथुर ..	२२८
		सुरंगसिंह दत्ता ..	५३४
		सुल्तानसिंह ..	१६६, १९४
		सुल्तानसिंह ..	१९६, १९९
		सुलेखचन्द्र ..	१८०, १९४
सुखचन्द्र मेहता ..	१४२		
सुखदेवप्रसाद जोशी ..	२०		
सुखदेव मिरधा ..	२१६		
सुखदेव वर्मा ..	७४३		
सुखदेव कुमार ..	१९०		
सुखदेव प्रसाद गोगना (डा०) ..	६४०		
सुखलाल मन्त्री ..	६८, ३६४		
सुखवीरसिंह गहलोत ..	३६८		
सुखपालचन्द्र भंडारी ..	२८८		
सुखवाल पी० एल० ..	४४, १६०		
सुखदयाल गुप्ता ..	२८४		
सुखराज ..	१२०		
सुखराम कछावा ..	३४४		
सुखदा सक्सेना (सुश्री) ..	५१४		
सुखवासीलाल दुब ..	५१४		
सुगमचन्द्र ..	८		
सुगनचन्द्र ..	७४		
सुगनसिंह ..	२६८		
सुजानसिंह (डा०) ..	६९०		
सुजानसिंह गुप्ता ..	४२८		
सुजानसिंह कावेड़िया ..	५२०		
सुजेता चौधरी (श्रीमती) ..	३९८		
सुदर्शन वर्मा (श्रीमती) ..	४५८		
सुदेशकुमारी सतीजा (डा०) (सुश्री) ..	६३८		
सुधाबाई (डा०) (श्रीमती) ..	६४४		
सुधीन्द्र कुमार ..	४८२		
सुन्दरलाल महर्षी ..	१०६		
सुन्दरलाल त्रिवेदी ..	१७६, २०१		
सुन्दरलाल भागवत ..	२०६		
सुनहरीलाल ..	२४२		
सुनन्दानारायण (श्रीमती) ..	२९४		
सुन्दरनाथ व्यास ..	३३२		
सुन्दरलाल मुरडिया ..	५३२		
सुदर्शनसिंह ..	२५४		
सुन्दरलाल (डा०) ..	६४४		

	पृष्ठ		पृष्ठ
स्योरीलाल मलहोत्रा ..	५१४	श्र	
सौरल के० एन० ..	२००		
सोलंकी जे० एच० ..	३७०	श्रवणलाल पुरोहित (डा०)	६०६
सोलंकी एम० एल० ..	४६६	श्रवणकुमार गुप्ता ..	५६०
सोहनलाल सुराना ..	७०	श्रुतिधर गुप्ता ..	४३६
सोहनलाल खमसरा ..	१३२	श्रीकृष्ण माथुर ..	२८६
सोहनलाल अग्रवाल ..	२१६	श्रीकृष्ण एकवोटे ..	४२८
सोहनलाल आंचलिया ..	३३२	श्रीकृष्ण शर्मा ..	२९४
सोहनलाल टाक (डा०) ..	६९०	श्रीकृष्ण टाक ..	११२
सोहनलाल ..	८,१४६	श्रीकान्तकुमार ठक्कूर ..	४७४
सोहनलाल न्याती (डा०) ..	६२६	श्रीकिशन देवरा ..	५८४
सोहनलाल तलवार ..	१९६	श्रीकिशन शर्मा ..	१४६
सोहनलाल शिवसिधा ..	३६०	श्रीकिशन ..	१०८
सोहनलाल देवरा ..	३६४	श्रीकिशन गुप्ता (डा०) ..	६६४
सोहनलाल माथुर ..	४९४	श्रीकिशन व्यास ..	२७२
सोहनलाल एम० अग्रवाल ..	५६०	श्रीचन्द्र ..	२२६
सोहनरूपराय ..	५६२	श्रीचन्द्र एडवानी ..	५७०
सोहनसिंह सोडी ..	४३६	श्रीचन्द्र लोढा ..	२३८
सोहरावजी एक० (डा०) (सुश्री) ..	६१६	श्रीचन्द्र थानवी ..	४२२
सोहन सांखला (डा०) ..	६८२	श्रीदत्त शर्मा (डा०) ..	६४२
सोहाल एच० एस० (डा०) ..	७०२	श्रीधरसिंह ..	२५०, ५४६
		श्रीधरदास वी० ..	२७२
		श्री नारायण ..	१०६, ११०, ३६०
		श्रीनाथ पुरोहित ..	२४२
		श्रीनाथ शर्मा ..	३८६
		श्री नारायण सक्सेना ..	२४८
		श्रीनाथ ..	११८
		श्रीनाथ किशोर ..	४९८
		श्रीनारायण पंचायनी ..	५६२
		श्रीनारायण व्यास (डा०) ..	६४०
		श्रीनारायण शर्मा (डा०) ..	६५६
		श्री नारायण माथुर ..	४९८
		श्रीनाथ चतुर्वेदी ..	२८४
		श्रीनारायण वर्मा ..	७१४
		श्रीनिवास ..	८
		श्रीनिवास पुरोहित ..	८८
		श्रीनिवास चतुर्वेदी ..	३४८
		श्रीनिवास गौड़ (डा०) ..	६३८
		श्रीनिवासन एन० एस० ..	४७६
		श्रीनिवास के० ..	७४८
		श्रीपाल जैन ..	४८८
		श्रीमोहन माथुर (डा०) ..	६७४
		श्रीराम ..	५

सौ

सौभागसिंह ..	५६८
सौभाग्यनारायणसिंह पंचोली (डा०) ..	६३४
सौभाग्यमल माथुर ..	४३०
सौभाग्यमल सुराना ..	१६८
सौरल के० एन० ..	२००

सं

संचेती एल० एल० ..	७५१
संत वी० ए० (डा०) ..	६५८
संत जी० भट्ट ..	२७४
संतलाल (डा०) ..	६४६
संत राम शर्मा ..	१६४
संतोक चन्द्र ..	१४६
संतोषलाल बल्लुआ (डा०) ..	६४०
संतोष कुमार चौधरी ..	४८०
संतोष कुमार भटनागर ..	२७८
सम्पतराज ..	२१०

	पृष्ठ		पृष्ठ
हरिनारायण माथुर ..	८४, ९०, २५०	हांडू एस० के० ..	७५६
हरिनारायण काक ..	१७०	हांडा एस० सी० ..	४००
हरिनारायणसिंह राजपुरोहित	१५२	हांडा पी० एन० ..	५९४, ७५३
हरिनारायण ..	२७०	हाकिमसिंह ..	५१२
हरिनारायण शर्मा ..	३५६	हाजला जे० एस० ..	७४९
हरि प्रसाद शर्मा ..	४४०	हावा आर० एन० ..	३४
हरिप्रसाद ..	८	हाथी एच० जे (डा०) ..	६००
हरिप्रकाश कुचल ..	५३२	हाल्वे बी० बी० ..	२२४
हरिबासरमल मल्कानी (डा०)	६५६		
हरिबाबू सक्सेना ..	४३८	हि	
हरिभाऊ उपाध्याय ..	२, ९	हिगोरानी ए० बी० ..	५७०
हरिमोहन माथुर ..	६२, ३५८	हिगोरानी पी० आर० ..	४९०
हरिलाल ठाकुर ..	७२	हिम्मतसिंह मेहता ..	५७०
हरिराम तिवाड़ी ..	४२८	हिम्मतसिंह ..	१३६, १४८, २०१
हरिवल्लभ त्रिवेदी ..	५२२	हिम्मतसिंह ..	३६
हरिश्चन्द्र चतुर्वेदी ..	५२१, ६०, ४२४	हिम्मतसिंह गालुन्डिया ..	५४
हरिश्चन्द्र आर्य ..	४१८	हिम्मतसिंह (डा०) ..	५९८
हरिश्चन्द्र मंगल ..	२२, ३२०	हिम्मतसिंह सपारिया ..	८८
हरिश्चन्द्र ..	८, १३, ६२, २४४	हिरन एम० एस० ..	२०१
हरिश्चन्द्र गुप्ता ..	३१४		
हरिश्चन्द्र शर्मा ..	४४८	ही	
हरिश्चन्द्र सूद ..	५०८		
हरिश्चन्द्र ..	२६२, ७५४		
हरिशंकर ..	६	हीरा ..	८
हरिशंकर भारद्वाज ..	४०८	हीराचन्द परमार ..	१८०
हरिसिंह वर्मा ..	५०६	हीरानन्द जे० एस० (डा०) ..	६१६
हरिसिंह मेड़तिया ..	२७६	हीराराम ..	७४३
हरिसिंह ..	७३४	हीरालाल मेहरा ..	३९८
हरिसिंह सोढा ..	२७४	हीरालाल पटेल ..	२६६
हरिसिंह भाटी ..	५६८	हीरालाल करनपुरिया ..	२१४
हरिवेव ..	८	हीरालाल गांधी ..	१३०
हरिसिंह यादव ..	७२	हीरालाल मालू ..	१२२
हरिसिंह जाट ..	५२, ३५२	हीरालाल शास्त्री ..	३०
हरिसिंह चौधरी ..	५५०	हीरालाल ..	१३८
हलो सीटज ए० (डा०) ..	६०४	हीरा वल्लभ लूमी ..	२७०
हसीउद्दीनखां ..	१४२, ३४०	हीरासिंह गेहलोत ..	२४८
हरिहरण एन० ..	२९४	हीरसिंह ..	२७०
हरिहरनाथ माथुर (डा०) ..	६५६		
हरिहरलाल गुप्ता ..	३८४	हु	
हांडा आर० एन० ..	२६६	हुसमचन्द चतुर्वेदी ..	४६०
		हुसमचन्द शर्मा ..	१५६

	पृष्ठ		पृष्ठ
हुक्मनाथ मोदी ..	२०८	हुंसराज परिहार ..	२३८
हुक्मराज भंडारी ..	४६६	हुंसराज पाववाल ..	३२०
हुक्मराज भंडारी ..	७८	हुंसराज शर्मा ..	५६६
हुक्मानी सी० एस० ..	५५४, ५५८	हुंसराज शाह (डा०) ..	६२६
हुक्मराय ..	२८६	हुंसिया ..	१०
हुक्मसिंह ..	१०		
हुक्मचन्द जैन ..	४०६	ज्ञ	
हुक्कु वी० एन० ..	४८६	क्षेत्र कुमार सेन ..	३०४
		त्रि	
हुजा जी० वी० के० ..	३६	त्रिपाठी आर० के० ..	४६४
		त्रिभुवननाथ जैन ..	५७८
		त्रिपाठी एस० एस० ..	४४२
		त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी ..	२८
हेतराम गुप्ता ..	५१४	त्रिलोकीनाथ भार्गव ..	२४२, ५१८
हेतसिंह ..	५१२	त्रिलोकीनाथ शर्मा ..	२२०, ७२६
हेनरी जे० डब्ल्यू ..	४१२	त्रिलोकीनाथ सपसेना ..	५६८
हेमोन्द्र कुमार राय ..	३८४	त्रिलोकी नाथ सेठ ..	५३६
हेमराज ..	१७८	त्रिलोकचन्द ..	२०
हेमराज काला ..	५८६	त्रिलोचनसिंह ..	१८२
हेमराज बाडमेरा ..	२३२	त्रिभुवननाथ शर्मा ..	२८४
हेमलता प्रभुकुमारी ..	४५६	त्रिलोकचन्द गुप्ता ..	५०२
हेमशंकर नागर ..	५२०	त्रिवेदी आर० टी० ..	७५०
		ज्ञा	
होतीलाल ..	१४८	ज्ञानचन्द ..	५
		ज्ञानचन्द बाहल ..	७४४
		ज्ञानचन्द सिधवी ..	१६८
		ज्ञानप्रकाश (डा०) ..	६३२
हुंसकुमार (डा०) ..	६०२	ज्ञानप्रकाश पिलानिया ..	१७०
हुंसराज ..	५६६	ज्ञानेन्द्रनाथ अरोड़ा ..	४८४
हुंसराज ..	३४६	ज्ञानेन्द्र भारद्वाज ..	४३६
हुंसराज ..	३८६		

